



कबीर साहेब

का

बीजक

सम्पादक

हंसदास शास्त्री, महाबीर प्रसाद

कबीर ग्रन्थ प्रकाशन समिति

मु० पो० हरक, जिला बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)

प्रकाशक
महावीर प्रसाद प्रकाशन मंत्री
कबीर ग्रन्थ प्रकाशन समिति
हु० पो० हरक, जि० बाराबंकी

प्रथमवार सम्बन् २००७ विक्रम
मूल्य ५।।

मुद्रक
पंडित बिहारीलाल शुक्ल
शुक्ला प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ

प्राकथन

कवीर पर प्रामाणिक साहित्य की बहुत कमी है। उनकी प्रकाशित सभी रचनाएँ प्रामाणिक नहीं कही जा सकतीं। विभिन्न प्रतियों में प्राप्त शब्दों तथा भाषा के रूपों में बड़ा भेद है। कुछ ग्रंथ, जैसे कबीर ग्रंथावली, संत कबीर आदि प्रामाणिक हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर प्रकाशित हुए और प्रति का यथार्थ रूप ही उन में मिलता है। संपादकों ने इन के संशोधन या रूप-विपर्यय का कोई प्रयत्न नहीं किया, परन्तु, इस के साथ ही जो अन्य बहुतेरे ग्रन्थ कबीर के नाम से प्रकाशित हुए हैं जिसमें भाषा का नितान्त आधुनिक रूप ही देखने को मिलता है और जो कबीर की निजी भाषा का रूप नहीं कहा जा सकता। उसका कारण एक तो यह है कि मौखिक वाक्यांश होने के कारण उनके शिष्यों ने अपनी भाषा के रूप में उन्हें ढाल लिया है और दूसरा यह कि लोगों (लेखकों और पाठकों) ने कबीर के अर्थ की ओर विशेष ध्यान रखा है शब्दों पर उतना नहीं। अतः एक ही अर्थ देने वाले भी प्रायः विभिन्न पाठ उन की साखी, सबदी और रमैणियों के हमें देखने को मिलते हैं। कबीर की रचनाओं का प्राचीन और प्रामाणिक पाठ हमारी पहली आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के बिना न तो अधिकार पूर्वक उनकी भाषा के ही रूप पर कुछ कहा जा सकता है और न उनके भावों और विचारों की प्रामाणिकता और तारतम्यता ही दृढ़ हो पाती है। साथ ही साथ एक और बड़ी हानि यह हुई है कि इस रचना-पाठ सम्बन्धी अप्रामाणिकता के कारण कबीर के भाषा-सम्बन्धी अधिकार पर विरोधी मत देखने को मिलते हैं। कुछ तो उनकी भाषा को शिथिल और गँवारू कह कर उन्हें काव्य के क्षेत्र में असम्मानित करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ उनके भाषा सम्बन्धी असाधारण अधिकार की घोषणा करते हैं। अतः प्रथम आवश्यकता प्रामाणिक पाठों वाली कबीर की रचनाओं की विभिन्न प्रतियों के प्रकाशन की है। और इस दिशा में अभी कुछ अधिक कार्य नहीं हो पाया। जिसके प्रमुख कारण यह हैं; प्रथम तो यह कि इस प्रकार की प्रतियाँ जिन किन्हीं सज्जनों के पास हैं, वे न तो स्वयं उन्हें प्रकाशित करने की इच्छा रखते हैं और न दूसरों को ही यह कार्य करने के लिए देते हैं और द्वितीय यह कि इस प्रकार की कठिनाई एवं ऐसे साहित्य के प्रकाशन में अधिक आर्थिक आशा न होने

के कारण प्रकाशक भी कुछ अधिक उत्साह नहीं दिखाते । जो कुछ हो, कबीर की रचनाओं के प्रामाणिक प्रतियों के आधार पर प्रकाशित पाठों की आवश्यकता सर्वमान्य है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ 'बीजक' के संपादकों का इस प्रकार का प्रयास नहीं जो ऊपर कथित आवश्यकता की पूर्ति करता हो । परन्तु, उसका विशेष महत्व अन्य दृष्टियों से अवश्य है । विशेषता सम्बन्धी पहली बात तो यह है कि इस बीजक का सम्पादन एक व्यक्ति ने नहीं किया, जिसका अपना निजी दृष्टिकोण ही प्रधानरूप से व्याप्त हो, वरन् तीन व्यक्तियों ने किया है और वे तीनों ही कबीर पंथी हैं । श्री हंसदासजी शास्त्री एक कबीर पंथी मठ के अध्यक्ष हैं, श्री उदयशङ्करजी शास्त्री कबीरपंथी महन्त श्री गुरशरदासजी के पुत्र हैं । और श्री महावीरप्रसाद जी कबीरपंथ में दीक्षित हैं । ऐसी दशा में भाव और विचारधारा की दृष्टि से ये बानियाँ साम्प्रदायिक परंपरा से सम्मत होने के कारण महत्वपूर्णा हैं । एक और दृष्टि से इस बीजक की प्रामाणिकता है । इस में अब तक प्रकाशित १८, १९ बीजकों के आधार पर शब्दों और भाषा का रूप स्थिर किया गया है । साथ ही साथ (संपादकों के कथनानुसार) इस के रूप निर्माण में कतिपय कबीरपंथी स्थानों से प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों से भी सहायता ली गई है जो श्री उदयशङ्करजी शास्त्री के संग्रहालय में हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त प्रतियाँ कितनी पुरानी हैं । संख्या और कुछ शब्दों का मिलान कबीर चौरा, काशी की हस्तलिखित बीजक की प्रति से भी किया गया है ।

दूसरी बात यह है कि शब्दों का रूप ग्रहण और स्थिर करने में प्रमुख रीति से ध्यान बोधगम्यता का रखा गया है । इस दृष्टि से भाषा की प्रामाणिकता तो कम हो जाती है, किन्तु पाठकों अथवा पाठनकारों को अपनी अटकल से शब्दों के रूप गढ़कर अर्थ करने और समझने के कार्य में कुछ सुगमता हो जाती है । इस दृष्टि से यह विशेष उपादेय है । प्रस्तुत संग्रह में ऐसा जान पड़ता है कि भाषा के अवधी रूप को विशेषतः सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है । और इसका कारण संपादकों का इसके प्रति मोह किन्हीं अंशों में हो सकता है । इस का यह अर्थ नहीं है कि इसके अन्तर्गत मनगढ़े शब्दों की भरती है, वरन् विभिन्न बीजकों में प्राप्त शब्द के विविध रूपों में जो अधिक संभव जान पड़ा है उसी को इसमें अपनाने का प्रयत्न किया गया है ।

तीसरी बात, इस बीजक के साथ अंतमें संलग्न इस के अध्ययन को

सुगम बनाने वाली परिशिष्टें है । प्रथम परिशिष्ट, जो शब्दकोश है, मेरी दृष्टि में अधिक महत्वपूर्णा नहीं, क्योंकि, उसमें विशिष्ट निगुण शब्दावली की पूर्ण व्याख्या न होकर सामान्य शब्दों का अर्थमात्र दिया गया है । इसे यदि अलग निगुण शब्दकोश के रूप में विकसित किया गया होता तो संभवतः इसका अधिक महत्व होता । किसी भी ग्रंथ के साथ कोश की संलग्नता अधिक उपादेय नहीं होती, विशेष रूप से बड़े ग्रंथ के साथ । हाँ, अन्य परिशिष्टें महत्व की अवश्य हैं । परिशिष्ट (ख) के अन्तर्गत कथायें दी गई हैं जो अधिकांश पौराणिक हैं । इनमें कबीर की बानी में आये हुए कथात्मक संकेतों की आधार रूप कथायें दी गई हैं जिन्हें बिना जाने हम उनके भाव को पूर्णतया हृदयंगम नहीं कर सकते । परिशिष्ट (ग) में संख्यावाची शब्दों के अर्थ हैं, जिनके जानने की कबीर साहित्य के अध्ययन में बड़ी आवश्यकता रहती है । परिशिष्ट (घ) में योग-संबन्धी शास्त्रीय शब्दों की व्याख्या है । यही शब्द कबीर की भाषा को सार्वसधारण के लिए अधिक दुरुह बना देते हैं जो अन्यथा लोक प्रचलित भाषा ही है । इसमें कहा जा सकता है कि इनकी व्याख्या अधिक विस्तृत योगदर्शन आदि के आधार पर की जा सकती तो अच्छा होता । कोश के कारण इसके अधिक विस्तार का अवकाश सम्भवतः नहीं रहा । सभी शब्द भी नहीं आ पाये । अतः यह परिशिष्ट अधूरा ही रह गया । परिशिष्ट (ङ) में प्रतीकात्मक शब्दों के अर्थ दिये हुए हैं । कबीर ने अपने सूत्रम, गंभीर अनुभव (जिस अनुभव को प्राप्त करने पर वाणी गूंगी हो जाती है) को व्यक्त करने में अनेक अन्योक्तियों, रूपकों और प्रतीकों का सहारा लिया है । कहीं कहीं यह प्रतीकात्मक प्रकाशन बड़ा ही जटिल हो जाता है । अतः इस दिशा में उन प्रतीकों अथवा अप्रस्तुत उपमानों के प्रस्तुत भाव देना बड़ा ही महत्वपूर्ण है । हाँ इतना अवश्य है कि इन अप्रस्तुतों के प्रस्तुत अर्थों पर थोड़ा बहुत मतवैषम्य संभव है । यह इस प्रकार का प्रथम व्यवस्थित प्रयास है, अतः स्तुत्य है और सांप्रदायिक ज्ञान-संपन्न व्यक्तियों का है अतः और भी पठनीय है ।

इस प्रकार यह बीजक कबीर-साहित्य के अन्तर्गत अपनी विशेषताएँ लेकर प्रकाशित हो रहा है । कबीर-संबन्धी ग्रन्थों की यद्यपि एक लम्बी सूची है, फिर भी यही कहा जा सकता है कि उनके किसी भी पक्ष का सर्वांगीण अध्ययन नहीं हो पाया है । कबीर का अध्ययन, सामाजिक, दार्शनिक, सांप्रदायिक, साहित्यिक और भाषा वैज्ञानिक दृष्टियों से अलग अलग हो सकता है और इन सभी प्रकार के अध्ययनों को प्रारम्भ करने के पूर्व सुदृढ़ आधार के रूप

(४)

में आवश्यकता इस बात की है कि कबीर की प्रामाणिक वाणी और उसके एक एक शब्द का निश्चित, प्रामाणिक रूप और अर्थ स्थिर और सिद्ध के निमित्त बहुत से प्रयत्न हो चुके हैं और बहुत से अभी हो रहे हैं। यह भी इसी प्रकार का प्रयत्न है अतः हमारे लिये स्वागत की वस्तु है। विद्यार्थियों के लिए इसकी परिशिष्टों की विशेष उपयोगिता है। आशा है संपादक त्रयी इस प्रकार के और कार्यों द्वारा हमारा ज्ञान-वर्द्धन करते रहेंगे।

डा० भगीरथ मिश्र,
एम० ए० पी० एच० डी०
लखनऊ विश्व विद्यालय

—भगीरथ मिश्र

दो शब्द

कबीर साहेब पन्द्रहवीं शताब्दी के एक महान सुधारक, त्यागी महात्मा, संत तथा कवि हुए हैं। यों तो आप की वाणी के कई ग्रन्थ हैं, परन्तु बीजक आप का एक मुख्य ग्रन्थ है। सम्प्रदाय के सन्तों तथा अन्य विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता स्वीकार की है। इस ग्रन्थ का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। अब तक कई विद्वानों और सन्तों ने इसकी टीका भी की है कुछ कबीर पंथी स्थानों पर अठारहवीं शताब्दी तक की इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ भी पाई जाती हैं। परन्तु नहीं मालूम उस समय की भाषा न समझने के कारण या लेखन प्रमाद वश अथवा अपने अपने मंतव्य के अनुसार खींचतान कर अर्थ तथा रूप निश्चित करने के कारण अभिकांश प्रतियों में अनेक शब्दों के रूप और के और पाए जाते हैं। जैसे—

“दियन खताना किया पयाना मंद्दिल भया उजार।
मरि गये ते मरि गये बांचे बाचनि हार। २० ६६ ॥”

में दियन खताना के स्थान पर कुछ प्रतियों में दिया न खत तन कर के दिया न खाया आदि खींचतान कर अर्थ कर दिया है। इसी प्रकार का हेर फेर और बहुत से पदों में पाया जाता है। उदाहरणार्थ कुछ शब्द देखिए— मवासी का भौ आसा, कलिहि गहि का कलिगहि, कलाल का कुलाल, को न मुवा का कौन मुवा, बेठ का पेट, पानिप चाहहुँ का पानि पचाहु, और का और आदि, परिवर्तित रूप पाए जाते हैं, जो प्रायः प्रसंगानुसार ठीक नहीं जंचते हैं।

अतः इस प्रकार के पाठ विपर्यय को सुधारने के आशय से यह संशोधित मूल प्रकाशित किया गया है। इसमें उपर्युक्त सभी प्रकार की त्रुटियों को—व्याशक्ति दूर करने का प्रयास किया गया है। इस का संशोधन लगभग ३८ बीजक प्रतियों के आधार पर किया गया है। पाठ संशोधन में कोई शब्द अपनी ओर से गढ़ा नहीं गया है, किसी न किसी बीजक प्रति का सहारा अवश्य लिया गया है। पाठ वही रखा गया है जो भाव, प्रसंग तथा अर्थ के विचार से उपयुक्त समझा गया है।

१—२० ६६। २—स० ८। ३—स० २६। ४—स० ४५। ५—क०

१। ६—सा० ११। ७—सा० १८४। नोट—इनके शुद्ध रूप का अर्थ कोश में देखिए। ८—देखो सहायक ग्रन्थों की सूची।

जिस प्रकार शब्दों के रूप में हेर फेर पाया जाता है उसी प्रकार विभिन्न शब्दों के अर्थ में भी मत भेद पाया जाता है। इस पद में देखिए—

“कब दत्तै मवासी तोरी, कब सुकदेव तोपची जोरी।

नारद कब बन्दूक चलाई, व्यासदेव कब बंन बजाई”।

मवासी शब्द हिन्दी मवास शब्द से बना है। जिसका अर्थ गढ़ होता है अतः मवासी का अर्थ गढ़ी होगा। गढ़ी तोड़ने का अर्थ प्रसंगानुसार ठीक भी लगता है। कुछ टीकाकारों ने इस शब्द को फारसी के मवेशी का विगड़ा हुआ रूप बताया है और अर्थ शत्रु किया है, जो किसी भी दृष्टि से इस प्रसंग पर ठीक नहीं है। कुछ प्रतियों में मवासी शब्द को बदल कर भौ आसा कर दिया है।

शब्दों के रूप और अर्थ विपर्यय को देख कर बीजक पढ़ते समय विचार उठा कि इस का एक कोश होता जिसमें भाषा और भाव के विचार से शब्दों के रूप और अर्थ पर निष्पन्न भाव से विचार किया गया होता तो अच्छा होता। संयोग वश इसी बीच श्री विचारदासजी शास्त्री वर्तमान आचार्य कबीर धर्मस्थान खरसिया मध्यप्रदेश मेरे यहाँ हरक पधारे। मैंने उन से अपना विचार प्रकट किया। पूज्य श्री शास्त्री जी ने कहा कि मैंने काशी के श्री उदय शङ्करजी शास्त्री से इस कार्य को करने के लिये कहा है और उन की लिखी कुछ प्रारम्भिक चिट्ठें भी दिखाया। उसी वर्ष खरसिया में होने वाले कबीर मेला से लौटते समय मैं श्री उदय शङ्करजी शास्त्री के साथ काशी आया। कोश के विषय में शास्त्री जी से बातचीत हुई उन्होंने ने यह भार मुझपर छोड़ा। अतः मैंने हरक आकर कोश तैयार किया। पुनः श्री हंसदासजी शास्त्री के साथ काशी गया वहाँ कोश तथा मूल बीजक का संशोधन किया गया। संशोधित कोश काशी के प्रसिद्ध कोशकार श्री रामचन्द्र जी वर्मा को दिखाया गया, और उन से आवश्यक परामर्श लिया गया।

प्रथम परिशिष्ट अर्थात् कोश में शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की गई है।

१—मूल रूप में शब्द।

२—प्रयोग के अनुसार व्याकरण।

३—कोष्ठक में वह शब्द है जिस से मूल शब्द उद्धृत किया गया है।

४—पद में आए हुए भाव के अनुसार अर्थ।

५—पुनः यदि व्याकरण और भाषा तथा अर्थ परिवर्तन हुआ है तो वह।

६—आवश्यक शब्दों का आध्यात्मिक अर्थ।

७—अप्रचलित तथा कठिन शब्दों के उदाहरण।

एक शब्द के कई अर्थ केवल इस विचार से दिये गये हैं, क्यों कि विभिन्न पदों में वह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। अप्रचलित शब्दों का उदाहरण देने का यह आशय है कि विभिन्न कवियों ने कबीर साहेब द्वारा प्रयोग किये गए शब्द को किस रूप में प्रयुक्त किया है साथ ही उनके पूर्व, समकालीन तथा कुछ ही समय बाद होने वाले कवियों के उदाहरण से उस समय की भाषा का रूप भी स्पष्ट सा हो जाता है। सामान्य शब्दों के अर्थ अन्य प्रान्त वालों की सुविधा के विचार से दिये गए हैं।

कोश के बाद का परिशिष्ट अंतर्गत कथाओं तथा परिचयों का है। इसमें कथा और परिचय का केवल उतना ही अंश दिया गया है जो बीजक पदों से संबंध रखता है। यदि कोई कथा किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है जिसका नाम बीजक में आया है तो वह उस व्यक्ति के परिचय के साथ जोड़ दी गई है।

इसके बाद दो परिशिष्टें संख्यावाची और योग सम्बन्धी शब्दों की हैं। इन में संख्यावाची शब्दों के अर्थ अध्यात्मवाद तथा योग सम्बन्धी शब्दों की व्याख्या हठयोग तथा संत मत के अनुसार की गई है।

अंतिम परिशिष्ट रूपक, उल्टवांसी तथा प्रतीकात्मक शब्दों का है। कबीर साहेब ने अपने विचारों को अनेक पदों में रूपकों द्वारा प्रकट किया है। बीजक में खेती, शिकार, व्याह, राजा, चरखा, करिगह, बादल, वर्षा, नाव, कुम्हार, कलाल, भाठी, वृक्ष आदि के अनेक रूपक पाए जाते हैं। उल्टवांसियों के लिये तो आप प्रसिद्ध ही हैं। कहीं पर तो हाथी जैसे विशालकाय का चींटी के मुख में प्रवेश करना, कहीं समुद्र का गंगा में समा जाना, कहीं घरती के वर्षने से बादल का भीगना, और कहीं पर सूखे सरवर का हिलोरें लेना आदि कितनी ही उल्टवांसियों का प्रयोग आपने किया है। अतः ऐसे विपरीत भाव वाले शब्दों तथा रूपकों का अर्थ भी दिया गया है। कबीर साहेब ने कुछ वस्तुओं को प्रतीक के रूप में माना है, जैसे नारी को माया का, हंस को जीवात्मा का, कपास को सद्गुण का, सिंह को दुर्जन का इत्यादि, अतः ऐसे प्रतीकात्मक शब्दों के अर्थ भी दिये गए हैं।

अगाध ज्ञान सम्पन्न कबीर साहेब के विचारों को समझने के लिये चतुर्दिक ज्ञान अपेक्षित है। अतः मुझ जैसे अल्पज्ञ द्वारा किये गए इस प्रथम प्रयास में रह गई त्रुटियों के लिये योग्य पाठक क्षमा करेंगे।

धन्यवाद

सर्व प्रथम श्री डा० भगीरथ मिश्र एम० ए० पी० एच० डी० लखनऊ विश्वविद्यालय को हार्दिक धन्यवाद है जिन्होंने आलोचनात्मक प्राक्कथन लिख कर मुझको कृतज्ञ किया है। बाबू जगत नारायण जी और बच्चूलाल जी को जिनकी आर्थिक सहायता से यह ग्रन्थ प्रकाश में आसका है कोटिशः धन्यवाद है। बाबू जगत नारायण जी एक बड़े ही उत्साही और संत साहित्य के प्रेमी व्यक्ति हैं। पं० श्री दयाराम जी शास्त्री आयुर्वेदाचार्य जिन्होंने शरीर की बहत्तर ग्रंथियाँ और ब्राह्मणों के अठारह भेद आदि खोजने में बड़ी सहायता की है उन को तथा परमोत्साही नवयुवक पुत्तलाल वर्मा विद्यार्थी लखनऊ विश्वविद्यालय को विशेष धन्यवाद है। पुत्तलाल वर्मा ने विवाद ग्रस्त शब्दों के व्याकरण आदि के विषय में परामर्श देकर बड़ी सहायता की है। श्री पुरुषोत्तम जी भार्गव का नाम भी उल्लेखनीय है आप ने समय समय पर उचित परामर्श देकर पुस्तक को सुन्दर बनाने में सहायता की है। अतः आप को भी सादर धन्यवाद है। प्रिय प्रमोद नाथ तथा दीन दयाल सिंह आदि विद्यार्थियों को और बनवारी लाल को सस्नेह धन्यवाद है। इन लोगों ने पुस्तक निर्माण से प्रकाशन तक समय समय पर यथा-योग्य सहायता की।

अंत में उन सभी सज्जनों को धन्यवाद है जिन्होंने किसी भी प्रकार मेरे इस कार्य को सफल बनाने में सहायता की है।

महावीर प्रसाद

संकेताक्षरों की सूची

अ०—अरबी ।
 अनु०—अनुकरण शब्द ।
 अ०—अपभ्रंस ।
 अ०—अव्यय ।
 आ०—आध्यात्मिक अर्थ ।
 उ०—उदाहरण ।
 उप०—उपसर्ग ।
 क—कहरा ।
 क० प्र०—कबीर ग्रन्थावली ।
 के०—केशवदास ।
 क्रि०—क्रिया ।
 क्रि० अ०—क्रिया अकर्मक ।
 क्रि० प्र०—क्रिया प्रयोग ।
 क्रि० स०—क्रिया सकर्मक ।
 गि०—गिरधर दास ।
 गो०—गोरख वानी ।
 ग्राम०—ग्रामीण भाषा ।
 चा—चाचर ।
 जा०—जायसी ।
 तु०—तुलसीदास और तुर्की भाषा ।
 दे०—देखो ।
 देश०—देशज ।
 प०—परिशिष्ट ।
 पर्या०—पर्याय ।
 पा०—पाठभेद ।
 प्रा० दो०—प्राहुड़ दोहा ।
 पु०—पुल्लिग ।
 प्रत्य०—प्रत्यय ।
 प्रा०—प्राकृत भाषा ।

प्रे०—प्रेरणाथक ।
 फा०—फारसी ।
 ब—बंसत ।
 बहु०—बहु वचन ।
 बि—बिरहुजी ।
 वि०—विहारी कवि ।
 बे—बेलि ।
 भाव०—भाव वाचक ।
 मि०—मिलात्रो ।
 मुहा०—मुहाविरा ।
 यौ०—यौगिक ।
 र—रसैनी ।
 रघु०—रघुराज ।
 रघु० दा०—रघुनाथ दास ।
 वि०—विशेषण ।
 वि० सा०—विश्राम सागर ।
 व्या०—व्याकरण ।
 सं०—संस्कृत ।
 सं०—संज्ञा ।
 संयो०—संयोजक अव्यय ।
 स—सब्द ।
 स०—सकर्मक ।
 सर्व०—सर्वनाम ।
 सा—साखी ।
 सू०—सूरदास ।
 स्त्री०—स्त्री लिंग ।
 हिं०—हिंदी भाषा ।
 हि—हिंडोला ।

विषय-सूची

१—बीजक

मूल—रमैनी, शब्द, ज्ञानचौतीसा, बिप्रमतीसी, कहरा, बसंत, चांचर, वेलि, बिरहुली, हिंडोला, साखी ।

२—प० क

कोश—मूल शब्द, व्याकरण, शब्द का शुद्ध रूप, शब्द किस भाषा का है, बीजक पदों से सम्बन्ध रखने वाला अर्थ; कठिन तथा अप्रचलित शब्दों के उदाहरण, आवश्यक शब्दों के आध्यात्मिक अर्थ ।

३—प० ख

अंतर्गत कथाएँ तथा परिचय—बीजक पदों से सम्बन्धित कथाओं की व्याख्या तथा नामों और स्थानों का परिचय ।

४—प० ग

संख्यावाची शब्द—बीजक में आए हुए संख्यावाची शब्दों का अर्थ ।

५—प० घ

योग सम्बन्धी शब्द—योग से सम्बन्ध रखनेवाले शब्दों की व्याख्या, योग शास्त्र तथा संत मत के अनुसार ।

६—प० ङ

रूपक उल्टवांसी तथा प्रतीकात्मक शब्द—रूपकात्मक शब्दों का पदों के अनुसार अर्थ; उल्टवांसी और प्रतीक के रूप में आए हुए शब्दों का अर्थ ।

७—शुद्धी-पत्र ।

८—सहायक ग्रन्थों की सूची ।

भूल सुधार

प० (क) के पेज १२५ और प० (ख) के पेज २१ में साम का अर्थ (सीरिया) हो गया है इस के स्थान पर स्वाम जो भारतवर्ष के पूर्व का एक देश है, होना चाहिए ।

बीजक

रमैनी

अंतर जोति सब्द यक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ।
ते तिरिये भग लिंग अनंता, तेउ न जाने आदि औ अंता ॥
बाखरि एक विधातैं कीन्हा, चौदह ठहर पाट सो लीन्हा ।
हरिहर ब्रह्मा महतो नाऊँ, तिन्ह पुनि तीनि बसावल गाऊँ ॥
तिन्ह पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, छव दरसन छानबे पाखंडा ।
पेटे न काहू वेद पढ़ाया, सुनति कराय तुरुक नहिं आया ॥
नारी मोचित गर्भ प्रसूती, स्वाँग धरै बहुतै करतूती ।
तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्रान वियापै मोहू ॥
एकहिं जनी जना संसारा, कौन ग्यान तें भयो निनारा ।
भौ बालक भग द्वारे आया, भग भोगे ते पुरुष कहाया ॥
अविगति की गति काहु न जानी, एक जीभि कत कहौं बखानी ।
जौ मुख होय जीभि दस लाखा, तौ कोइ आय महंतो भाखा ॥

कहहिं कबीर पुकारि के, ई ले ऊँ व्यौहार ।

एक राम नाम जाने बिना, भव बूढ़ि मुवा संसार ॥१॥

जीव रूप एक अंतर वासा, अंतर जोति कीन्ह परगासा ।
इच्छा रूप नारि अवतरी, तामु नाम गाइत्री धरी ॥
तेहि नागी के पुत्र तीनि भैऊ, ब्रह्मा बिस्तु महेसुर नाँऊ ।
फिरि ब्रह्मा पूछल महतागी, के तोर पुरुष केकरि तुम नारी ॥
हम तुम तुम हम और न कोई, तुमहिं पुरुष हमहीं तोर जोई ॥

बाप पूत की एकै नारी, एकै माय बिआय ।
 ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बापहिं चीन्है धाय ॥२॥
 प्रथम अरंभ कौन को भैऊ, दूसर प्रगट कीन्ह सो ठैऊ ॥
 प्रगटे ब्रह्मा बिस्तु सिव सक्ती, प्रथमहिं भक्ति कीन्ह जिउ उक्ती ॥
 प्रगटे पवन पानी औ छाया, बहु विस्तार कै प्रगटी माया ॥
 प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, प्रिथिमी प्रगट कीन्ह नौ खंडा ॥
 प्रगटे सिध साधक संन्यासी, ई सभ लागि रहे अविनासी ॥
 प्रगटे सुर नर मुनि सभ भारी, ताही खोज परे सभ हारी ॥
 जीव सीव सब प्रगटे, वै ठाकुर सब दास ।
 कबीर और जानै नहीं, एक राम नाम की आस ॥३॥
 प्रथम चरन गुरु कीन्ह बिचारा, करता गावैं सिरजनिहारा ।
 क्रमै कै कै जग बौराया, सक्ति भक्ति कै बाँधिनि माया ॥
 अदबुद रूप जात कै बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी ।
 गुनी अनगुनी अर्थ नहिं आया, बहुतक जने चीन्हि नहिं पाया ॥
 जो चीन्है ताको निर्मल अंगा, अन चीन्है नल भये पतंगा ॥
 चीन्हि चीन्हि का गावहु बौरे, बानी परी न चीन्ह ।
 आदि अंत उतपति प्रलै, आपै ही कहि दीन्ह ॥४॥
 कहाँ लै कहों जुगन की बाता, भूला ब्रह्म न चीन्है बाटा ।
 हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिबि अच्छर ले जुक्ति बनाई ॥
 बिबि अच्छर का कीन्ह बंधाना, अनहद सब्द जोति परमाना ।
 अच्छर पढ़ि गुनि राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई ॥
 वेद कितेब कीन्ह बिस्तारा, फैलि गैल मन अगम अपारा ।
 चहुँ जुग भक्तन बाँधल बाटी, समुक्ति न परी मोटरी फाटी ॥
 भैं भैं प्रिथिमी दहुँ दिसि धावै, अस्थिर होय न औषध पावै ।
 होय भिस्त जौ चित न डोलावै, खसमहिं छोड़िं दोजख को धावै ॥

पूख दिसा हंस गति होई, है समीप सँधि बूझै कोई ।
भगता भगतनि कीन्ह सिंगारा, बूढ़ि गैल सभ माँझहिं धारा ॥

बिनु गुरु ज्ञान दुंदि भई, खसम कही मिलि वात ।

जुग जुग सो कहवैया, काहु न मानी वात ॥५॥

बरनहुँ कौन रूप औ रेखा, दोसर कौन आहि जो देखा ।
ओंकार आदि नहिं बेदा, ताकर कहहु कौन कुल भेदा ॥
नहिं तारागन नहिं रवि चंदा, नहिं कछु होत पिता के बिदा ।
नहिं जल नहिं थल नहिं थिर पौना, को धरे नाम हुकुम को वरना ॥
नहिं कछु होत दिवस निज राती, ताकर कहहु कौन कुल जाती ॥

सुन्न सहज मन सुमिरत, प्रगट भई एक जोति ।

ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होति ॥६॥

तहिया होत पवन नहिं पानी, तहिया सिष्टि कौन उतपानी ।
तहिया होत कली नहिं फूला, तहिया होत गर्भ नहिं मूला ॥
तहिया होत बिद्या नहिं बेदा, तहिया होत सब्द नहिं स्वादा ।
तहिया होत पिंड नहिं वासू, नहिं धर धरनी न गगन अकासू ॥
तहिया होत गुरु नहिं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला ।

अबिगत की गति का कहौं, जाके गाँव न ठाँव ।

गुन बिहूना पेखना, का कहि लीजै नाँव ॥७॥

तत्तुमसी इन्ह के उपदेसा, ई उपनिषद कहै संदेसा ।
ई निस्वै इन्हके बड़ भारी, वाही के बरन कहै अधिकारी ॥
परम तत्तु का निज परमाना, सनकादिक नारद सुक जाना ।
जागबलिक औ जनक संवादा, दत्तात्रेय उहै रस स्वादा ॥
उहै राम बसिष्ठ मिलि गाई, उहै क्रिस्न ऊधौ सपुभाई ।
उहै बात जो जनक दिदाई, देह धरे बिदेह कहाई ॥

कुल अभिमाना खोइ कै, जियत मुवा नहिं होय ।

देखत जो नहिं देखिए, अदिष्टि कहावै सोय ॥८॥

बाँधे अष्ट कष्ट नौ सूता, जम बाँधे अँजनी के पूता ।

जम के बाहन बाँधे जनी, बाँधे स्त्रिष्टि कहाँ लौ गनी ॥

बाँधे देव तैतीसो कोरी, सँवरत लोह बंध गौ तोरी ।

राजा सँवरै तुरिया चढ़ी, पंथी सँवरै नाम लै बढ़ी ॥

अर्थ बिहूना सँवरै नारी, परजा सँवरै पुहुमी झारी ।

बंदि मनावै ते फल पावै, बंदि दिया सो देय ।

कहँ कबीर ते ऊबरे, जो निस बासर नामहिं लेय ॥९॥

राही लै पिपराही बही, करगी आवत काहु न कही ।

आई करगी भौ अजगूता, जन्म जन्म जम पहिरे बूता ॥

बूता पहिरि जम करै समाना, तीनि लोक महँ करै पयाना ।

बाँधे ब्रह्मा बिस्तु महेसू, सुर नर मुनि औ बाँधु गनेसू ॥

बाँधे पौन पावक औ नीरू, चाँद सुरुज बाँधे दोउ वीरू ।

साँच मंत्र बाँधिन्हि सम झारी, अमृत बस्तु न जानै नारी ॥

अमृत बस्तु जानै नहीं, मगन भये सब लोय ।

कहहिं कबीर कामो नहीं, जीबहिं मरन न होय ॥१०॥

आँधरि गुष्टि स्त्रिष्टि भौ बौरी, तीनि लोक महँ लागि ठगौरी ।

ब्रह्मा ठगो नाग कहँ जाँरी, देवतन सहित ठगो त्रिपुरारी ॥

राज ठगौरी बिस्तुहिं परी, चौदह भुवन केर चौधरी ।

आदि अंत जाके जलकंन जानी, ताकर डर तुम काहेक मानी ॥

वै उतंग तुम जाति पतंगा, जम घर कियहु जीव को संगी ।

नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहे गँवारा ॥

विष के संग कौन गुन होई, किंचित लाभ मूल गो खोई ।
विष अमृत गौ एकहिं सानी, जिन जाना तिनि विष कै मानी ॥
कहा भये नर सुध बेसुधा, विनु परचै जग बूढ़ न बूझा ।
मति के हीन कौन गुन कहई, लालच लागे आसा रहई ॥

धुवा है मरि जाहुगै, धुये की बाजी टोल ।

सपन सनेही जग भया, सहिदानी रहिगौ बोल ॥११॥

माटी कै कोट पषान कै ताला, सोई बन सोई रखवाला ।
सो बन देखत जीव डेराना, ब्राह्मन वैस्नव एकै जाना ॥
जौ रे किसान किसानी करई, उपजै खेत बीज नहिं परई ।
छाँड़ि देहु नर भेलिक भेला, बूड़े दोऊ गुरु औ चेला ॥
तीसर बूड़े पारथ भाई, जिन बन डाहो दवा लगाई ।
भूँकि भूँकि कूकुर मरि गयऊ, काज न एक सियार से भयऊ ॥

मूस बिलाई एक संग, कहु कैसे रहि जाय ।

अचरज एक देखहु हो संतो, हस्ती सिंघहिं खाय ॥१२॥

नहिं परतीत जो यहि संसारा, दरब की चोट कठिन कै मारा ।
सो तौ सेषहु जाइ लुकाई, काहू के परतीत न आई ॥
चले लोग सब मूल गँवाई, जम की बाढ़ि काटि नहिं जाई ।
आजु काज है कान्हि अकाजा, चले लादि दिगंतर राजा ॥
सहज बिचारै मूल गँवाई, लाभ ते हानि होय रे भाई ।
वोछी मति चंदाँ गौ अथई, त्रिकुटी संगम सामी बसई ॥
तबही बिस्तु कहा समुभाई, मिथुन आठ तुम जीतहु जाई ।
तब सनकादिक तत्तु बिचारा, जौ धन पावहिं रंक अपारा ।
भौ मरजाद बहुत सुख लागा, यहि लेखे सब संसै भागा ॥

देखिनि उतपति लागु न बारा, एक मरै एक करै विचारा ।
मुए गये की कोई न कहई, भूठी आस लागि जग रहई ॥

जरत जरत से बाँचिहो, काहे न करहु गोहारि ।

विष विषया कै खायहु, राति दिवस मिलि भारि ॥१३॥

बड़ सो पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप छलो नर जानी ।

बाँवन रूप छलो बलिराजा, ब्राह्मन कीन कौन को काजा ॥

ब्राह्मन ही कीन्हा सब चोरी, ब्राह्मन ही को लागल खोरी ।

ब्राह्मन कीन्हो ग्रन्थ पुराना, कैसहु कै मोहिं मानुष जाना ॥

एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपालहिं गाया ।

एक से सिंभू पंथ चलाया, एक से भूत श्रेत मन लाया ॥

एक से पूजा जैनि विचारा, एक से निहुरि निमाज गुजारा ।

कोउ काहू को कहाँ न घाना, भूठा खसम कबीर न जाना ॥

तन मन भजि रहु मोरे भक्ता, सत्त कबीर सत्त है बक्ता ।

आपुहि देवा आपुहि पाती, आपुहि कुल आपुहि है जाती ॥

सर्वभूत संसार निवासी, आपुहि खसम आपु सुख बासी ।

कहइत मोहिं भैल जुग चारी, काके आगे कहाँ पुकारी ॥

साँचहि कोइ न मानै, भूठा के संग जाय ।

भूठहि भूठा मिलि रहा, अहमक खेहा खाय ॥१४॥

बोनई बदरिया परिगौ संभा, अगुआ भूले बन खंड मंभा ।

पिय अंते धनि अंते रहई, चौपरि कामरि माथे गहई ॥

फुलवा भार न लै सकै, कहै सखिन सौं रोय ।

ज्यों ज्यों भीजै कामरी, त्यों त्यों भारी होय ॥१५॥

चलत चलत अति चरन पिराना, हारि परे तहाँ अति रे सयाना ।

गन गंधप मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया ॥

गहनी बंधन वान न सूझा, थाकि परे तब कछुवो न बूझा ।
भूलि परे जिउ अधिक डेराई, रजनी अंधकूप होय आई ॥
माया मोह उहाँ भर पूगी, दादुल दामिनि पौन अपूरी ।
बरिसै तपै अखंडित धारा, रैन भयावनि कछु न अधारां ॥

सबै लोग जहँड़ाइया, अंधा सबै भुलान ।

कहा कोई नहिं मानै, सभ एकै माहिं समान ॥१६॥

जस जिउ आप मिलै अस कोई, बहुत धर्म सुख हिरदया होई ।
जासों बात राम की कही, प्रीति न काहू से निर्वही ॥
एखै भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होय विवेकी ।
बिषै मोह कै फंद छोड़ाई, तहाँ जाय जहाँ काटै कसाई ॥
अहै कसाई छूरी हाथा, कैसहु आवै काटै माथा ।
मानुष बड़े बड़ा होय आया, एकै पंडित सभै पढ़ाया ॥
पढ़ना पढ़हु घरहु जनि गोई, नहिं तौ निस्चै जाहु बिगोई ।

सुमिरन करहु राम कै, छाँड़हु दुस की आस ।

तर ऊपर धै चापिहैं, जस कोन्हू कोटि पचास ॥१७॥

अदबुद पंथ बरनि नहिं जाई, भूले राम भूली दुनियाई ।
जौ चेतहु तौ चेतहु रे भाई, नहिं तौ जीव जमु लै जाई ॥
सब्द न मानै कथै ग्याना, ताते जमु दीयो है थाना ।
संसै सावज वसै सरीरा, ते खायो अनवेधल हीरा ॥

संसै सावज सरीर महँ, संगहि खेलै जुआरि ।

ऐसा घायल बापुरा, जीवहिं मारै झारि ॥१८॥

अनहद अनभव की करि आसा, देखहु यह बिपरीत तमासा ।
इहै तमासा देखहु रे भाई, जहँवा सुन्न तहाँ चलि जाई ॥

सुनहिं बाँछे सुनहिं गयऊ, हाथा छोड़ि बेहाथा भयऊ ।
संसै सावज सकल संसारा, काल अहेरी साँभ सकारा ॥
सुमिरन करहु राम कै, काल गहे है केस ।

ना जानहु कब मारिहै, का घर का परदेस ॥१६॥
अब कहु राम नाम अविनासी, हरिछोड़ि जियरा कतहुँ न जासी ।
जहाँ जाहु तहाँ होहु पतंगा, अब जनि जरहु समुझि बिषसंगा ॥
राम नाम लौ लाय सु लीन्हा, अंगी कीट समुझि मन दीन्हा ।
भव अस गरुआ दुख कै भारी, करु जीव जतन जे देखु बिचारी ॥
मन की बात है लहरि बिकारा, ते नहिं स्रभै वार न पारा ।
इच्छा के भवसागर, बोहित राम अधार ।

कहै कबीर हरि सरन गहु, गौ बछ खुर बिस्तार ॥२०॥
बहुत दुख है दुख की खानी, तब बचिहौ जब रामहिं जानी ।
रामहिं जानि जुक्ति जो चलई, जुक्तिहिं ते फंदा नहिं परई ॥
जुक्तिहिं जुक्ति चला संसारा, निस्चै कहा न मानु हमारा ।
कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहै दिन थोरा ॥
थोगहिं संपत्ति गौ बौराई, धरम राय की खबरि न पाई ।
देखि त्रास मुख गौ कुँभिलाई, अमृत धोखे गौ बिष खाई ॥
मैं सिरजौं मैं मारौं, मैं जारौं मैं खाऊँ ।

जल थल मैही रभि रह्यो, मोर निरंजन नाउँ ॥२१॥
अलख निरंजन लखै न कोई जेहि बंधे बंधा सब कोई ।
जेहि भूटे सो बंधो अयाना, भूठा बचन साँच करि माना ॥
बंधा बंधा कीन्ह बेवहारा, कर्म बिबजित बसे निनारा ।
षट आस्रम षट दरभन कीन्हा, षटरस बस्तु खोट मब चीन्हा ॥
चारि घृत्त छौ साख बखानै, विद्या अगनित मनै न जानै ।

औरो आगम करे विचारा, ते नहिं स्रभै वार न पारा ॥
जप तीरथ व्रत कीजै पूजा, दान पुन्य कीजै बहु दूजा ।

मंदिल तो है नेह का, मति कोई पैठे धाय ।

जो कोई पैठे धाय कै, बिनु सर सेंती जाय ॥२२॥

अल्प सुख दुख आदि औ अंता, मन भुलान मैगर मैमंता ।
सुख बिसराइ मुक्ति कहँ पावै, परिहरि साँच भूठ निज धावै ॥
अनल जोति डारै एक संगी, नैन नेह जस जै पतंगा ।
करहु विचार जे सब दुख जाई, परि हरि भूठा केरि सगाई ॥
लालच लागे जन्म सिराई, जरा मरन नियरायल आई ।

अम करि बाँधल ई जग, यहि विधि आवै जाय ।

मानुष जन्म पाइ नर, काहे को जहँडाय ॥२३॥

चंद चकोर असं बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन्ह पलटाई ।
चारि अवस्था सपने कहई, भूठो फूरो जानत रहई ॥
मिथ्या बात न जानै कोई, एहि विधि सगरे गैल बिगोई ।
आगे दै दै सभनि गँवाया, मानुष बुद्धि की सपने पाया ॥
चौतिस अच्छर से निकलै जोई, पाप पुन्य जानैगा सोई ॥

सोई कहते सोई होउगे, निकरि न बाहर आव ।

हौं हजूर ठाढ़ो कहौं, धोखे न जन्म गमाव ॥२४॥

चौतिस अच्छर का इहै विसेखा, सदसौ नाम याहि में देखा
भूलि भटकि नल फिर घर आया, होत अजान सो सभनि गमाया ॥
खोजहिं ब्रह्मा विस्तु सिव सक्ती, अनंत लोग खोजहिं बहु भक्ती ।
खोजहिं गन गंधप मुनि देवा, अनंतलोग खोजहिं बहु सेवा ॥

जती सती सब खोजहीं, मनहिं न मानै हारि ।

बड़ बड़ जीव न बाँचहि, कहहिं कबीर बिचारि ॥२५॥

आपुहिं करता भया कुलाल, बहु विधि बासन गढ़ै कुंभारा ।
 विधिना सभै कीन्ह यक ठाँऊँ, अनेक जतन के बने बनाऊँ ॥
 जठर अग्निनि महँ दीन्ह प्रजारी, तामे आपु भया प्रतिपाली ।
 बहुत जतन से बाहर आया, तब सिव सक्की नाम धराया ॥
 घर का सुत जो होय अयाना, ताके संग न जाहिं सयाना ।
 साँची बात कही मैं अपनी, भया दिवाना और की सपनी ॥
 गुप्त प्रगट है एकै दूधा, काको कहिए ब्राह्मन सूदा ।
 झूठ गर्भ भूले मति कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई ॥

जिन यह चित्र बनाइया, साँचा सो सुत्रधार ।

कहहि कबीर ते जन भले, जेचित्रवंतहि लोहिं विचार ॥२६॥

ब्रह्मा को दीन्हों ब्रह्मंडा, सात दीप पुहुमी नव खंडा ।
 सत्त सत्त कै विस्तु दिढ़ाई, तीनि लोक महँ राखिनि जाई ॥
 लिंग रूप तब संकर कीन्हा, धरती खीलि रसातल दीन्हा ।
 तब अष्टंगी रची कुमारी, तीनि लोक मोहिनि सभ भारी ॥
 दुतिया नाम पारवती भैऊ, तप करते संकर कहँ दैऊ ।
 एकै पुरुष एक है नारी, ताते रचेउ खानि भौचारी ॥
 सर्मान बर्मन देव औ दासा, रज सत तमगुन धरनि अकासा ॥

एक अंड ओंकार ते, सब जग भयो पसार ।

कहहि कबीर सब नारि राम की, अविचल पुरुष भूतारु ॥२७॥

अस जोलहा केहु मरम न जाना, जिन जग आय पसारिन्हि ताना ।
 महि अकास दुइ गाड़ खँदाया, चाँद सुरुज दुइ नरी बनाया ॥
 सहस तार लै पूरिन पूरी, अजहुँ बिनै कठिन है दूरी ।
 कहहि कबीर करम सौं जोरी, सत कुसत बिनै भल कोरी ॥२८॥

बज्रहुँ ते त्रिन खिन में होई, त्रिन ते बज्र करै पुनि सोई ।
 निभरू नरू जानि परिहरै, करम के बाँधल लालच करै ॥
 कर्म धर्म मति बुधि परिहरिया, झूठा नाम साँच लै धरिया ।
 रज गति त्रिविधि कीन्ह प्रगासा, कर्म धर्म बुधि केर बिनासा ॥
 रवि के उदै तारा भो छीना, चर बीहर दोनों महँ लीना ।
 विष के खाये विष नहिं जावै, गारुड़ि सो जो मरत जियावै ॥

अलकं जो लागी पलक में, पलकहिं महँ डसि जाय ।

विषहर मंत्र न मानै, तौ गारुड़ि काह कराय ॥२६॥

औ भूले षट दरसन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई ।
 जीव सीव का आहि नसौना, चारिउ बद्ध चतुर गुन मौना ॥
 जैनी धर्म कर्म न जाना, पाती तोरि देव घर आना ।
 दौना मरुआ चंपा कै फूला, मानहु जीव कोटि सम तूला ।
 औ प्रिथिमी के रोम उचारै, देखत जन्म आपनो हारै ॥
 मनमथ बिंद करै असरारा, कल्पै बिंद खसै नहिं द्वारा ॥
 ताकर हाल होय अधकूचा, छव दरसन मह जैनि बिगूचा ।

ग्यान अमर पद बाहिरे, नियरे ते है दूरि ।

जो जानै तिहि निकट है, रहा सकल घट पूरि ॥३०॥

सुप्रिति आहि गुननि को चीन्हा, पाप पुन को मारग कीन्हा ।
 सुप्रिति बेद पढ़ै असरारा, पाखंड रूप करै हंकारा ॥
 पढ़ै बेद औ करै बड़ाई, संसै गाँठि अजहुँ नहिं जाई ।
 पढ़िके साख जीव बध करई, मूड़ी काटि अगुवन के धरई ॥

कहहिं कबीर ई पाखंड, बहुतक जीव सताव ।

अनभौ भाव न दरसै, जियत न आप लखाव ॥३१॥

अंध सो दरपन वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना ।
जस खर चंदन लादे भारा, परिमल बास न जान गँवारा ।
कहहिं कबीर खोजै असमाना, सो न मिला जो जाय अभिमाना ॥३२॥

वेद की पुत्री सुम्रिति भाई, सो जेवरि कर लेतहि आई ॥
आपुहिं बरी आपु गर बंधा, भूठा मोह काल को फंदा ।
बंधवत बंधा छोरि नहिं जाई, विषै रूप भूली दुनियाई ॥
हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कहि छूटा ।

रामहि राम पुकारते, जिभ्या परिगौ रौंस ।
सूधा जल पीवै नहीं, खोदि पियन की हौंस ॥३३॥

पढ़ि पढ़ि पंडित करु चतुराई, निज मुक्ती मोहि कहु समुझाई ।
कहाँ बसै पुरुष कहाँ सो गाऊँ, पंडित मोहिं सुनावहु नाऊँ ॥
चारि वेद ब्रह्म निज ठाना, मुक्तिक मर्म उनहूँ नहिं जाना ।
दान पुन्य उन बहुत बखाना, अपने मरन की खबरि न जाना ॥
एक नाम है अगम गँभीरा, तहवाँ अस्थिर दास कबीरा ।

चिउँटी जहाँ न चढ़ि सकै, राई ना ठहराय ।
आवागमन की गम नहीं, तहँ सकलो जग जाय ॥३४॥

पंडित भूले पढ़ि गुनि वेदा, आपु अपनपौ जान न भेदा ।
संझा तरपन औ षट कर्मा, ई बहु रूप करहिं अस धर्मा ॥
गाइत्री जुग चारि पढ़ाई, पूछहु जाय मुक्ति किन पाई ।
और के छुये लेत हौ सींचा, तुमते कहहु कौन है नीचा ॥
ये गुन गर्व करहु अधिकाई, अधिके गर्व न होय भलाई ।
जासु नाम है गर्व प्रहारी, सो कस गर्वहिं सकै संहारी ॥

कुल मरजादा खोय कै, खोजिनि पद निर्वान ।

अंकुल बीज नसाय कै, भए बिदेही थान ॥३५॥

ग्यानी चतुर विचच्छन लोई, एक सयान सयान न होई ।

दूसर सयान का मरम न जाना, उतपति परलै रैनि बिहाना ॥

बानिज एक सभन मिलि ठाना, नेम धरम संजम भगवाना ।

हरि अस ठाकुर तेजि न जाई, बालन भिस्त गाव दुलहाई ॥

ते नर कहवाँ चलि गये, जिन दीन्हा गुर घोंटि ।

राम नाम निजु जानि कै, छाँड़हु वस्तू खोंटि ॥३६॥

एक सयान सयान न होई, दोसर सयान न जानै कोई ।

तीसर सयान सयानहिं खाई, चौथ सयान तहाँ लै जाई ॥

पँचये सयान न जानै कोई, छठयें मा सभ गैल बिगोई ।

सतये सयान जो जानै भाई, लोक वेद में देहु देखाई ॥

बीजक बतावै बित्त को, जो बित्त गुप्ता होय ।

[वैसै]सब्द बतावै जीव को, बूझै बिरला कोय ॥३७॥

यहि बिधि कहीं कहा नहिं माना, मारग माँहि पसारिनि तान ।

राति दिवस मिलि जोरिन तागा, ओटत कातत भरम न भागा ॥

भरमै सभ घट रहा समाई, भरम छोड़ि कतहूँ नहिं जाई ।

परे न पूर दिनहु दिन छीना, जहाँ जाय तहाँ अंग बिहूना ॥

जो मत आदि अंत चलि आवा, सो मत सभ उन प्रगट सुनावा ।

यह संदेस फुर मानिकै, लीन्हेउ सीस चढ़ाय ।

संतो है संतोष सुख, रहहु तो हिरदय जुड़ाय ॥३८॥

जिन कलिमा कलि माह पढ़ाया, कुदरति खोजि तिनहु नहिं पाया ।

कर्म ते कर्म करै करतूता, वेद कितेब भया सब रीता ॥

कर्म तो सो जो गर्भ औतरिया, कर्म तो सो जो नामहिं धरिया ।
कर्म ते सुन्नति और जनेऊ, हिंदू तुरुक न जानै भेऊ ॥

पानी पौन संजोय के, रचिया यह उतपात ।

सुन्नहि सुरत समाइयाँ, कासों कहिए जात ॥३६॥

आदम आदि सुधि ना पाई, मामा हौवाँ कहाँ ते आई ।
तब नहिं होत तुरुक औ हिंदू, माय के रुधिर पिता के बिंदू ॥
तब नहिं होते गाय कसाई, तब कहु बिसमिल किन फुरमाई ।
तब नहिं होते कुल औ जाती, दोजख भिस्त कवन उतपाती ॥
मन मसले की सुधि नहिं जानै, मति भुलान दुइ दीन बखानै ।

संयोगे का गुन रवै, बिजोगे का गुन जाय ।

जिभ्या स्वाद के कारणे, कीन्हें बहुत उपाय ॥४०॥

अंबु की रासि समुद्र कै खाई, रवि ससि कोटि तैतिसो भाई ।
भौर जाल महुँ आसन माँड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाँड़ा ।
दुख कै मर्म न काहू पाया, बहुत भाँति के जग बौराया ।
आपुहि वाउर आपु सयाना, हिरदया बसे सो राम न जाना ॥

तेई हरि तेई ठाकुर, तेई हरि के दास ।

ना जम भया न जामिनि, भामिनि चली निरास ॥४१॥

जब हम रहली रहल नहिं कोई, हमरे माँह रहल सभ कोई ।
कहु हो राम कौन तोरी सेवा, सो समुभाय कहौ मोहिं देवा ॥
फुर फुर कहत मार सभ कोई, भूठहिं भूठा संगति होई ॥
आँधर कहै सभै हम देखा, तहुँ दिठियार बैठि मुख पेखा ॥
यहि बिधि कहाँ मानु जौ कोई, जस मुख तस जौ हिरदया होई ।
कहहिं कवीर हंस मुसुकाई, हमरहि कहै छूटिहौ भाई ॥४२॥

जिन्ह जीव कीन्ह आपु बिसवासा, नरक परे तेहि नरकहिं बासा ।
 आवत जात न लागै बारा, काल अहेरी साँझ सकारा ॥
 चौदह विद्या पढ़ि समुझावै, अपने मरन की खबरि न पावै ।
 जाने जीव कहँ परा अँदेसा, भूठहिं आनि के कहँ संदेसा ॥
 संगति छोड़ि करै असरारा, उबहै मोट नरक कै भारा ।
 गुरु द्रोही औ मनमुखी, नारि पुरुष बेबिचारै ।

ते नर चौरासी भरमि हैं, जौ लागि ससि दिनकार ॥४३॥
 कबहुँ न भयउ संग अरु साथी, ऐसो जनम गवाँयउ आछाँ ।
 बहुरि न पइहउ ऐसो थाना, साधु संग तुम नहि पहिचाना ॥
 अब तोर होय नरक महुँ बासा, निसु दिन बसेउ लबारकेपासा ।
 जात समँन्हि कहँ देखिया, कहहिं कबीर पुकार ।

चेतवा है तौ चेतहु, नहिं दिवस परतु है धार । ४४॥
 हिरनाकुस रावन गौ कंसा, कूल गये सुर नर मुनि बंसा ।
 ब्रह्मा गये मर्म नहिं जाना, बड़ सब गयल जे रहल सयाना ॥
 समुझि परी नहिं राम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी ।
 रहिगौ पंथ थकित भौ पौना, दसो दिसा उजारि भौ गौना ॥
 मीन जाल भौ ई संसारा, लोह कै नाव पषान कै भारा ।
 खेधे सभे मर्म नहिं जानी, तहियो कहै रहै उतरानी ॥
 मछरी मुख जस कँचुवा, मुसबन महुँ गिरदान ।

सर्पन माहिं गहेजुआ, जात सभन की जान ॥४५॥
 बिनसे नाग गरुड़ गलि जाई, बिनसे कपटी औ सत भाई ।
 बिनसे पाप पुन्य जिन कीन्हा, बिनसे गुन निरगुन जिन चीन्हा ॥
 बिनसे अग्नि पौन औ पानी, बिनसे सिष्टि कहाँ ले गनी ।
 बिस्तु लोक बिनसे छिन माँही, हौं देखा परलै की छाहीं ॥

मच्छ रूप माया भई, जौरां खेले अहेर ।
 हरि हर ब्रह्म न उवरे, सुर नर मुनि केहि केर ॥४६॥
 जरासिंध सिसुपाल संघारा, सहस अरजुन छल ते मारा ।
 बड़ छली रावन सो गौ बीती, लंका रहल कंचन की भीती ॥
 दुरजोधन अभिमानहि गैऊ, पंडव केर भेद नहिं पैऊ ।
 माया के डिंभ गैल सभ राजा, उत्तिम मद्धिम बाजन बाजा ॥
 छव चक्रवे बित धरनि समाना, एकहु जीव परतीत न माना ।
 कहँ लागि कहों अचेतहि गैऊ, चेत अचेत भगारा एक भैऊ ॥
 ई माया जग मोहनी, मोहिसि सब जग धाय ।
 हरीचंद सत कारने, घर घर सोग विकाय ॥४७॥
 मानिक पुरहि कबीर बसेरी, मद्धति^१ सुनी सेख तकी केरी ।
 ऊ जे सुनी जौनपुर थाना, भूँसी सुनि पीरन को नामा ॥
 इकइस पीर लिखे तेहि ठामा, खतमा पहुँ पैगंमर नामा ।
 सुनत बोल मोहिं रहा न जाई, देखि मुकरवा रहा भुलाई ॥
 हबी नबी नबी को कामा, जहँलै अमल सो सबै हरामा ।
 सेख अकरदी सेख सकरदी, मानहु वचन हमार ।
 आदि अंत औ जुग जुग, देखहु दिष्टि पसार ॥४८॥
 दर की बात कहौ दरबेसा, पातसाह हैं कौने भेसा ।
 कहाँ कुच कहाँ करै मुकामा, मैं तोहिं पूछौ मुसलमाना ॥
 लाल जरद की नाना बाना, कवन सुरति के करहु सलामा ।
 काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह करावहु भैंसा ॥
 बकरी मुरगी किन फरमाया, किसके कहे तुम छुगी चलाया ।
 दरद न जानहु पीर कहावहु, बेता पढ़ि पढ़ि जग भरमावहु ॥
 कहहिं कबीर एक सैयद वोहँई, आपु सरीखे जग कबुलाई ।

दिने धातु हो रोजा, राति कुहलु हो गाय ।

इह खून वह बंदगी, क्यों कर खुसी खोदाय ॥४६॥

कहइत मोहिं भयल जुग चारी, समुभक्त नाहिं मोह' सुत नारी ।

बंसहिं आगि लागि बंसै जरिया, भर्म भूला नल धंधे परिया ॥

हस्ती' के फंदे हस्ती रहई, मृगी के फंदे मृगा रहई ।

लोहहिं लोह काटि जु सर्याना, त्रिया कै तत्तु त्रियै पै जाना ॥

नारि रचंते पुरुषा, पुरुष रचंते नार ।

पुर्षहिं पुर्षा जो रचै, ते बिरले संसार ॥५०॥

जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रमैनी गाई ।

कहे के तातपर्ज है औसा, जस पंथी बोहित चढ़ि बैसा ॥

है कछु रहनि गहनि की बात, बैठा रहे चला पुनि जाता ।

रहै बदन नहि खाँग सुभाऊ, मन अस्थिर नहि बोलै काऊ ॥

तन रहित मन जात है, मन रहित तन जाय ।

तन मन एकै होय रहै, तब हंम कबीर कहाय ॥५१॥

जेहि कारन सिव अजहुं बियोगी, अंग बिभूति लाय भौ जोगी ।

सेस सहसमुख पार न पावा, सो अब खसम सही समुभावा ॥

ऐसी बिधि जो मोकहँ ध्यावै, छठये माँहँ दरसन सो पावै ।

कवनेहुँ भाव दिखाई देऊँ, गुप्तै रहों सुभाउ सब लेऊँ ॥

कहहिं कबीर पुकारिके, सभ का इहै विचार ।

कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटै भर्म जाल ॥५२॥

महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन्ह जन्म गवाँया ।

उन्हूँ से सिध साधक होई, मन निश्चल बहु वैसे होई ॥

जौ लागि तन मैं आहै सोई, तब लागि चेति न देखै कोई ।

तब चेतिहो जब तजिहहु प्राना, भया अंत तब मन पछिताना ॥

इतना सुनत निकट चलि आई, मन कै बिकार न छूटै भाई ।

तीनि लोक मों आयके, छूटि न काहु की आस ।

इक अंधरे जग खाइया, सबका भया निपात ॥५३॥

मरि गये ब्रह्मा कासी के बासी, सीव सहित मुये अविनासी ।

मथुरा मरिगौ कृष्ण गुवारा, मरि मरि गये दसो औतारा ॥

मरि मरि गये भगति जिन ठानी, सरगुन महँ जिन निरगुन आनी ।

नाथ मछंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त औ व्यास ।

कहहिं कबीर पुकारि कै, सभ परे काल की फाँस ॥५४॥

गये राम औ गये लछमना, संग न गई सीता ऐसी धना ।

जात कौरवहिं लागु न बारा, गये भोज जिन साजल धारा ॥

गये पंडौ कुंता ऐसी रानी, गये सहदेव जिन बुधि मति ठानी ।

सर्व सोन की लंक उठाई, चलत बार कछु संग न लाई ॥

जाकी कुरियाँ अंतरिछ छाई, सो हरिचंद देखल नहिं जाई ।

गुरुख मानुष बहुत सँजोवै, अपने मरे अवर लागि रोवै ॥

ना जानै अपनी मरि जैवे, टका दस बदै अवर ले खैवे ।

अपनी अपनी करि गए, लागि न काहु के साथ ।

अपनी करि गए रावन, अपनी दसरथनाथ ॥५५॥

दिन दिन जैर जरल के पाऊँ, गाड़े जाय न उमंगे काऊ ।

कंध न देइ मसखरी काई, कहुधौं कौनि भाँति निसतरई ॥

अकरम करै करम को धावै, पढ़ि गुनि बेद जगत समुझावै ।

छूँझा परे अकारथ जाई, कहहिं कबीर चित चेतहु भाई ॥५६॥

क्रितिया सूत्र लोक एक अइई, लाख पचास कै आऊ कहई ।

बिद्या बेद पढ़ै पुनि सोई, बचन कहत परतछै होई ॥

पहुँची बात बिद्या के पेटा, वाहु के भर्म भया संकेता ।

खग के खोजन तुम परे, पीछे अगम अपार ।
 बिनु परचै कस जानिहो, भूठा है संसार ॥५७॥
 तैं सुत मानु हमारी सेवा, तो कहँ राज देवँ हो देवा ।
 अगम दुर्गम गढ़ देउँ छुड़ाई, औरी बात सुनहु कछु आई ॥
 उतपति परलै देउँ देखाई, काहु राज सुख बिलसहु जाई ।
 एकौ बार न होइहै बाँको, बहुरि जन्म नहिं होइहै ताको ॥
 जाय पाप सुख देहौँ धना, निस्चै बचन कबीर कै माना ।
 साधु संत तेई जना, जो मानहिं बचन हमार ।
 आदि अंत उतपति परलै, देखहु दिस्टि पसार ॥५८॥
 चढ़त चढ़ावत भँडहर फोरी, मन नहिं जानै केकर चोरी ।
 चोर एक मूसै संसारा, बिरला जन कोइ बूझनिहारा ॥
 सरग पताल भूमि लै बारी, एकै राम सकल रखवारी ।
 पाहन होय होय सभ गए, बिनु भितियन को चित्र ।
 जासों क्रियहु मिताई, सो धन भया न हित ॥५९॥
 छाँड़हु पति छाँड़हु लबराई, मन अभिमान टूटि तब जाई ।
 जन जो चोरी भिच्छा खाहीं, फेरि बिरवा पलुहावन जाहीं ॥
 पुनि संशति औ पति कहँ धावै, सो बिरवा संसार लै आवै ।
 भूठ भूठ कै डारहु, मिथ्या यह संसार ।
 तेहि कारन मैं कहत हौँ, जाते होय उबार ॥६०॥
 धर्म कथा जो कहतै रहई, लबरी नित उठि प्रातै कहई ।
 लाबरि बिहने लाबरि संभा, एक लाबरि बसै हिरदया मंभा ॥
 रामहुँ केर मरम नहिं जाना, लै मति ठानिन्हि वेद पुराना ।
 वेदहु केर कहल नहिं करई, जरतहिं रहै सुस्त नहिं परई ॥

गुनातीत के गावते, आपुहि गए गँवाय ।

माटी केतन माटी मिलिगौ, पौनहिं पौन समाय ॥६१॥
 जौ तोहिं करता बरन बिचारा, जन्मत तीनि दंड अनुमारा ।
 जन्मत सूद्र सुये पुनि सूद्रा, कृतम जनेउ घालि जग दुंद्रा ॥
 जौ तुह ब्राह्मन ब्रह्मनी के जाया, और राह ते काहे न आया ।
 जौ तुह तुरुक तुरुकिनी के जाया, पेटे काहे न सुनति कराया ॥
 कागी पिपरी दूहहु गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई ।
 छाँडु कण्ट नल अधिक सयानी, कहहिं कवीर भजु सारंगपानी ॥६२॥
 नाना रूप बरन यक कीन्हा, चारि बरन उन्ह काहु न चीन्हा ।
 नष्ट गए करता नहिं चीन्हाँ, नष्ट गए औरहिं मन दीन्हा ॥
 नष्ट गए जिन्ह बेद बखाना, बेद पढ़ै पै भेद न जाना ।
 विमलख करै नैन नहिं सूझा, भया अयान तब कछु गौन बूझा ॥
 नाना नाच नचाय के, नाचै नट के भेख ।

घट घट है अविनासी, सुनहु तकी तुम सेख ॥६३॥
 काया कंचन जतन कराया, बहुत भाँति कै मन पलटाया ।
 जौ सौ बार कहौ समुझाई, तैयो धरा छोरि न जाई ॥
 जन के कहे जनै रहि जाई, नवौ निद्धि सिद्धि तिन पाई ।
 सदा धर्म जाके हिय बसई, राम कसौटी कसतै रहई ॥
 जौ रे कसावै अनतै जाई, सो बाउर अपने बौराई ।
 ताते परी काल की फाँसी, करहु आपनी सोच ।

जहाँ संत तहाँ संत सिधाये, मिलि रहा पोचहिं पोचै ॥६४॥
 अपने गुन को औगुन कहहु, इहै अभाग जे तुम न बिचारहु ।
 तुम जियस बहुतै दुख पाया, जल बिनु मीन कौन सचु पाया ॥
 चात्रिक जलहल भरे जो पासा, स्वाँग धरे भौसागर आसा ।

चात्रिक जलहल आसहि पासा, मेघ न बरसै चलै उदासा ॥
 राम नाम इहै निज सारू, औ सभ भूँठ सकल संसारू ।
 हरि उतंग तुम जाति पतंगा, जमंघर कियहु जीव को संग्गा ॥
 किंचित है सपने निधि पाई, हिय न समाय कहँ धरौं छुपाई ।
 हिय न समाय छोंडि नहिं पारा, भूँठ लोभ जे कछु न बिचारा ॥
 सुभ्रिति कीन्ह आपु नहिं माना, तरु तर छल छागर होय जाना ।
 जिव दुर्मति डोलै संसारा, ते नहिं सूझै वार न पावा ॥

अंध भया सभ डोलै, कोई न करै विचार ।

कहा हमार मानै नहीं, किमि छुटै भर्म जाल ॥६५॥
 सोई हित बंधू मोहि भावै, जात कुमारग मारग लावै ।
 सो सयान मारग रहि जई, करै खोज कबहूँ न भुलाई ॥
 सो भूँटा जो सुत कहँ तजई, गुर की दया राम ते भजई ।
 किंचित है यह जगत भुलाना, धन सुत देखि भया अभिमाना ॥

दियन खताना किया पयाना, मंदिल भया उजार ।

मरि गये ते मरि गये, बाँचे बाचनि हार ॥६६॥
 देह हलाये भगति न होई, स्वाँग धरे नलबहु विधि जोई ।
 धींगा धींगी भलो न माना, जो कोई मोहिं हिरदय न जाना ॥
 मुख कछु और हूँदै कछु आना, सपनेहुँ काहू मोहिं न जाना ।
 ते दुख पैहैं इह संसारा, जौ चेतहु तौ होय उबारा ॥
 जो जन गुरु की निंदा करई, सूकर स्वाँन जन्म सो धरई ॥

लख चौरासी जिया जंतु महुँ, भटकि भटकि दुख पाव ।

कहहि कबीर जो रामहिं जानै, सो मोहि नीके भाव ॥६७॥
 तेहि ब्रियोग ते भया अनाथा, परि निकुंज बन पाव न पाथा ।
 बेदौ नकल कहै जो जानै, जो समुझै सो भलो न मानै ॥

नट घट बंद खेलै जो जानै, तेहिका गुन सो ठाकुर मानै ।
 उहै जो खेलै सभ घट माहीं, दूसर के लेखा कछु नाहीं ॥
 भलो पोच जो और' आवै, कैसहु कै जन पूरा पावै ।

जेहिकर सर लागे हिये, सोई जानै पीर ।

लागै तौ भागै नहीं, सुख सिंधु निहार कवीर ॥६८॥

ऐसा जोग न देखा भाई, भूला फिर लिये गफिलाई ।
 महादेव को पंथ चलावै, असौ बड़ो महंत कहावै ॥
 हाट बजारै लावैं तारी, काचे सिद्धहिं माया प्यारी ।
 कब दत्त सावासी तोरी, कब सुखदेव तोपची जोगी ॥
 नारद कब बंदूक चलाई, व्यास देव कब बंब बजाई ।
 कारहिं लराई मति के मंदा, ई अतीत की तरकम बंदा ॥
 भये विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिरि लजावैं बाना ।
 घोरा घोरी कीन्ह बटोग, गावैं पाप जस चले करोरा ॥
 सुंदरी न सोभै, सनकादिक के साथ ।

कबहुँक दाग लगावै, कारी हाँड़ी हाथ ॥६९॥

बोलना कासों बोलिये रे भाई, बोलत ही सब तत्तु नसाई ।
 बोलत बोलत बाढ़ बिकाग, सो बोलिये जो परै विचारा ॥
 मिलहिं संत बचन दुइ कहियै, मिले असंत मौन होय रहियै ।
 पंडित से बोलिये हितकारी, मूरूख ते रहिये भख मारी ॥
 कहहिं कवीर अर्ध घट डोलै, पूरा होय विचार लै बोलै ॥७०॥
 सोग बधावा सम कै माना, ताकी बात इंद्रौ नहिं जाना ।
 जटा तोरि पहिरावैं सेन्ही, जोग जुक्ति कै गर्व दुहेली ॥
 आसन उड़ये कौन बड़ाई, जैसे कौआ चीन्ह मड़ाई ।
 जैसी भीति तैसी है नारी, राजपाट सभ गनै उजारी ।

जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस रहै सयाना ।
 लपसी लौंग गनै एक साग, परिहरिखाँड़ मुख फाँकै छारा ॥
 इहै विचार विचारते, गये बुद्धि बल चेत ।

दुइ मिलि एकै होय रहा, मैं काहि लगावों हेत ॥७१॥
 नारी एक संसारहि आई, माय न वाके बापहि जाई ।
 गोइ न मूइ न प्रान अधाग, तावहँ भमरि' रहा संसार ॥
 दिना सात लौं वाकी सही, बुध अदबुध अचरज का कही ।
 वाकी बंदन करै सभ कोई, बुध अदबुध अचरज बड़ होई ॥
 मूस बिलाई एक सँग, कहु कैसे रहि जाय ।

अचरज एक देखहु होसंतो, हस्ती सिवहि खाय ॥७२॥
 चली जात देखी एक नारी, तर गागरि ऊर पनिहारी ।
 चली जात वह बाटहि बाटा, सोवनहार के ऊपर खाटा ॥
 जाइन मरै सपेदी सौरी, खसम न चीन्हैं धानि भौ वौरी ।
 साँभ सकार दिया लै बारै, खसम छोड़ि सँवरै लगवारै ॥
 वाही के रस निमु दिन राची, पिय से वात रुहै नहिँ साँची ।
 सोवत छाँड़ि चली पिय अपना, ई दुख अब दहुँ कहब कैसेना ॥
 अपनी जाँघ उधारिकै, अपनी कही न जाय ।

की चित जानै आपना, की मेरो जन गाय ॥७३॥
 तहिया गुप्त धूल नहिँ काया, ताके सोग न ताके माया ।
 कँवलपत्र तरंग एक माहीं, संगै रहै लिप्त पै नाहीं ॥
 आस ओस अंड महुँ रहई, अगनित अंड न कोई कहई ।
 निराधार अधार लै जानी, राम नाम लै उचरी बानी ॥
 धरम कहै सभ पानी अहई, जातके मन पानी अहई ।
 टोर पतंग सरे धरिआरा, तेहि पानी सभ करै अचारा ॥

फंद छोड़ि जे बाहर होई, बहुरि पंथ नहिं जोहै सोई ।
 भगम कै बाँधल ई जग, कोई न करै विचार ।
 हरि की भक्ति जाने बिना, भव बूढ़ि मुवा संसार ॥७४॥

तेहि साहब के लागहु साथ, दुइ दुख मेटि के रहहु सनाथा ।
 दसरथ कुल अवतरि नहिं आया, नहिं लंका के राव सताया ।
 नहीं देवकी के गर्भहिं आया, नहीं जसोदैं गोद खेलाया ॥
 प्रिथिमी रवन दवन नहिं करिया, पैठी पताल नहीं बलि छलिया ।
 नहीं बलि राज से माँड़ी रारी, नहिं हरिनाकुस वधल पछारी ॥
 ब्राह्मरूप धरनी नहिं धरिया, छत्री मारि निछत्र न करिया ।
 नहीं गोवरधन कर गहि धरिया, नहिं ग्वालन सँग बनवन फिरिया ॥
 गंडक सालिगराम न कूला, मछ कछ होय जल नहिं डोला ।
 द्वारावती सरीर न छाँड़ा, लै जगनाथ पिंड नहिं गाड़ा ॥

कहैं कबीर पुकारि के, वोहि पंथै मति भूल ।

जेहि राखेहु अनुमान कै, सो थूल नहीं अस्थूल ॥७५॥

माया मोह कठिन संसारा, इहै विचार न काहु विचारा ।
 माया मोह कठिन है फंदा, होय विवेकी सो जन बंदा ॥
 राम नाम लै बेरा धारा, सो तौ लै संसारहिं पारा ।

राम नाम अति दुर्लभ, औरहु ते नहिं काम ॥

आदि अंत औ जुग जुग, रामहिं ते संग्राम ॥७६॥

एकै काल सकल संसारा, एक नाम है जगत पियारा ।
 त्रिया पुरुष कछु कथो न जाई, सर्व रूप जग रहा समाई ॥
 रूप अरूप जाय नहिं बोली, हलुका गरुआ जाय न तोली ।
 भूख न तृषा धूप नहिं छाहीं, सुख दुख रहित रहै तेहि माहीं ॥

अपरमपार रूप मगु, ग्यान रूप बहु आहि ।
कहैं कबीर पुकारि कै, अदबुद कहिए ताहि ॥७७॥

मानुष जन्म चूके जग माँझी, ऐहि तन केर बहुत हैं साझी ।
तात जननी कहै पुत्र हमारा, स्वारथ लागि कीन्ह प्रतिपाला ॥
कामिनि कहै मोर पिय आही, बाघिनि रूप गरासन चाही ।
पुत्र कलत्र रहैं लौ लाए, जमु की नाई रहैं मुँह बाए ॥
काग गीध दौउ मरन बिचारैं, सूकर स्वान दौउ पंथ निहारैं ।
अग्नि कहै मैं ई तन जारौं, पानि कहै मैं जरत उबारौं ॥
धरती कहै मोहिं मिलि जाई, पौन कहै संग लेहुँ उड़ाई ।
जेहि घर की घर कहै गँवारा, सो बेरी है गले तुम्हारा ।
सो तन तुम आपन करि जानी, विषय रूप भूले अग्यानी ॥

एतने तन के साझिया, जन्मौ भरि दुख पाव ।
चेतत नाही बावरा, मोर मोर गोहराव ॥७८॥

बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी, परखत खर परखावत खोटी ।
केतिक कहौ कहाँ लागि कही, औरौ कहौ परै जो सही ॥
कहले बिना मोहि रहल न जाई, बेरही लै लै कूकुर खाई ।

खाते खाते जुग गया, बहुरि न चेतै आय ।
कहहिं कबीर पुकारि कै, जीव अचेतै जाय ॥७९॥

बहुतक साहस करु जिय अपना, तेहि साहब सों भेंट न सपना ।
खरा खोट जिन नहिं परखाया, चहत लाभतिन्ह मूल गमाया ॥

पा० १-बहुत ध्यान कर जोहिन नहीं तेहि संख्या आहि । २-अपराधी ।
३-जम्बुक नित्य रहै मुँह बाए । ४-सोन । ५-बैरी, बेड़ी । ६-बेहई ।

समुझि न परै पातरी मोटी, ओछी गाँठि समै भौ खोटी ।
 कहै कबीर केहि देहौ खोरी, जब चलिहौ भिभिंआसा तोरी ॥८०॥
 देव चरित्र सुनहु रे भाई, सो तो ब्रह्मा धिया नसाई ।
 ऊ जे सुनी मंदोदरि तारा, तिन घर जेठ सदा लगवारा ॥
 सुगपति जाय अहीलहिं छरी, सुरगुर घनि चंद्रमै हरी ।
 कहै कबीर हरि के गुन गाया, कुंती करन कुँवारहिं जाया ॥८१॥
 सुख कै बिछै एक जगत उपाया, समुझिन परै बिषै कछु माया ।
 छव छत्री पात जुग चारी, फल दुइ पाप पुन्य अधिकारी ॥
 स्वाद अनत कछु बगनि न जाई, कै चरित्र सो ताही माहीं ।
 नट बट साज साजिया साजी, जो खेलै सो देखै बाजी ॥
 मोहा बपुरा जुक्ति न देखा, सिव शक्ति बिरंचि नहीं पेखा ।

परदे परदे चलि गये, समुझि परी नहिं बानि ।

जो जानहि सो बाचिहै, होत सकल की हानि ॥८२॥

छत्री करै छत्रिया धर्मा, वाके बदै सवाई कर्मा ।
 जिन अबधू गुरु ग्यान लखाया, ताकर मन तहँई पलटाया ॥
 छत्री सोई कुटुम से जूझै, पाँचो मेटि एक कै बूझै ।
 जीव मारि जीवहिं प्रतिपालै, देखत जन्म आपनो घालै ॥
 हालै करै निसाने घाऊ, जूझि परे तहँ मनमथ राऊ ।

मनमथ मरै न जीवै, जीवहिं मरन न होय ।

सुन्न सनेही राम विनु, चले अपनपौ खोय ॥८३॥

जियरा आपन दुखहिं संभारू, जो दुख व्यापि रहा संभारू ।
 माया मोह बँधे सभ लोई, अपै लाभ मूल गौ खोई ॥

पा० १-झों झों आसा मई लागे, ज्ञानी पंडित दास । पार न पावहिं
 बापुरे, भरमत फिरिं बदास । २-निपात, पत्री ।

उपजै खपै जोनि फिरि आवै, सुख का लेस सपने नहिं पावै ।
 दुख संताप कष्ट बहु पावै, सो न मिला जो जरत बुझावै ॥
 मोर तोर मैं समै विगूतां, जननी वोद्र गर्भ महँ सूता ।
 बहुत खेल खेलै बहु बूता, जन भौरा अस भए बहूता ॥
 मोर तोर महँ जर जग सारा, धृग स्वारथ भूठा संसारा ।
 भूटे मोह रहा जग लागी, इन्हतै भागि बहुरिपुनि आगी ॥
 जो हित कै राखै सभ लोई, सो सयान बाँचा नहिं कोई ।
 आपु आपु चेतै नहीं, कहाँ तौ रुसवा होय ।
 कहै कबीर जो सपने जागै, निर अस्ति अस्ति न होय ॥८४॥



सब्द

संतो भग्ती सतगुर आनी ।

नारी एक पुरुष दुइ जाया बूझहु पंडित ग्यानी ।
पाहन फोरि गंग एक निकसी, चहुँ दिस पानी पानी ॥
तेहि पानी दुइ परबत बूड़े दरिया लहरि समानी ।
उड़ि माँखी तरिवर के लागी, बोलै एकै बानी ॥
वहिँ माँखी के माखा नहीं, गरभ रहा बिन पानी ।
नारी सकल पुरुष वहि खायो, ताते रहेउ अकेला ॥
कहहिँ कबीर जो अबकी समुझै, सोई गुरु हम चेला ॥

संतो जागत नींद न कीजै ।

काल न खाय कल्प नहिँ ब्यापे, देह जरा नहिँ छीजै ॥
उलटी गंग समुद्रहिँ सोखे, ससि औ सूर गरासे ।
नौग्रह मारि रोगिया बैठे, जल महँ बिंब प्रगासे ॥
बिनु चरनन को दहुँ दिस धावै, बिनु लोचन जग स्रभै ।
ससै उलटि सिंघ को ग्रासै, ई अचरज को बूझै ॥
औंधे घड़ा नहीं जल बूड़े, सूधे सों घट भरिया ।
जेहि कारन नल भिन्न भिन्न करु, गुरु परसादे तरिया ॥
पैठि गुफा महँ सभ जग देखै, बाहर कल्लुवो न स्रभै ।
उलटा बान पारथिहिँ लागे, स्ररा होय सो बूझै ॥
गायन कहै कबहुँ नहिँ गावै, अनबोला नित गावै ।
नट बट बाजा पेखनि पेखै, अनहद हेतु बढ़ावै ॥

कथनी बदनी निजुकै जोहै, ई सभ अकथ कहानी ।
 धरती उलटि अकासै वेधै, ई पुरुषों की बानी ॥
 बिना पियाला अमृत अँचवै, नदी नीर भरि राखै ।
 कहै कबीर सो जुग जुग जीवै, राम सुधा रस चाखै ॥ २ ॥

संतो घर में भगारा भारी ।
 राति दिवस मिलि उठि उठि लागै, पाँच ढोटा एक नारी ॥
 न्यारो न्यारो भोजन चाहै, पाँचो अधिक सवादी ।
 कोउ काहू को हटा न मानै, आपुहि आपु मुरादी ॥
 दुरमति केर दोहागिन मेटै, ढोटहि चाँप चपेरै ।
 कहहि कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारि निवरै ॥ ३ ॥

संतो देखत जग बौराना ।
 साँच कहौ तौ मारन धावै, भूठे जग पतियाना ॥
 नेमी देखा धरमी देखा, प्रात करहि असनाना ॥
 आतम मारि पषानहि पूजै, उनमहँ कंछून ग्याना ॥
 बहुतक देखा पीर औलिया, पदैं कितेब कुराना ।
 कै मुरीद ततबीर बतावै, उनमहँ उहै जो ग्याना ॥
 आसन मारि डिंभ धरि बैठे, मन महँ बहुत गुमाना ।
 पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्ब भुलाना ॥
 माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना ।
 साखी सब्दहिं गावत भूले, आतम खबरि न जाना ॥
 हिंदू कहै मोहिं रामपियारा, तुरुक कहै रहिमाना ।
 आपुस में दोउ लरि लरि मूए, मर्म न काहू जाना ॥
 घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना ।

गुरु सहित सीष सभ बूड़े, अंत काल पछिताना ॥
 कहहिं कबीर सुनहु हो संतो, ई सभ भर्म भुलाना ।
 केतिक कहाँ कहा नहिं मानै, सहजै सहज समाना ॥ ४ ॥

संतो अचरज एक भौ भारी, कहाँ तौ को पतियाई ।
 एकै पुरुष एक है नारी, ताकर करहु बिचारा ॥
 एकै अंड सकल चौरासी, भर्म भूला संसारा ॥
 एकहि नारी जाल पसारा, जगमहँ भया अँदेसा ।
 खोजत खोजत अंत न पाया, ब्रह्मा विस्तु महेसा ॥
 नाग फाँस लीये घट भीतर, मूसिन्ह सभ जग भारी ।
 ग्यान खरग बिनु सभ जग जूझै, पकरि काहु नहिं पाई ॥
 आपुहि मूल फूल फुलवारी, आपुहि चुनि चुनि खाई ।
 कहहिं कबीर तेई जन उबरे, जेहि गुरु लिया जगाई ॥ ५ ॥

संतो अचरज एक भौ भारी, पुत्र धइल महतारी ।
 पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुमारी ॥
 खसमहिं छोंडिससुर सँग गौनी, सो किन लेहु बिचारी ।
 भाई के सँग ससुरे गौनी, सामु सौतिया दीन्हा ॥
 ननद भउज परपंच रच्यो है, मोर नाम कहि लीन्हा ॥
 समधी के सँग नाहीं आई, सहज भई घर बारी ।
 कहहिं कबीर सुनहु हो संतो, पुरुष जन्म भौ नारी ॥ ६ ॥

संतो कहाँ तौ को पतियाई, झूठ कहत साँच बनि आई ।
 लौके रतन अबेध अमोलिक नहिं गाहक नहिं साई ॥
 चिमिकिचिमिकि चिमिकै द्रिगदहुँ दिस, अरब रहा छिरियाई ।
 आपुहिं गुरु कृपा कछु कीन्हा, निरगुन अलख लखाई ॥
 सहज समाधि उनमुनी जागै, सहज मिलै रघुराई ।

जहँ जहँ देखौ तहँ तहँ सोई, मन मानिक बेधो हीरा ।
 परम तत्त गुरहिं से पावो, कहै उपदेस कबीरा ॥ ७ ॥
 संतो आवै जाय सो माया ।
 है प्रतिपाल काल नहिं वाकै, ना कहूँ गया न आथा ॥
 क्या मकसद मछ कछ होना, संखासुर न सँघारा ।
 है दयाल द्रोह नहिं वाकै, कहहु कौन को मारा ॥
 वै करता नहिं ब्राह कहाये, धरनि धरो न भारा ।
 ई सभ काम साहेब के नाहीं, भूठ कहै संसारा ॥
 खंभ फोरि जो बाहर होई, ताहि पतिजे सभ कोई ।
 हरिनाकुस नखवोद्र बिदारो, सो नहिं करता होई ॥
 बावन रूप न बलि को जाँचो, जो जाँचै सो माया ।
 बिना विवेक सकल जग भरमै, मायै जग भर्माया ॥
 परसराम छत्री नहिं मारा, ई छल मायै कीन्हा ।
 सतगुरु भक्ति भेद नहिं पावो, जीवन मिथ्या कीन्हा ॥
 सिरजनहार न व्याही सीता, जल पषान नहिं बाँधा ।
 वै रघुनाथ एरु कै सुमिरै, जो सुमिरै सो अंधा ॥
 गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा ।
 मेहरबान सभहिन को साहेब, नहिं जीता नहिं हारा ॥
 वै करता नहिं बौध कहायो, नहीं असुर संहारा ।
 ग्यान हीन करता सभ भर्मै, मायै जग भर्माया ॥
 वै करता नहिं भए कलंकी, नहीं कलिहिं गहि मारा ।
 ई छल बल सब मायै कीन्हा, जती सँती सभ टारा ॥
 दस औतार ईसरी माया, करता कै जिन पूजा ।
 कहहिं कबीर सुनहु हो संतो, उपजै खपै सो दूजा ॥ ८ ॥

संतो बोले ते जग मारै ।
 अनबोले ते कैसेक बनिहै, सब्दहिं कोइ न विचारै ॥
 पहिले जनम पूत को भयऊ, बाप जनमिया पाछे ।
 बाप पूत की एकै माया, ई अचरज को काछे ॥
 दुंदुर राजा टीका बैठे, बिषहर करै खवासी ।
 स्वान बापुरो धरनि ढाँकनो, बिल्ली घर की दासी ॥
 कागदकार कारकुन आगे, बैल करै पटवारी ।
 कहहिं कबीर सुनहु हो संतो, भैसे न्याव निवारी ॥ ६ ॥

संतो राह दुनो हम दीठा ।
 हिंदू तुरूक हटा नहिं मानै, स्वाद सभन्हि को मीठा ॥
 हिंदू बरत एकादसी साधै, दूध सिंधारा सेती ।
 अन्न को त्यागै मन न हटकै, पारन कैं सगोती ॥
 तुरूक रोजा निमाज गुजारै, बिसमिल बाँग पुकारै ।
 इनकी भिस्ति कहाँ ते होई, साँभै मुरगी मारै ॥
 हिंदू की दया, मेहर तुरकौ की, दूनो घट सौं त्यागी ।
 वै हलाल वै भटका मारै, आगि दूनौ घर लागी ॥
 हिंदू तुरूक की एक राह है, सतगुरु इहै बताई ।
 कहहिं कबीर सुनो हो संतो, राम न कहूँ खोदाई ॥ १० ॥

संतो पाँडे निपुन कसाई ।
 बकरा मारि भैंसा पर धावै, दिल में दरद न आई ॥
 करि असनान तिलक दै बैठे, बिधि से देवी पूजाई ।
 आतमराम पलक महँ बिनसै, रुधिर की नदी बहाई ॥
 अति पुनीत ऊँचे कुल कहिए, सभा माहिं अधिकाई ।

इन्हते दिच्छा सभ कोई माँगें, हँसी आवै मोहिं भाई ॥
 पाप कटन को कथा सुनावैं, कर्म करावहिं नीचा ।
 बूड़त दोऊ परस्पर देखा, जम लाये हैं घींचा ॥
 गाय बधे ते तुरुक कहिये, इनते वै का छोटे ।
 कहँहिं कवीर सुनहु हो संतो, कलि महुँ ब्राह्मन खोटे ॥११॥

संतो मते मातु जनु रंगी ।
 पियत पियज्ञा प्रेम सुभारस, मतवाले सत संगी ॥
 अरधे उरधे भाठी रोपिन्हि, ब्रह्म अग्नि उदगारी^१ ।
 मूदे मदन काटि कर्म कसमल, संतत चुवत अगारी ॥
 गोरख दत्त वसिष्ठ व्यास कपि, नारद मुक मुनि जोरी ।
 सभा बैठि संभु सनकादिक, तहाँ फिरे अधर कटोरी ॥
 अंबरीष औ जाग जनक जइ, सेन सहस मुख पाना ।
 कहँ लौं गनौं अनंत कोटिलौं^२, अमहल महल दिवाना ॥
 ध्रु प्रह्लाद भभीषन माते, माती सेवरी^३ नारी ।
 निर्गुन^४ ब्रह्म माते वींद्रावन, अजहु लागु खुमारी ॥
 सुरनर मुनिजती पीर औलि पा, जिन्हरेपिया तिन्ह जाना ।
 कहँहिं कवीर गूँगे की सङ्गर, क्यों करि करै बखाना ॥१२॥

राम तेरी माया दुंदु बजावै ।

गति मति शक्ती समुक्ति परैनहिं, सुर नर मुनिहिं नचावै ॥
 का सेमर के साखा बड़ये, फूल अनूरम मानीं ।
 केतिक चात्रिकलागि रहे हैं, देखत रुआ उड़ानी ॥

पा० १—सुनावहिं । २—ले कासव रस गारी । कसा रस । ३—आदि अंतल
 ४—सिवकी । ५—सगुन । ६—मचावै । ७—वानी ।

काह खजूर बढ़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे ।
 ग्रीषम रितु जब आय तुलानी, छाया काम न आवै ॥
 अपने चतुर और को सिखवै, कनक कामिनी सयानी ।
 कहँहि कबीर सुनो हो संतो, राम चरन रतिमानी ॥१३॥
 रामुरा ससे गांठि न छूटै, ताते पकरि पकरि जम लूटै ॥
 ह्वै मसकीन कुलीन कहाँ, तुम योगी संन्यासी ।
 ग्यानी गुनी खर कवि दाता, या मति किनहु न नासी ॥
 सुम्रिति बेद पुरान पै सभ, अनभौ भाव न दरसै ।
 लोह द्विन्य होय दहुँ कैसे, जो नहीं पारस परसै ॥
 जियत न तरेहु मुये का तरिहहु, जियतहिं जो न तरे ।
 गहि परतीत कियो जिन्ह जासों, सोई तहाँ अमरे ॥
 जो कछु कियेहु ग्यान अग्याना, सोई सगुभ सयाना ।
 कहँहि कबीर तासों का कहिये, देखत दृष्टि भुलाना ॥१४॥
 रामुग चली बिनावन माहो, घर छाँड़े जात जोलाहो ।
 गज नव गज दस गज उनइस की, पुरिया एक तनाई ॥
 सात सूत नौ गंड बहत्तर, पाट लागु अधिकाई ।
 तापट तुलना तुलै कौन बिधि, व्योतत गज न अमौई ॥
 तामें घटे बढ़ै रतियो नहीं, करकच कर घरहाई ।
 नित उठि बैठ खसम सों बरबस, तापर लागु तिहाई ॥
 भीगी पुरिया काम न आवै, जोलहा चला रिमाई ।
 कहँहि कबीर सुनो हो संतो, जिन यह सृष्टि उपाई ॥
 छाँड़ि पसारु राम भजु बौरै, भौसागर कठिनाई ॥१५॥ ✓

रामुरा भी भी जंतर बाजै, कर चरन बिहूना नाचै ।
 कर बिनु बाजै सुने खवन बिनु, खवन सरोता सोई ॥
 पाटन मुबस सभा बिनु औसर, बूझहु मुनि जन लोई ।
 इंद्री बिनु भोग स्वाद जिभ्या बिनु, अच्छय पिंड बिहूना ॥
 जागन चोर मँदिल तहँ मूसै, खसम अछत घर सूना ।
 वीज विन अंकुल पेड़ बिनु तरिवर, बिनु फूले फल फरिया ।
 बाँझ के कोख पुत्र औतरिया, बिनु पगु तरिवर चढ़िया ।
 मसि बिनु द्वात कलम बिनु कागज, बिनु अच्छर सुधि होई ॥
 सुधि बिनु सहज ग्यान बिनु गयाता, कहँहिं कबीर जन सोई ॥१६॥

रामहिं गावै औरहि समुझावै, हरि जाने बिनु सकल फिरै ।
 जा मुख वेद गाइत्री उचरै, तासु बचन संसार तरै ॥
 जाके पाँव जगत उठि लागै, सो ब्राह्मन जिव बध करै ।
 अपने ऊँच नीच घर भोजन, धीन कर्मकरि उदर भरै ॥
 ग्रहन अमावस दुकिदुकि मांगै, कर दीपक लिये कूप परै ।
 एकादसी बरत नहिं जानै, भूत प्रेत हठि हिरदय धरै ॥
 तजि कपूर गांठी बिष बाँधे, ग्यान गँवाये मुगुध फिरै ।
 छीजै साहु चोर प्रतिपालै, संत जना की कूट करै ॥
 कहँहिं कबीर जिभ्या केलंपट, यहि विधि प्रानी नरक परै ॥१७॥

राम गुन न्यारो न्यारो न्यारो ।

अबुझा लोग कहाँ लौ बूझै, बुझनि हार बिचारो ॥
 केतिक रामचंद्र तपसी से, जिन यह जग विटमाया ।
 केतिक कान्ह भये मुरलीधर, तिन भी अंत न पाया ॥

मछ कछ औ ब्राह्म सरूपी, बामन नाम धराया ।
 केतिक बौध भये निहलंकी, तिन भी अन्त न पाया ॥
 केतिक सिध साधक संन्यासी, जिन बनवास बसाया ।
 केतिक मुनिजन गोरख कहिये, तिन भी अंत न पाया ॥
 जाकी गति ब्रह्मौ नहिं जाना, सिव सनकादिक हारे ।
 ताके गुन नल कैसे पैहो, कहँहिं कबीर पुकारे ॥ १८ ॥

ये ततु राम जपहु रे प्राणी, तुम बूझहु अकथ कहानी ।
 जाको भाव होत हरि ऊपर, जागत रैनि बिहानी ॥
 डाइनि डारे सुनहा डोरे, सिंध रहै बन घेरे ।
 पाँच कुटुम मिलि जूझन लागे, बजन बाजु घनेरे ॥
 रोहु मृगा संसे बन हाँकै, पारथ वाना मेलै ।
 सायर जै सकल बन डाहै, मछ अहेरा खेलै ॥
 कहँहिं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अरथावै ।
 जो यहि पद को गाय बिचारै, आप तरै मोहिं तारै ॥ १९ ॥

कोई राम रसिक रस पीयहुगे, पीयहुगे सुख जीयहुगे ।
 फल अलंकित बीज नहिं बकला सुक खी तहाँ रस खाई ॥
 चुवै न बुँद अंग नहिं भीजै, दास भँवर सभ संग लाई ।
 निगम रिसाल चारि फल लागे, तिन मँह तीन समाई ॥
 एक दूरि चाहैं सभ कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई ।
 गये बसंत ग्रीषम रितु आई, बहुरि न तरिवर आवै ॥
 कहँहिं कबीर सामी सुखसागर, राम मगन सो पवै ॥ २० ॥

राम न रमसि कवन डँड लागा, मरि जैवे का कवे अभागा ।
 कोई तीगथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेसा ॥
 विद्या वेद पढ़ि करै हँकारा, अंत काल मुख फाँकै छाग ।
 दुखित सुखित होय कुटुम जेवावै, मरन दाँव अकसर दुख पावै ।
 कहँहि कवीर ईकलि है खोटी, जोरहै करवा सो निकरै टोंटी ॥२१॥

अवधू छाँड़हु मन विस्तारा ।

सो पद गहहु जाहिते सदगति, पारब्रह्म ते न्यारा ।
 नहीं महादेव नहीं महंमद, हरि हजरत तब नाही ॥
 आदम ब्रह्मा नहिं तब होते, नहीं धूप औ छाँही ।
 असी सहस्र पैगंबर नाहीं, सहस्र अठासी मूनी ।
 चाँद सुर्ज तारागन नाहीं, मछ कछ नहि दूनी ॥
 वेद कितेव सुम्रिति नहिं संजम, नही जवन परसाही ।
 बंग निमाज न कलमा होते, रामौ नाहिं खोदई ॥
 आदि अंत मन मध न होते, आतस पौन न पानो ।
 लख चौरासी जीव न होते, साखी सबद न बानी ॥
 कहँहि कवीर सुनहु हो अवधू, आगे करहु बिचारा ।
 पुरन ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, किरतम किन उपराजा ॥२२॥

अवधू कुदरति की गति न्यारी ।

रंक नेराज करै वह राजा, भूपति करै भिखारी ॥
 याते लँगहि फल नहिं लागे, चंदन फूल न फूला ।
 मछ सिकारी रमै जंगल में, सिंघ समुद्रहिं भूला ॥
 रेंड रूख भये मलयागिर, चहुँदिसि फूटी वासा ।
 तीनि लोक ब्रह्मण्ड खंड मँह, देखै अंध तमासा ॥

पंगा मेर सुमेर उलधै, त्रिभुवन मुकुता डोलै ।
 गूंगा ग्यान विग्यान प्रगसै, अनहद बानी बोलै ॥
 बांधि अकास पताल पठावै, सेस सरगं पर राजै ।
 कहँहिं कबीर राम हैं राजा, जो कछु करै सो छाजै ॥२३॥

अबधू सो जोगी, गुर मेरा, जो यहि पदका करै निबेरा ॥
 तरिवर एक मूल बिन ठाढ़ा, बिन फूले फल लागा ।
 साखा पत्र कछू नहिं वाके, अष्ट गगन मुख गाजा ॥
 पौ बिन पत्र करह बिनु तूँवा, बिनु जिभ्या गुन गावै ।
 गावनिहार के रेख रूप नहिं, सतगुर होय लखावै ॥
 पंखी के खोज मीन को मारग, कहँहिं कबीर दोउ भारी ।
 अपरम पार पार परसोतिम, मूरति की बलिहारी ॥२४॥

अबधू वै ततु रावल राता, नाचै बाजन बाजु बराता ॥
 मौर के माथे दूलह दीन्हो, अकथ जोर कहाता ।
 मड़वा के चारन समधी दीन्हो, पुत्र बियाहल माता ॥
 दुलहिनि लीपि चौक बैठायो, निरभय पद परगासा ।
 भातहिं उलटि बरातहिं लायो, भली बनी कुसलाता ॥
 पानीग्रहन भयो भौ मंडन, सुषमनि सुरति समानी ।
 कहँहिं कबीर सुनहु हो संतो, बूझहु पंडित ग्यानी ॥२५॥

भाई रे बहुत बहुत का कहिये, कोई बिरले दोस्त हमारे ।
 भंजै गढ़ै संवारै आपै, राम रखे त्यों रहिये ॥
 आसन पौन जोग स्तुति सुम्रिति, जोतिष पढ़ि बैलाना ।
 छौ दरसन पाखंड छानबे, ये कल काहु न जाना ॥

आलम दुनी सकल फिरि आयो, ये कल उहै न आना ।
तजि करिगह सब जगत उचायो, मन मँह मन न समाना ॥
कहँहि कबीर जोगी औ जंगम, फीकी उनकी आसा ।
राम नाम रटै जौं चात्रिक, निस्चै भगति निवासा ॥२६॥

माई रे अदबुद रूप अनूप कथा है, कहौं तौ को पतियाई ।
जहँ जहँ देखों तहँ तहँ सोई, सब घट रहा समाई ॥
लछ बिनु सुख दलिद्र बिनु दुख है नीद बिना सुख सोवै ।
जस बिनु जोति रूप बिनु आसिकै, रतन बिहूना रोवै ॥
भर्म बिनु गंजन मनि बिनु निरखै, रूप बिना बहुरूपा ।
थिति बिनु सुरति रहस बिनु आनंद, असो चरित अनूपा ॥
कहँहि कबीर जगत हरि मानिक, देखहु चित अनुमानी ।
परिहरि लाखौं लोग कुटुम सभ, भजहु न सारंग पानी ॥२७॥

माई रे गैया एक बिरंचि दियो है, भार अमार भो भारी ।
नौ नारी को पानी पियतु है, त्रिषा न तैयो बुझाई ॥
कोठा बहत्तरि औ लौ लाए, बजर केंवार लगाई ।
खूटा गाढ़ि दौरि द्रिद्र बांधो, तैयो तोरि पराई ॥
चारि घृत्न छौ साखा वाके, पत्र अठारह भाई ।
एतिक लै गम कीन्हैसि गैया, गैया अति हरहाई ॥
ई सात औरो हैं सातो, नौ औ चौदह भाई ।
एतिक गैया खाय बढ़ायौ, गैया तैयो न अघाई ॥
पुरतां में राती है गैया, सेत सींग है भाई ।
अबरन बरन किछुवौ नहि वाके, खध अखधै खाई ॥

ब्रह्मा विस्तु खोजि कै आये, सिव सनकादिक भाई ।
 सिध अनंत वाके खोज परे हैं, गैया किनहुन पाई ।
 कहँहि कबीर सुनहु हो संतो, जो यह पद अरथावै ।
 जो यह पद को गाय बिचारै, आगे ह्वै निरबाहै ॥२८॥

भाई रे नैन रसिक जो जागै ।
 पारब्रह्म अविगति अविनासी, कैसहु कै मन लागै ॥
 अमली लोग खुमारी त्रिसना, कतहुँ संतोष न पावै ।
 काम क्रोध दोऊ मतवाले, माया भरि भरि प्यावै ॥
 ब्रह्म कलाल चढ़ाइनि भाठी, लै इन्द्री रस चाखै ।
 संगहिं पोच है ग्यान पुकारै, चतुरा होय सो नाखै ॥
 संकट सोच पोच यह कलि महँ, बहुतक व्याधिसरीरा ।
 जहाँ धीर गंभीर अति निहचलं, तहँ उठि मिलौ कबीरा ॥२९॥

भाई रे दुइ जगदीस कहाँ ते आया, कहु कवने भ्रमाया ।
 अल्लह राम करीमा केसौ, हरि हजरत नाम धराया ॥
 गहना एक कनक ते गहना, इन महँ भाव न दूजा ।
 कहन सुनन को दुइ करि थापे, एक निमाज एक पूजा ॥
 वही महादेव वही महंमद, ब्रह्मा आदम कहिये ।
 को हिंदू को तुरुक कहावै, एक जिमी पर रहिये ॥
 बेद कितेव पढ़ै वै कुतुवा, वै मोलना वै पांडे ।
 बेगर बेगर नाम धराये, एक मटिया के भाँडे ॥
 कहँहि कबीर वै दूनौ भूछे, रामहिं किनहु न पाया ।
 वै खसी वै गाय कटावै, बादहिं जन्म गँवाया ॥३०

हंसा संसै छूरी कुहिया, गैया पियै वच्छरु अहिं दुहिया ॥
 घर घर सावज खेलै अहेरा, पारथ ओटा लेई ।
 पानी माह तलफि गौ भूँ भुरि धूरि हिलोरा देई ॥
 धरती बरसै बादर भीजै, भीट भया पैराऊ ।
 हंस उड़ाने ताल सुखाने, चहले बिंधा पाऊँ ॥
 जौ लगि कर डोलै पगु चालै, तौ लगि आस न कीजै ।

कहाँहि कबीर जेहि चलत न दीसै, तामु बचन का लीजै ॥३१॥

हंसा हो चित चेतु सकेरा, इन्ह परपंच कैल बहुतेरा ।
 पाखंडरूप रच्यो इन त्रिगुन, तेहि पाखंड भूला संसारा ॥
 घर के खसम अधिक वै राजा, परजा का दहुँ करै बिचारा ।
 भगित न जानै भगत कहावै, तजि अमृत विष कैलन्हि सारा ॥
 आगे बड़े अिसहीं भूले, तिनहु न मानल कहल हमारा ।
 कहल हमार गांठी बांधहु, निमु बासर रहि हो हुसियारा ॥
 यहि कलि गुरु बड़े परपंची, डारि ठगौरी सभ जग माग ।
 बेद कितेव दुइ फंद पसारा, तेहि फंदे परु आपु बिचारा ॥
 कहाँहि कबीर ते हंस न बिछुरे, जेहि ममिलै छोड़ावनि हारा ॥३२॥

सुनु हंसा प्यारे, सरवर तजि कहाँ जाय ।
 जेहि सरवर बिच मोतिया चुनते, बहु विधि कैलि कराय ॥
 सखे ताल पुरइन जल छांड़े, कमल गैल कुंभिलाय ।
 कहाँहि कबीर नर अब के बिछुरे, बहुरि मिलहु कब आया ॥३३॥

हरिजन हंस दसा लिए डोलै, निरमल नाम चुनि चुनि बोलै ।
 मुकताहल लिए चोंच लभावै, मौन रहै की हरि जस गावै ॥
 मान सरोवर तटके बासी, राम चरन चित अंत उदासी ।

काग कुबुधि निकट नहिं आवैं, प्रतिदिन हंसा दरसन पावैं ॥
 नीर छीर का करै निबेरा, कहँहिं कबीर सोइ जन मेरा ॥ ३४ ॥
 हरि मोरा पीव मैं राम की बहुरिया, राम बड़े मैं तनकी लहुरिया ।
 हरि मोर रहँटा मैं रतन पिउरिया, हरि के नाम लै कातल बहुरिया ॥
 छौ मास तागा बरस दिन कुकुरी, लोग बोलैं भल कातल बपुरी ।
 कहँहिं कबीर सूत भल काता, रहँटा नहीं मुक्ति को दाता ॥ ३५ ॥
 हरि ठग जगत ठगौरी लाई, हरि बियोग कस जियहू रे भाई ।
 को काको पुरुष कवन काकी नारी, अकथ कथा जम द्विष्टि पसारी ॥
 को काको पुत्र कवन काको बापा, को रे मरै को सहै संतापा ।
 ठगि ठगि मूल सभन्ह को लीन्हा, राम ठगौरी काहु न चीन्हा ॥
 कहँहिं कबीर ठग सों मनमाना, गई ठगौरी जब ठग पहिचाना ॥ ३६ ॥
 हरि ठग ठगत सकल जग डोलै, गौन करत मोसे मुखहू न बोलै ।
 बालापन के मीत हमारे, हमहिं तजि कहँ चलेउ सकारे ॥
 तुमहिं पुरुष मैं नारि तुम्हारी, तोहरि चाल पाहनहूँ ते भारी ।
 माटी कै देह पवन कोसरीरा, हरि ठग ठग से डरै कबीरा ॥ ३७ ॥

हरि बिनु भर्म बिगुरचे गंदा ।

जहां जहां गएउ अपनपौ खोयउ, तेहि फंदे बहु फंदा ॥
 जोगी कहै जोग है नीको, दुतिया और न भाई ।
 नुंचित मुंडित मौन जटाधर, तिनहुँ कहाँ सिधि पाई ॥
 ग्यानी गुनी सूर कवि दाता, ई जो कहँ बड़े हमहीं ।
 जहाँ से उपजे तहँइ समाने, छूटि गैल सभ तबहीं ॥
 बांए दहिने तजे बिकारा, निजुकै हरि पद गहिया ।
 कहँहिं कबीर गूंगे गुर खाया, पूछे सौं का कहिया ॥ ३८ ॥

औसैं हरि सों जगत लरतु है, पांडुर कतहूँ गरुड़ धरतु है ।
 मूस बिलाई कैसन हेतू जंगुक करै केहरि सों खेतू ॥
 अचरज एक देखल संसारा, सोनहा खेदे कुंजल असवारा ।
 कहँहि कबीर सुनहु संतो भाई, इहै संधि केहु बिरले पाई ॥३६॥

पंडित बाद बदै सो भूँटा ।

राम कहे जो जगत गति पावै, खाँड़ कहे मुख मीठा ॥
 पावक कहे पाव' जो डाहै, जल कहे त्रिषा बुझाई ।
 भोजन कहे भूख जो भाजै तौ दुनियाँ तरि जाई ॥
 नर के साथ सुवा हरि बोलै, हरि प्रताप न जानै ।
 जो कबहूँ उड़िजाय जंगल में, तौ हरि सुरति न आनै ॥
 बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु, नाम लिए का होई ।
 धन के कहे धनिक जो होवै, निरधन रहै न कोई ॥
 साँची प्रीति बिषै माया से, हरि भगतन्हि की हाँसी ।
 कहँहि कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे जम पुर जासी ॥४०॥

पंडित देखहु मन में जानी ।

ऋधुधों छूति कहाँ ते उपजी, तबहीं छूति तुम मानी ॥
 नादे बिंदे रुधिर के संगे, घटही में घट सपचै ।
 अष्ट कमल है पुइमी आए, छूति कहाँ ते उपजै ॥
 लख चौरासी नाना बासन, सो सब सरि भौ माटी ।
 एकहि पाट सकल बैठाये, छूति लेत धौं काकी ॥
 छूतिहिं जेवन छूतिहिं अँचवन, छूतिहिं जगत उपाया ।
 कहँहि कबीर ते छूति बिवरजित, जाके संग न माया ॥४१॥
 पंडित सोधि कहौ सगुभाई, जाते आवागवन नसाई ।

अर्थ धर्म अरु काम मोछ कहु, कवन दिसा बसे भाई ॥
 उत्तर की दखिन पुरब कि पछिम, स्वर्ग पताल के मांहीं ।
 बिना गोपाल ठवर नहिं कतहूँ, नरक जात धौं काहे ॥
 अनजाने को सरग नरक है, हरि जाने को नाहीं ।
 जेहि डर को सब लोग डरतु हैं, सो डर हमरे नाही ॥
 पाप पुत्र की संका नाहीं, सरग नरक नहिं जाहीं ।
 कहँहिं कबीर सुनहु हो संतो, जहां पद तहां समाहीं ॥४२॥

पंडित मिथ्या करहु बिचारा, ना उहां सिष्टि न सिरजन हारा ।
 थूल अस्थूल पवन नहिं पावक, रवि ससि धरनि न नीरा ॥
 जोति सरुप काल नहिं उहवाँ, बचन न आहि सरीरा ।
 कर्म धर्म कछुवो नहिं उहवाँ, ना उहां मंत्र न पूजा ॥
 संजम सहित भाव नहिं उहवाँ, सो दहूँ एक की दूजा ।
 गोरख राम एकौ नहिं उहवाँ, ना उहां वेद विचारा ॥
 हरि हर ब्रह्मा नहिं सिव सक्री, तिथौं नाहिं अचारा ॥
 माय बाप गुरु जाके नाहीं, सो दूजा की अकेला ।
 कहँहिं कबीर जो अबकी समुझै, सोई गुरु हम चेला ॥४३॥

बूझहु पंडित करहु बिचारा, पुरुषा है की नारी ।
 ब्राह्मन के घर ब्राह्मनि होती, जोगी के घर चेली ॥
 कलिमा पढ़ि पढ़ि भई तुरूकनी, कलि में रहत अकेली ।
 बर नहिं बरै ब्याह ना करई, पुत्र जन्म होनिहारी ।
 कारे मूँड एक नहिं छाड़ै, अजहूँ आदि कुमारी ।
 मैके रहै जाय नहिं समुरे, साईं संग न सोवै ॥
 कहँहिं कबीर वै जुग जुग जीवै, जाति पांति कुल खोवै ॥४४॥

को न मुवा कहौ पंडित जना, सो समुझाय कहौ मोहि सना ।
 मूये ब्रह्मा विस्तु महेसा, पारवती सुत मुये गनेसा ॥
 मुये चंद मुये रवि सेसा, मुये हनुमत जिन बाँधल सेता ।
 मुये कृसन मुये करतारा, एक न मुवा जो सिरजन हारा ॥
 कहँहि कबीर मुवा नहि सोई, जाके आवागवन न होई ॥४५॥
 पंडित अचरज एक वड़ होई ।

एक मरे मुये अन्न नहि खाई, एक मरे सीमै रसोई ॥
 करि असनान देवन की पूजा, नौ गुन काँध जनेऊ ।
 हाँडी हाड़ हाड़ थारी मुख, अब षट करम बनेऊ ॥
 धरम कथै जहँ जीव बधै तहँ, अकरम करै मोरे भाई ।
 जो तोहरा को ब्राह्मन कहिए, काको कहिए कसाई ॥
 कहँहि कबीर सुनहु हो संतो, भर्म भूली दुनियाई ।
 अपरमपार पार परसोतिम, या गति बिरलै पाई ॥४६॥
 पंडित बूझि पियहु तुम पानी ।

जेहि मटिया के घर मँह बैठे, तामँह सिष्टि समानी ।
 छपन कोटि जादो जँह भीजे, मुनि जन सहस अठासी ॥
 पर्ग पर्ग पैगम्बर गाड़े, सो सब सरि भौ माटी ।
 तेहि मटिया के भांडे पाँडे, बूझि पियहु तुम पानी ॥
 मछ कछ घरियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया ।
 नदिया नीर नरक बहि आवै, पसु मानुस सभ सरिया ॥
 हाड़ भरी भरि गूद गरी गरि, दूध कहाँ ते आया ।
 सो लै पाँडे जेवन बैठे, मटियहिं छूति लगाया ॥
 वेद कितेब छाँड़ि देहु पाँडे, ई सभ मनके भरमा ।
 कहँहि कबीर सुनहु हो पाँडे, ई सभ तोहरे करमा ॥४७॥

पंडित देखहु हिरदय बिचारी, को पुरषा को नारी ।
 सहज समाना घट घट बोलै, वाको चरित अनूपा ॥
 वाको नाम काह कहि लीजै, वाके बरन न रूपा ।
 तैं मैं काह करसि नल बौरे, का तेरा का मेरा ॥
 राम खोदाय सक्ति सिव एकै, कहुँ धौँ काहु निहोरौं ।
 बेद पुरान कुरान कितेबा, नान भांति बखाना ॥
 हिंदू तुरुक जैनि औ जोगी, ये कल काहु न जाना ।
 छव दरसन महँ जो परमाना, तासु नाम मन माना ॥
 कहँहि कबीर हमहीं पै बौरे, ई सभ खलक सयाना ॥४८॥

बुझ बुझ पंडित पद निरवान, साँझ परे कहँवा बस भान ।
 ऊँच नीच परबत डेला न ईंट, बिनु गायन तहँवा उठै गीत ॥
 ओस न प्यास मंदिल नहि जहँवा, सहसौँ धेनु दुहावहिं तहवाँ ।
 नितै अमावस नित संक्राती, नित नित नौग्रह बैठे पाँती ॥
 मैं तोंहि पूँछौँ पंडित जना, हिरदया ग्रहन लागु कैहि खना ।
 कहँहि कबीर यतनौ नहि जान, कवन सबदगुर लागलकान ॥४८॥

बुझ बुझ पंडित बिरवा न होय, आधे पुरुष आधे बसे जोय ।
 बिरवा एक सकल संसारा, सरग सीस जरि गयल पतारा ॥
 बारह पँखुरी चौबिस पात, धन बरोह लागे चहुँ पास ।
 फूल न फरै वाकी है बानि, रैन दिवस बिकार चुवै पानि ॥
 कहँहि कबीर कछूअछलो न तहिया, हरिबिरवा प्रतिपालहिं जहिया ॥५०॥

बुझ बुझ पंडित मन चितलाय, कबहुँ भरलि बहै कबहुँ सुखाय ।
 खन ऊँचै खन डूबै खन औगाह, रतन न मिलै पावै न थाह ।
 नदिया नहीं ससरि बहै नीर, मछ न मरै केवट रहै तीर ॥

पोखरि नहिं तहँ बाँधन घाट, पुरइनि नाहिं कँवल महँ बाट ।
कहँहिं कवीर ई मन का धोख, बैठा रहै चलन चाहै चोख ॥५१॥

बृम्हि लीजै ब्रह्म ग्यानी ।

घूरि घूरि बरषा बरषायो, परिया बुंद न पानी ।
चिउँटी के पग हस्ती बाँधो, छेरी बीगर खाया ।
उदधि माँह ते निकरि छाँछरी, चौरै ग्रीहँ कराया ॥
मेढुक सरप रहै एक संगै, बिल्ली स्वान बियाही ।
नित उठि सिंघ सियारसों डरपै, अदबुद कथो न जाई ॥
संसय मिरगा तन बन धेरै, पारथ बाना मेलै ।
उदधि भूपते तरिवर डाहै, मछ अहेरा खेलै ॥
कहँहिं कवीर ई अदबुद ग्याना, को यहि ग्यानहिं बृम्है ।
बिनु पंखै उड़ि जाय अकासै, जीवहिं मरन न सूम्है ॥५२॥ ✓

बहि बिरवा चीन्है जो कोय, जरा मरन रहित तन होय ॥
बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तीनि डारा ।
मध्य की डार चारि फल लागा, साखा पत्र गनै को वाका ॥
बेलि एक त्रिभुवन लपटानी, बाँधे ते छूटै नहिं ग्यानी ।
कहँहिं कवीर हम जात पुकारा, पंडित होय सो लेहु बिचारा ॥५३॥

साई के संग सासुर आई

जना चारि मिलि लगन सोधायो, जना पाँच मिलि माड़ौ छायो ॥
संग न सूती स्वाद न मानी, गौ जौवन सपने की नाई ।
सखी सहेलरी मंगल गायो, दुख सुख माथे हरदि चढ़ायो ॥
नाना रूप परी मन भाँवरि, गाँठि जोरि भाई पतियाई ।
अर्थ दै लै चली सुवासिनि, चौके रांड भई सँग साँई ॥

भयो बियाह चली बिनु दूलह, बाट जात समधी समुभाई ।
 कहँहि कबीर हम गौने जैवे, तरव कंत ले तूर बजाई ॥५४॥
 नल को ढाढ़स देखहु आई, कछु अकथ कथा है भाई ।
 सिंघ सहदूल एक हर जोतिन्हि, सीकस बोइन्हि धाने ।
 वन की भलुइया चाखुर फेरै, छागर भये किसाने ॥
 कागा कापर धोवन लागे, बकुला खिरपै दाँते ।
 माखी मूँड़ मुड़ावन लागी, हमहूँ जाइव वराते ॥
 छेरी बाघहि ब्याह होत है, मंगल गावहिं गाई ।
 वन के रोम धै दाइज दीन्हों, गोह लोकदै जाई ॥
 कहँहि कबीर सुनहु हो संतो, जो यह पद अरथावै ।
 सोई पंडित सोई ग्याता, सोई भगत कहावै ॥५५॥

नल को नहिं परतीति हमारी ।

भूठे बनज कियो भूठा सो, पूंजी सभन मिलि हारी ।
 षट दरसन मिलि पंथ चलायो, तिरदेवा अधिकारी ॥
 राजा देस बड़ो परपंची, रैयति रहत उजारी ।
 इत ते ऊत ऊत ते इतरहु, जम की साँट सँवारी ॥
 ज्यों कपि डोरि बाँधु बाजीगर, अपनी खुसी परारी ।
 इहै पेड़ उतपति परलै को, बिषया सभै बेकारी ॥
 जैसे स्वान अपावन राजी, त्यों लागी संसारी ।
 कहँहि कबीर ई अदबुद ग्याना, को मानै बात हमारी ।
 अजहूँ लेउँ छुड़ाय काल सों, जोकरै सुरति संभारी ॥५६॥

ना हरि भजै न आदति छूटी ।

सन्दहिं समुभि सुधारत नाहीं, अँधरे भयहु हियहु की फूटी ॥

पानी माँहि पपान कै रेखा, ठोंकत उठै भभूका ।
 सहस बड़ा नित उठि जल डारै, फिर मूखे का सूखा ॥
 सीतै सीत सीत अंग भौ, सन्नि बाढ़ि अधिकाई ।
 जो सनिपात रोगियहिं मारै, सो साधुन सिधि पाई ॥
 अनहद कहत कहत जग विनसै, अनहद स्निस्ट समानी ।
 निकट पयाना जमपुर धावै, बोलै एकै बानी ॥
 सतगुर मिलै बहुत सुख लहिये, सतगुर सब्द मुधारै ।
 कहँहिं कबीर सो सदा सुखी है, जो यह पदहिं बिचारै ॥५७॥

नर हरि लागी दव' विकार, विनईधन मिलै न बुझावनहार ।
 मैं जानौ तोहीं सो ब्यापै, जरै सकल संसार ॥
 पानी माँह अग्नि को अँकुल, जरत बुझावै पानी' ।
 एक न जरै जरै नौ नारी, जुगुति काहु नहिं जानी ॥
 सहर जरै पहरू सुख सोवै, कहै कुसल घर मेरा ।
 पुरिया जरै वस्तु निज उवरै, विकल राम रंग तेरा ॥
 कुबुजा पुरुष गले एक लागा, पूजि न मनकी सरधा ।
 करत विचार जन्म गौ खीसै, यह तन रहल असाधा ॥
 जान बूझि जो कपट करतु हैं, तेहि अस मंद न कोई ।
 कहँहिं कबीर सभ नारि राम की, मोते अवर न होई' ॥५८॥

माया महा ठगिनि हम जानी ।

तिरगुन फाँस लिये कर डोलै, बोलै मधुरी बानी ॥
 कैसे के कमला होय बैठी, सिव के भवन भवानी ।
 पंडा के मूरति होय बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी ॥

पा० १- धौ । २-मिलै न बुझावन पानी । ३-कहँहिं कबीर तेही मूढ़ को, भला कौन विधि होई ।

जोगी के जोगिन होय बैठी, राजा के घर रानी ।
 काहू के हीरा होय बैठी, काहू के कौड़ी कानी ॥
 भगता के भगतिनि होय बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी ।
 कहँ कबीर सुनो हो संतो, ई सभ अकथ कहानी ॥५६॥

माया मोहै मोहित कीन्हाँ, ताते ग्यान रतन हरि लीन्हा ।
 जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना ॥
 सब्द गुरू उपदेस दियो तैं, छाड़यो परम निधाना ।
 जोति देखि पतंग हुलसै, पसु ना पेखै आगी ॥
 काल फाँस नल मुगुध न चेतै, कनक कामिनी लागी ।
 सेख सैयद कितेब निगखै, सुम्रिति साख विचारै ॥
 सतगुर के उपदेस बिना, तैं जानिकै जीवहि मारै ।
 करु बिचार बिकार परिहरु, तरन तारन सोय ॥
 कहँहि कबीर भगवंत भजु नल, दुतिय और न कोय ॥६०॥

मरि हौ रे तन का लै करिहौ, प्रान छुटे बाहर लै डरिहौ ।
 काथा बिगुरचनि अनबनि भांती, कोई जारै कोई गाड़ै माटी ॥
 हिंदू लै जारै तुरुक लै गाड़ै, यहि बिधि अंत दुबौ घर छाड़ै ।
 करम फाँस जम जाल पमारा, जस धीमर मछरी गहि मारा ॥
 राम बिना नल होइहो कैसा, बाट मांभ गोवगौरा जैसा ।
 कहँहि कबीर पाछे पछितैहो, या घर से जब वा घर जैहो ॥६१॥

माई मैं दूनौ कुल उजियारी ।

सासु ननद पटिया मिलि बँधलो, भसुरहिं परलो गारी ।
 जारौ मांग मैं तासु नारि की, जिन्ह सरवर रचल धमारी ॥
 जना पाँच मिलि कोखिया रखलों, और दुई औ चारी ।

पार परोसिन करौं कलेवा, संगहिं बुधि महतारी ॥
 सहजै वपुरे सेज विछौलन, सुतलिउं पाँव पसारी ।
 आवौं न जाँव मरौं नहिं जीवौं, साहेब मेटल गारी ॥
 एक नाम मैं निजकै गहलौं, ते छूटल संसारी ।
 एक नाम मैं वदिकै लेखौं, कहँहिं कबीर पुकारी ॥६२॥

कासों कहौं को मुनै को पतियाय, फुलवा के छुवत भँवर मरि जाय ।
 गगन मँडल महँ फूल एक फूला, तर भौ डार ऊपर भौ मूला ॥
 जोतिये न बोइये सीचिये न सोय, बिनु डार बिनु पान फूल एक होय ।
 फूल भल फूलल मालिनि भल गाँथल, फुलवाबिनसिगैल भौरा निरासल
 कहँहिं कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाई ॥६३॥

जोलहा बीनहु हो हरिनामा, जाको सुर नर मुनि धरै ध्याना ।
 ताना तनै को अहुँठा लीन्हौं, चरखी चागिहुँ वेदा ॥
 सर खूटी एक राम नरायन, पूरन प्रगटे कामा ।
 भौ सागर एक कठवत कीन्हौं, ता मैं माड़ी साना ॥
 माड़ी को तन माड़ि रहा है, माड़ी बिरले जाना ।
 चांद सुरज दुइ गोड़ा कीन्हौं, मांभ दीप कियौ मांभा ॥
 त्रिभुवननाथ जो मांजन लागे, स्याम मुररिया दीन्हौं ।
 पाई करि जव भरना लीन्हौं, बै बाँधे को रामा ॥
 बै भरा तिहुँ लोकहिं बाँधै, कोई न रहत उबाना ।
 तीनि लोक एक करिगह कीन्हौ, दिगमग कीन्हौ ताना ।
 आदि पुरुष बैठावन बैठे, कबिरा जोति समाना ॥६४॥

जोगिया फिरि गयो नगर मंभारी, जाय समान पाँच जहाँनारी ।
 गयउ देसंतर कोइ नबतावै, जोगिया बहुरि गुफा नहिं आवै ॥

जरिगौ कंथा धजा गौ टूटी, भजिगौ डंड खप्पर गौ फूटी ।
कहँहिं कबीर यह कलि है खोटी, जो रहै करवा सो निकरै टोंटी ॥६५॥

जोगिया केनगर बसो मति कोय, जो रे वसै सो जोगिया होय ।
वहि जोगिया के उलटा ग्यान, काला चोलना नाहीं म्यान ॥
प्रगट सो कंथा गुप्ता धारी, तामँह मूल सजीवनि भारी ।
वहि जोगिया की जुगुति जो बूझै, रामरमै तेहि त्रिभुवन सूझै ॥
अमृत बेली छिन छिन पीवै, कहँहिं कबीर सो जुग जुग जीवै ॥६६॥

जो पै बीज रूप भगवान, तो पंडित का पूछहु आन ।
कहँ मन कहँ बुद्धि कहँ हँकार, सत रज तम गुन तीनि प्रकार ॥
बिष अमृत फल फलै अनेका, बौधा बेद कहँ तरबे का ।
कहँहिं कबीर तैं मैं का जान, को दहुँ छूटल को अरुभान ॥६७॥

जो चरखा जरिजाय बढ़ैया न मरै ।
कातौं सूत हजार चरखुला जनि जरै ॥
बाबा मोर ब्याह कराव अच्छा बरहिं तकाय ।
जौ लौं अच्छा वर ना मिलै तौलौं तुमहिं बियाहु ॥
प्रथमहिं नगर पहुँचते परिगौ सोक संताप ।
एक अचंभौ देखिया ब्रिटिया ब्याहल बाप ॥
समधी के घर लमधी आए आए बहू के भाय ।
गोड़े चूल्हा दै दै चरखा दियो दिदाय ॥
देव लोक मरि जाहिं गे एक न मरै बढ़ाय ।
यह मन रंजन कारने चरखा दियो दिदाय ॥
कहँहिं कबीर सुनहु हो संतों चरखा लखै जो कोय ।
जो यह चरखा लखि परै आवागमन न होय ॥६८॥

जंत्री जंत्र अनूपम बाजै, वाके अष्ट गगन मुख गाजै ।
 तूही बाजै तूहीं गाजै, तूहीं लिए कर डोलै ॥
 एक सब्द महुँ राग छतीसौ, अनहद बानी बोलै ।
 मुख को नाल खवन को तुंबा, सतगुर साज बनाया ॥
 जीभिं के तार नासिका चरई, माया का मोम लगाया ।
 गगन मँडल महुँ भौ उजियारा, उलटा फेर लगाया ।
 कहँहिं कबीर जन भए विवेकी, जंत्री सो मन लाया ॥६६॥
 जस मांस पसु को तस मासु नल को, रुधिर रुधिर एकसारा जी ।
 पसु को मासु भखै सम कोई, नलहिं न भखै सियारा जी ॥
 ब्रह्म कुलाल मेदिनी भईया, उपजि बिनसि कित गइया जी ।
 मांस मछरिया तव तुम खइयो, जो खेतन में बोइया जी ॥
 माटी के करि देवी देवा, काटि काटि जिव देइया जी ।
 जो तुहराँ है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लेइया ।
 कहँहिं कबीर सुनहु हो संतो, राम नाम निज लेइया जी ॥
 जो कछु कियहु जीभ के स्वारथ, बदला पराया देइया जी ॥७०॥
 चात्रिक कहाँ पुकारौ दूरी, सो जल जगत रहा भरि पूरी ।
 जेहि जल नादविंदु का भेदा, षट कर्म सहित उपाने वेदा ॥
 जेहि जल जीव सीव का बासा, सो जल धरती अमरं प्रकासा ।
 जेहि जल उपजल सकल सरीरा, सो जल भेद न जाने कबीरा ॥७१॥

चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो ।

दसहँ द्वार नरक भरि बूड़े, तू गंधी को बेढ़ो ॥
 फूटे नयन हिरदय नहिं स्रमै, मति एकौ नहिं जानी ।
 काम क्रोध त्रिस्ना के माते, बूढ़ि मुयहु बिनु पानी ॥

जो जारे तन भसम होय धुरि, गाड़े कृमि कीट खाई ।
 सूकरं स्वान काग का भोजन, तनकी इहै बड़ाई ॥
 चेति न देखु मुगुध नल बौरे, तोहिं ते काल न दूरी ।
 कोटिक जतन करहु बहुतेरो, तनकी अवस्था धूरी ॥
 बालू के घरवा मँह बैठे, चेतत नाहिं अयाना ।
 कहँहि कबीर एक राम भजे बिनु, बूड़े बहुत सयाना ॥७२॥

फिरहु का फूले फूले फूले ।

जब दस मास अऊँध मुख होते, सो दिन काहे भूले ॥
 ज्यौं माखी सहतै नहिं बिडुरै, सोचि सोचि धन कीन्हा ।
 मूये पीछे लेहु लेहु करै सभ, भूत रहन कस दीन्हा ॥
 जारे देह भसम होई जाई, गाड़े माटी खाई ।
 काचे कुंभ उदक ज्यौं भरिया, तनकी इहै बड़ाई ॥
 देहरि लै बर नारि संग है, आगे संग सुहेला ।
 भ्रितकथान लौं संग खटोला, फिरि पुनि हंस अकेला ॥
 राम न रमसि मोह के माते, परेहु काल बसि कूवा ।
 कहँहि कबीर नल आपु बंधायो, ज्यौं ललनी भर्म सूवा ॥७३॥

ऐसो जोगिया है बढ करमी, जाके गगन अकास न धरनी ।
 हाथ न वाके पाँव न वाके, रूप न वाके रेखा ॥
 बिना हाट हटवाई लावै, करै बयाई लेखा ।
 करम न वाके धरम न वाके, जोग न वाके जुगुती ॥
 सिंगी पत्र कछू नहि वाके, काहे को माँगै भुगुती ।
 तै मोहिं जाना मैं तोहि जाना, मैं तोहिं माहि समाना ॥

उतपति परलै एकौ नहिं होते, तब कहू कौन ब्रह्म को ध्याना ।
जोगिया ने एक ठाठ कियो है, राम रहा भरि पूरी ॥
औषध मूल किछुवो नहि वाके, राम सजीवनि मूरी ।
नट वट बाजा पेखनि पेखै, वाजी गर की बाजी ॥
कहँहि कबीर सुनहु हो संतो, भया सो राज विराजी ॥७४॥

ऐसो भरम विगुरचन भारी ।

वेद कितेब दीन औ दोजख, को पुरुषा को नारी ॥
माटी के घट साज बनाया, नादे बिंदु समाना ॥
घट बिनसे का नाम धरहुगे, अहमक खोज भुलाना ।
एकै तुचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा ॥
एक बूँद सों सृस्टि रचो है, को ब्राह्मन को सदा ।
रजगुन ब्रह्मा तमगुन संकर, सत्तगुना हरि सोई ।
कहँहि कबीर राम रमि रहिए, हिंदू तुरुक न कोई ॥७५॥

अपन पौ आपु ही विसरथौ ।

जैसे सुनहा काँच मंदिर में, भरमत भूँकि मरथौ ॥
ज्यों केहरि बपु निरखि कूप जल, प्रतिमा देखि परथौ ।
वैसहि गज फटिक सिला पर दसनन्हिँ आनि अरथौ ॥
मरकट मूठी स्वाद न बिहुरै, घर घर नटतँ फिगथौ ।
कहँहि कबीर ललनी के सुगना, तोहिँ कौने पकरथौ ॥७६॥
आपन आस कीजै बहुतेरा, काहु न मरम पाव हरि केरा ।
इंद्रो कहाँ करै विमरामा, सो कहाँ गए जो कहते रामा ॥
सो कहाँ गए जो होत सयाना, होय अत्रिक वोहि पदहिँ समाना ।
रामानन्द रामरस माते, कहँहि कबीर हम कहि कहि थाके ॥७७॥

अब हम जानिया हो, हरि बाजी का खेल ।

डंक बजाय देखाय तमासा, बहुरि सो लेत सकेलि ॥
हरि बाजी सुरनर मुनि जहँड़े, माये चाटक लाया ।
घर महुँ डारि सभै भरमाया, हिरदय ग्यान न आया ॥
बाजी भूठ बाजीगर साँचा, साधुन की मति औसी ।
कहँहि कबीर जिन्ह जैसी समुभी, ताकी गति भै तैसी ॥७८॥
कहहु हो अंमर कासों लागा, चेतनि हारे चेत सुभागा ।
अंमर मद्धे दीसै तारा, एक चेतै दूजे चेतवनि हारा ॥
जो खोजहु सो उहँवा नाहीं, सोतो आहि अमर पद माही ।
कहँहि कबीर पद बूमै सोई, मुख हिरदय जाके एकै होई ॥७९॥

बंदे करिले आपु निबेरा ।

आपु जियत लखु आपु ठौर करु, मुये कहाँ घर तेरा ॥
यहि औसर नहिं चेतहु प्रानी, अंत कोई नहिं तेरा ।
कहँहि कबीर सुनहु हो संतो, कठिन काल का घेरा ॥८०॥

ऊ तो रहु ररा ममा की भाँति हो, सभ संत उधारन चूनरी ।
बालमीक बन बोइया, चूनि लिया सुकदेव ।
करम बिनौरा होय रहा, सूत कातै जैदेव ॥
तीन लोक ताना तनो, ब्रह्मा बिसुन महेश ।
नाम लेत मुनि हारिया, सुरपति सकल नरेश ॥
बिनु जिभ्या गुन गाइया, बिन बस्ती का गेहँ ।
सूने घर का पाहुँना, कासों लावै नेह ॥
चारि बेद कैंडा कियो, निरंकार कियो राछ ।
बिनै कबीरा चूनरी, मैं नहि बाँधल बारि ॥८१॥

तुम यहि विधि समुझहु लोई, गोरी मुख मंदर बाजै ।
 एक सगुन षट चक्रहिं वेधै, बिना त्रिषभ कोल्हू मांचा ।
 ब्रह्मै पकरि अगिन महँ होमै, मच्छ गगन चढ़ि गाजा ॥
 नितै अमावस नितै ग्रहन होइ, राहु ग्रास नित दीजै ।
 सुरभी भच्छन करत वेदमुख, घन बरसै तन छीजै ॥
 त्रिकुटी कुंडल मद्धे मंदर बाजै, औषट अंमर भीजै ।
 पुहुमी के पनिआ अंमर भरिया, ई अचरज को बूझै ॥
 कहँहि कबीर सुनहु हो संतो, जोगिन सिद्धि पियारी ।
 सदा रहै सुख संजम अपने, बसुधा आदि कुमारी ॥८२॥
 भूला बे अहमक नादाना, तुम हरदम रामहिं न जाना ।
 बरबस आनि के गाय पछारिन्हि, गला काटिजिव आपु लिया ॥
 जीवत जीव मुरदा करि डारिन्हि, तिस को कहत हलाल हुआ ।
 जाहि मांसु को पाक कहत हो, ताकी उतपति सुनु भाई ॥
 रज बीरज सों मांसु उपानी, मांसु नपाकै तुम खाई ।
 अपनी देखि करत नहिं अहमक, कहत हमारे बड़ेन किया ॥
 उसकी खून तुम्हारी गरदन, जिन्ह तुमको उपदेस दिया ।
 स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहूँ न हुआ ॥
 रोजा बंग निमाज का कीजै, हुजरे भीतर पैठि मुवा ।
 पंडित वेद पुरान पढ़तु हैं, मोलाना पढ़ें कुराना ।
 कहँहि कबीर दोउ गए नरक महँ, जिन्ह हरदम रामहिं ना जाना ॥८३॥

काजी तुम कौन कितेब बखानी ।

भंखत बकत रहहु निसु बासर, मति एकौ नहिं जानी ॥
 सक्रि अनुमाने सुनति करतु हो, मैं न बदौंगा भाई ॥
 जो खोदाय तेरी सुनति करतु तौ, आपुहि काटि न आई ॥

सुनति कराय तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिये ।
 अरथ सरीरी नारि बखानो, ताते हिंदू रहिये ॥
 घालि जनेऊ ब्राह्मन होना, मेहरिहिं का पहिराया ।
 वै जनम की सुदरी परसै, तुम पांडे क्यों खाया ॥
 हिंदू तुरुक कहाँ ते आया, किन यह राह चलाया ।
 दिल में खोजि दिलही में देखो, भिस्ति कहाँ किन पाया ॥
 छाड़ पसार राम भजु बौरै, जोर करतु है भारी ।
 कबीर न ओट राम की पकरी, अंत चले पछ हारी ॥८४॥

भूला लोग कहैं घर मेरा ।

जा घरवा में भूला डोले, सो घर नहीं तेरा ।
 हाथी घोड़ा बैल बाहनो, संग्रह कियो घनेरा ॥
 बस्ती में से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा ।
 गाँठी बाँधि खरच नहिं पठयो, बहुरि कियो नहि फेरा ।
 बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा ॥
 नौमन सत अरुभि नहिं सुरभै, जनम जनम अरुभेरा ।
 कहँहि कबीर सुनहु हो संतो, पदका करहु निबेरा ॥८५॥

कबिरा तेरो घर कँदला में, या जग रहत भुलाना ।
 गुरु की कही करत नहिं कोई, अमहल महल दिवाना ॥
 सकल ब्रह्म मैं हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा ।
 मनमथ करम धरै सभ देही, नाद बिंद बिसतारा ॥
 सकल कबीरा बोलै बानी, पानी में घर छाया ।
 होत अनंत लूटि घट भीतर, घट का मरम न पाया ॥

कामिनि रूपी सकल कबीरा, मृगा चरिदा होई ।
 बड़ बड़ ग्यानी मुनिवर थाके, पकरि सकै नहिं कोई ॥
 ब्रह्मा बरुण कुबेर पुंरंदर पीपा औ प्रह्लादा ।
 हिरनाकुस नख शोद्र बिदारे, तिनहुं को काल न राखा ॥
 गोरख औसौ दत्त दिगंबर, नामदेव जैदेव दामा ।
 इन्हकी खवरि कहत नहिं कोई, कहाँ कियो है वासा ॥
 चौपरि खेल होत घट भीतर, जन्म के पासा डारा ।
 दम दम की कोई खवरि न जानै, करि न सकै निरुवारा ॥
 चारि दिग महि मंड रचो है, रूम साम बिच डीली ।
 ता ऊपर कछु अगम तमासा, मारो है जम कीली ॥
 सकल औतार जाके महिमंडल, अनंत खड़ा कर जोरे ।
 अदबुद अगम औगाह रचो है, ई सम सोभा तोरे ॥
 सकल कबीरा बोलै बीरा, अजहूँ हो हुसियारा ।
 कहँहिं कबीर गुरु सिकली दरपन हरदम करौं पुकारा ॥८६॥

कबीरा तेरो बन कंदला में, मानु अहेरा खेलै ।

बपु बारी आनंद मृगा, रूचि रूचि सर मेलै ॥
 चेतत रावल पावनं खेड़ा, सहजै मूलहिं बाँधै ।
 ध्यान धनुष धरि ग्यान वान बन, जोग सार सर साधै ॥
 षट चक्र वेधि कमल वेधि, जाय उजियारा कीन्हा ।
 काम क्रोध लोभ मोह, हाँकि सावज दीन्हा ॥
 गगन मद्धे रोंकिन्हि द्वारा, जहां दिवस नहिं राती ।
 दास कबीरा जाय पहुँचै, बिछुरे संग संघाती ॥८७॥
 सावज न होय भाई सावज न होय, बाकी मांसु भखै सभ कोय ।
 सावज एक सकल संसारा, अविगति बाकी बाता ॥

पेट फारि जो देखिय रे भाई, आहि कलेज न आँता ।
 ऐसो' वाके मांसु रे भाई, पल पल मासु विक्राई ॥
 हाड़ गोड़ लै घूर पँवारै, आगि धुँवा नहिँ खाई ॥
 सीर सींग किछुवो नहिँ वाके, पूँछ कहाँ वह पावै ।
 सभ पंडित मिलि धंधे परिया, कबीर बनौरी गावै ॥८८॥

सुभागे केहि कारन लोभ लागे, रतन जन्म खोये ।
 पूरुब जन्म भूमि के कारन, बीज काहे के बोये ॥
 बुंद से जिन्ह पिंड सँजोयो, अगिनी कुंड रहाया ।
 दस मास माता के गरभै, बहुरि लागलि माया ॥
 बालकहूँ ते वृद्ध हुआ है, होन हार सो हूवा ।
 जब जमु अइहँ बांधिलै चलिहँ, नैन भरि भरि रोया ॥
 जीवन की जनि राखहु आसा, काल धरे है स्वांसा ।
 बाजी है संसारा कबीरा, चित चेति ढारो पांसा ॥८९॥

संत महंतो सुमिरहु सोई, काल फाँस सों बाँचा होई ।
 दत्तात्रेय मरम नहिँ जाना, मिथ्या स्वाद भुलाना ॥
 सलिला मथिकै घृत को काढ़िनि, ताहि समाधि समाना ।
 गोरख पौन राखि नहिँ जाना, जोग जुगुति अनुमाना ॥
 रिधि सिधि संजम बहुतेरे, पारब्रह्म नहिँ जाना ।
 बसिष्ठ सिस्टि विद्या संपूरन, राम असो सिष साखा ॥
 जाहि राम को करता कहिये, तिनहुँ को काल न राखा ।
 हिंदू कहँ हमहिलै जारौं, तुरुक कहँ हमारे पीर ॥
 दोनों आय दीन महँ भगरै, ठाढ़े देखै हंस कबीर ॥९०॥

तन धरि सुखिया काहु न देखा, जो देखा सो दुखिया ।
 उदै अस्त की बात कहतु हौं, ताकर करहु विवेका ॥
 बाटे बाटे सभ कोई दुखिया, का गिरही वैरागी ।
 सुकाचार्य दुख के कारन, गरभहिं माया त्यागी ॥
 जोगी जंगम ते अति दुखिया, तपसी को दुख दूना ।
 आसा त्रिसना सभ घट ब्यापै, कोई महल नहिं सूना ॥
 साँच कहौ तो सभ जग खीभै, भूठ कहा नहिं जाई ।
 कहँहिं कबीर तेई भौ दुखिया जिन यह राह चलाई ॥६१॥

ता मन को चीन्हु' मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई ।
 सनक सनंदन जैदेव नामा, भक्ति हेतु मन उनहुँ न जाना ॥
 अंबुरीषि प्रहलाद सुदामा, भक्ति सही मन उनहुँ न जाना ।
 भरथरि गोरख गोपीचंदा, ता मन मिलि मिलि कियो अनंदा ॥
 जा मन को कोई जाने न भेवा, ता मन मगन भए सुकदेवा ।
 सिव सनकादिक नारद सेसा, तन के भीतर मन उनहुँ न पेख ।
 एकल निरंजन सकल सरीरा, तामहँ भ्रमि भ्रमिरहल कबीरा ॥६२॥

बाबू असो है संसार तिहारो, ई है कलि वेवहारो ।
 को अब अनुख सहै प्रति दिनको, नाही रहनि हमारो ॥
 सुम्रिति सोहाय सभै कोई जानै, हिरदया तत्तु न वृभै ।
 निरजिव आगे सरजिव थापै, लोचन किछुवो न सूभै ॥
 तजि अमृत विष काहे को अँचवै, गाँठी बाँधै खोटा ।
 चोरन दीन्हों पाट सिंघासन, साहुन से भौ औटा ॥
 कहँहिं कबीर भूठो मिलि भूठा, ठगहीं ठग वेवहारा ।
 तीनि लोक भरि पूरि रख है, नाही है पतियारा ॥६३॥

कहहु निरंजन कौने बानी ।

हाथ पाँव मुख स्वव न जीभि नहिं, का कहि जपहु हो प्रानी ।

जोतिहिं जोति जोति जो कहिये, जोति कवन सहिदानी ॥

जोतिहिं जोति जोति दैमारै, तब कहाँ जोति समानी ।

चारि बेद ब्रह्मा जो कहिया, तिनहुँ न या गति जानी ॥

कहँहिं कबीर सुनहु हो संतो, बुझहु पंडित ग्यानी ॥६४॥

को अस करै नगर कोतवलिया, मासु फैलाय गीध रखवरिया ।

मूस भौ नाँव मँजार कडहँरिया, सौवै दादुल सरप पहरिया ॥

बैल बियाय गाय भै बंभा, बछवहि दूहहिं तीनितीनि संभा ।

नित उठि सिंघसियार सों जूझै, कबीर के पद जन बिरला बूझै ॥६५॥

काको रोवों गल बहुतेरा, बहुतक सुवल फिरल नहीं फेरा ।

जब हम रोया तँ न सम्हारा, गरभ बास की बात बिचारा ॥

अब तँ रोया क्या तँ पाया, केहिकारन तँ मोहिं रोवाया ।

कहँहिं कबीर सुनहु नर लोई, काल के बसि परै मत कोई ॥६६॥

अब्रह राम जीवँ तेरी नाई, जन पर मेहर होहु तुम साई ।

का मूड़ी भूमी सिर नाए, का जल देह नहाए ॥

खून करै मिसकीन कहावै, औगुन रहै छिपाए ।

का उजू जप मंजन कीन्है, का महजिद सिर नाए ।

हिरदया कपट निमाज गुजारै, का हज मक्का जाए ॥

हिंदू एकादसी चौबीसो, रोजा मुसलिम तीस बनाये ।

ग्यारह मास कहो किन्ह टारा, ये केहि मांहि समाये ॥

जो खोदाय महजीद बसतु है, और मुलुक केहि केरा ।

तीरथ मूरति राम नेवासी, दुइ महँ काहु न हेरा ॥

पूरव दिसा हरी को बासा, पच्छिम अल्लह मुकामा ।
 दिल में खोज दिलही में खोजौ, इहै कगीमा रामा ॥
 बेद कितेव कहो किन भूठा, भूठा जो न विचारै ।
 सभ घट एक एक कै लेखा, भै दूजा कै मारै ॥
 जेते औरत मरद उपाने, सो सभ रूप तुम्हारा ।
 कबीर पोंगरा अलह राम का, सो गुरु पीर हमारा ॥६७॥

आवं वे आव मुके हरि को नाम, और सकल तजु कौने काम ।
 कहाँ तक श्रादम कहाँ तक हवा, कहाँ तब पीर रैगंबर हुआ ॥
 कहाँ तब जिमी कहाँ असमान, कहाँ तब बेद कितेव कुरान ।
 जिन्ह दुनियाँ महँ रची मसीद, भूठा रोजा भूठी ईद ॥
 साँचा एक अल्लह को नाम, जाको नै नै करहु सलाम ।
 कहु धौ भिस्ति कहाँ ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई ॥
 करता किरतम बाजी लाई, हिंदू तुरुक की राह चलाई ।
 कहाँ तब दिवस कहाँ तब राती, कहाँ तब किरतम किन उतपाती ॥
 नहिं वाके जाति नही वाके पाँती, कहँहिं कबीर वाके दिवस न राती ॥६८

अब कह चलेहु अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता ।
 खीर खांड घृत पिंड सँवारा, सो तन लै बाहर करि डारा ॥
 जिहि सिर रचि रचि बांधेउ पागा, सो सिर रतन बिगारै कागा
 हांड जरै जैसे लकड़ी भूरो, केस जरै जैसे त्रिन की कूरी ॥
 आवत संग न जात संघाती, काह भये दल बांधल हाथी ।
 माया के रस लेन पाया, अंतर जमु विलार होय धाया ॥
 कहहिं कबीर नल अजहूँ न जागा, जम का मुगदर मँकसिर लागा ॥६९

देखहु लोगा हरि कै सगाई, माय धरै पुत्र धिया संग जाई ।
सासु ननंद मिलि अदल चलाई, मादरिया ग्रिह बेटी जाई ॥
हम बहनोई राम मोर सारा, हमहिं बाप हरि पुत्र हमारा ।
कहहिं कबीर ई हरि के बूता, राम रमे तैं कुकारि के पूता ॥१००॥

देखि देखि जिय अचरज होय, यह पद बूझै बिरला कोय ।
धरती उलटि अकासहिं जाय, चिउंटी के मुख हस्ति समाय ॥
बिनु पवनै जो परवत उड़ै, जिया जंतु सभ बिरछा बूड़े ।
सूखे सरवर उठै हिलोर, बिनु जल चकवा करै किलोल ॥
बैठा पंडित पढ़ै पुरान, बिनु देखे का करै बखान ।
कहहिं कबीर जो पद को जान, सोई संत सदा परमान ॥१०१॥

हो दारी के ले देऊँ तोहि गारी, तैं समुक्ति सुपंथ बिचारी ।
घरहु के नाह जे अपना, तिन्हहुँ से भेंट न सपना ॥
ब्राह्मन चत्री बानी, तिन्हहुँ कहल नहिं मानी ।
जोगी जंगम जेते, आप गहे हैं तेते ॥
कहहिं कबीर एक जोगी, भरमि भरमि भौ भोगी ॥१०२॥

लोगा तुमहीं मति के भोरा ।

जौ पानी पानीं मँह मिलिगौ, त्यों धुरि मिलै कबीरा ।
जौ मैथिलकौ साँचा ब्यास, तोर मरन होय मगहर पास ॥
मगहर मरै सो गदहा होय, भल परतीति राम सों खोय ।
मगहर मरै मरन नहिं पावै, अन्ते मरै तौ राम लजावै ॥
का कासी का मगहर ऊसर, हृदय राम बस मोरा ।
जो कासी तन तजै कबीरा, रामहिं कौन निहोरा ॥१०३॥

कैसे तरो नाथ कैसे तरो अब बहु कुटिल भरो ।
 कैसी तेरी सेवा पूजा कैसी तेरो ध्यान, ऊपर ऊपर देखो बग अनुमान ॥
 भावतो भुजंग देखो अति विभिचारी, सरति सयान तेरी मति तो मँजारी
 अति रे विरोध देखो अति रे देवाना, छौ दरसन देखो भेष लपटाना ॥
 कहँहि कबीर हुनहु नलबंदा, डाइनि डिंभ सकल जग खंदा ॥१०४॥

यह अम भूत सकल जग खाया, जिन्ह जिन्ह पूजा तिन जहँड़ाया ।
 अंड न पिंड न प्रान न देही, काटि काटि जीव कौतुक देही* ॥
 बकरी मुरगी कीन्हेउ छेवा, आगिले जनम उन्हँ औसर लेवा ।
 कहँहि कबीर सुनहु नर लोई, भुतवा के पुजले भुतवै होई ॥१०५॥
 भँवर उड़े बग बैठे आय, रैनि गई दिवसौ चलि जाय ।
 हल हल कांपे वाला जीव, ना जानौं का करिहँ पीव ॥
 काचे बासन टिकै न पानी, उड़िगौ हंस काया कुम्हिलानी ॥
 काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहँहि कबीर यह कथा सिरानी ॥१०६॥

खसम बिनु तेली के बैल भयो ।

बैठत नाहिं साधुकी संगति, नाथे, जनम गयो ।
 बहि-बहि मरहु पचहु निज स्वारथ, जम को डंड सह्यो ॥
 धन द्वारा सुत राज काज हित, माथे भार गह्यो ।
 खसमहिं छाँड़ि बिषै रंग राते, पाप के बीज बयो ॥
 भूठि मुक्ति नल आस जिवन की, ग्रेत को जूठ खयो ॥
 लख चौरासी जीव जंतु में, सयार जात बह्यो ॥
 कहँहि कबीर सुनहु हो संतो, खान की पूँछ गह्यो ॥१०७॥
 अब हम भइलि बाहर जलमीना, पुरब जनम तप का मद कीन्हा ।
 तहिया मै अछलौं मन बैरागी, तजलौं मै लोग कुटुम राम लागी ॥

तजलौं कासी मति भै भोरी, प्राननाथ कहू का गति भोरी ।
हमहीं कुसेवक तुर्महिं अयाना, दुह महँ दोस काहि भगवाना ॥
हम चलि अइलीं तोहरे सरना, कतहुँ न देखहुँ हरि जी के चरना ।
हम चलि अइलीं तोहरे पासा, दास कबीर भल कैल निरासा ॥१०८॥

लोग बोलै दूरि गए कबीर, या मति कोई कोई जाने धीर ।
दसरथ सुत तिहुँलोकहिं जाना, राम नाम का मरम है आना ।
जेहि जीव जानि परा जल लेखा, रजु को कहै उरग सम पेखा ॥
जदपि फल उत्तिम गुन जाना, हरि छोंड़ि मन मुकुती उनमाना ।
हरि अधार जस मीनहिं नीरा, और जनत कछु कहहिं कबीरा ॥१०९॥

अपनो करम न मेटो जाई ।

करम क लिखल मिटहिं धौं कैसे, जो जुग कोटि सिराई ॥
गुरु बसिष्ट मिलि लगन सोधायो, सुर्ज मंत्र एक दीन्हा ।
जो सीता रघुनाथ बियाही, पल एक संजु न कीन्हा ॥
तीनि लोक के करता कहिये, बालि बधो बरियाई ।
एक समै ऐसी बनियाई, उनहुँ औसर पाई ॥
नारदमुनि को बदन छिपायो, कीन्हों कपि को रूपा ।
सिसुपाल के भुजा उपारेहु, आपु भये हरि टूँठा ॥
पारवती को बांझ न कहिए, ईस न कहिए भिखारी ।
कहँहिं कबीर करता की बातै, करम की बात निनारी ॥११०॥
है कोई गुर ग्यानी जगत महँ, उलटि वेद बूझै ।
पानी में पावक जरै, अँधे आँखिन सूझै ॥
गाय तो नाहर खायो, हरिनै खायो चीता ।
काग लंगर फाँदिकै, बटेर बाज जीता ॥

मूसे तौ मंजारै खायौ, स्यारै खायो स्वाना ।
 आदि को उपदेसं जानै, तासु बेस बाना ॥
 एकहि दादुल खायो, पाँचहू भुवंगा ।
 कहँहि कवीर पुकारिके, हैं दोऊ एक संग्गा ॥ १११ ॥

भगरा एक बड़ो राजा राम, जो निरुवारै सो निरवान ।
 ब्रह्म बड़ा की जहाँ ते आया, वेद बड़ा की जिन्ह उपजाया ॥
 ई मन बड़ा की जेहि मनमाना, राम बड़ा की रामहिं जाना ।
 भ्रमि-भ्रमि कवीरा फिरै उदास, तीरथ बड़ा की तीरथ दासा ॥ ११२ ॥

भूटे जनि पतियाहु हो, सुनु संत सुजाना ।
 तेरे घटही में ठग पूर है, मति खोवहु अपाना ॥
 भूटे का मंडान है, धरती असमाना ।
 दसौं दिसा वाके फंद है, जीव धेरै आना ॥
 जोग जाप तप संजम, तीरथ व्रत दाना ।
 नौधा वेद कितेव है, भूटे का बाना ॥
 काहू के सब्दै फुरै, काहू करामाती ।
 मान बड़ाई लै रहै, हिन्दू तुरुक दोउ जाती ॥
 बात व्यौतै असमान की मुद्दति नियरानी ।
 बहुत खुदी दिल राखते, बूड़े बिनु पानी ॥
 कहँहि कवीर कासों कहौं, सकलो जग अंधा ।
 साँचा सो भागा फिरै, भूटे का बंदा ॥ ११३ ॥

सार सब्द से वाँचि हो, मानहु एतबारा ।
 आदि पुरुष एक वृत्त है, निरंजन डारा ॥

तिरदेवा साखा भए, पत्ता संसारा ।
 ब्रह्मा बेद सही कियो, सिव जोग पसारा ॥
 विस्नु माया उत्तपनि क्रिया, उरले व्यवहारा ।
 तीन लोक दसहूँ दिसा, जम रोंकिनि द्वारा ॥
 कीर भए सब जीयरा, लिए विष के चारा ।
 जोति सरूपी हाकिमा, जिन अमल पसारा ॥
 करम की बंसी लायकै, पकरयौ जग सारा ।
 अमल मिटावौं तासु का, पठवौं भवपारा ॥
 कहँहि कबीर निरभै करौं, परखो टकसारा ॥११४॥

संतो ऐसी भूल जग मांही, जाते जीव मिथ्या में जाहीं ।
 पहिले भूले ब्रह्म अखंडित, भाँई आपुहिं मानी ।
 भाँई मानंत इच्छा कीन्हीं, इच्छा ते अभिमानी ॥
 अभिमानी करता हूँ बैठे, नाना पंथ चलाया ।
 वही भरम में सब जगभूला, भूल का मरम न पाया ॥
 लख चौरासी भूलते कहिये, भूलते जग बिटमाया ।
 जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूलहिं खाया ॥
 भूल मिटै गुरु मिलै पारखी, पारख देहिं लखाई ।
 कहँहि कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई ॥११५॥



ग्यान चौतीसा

ओ ऊँकार आदि जो जानै, लिखि कै मेटै ताहि सो मानै ।
 ओ ऊँकार कहै सभ कोई, जिन्ह यह लखा सो बिरला होई ॥
 क का कमल किरन महँ पावै, ससि विगसित संपुट नहि आवै ।
 तहाँ कुसुंभ रंग जो पावै, औगह गहि कै गँगन रहावै ॥
 ख खा चाहै खोरि मनावै, खसमहिं छाँड़ि दहूँ दिसि धावै ।
 खसमहिं छोड़ि छिमा होय रहई, होय न खीन अखै पद लहई ॥
 ग गा गुरु के वचनहिं मान, दूसर सब्द करै नहिं कान ।
 तहाँ विहँगम कतहुँ न जाई, औगह गहिके गँगन रहाई ॥
 घ घा घट बिनसे घट होई, घट ही में घट राखु समोई ।
 जौ घट घटै घटहिं फिरि आवै, घट ही मँह फिरि घटहिं समावै ॥
 न ना निरखत निसु दिन जाई, निरखत रहा नैन रतनाई ।
 निमिषै एक जो निरखै पावै, ताहि निमिख मँह नैन छिपावै ॥
 च चा चित्र रचो बहु भारी, चित्र छोड़ि तैं चेतु चित्रकारी ।
 जिन्ह यह चित्र विचित्र उखेला, चित्र छोड़ि तैं चेतु चितेला ॥
 छ छा आहिं छत्रपति पासा, छकि किन रहै मेटि सब आसा ।
 मैं तोहीं छिन छिन समुभाया, खसम छाँड़ि कस आपु बँधाया ।
 ज जा ई तन जियतहिं जारो, जोवन जारि जुक्ति जो पारो ।
 जौ कछु जानि जानि परिजरै, घटहीं जोति उजियारी करै ॥
 भ भा अरुभि सरुभि कत जान, हींडत दूढ़त जाहिं परान ।
 कोटि सुमेर दूँढ़ि फिरि आवै, जो गढ़ गढ़ै गढ़हिं सो पावै ॥

न ना निग्रह से करु नेहू, करु निरुवार, छाँड़ु संदेहू ।

नहीं देखै नहिं भाजै केहू, जानहु परम सयानप येहू ॥

नहीं देखि नहिं आपु भजाऊ, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ ।
 जहाँ नहीं तहाँ सभ कछु जानी, जहाँ नहीं तहाँ ले पहचानी ॥
 ट टा बिकट बाट मनमाँही, खोलि कपाट महल मो जाही ।
 रही लटापटि जुटि जेहिं माहीं, होहिं अटल ते कतहूँ न जाहीं ॥
 ठ ठा ठौर दूरि ठग नियरे, नितिकै निठुर कीन्ह मन धीरे ।
 जे ठग ठगे सभ लोग सयाना, सो ठग चीन्हि ठौर पहिचाना ॥
 ड डा डर उपजे डर होई, डरहि महुँ डर राखु समोई ।
 जौ डर डरै डरहिं फिरि आवै, डरही महुँ फिरि डरहिं समावै ।
 ढ ढा दूढ़त ही कत जान, हींढत दूढ़त जाहि परान ।
 कोटि सुमेर दूढ़ि फिरि आवै, जिहि दूँढा सो कतहूँ न पावै ॥
 नाना दुई बसाये गाऊँ, रे ना दूढ़े तेरे नाऊँ ।
 भुये एक जाँय तजि घना, मरहिं इत्यादिक ते के गना ॥
 त ता अति त्रियौ नहिं जाई, तन त्रिभुवन महुँ राखु छुपाई ।
 जौ तन त्रिभुवन माहि छिपावै, तत्तु हिं मिलै तत्तु सो पावै ॥
 थ था अति अथाह थाहो नहिं जाई, ई थिरि ऊ थिरि नाहिं रहाई ।
 थोर थोर थिर होहुँ रे भाई, बिन खंभै जैस मंदिल थँभाई ॥
 द दा देखहु बिन सनि हारा, जस देखहु तस करहु विचारा ।
 दसहुँ दुवारे तारी लावै, तब दयाल के दरसन पावै ।
 ध धा अर्ध माहिं अंधियारी, अरध छाँड़ि ऊरध मन तारी ।
 अर्ध छोड़ि उर्ध मन लावै, आपा मेटि कै प्रेम बढ़ावै ॥
 चौथे वो नाना महुँ जाई, राम कै गदहा होय खर खाई ।
 प पा पाप करै सभ कोई, पाप के करे धर्म नहिं होई ॥
 प पा कहै सुनहु रे भाई, हमरे सेवे कछुबो न पाई ।
 फ फा फल लागे बड़ दूरी, चाखै सतगुरु देइ न तूरी ॥

फ फा कहै सुनहु रे भाई, सरग पताल की खबरि जनाई ।
 व वा बर बर कर सभ कोई, बर बर करै काज नहिं होई ॥
 ब बा कहै बात अरथाई, फल का मरम न जानहु भाई ।
 भ भा भभरि रहा भर पूरी, भभरे ते है नियरे दूरी ॥
 भ भा कहै सुनहु रे भाई, भभरे आवै भभरे जाई ।
 म मा सेवै मरम न पाई, हमरे से^१ इन मूल गँवाई ॥
 माया मोह रहा जग पूरी, माया मोहहिं लखहु विसरी^३ ।
 ज जा जगत रहा भर पूरी जगतहुँ ते है जाना दूरी ॥
 ज जा कहै सुनहुँ रे भाई, हमरे सेवे जै जै पाई ।
 र रा रारि रहा अरुभाई, राम कहे दुख दालिद जाई ॥
 र रा कहे सुनहु रे भाई, सतगुरु पूछि के सेवहु आई ।
 ल ला तुतरे बात जनाई, तुतरे पाय तुतरे परचाई ॥
 अपने तुतुर और को कहई, एकै खेत दुनौ निरबहई ।
 व वा वह वह कह सभ कोई, वह वह किए काज ना हाई ॥
 वह तो कहै सुनै जो कोई, सर्ग पताल न देखै जोई ।
 ससा सर नहिं देखै कोई, सर सीतलता एकै होई ॥
 स सा कहै सुनहु रे भाई, सुन्न समान चला जग जाई ।
 ष षा कहै सुनहु रे भाई, राम नाम लै जाहु पराई ॥
 ष षा खर खर करै सभ कोई, खर खर किए काज नहिं होई ।
 स सा सरा रचो बरिआई, सर बेधे सभ लोग तवाई ॥
 स सा के घर सुनगुन होई, यतनी बात न जानै कोई ।
 ह हा करत जीव सभ जाई, छेव परै तव को समुभाई ॥
 छेव परे केहु अंत न पावा, कहँहिं कबीर अगमन गोहरावा ।

पा० १-भर्म । २-सेवे । ३-विचारी, मसा कहै सुनहु रे भाई, मूल
 छोड़ि कस डारहि जाई । ४-परिचय पाई ।

विप्रमतीसी

मुनहु सभन्दि मिलि विप्रमतीसी, हरि बिनु बूड़ी नाव भरी सी ।
ब्राह्मन होय कै ब्रह्म न जानै, घर मँह जग्य प्रतिग्रह आनै ॥
जे सिरजा तेहि नहिं पढ़िचानै, करम धरम लै बैठि बखानै ।
ग्रहन अमावस सायर दूजा, सांती पाठं परोजन पूजा ॥
प्रेत कनक मुख अंतर वासा, आहुति सहित होम कै आसा ।
कुल उत्तिम जगमांहि कहावै, फिरि फिरि मधिम करम करावै ॥
सुत दारा मिलि जूठो खाई, हरि भक्ता के छूति लगाई ।
करम असौच उचिष्टा खाहीं, मति भरिष्ट जम लोकहिं जाहीं ॥
नहाय खोरि उत्तिम होय आवै, विस्तु भगत देखे दुख पावै ।
स्वारथ लागि रहै बेकाजा, नाम लेत पावक जाँ डाजा ॥
रामकृष्ण की छोड़िन्हि आसा, पढ़ि गुनि भये किरतिम के दासा ।
करम पढ़ै करमहिं को धावै, जे पूछे तेहि करम दिदावै ॥
निह करमी कै निंदा कीजै, करम करै ताही चित दीजै ।
ऐसी भक्ति भगवंत की लावै, हिरनाकुस को पंथ चलावै ॥
देखहु कुमति केर परगासा, भये अभि अंतर किरतिम दासा ।
जाके पूजे पाप न ऊड़ै, नाम सुमिरिनी भव महुँ बूड़ै ॥
पाप पुनि के हाथहिं पासा, मारि जगत का कीन्ह बिनासा ।
ई बहनी कुल वहनि कहावै, ई गृह जारै वा गृह मारै ॥
बैठा ते घर साहु कहावै, भीतर भेद मूसि मनहिं लखावै ।
अैसी बिधि सुर बिप्र भनीजै, नाम लेत पंचासन दीजै ॥

बूढ़ि गए नहिं आपु संभारा, ऊंच नीच कहु काहि जोहारा ।
 ऊंच नीच है मधिम बानी, एकै पवन एक है पानी ॥
 एकै मटिया एक कुंभारा, एक सभन्दि का सिरजन हारा ।
 एक चाक सभ चित्र बनाया, नाद विंद के मध्य समाया ॥
 व्यापी एक सकल में जोती, नाम धरे का कहिए भोती ।
 राछस करनी देव कहावै, बाद करै गोपाल न भावै ।
 हंस देह तजि न्यारा होई, ताकर जाति कहै धौं कोई ।
 सेत स्याह की राता पियरा, अबरन बरन की ताता सियरा ॥
 हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, नारि पुरुष का करहु बिचारा ।
 कहिए काह कहा नहीं माना, दास कवीर सोई पै जाना ॥
 बहा है बहि जात है, कर गहि ऐंचहु और ।
 समुभाये समुझै नहीं, देहु धका दुइ और ॥



कहरा

सहज ध्यान रहु सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो ।
 मेली सिस्ति चराचित्त राखहु, रहहु दिस्ति लौ लाई हो ॥
 जस दुख देखि रहहु यहि औसर, अस सुख होई है पाये हो ।
 जो खुदुकार वेगि नहि लागै, हिरदय निवारहु कोहू हो ॥
 मुकुति की डोरि गाढ़ि जनि खँचहु, तव बाभी बड़ रोहू हो ।
 मनुवहिं कहहु रहहु मन मारे, खिमुवा खीभि न बोलै हो ॥
 मानू मीत मीतैयौ न छोड़ै, कवहुँ गाँठि न खोलै हो ।
 भोगौ भोग भुगुति जनि भूलहु, जोग जुगुति तन साधहु हो ॥
 जो यहि भाँति करहु मतवाली, ता मत के चित बाँधहु हो ।
 नाहि तौ ठाकुर है अति दारुन, करिहै चाल कुचाली हो ॥
 बाँधि मारि डाँडि सभ लैहैं, छुटिहै सभ मतवाली हो ।
 जबही साँवत आनि पहुँचै, पीठि साँटि भल टूटिहै हो ॥
 ठाढ़े लोग कुटुम सभ देखैं, कहे काहु के न छूटिहै हो ।
 एक तो निहुरि पाँव परि विनचै, विनति किये नहिं मानै हो ॥
 अनचिन्ह रहेउ न कियेहु चिन्हारी, सो कैसे पहिचानै हो ।
 लीन्ह बोलाय बात नहिं पूछै, केवट गरभ ते न बोले हो ॥
 जेकरे गाँठि समर कछु नाहीं, सो निरधन होय डोलै हो ।
 जिन्ह सर्भ जुक्ति अगमन कै राखिनि, धरनि माछ भरि डेहरि हो ॥
 जेकरे हाथ पाँव कछु नाहीं, धरै लागु तेहि सोहरि हो ।
 पेलना अछत पेलि चलु बौरै, तीर तीर का टोवहु हो ॥
 उथले रहहु परहु जनि गहिरे, मति हाथहु की खोवहु हो ।
 ऊपर के घाम तरे कै भूँशुरि, छाँह कतहु नहिं पायहु हो ॥

पा० १-सिस्त । २-चरा चित । ३-कमज । ४-नीठि, अनिष्ट । ५-तन ।

ऐसनि जानि पसीजहु सीभहु, कस न छतरिया छायहु हो ।
 जो कछु खेल किये सो कीयेहु, बहुरि खेल कस होई हो ॥
 सासु ननद दोउ देत उलाहन, रहहु लाज मुख गोई हो ।
 गुर भौ ठील गोनि भै लचपचि, कहा न मानेहु मोरा हो ॥
 ताजी तुरुकी कवहुँ न साजेहु चढ़ेहु काठ के घोरा हो ।
 ताल भौँभ भल बाजत आवै, कहरा सभ कोई नाचै हो ॥
 जेहि रंग दुलह वियाहन आये, तेहि रंग दुलहिनि राँचै हो ।
 नौका अछत खेवै नहिँ जानहु, कैसे लगवहु तीरा हो ॥
 कहँहिँ कवीर राम रस माते, जोलहा दास कवीरा हो ॥ १ ॥
 मत सुनु मानिक मत सुनु मानिक, हिरदया बंद निवारहु हो ।
 अटपट कुंभरा करै कुंभरैया, चमरा गाँव न बाँचै हो ॥
 नित उठि कोरिया बेठ भरतु है, छिपिया आँगन नाचै हो ।
 नित उठि नौवा नाव चढ़तु है, बेरहि बेरा बोरै हो ॥
 राउर की कछु खवरि न जानहु, कैसे क भगरा निवेरहु हो ।
 एक गाँव में पाँच तरुनि वसै, तामह जेठ जेठानी हो ॥
 आपन आपन भगरा पसारिनि, पिया सो प्रीति नसानी हो ।
 भौंसिन्ह माँह रहत नित बकुला, तकुला ताकि न लीन्हा हो ॥
 गाइन्हँ माँह वसेउ नहिँ कबहुँ, कैसे कै पद पहिचनवहु हो ।
 पंथी पंथ पूँछि नहिँ लीन्हो, मूढ़हि मूढ़ गँवारा हो ॥
 घाट छाँड़ि कस औघट रंगहु, कैसे कै लगवहु तीरा हो ।
 जतइत के धन हेरिन्हि ललचिन, कोदइत के मन दौरा हो ॥
 दुइ चकरी जनि दरन पसारहु, तब पैहौ ठिक ठौरा हो ।
 प्रेम बान एक सतगुरु दीन्हा, गाढ़ो तीर कमाना हो ॥
 दास कवीर कीन्ह यह कहरा, महरा माहिँ समाना हो ॥ २ ॥

राम नाम को सेवहु वीरा, दूरि नाहि दुरि आसा हो ।
 और देव का पूजहु वीरे, ई सभ भूठी आसा हो ॥
 ऊपर उजर कहा भौ वीरे, भीतर अजहूँ कारो हो ।
 तन के विरघ कहा भौ वीरे, मनुआ अजहूँ वारो हो ॥
 मुख के दाँत गए कहा वीरे, भीतर दाँत लोहे के हो ।
 फिरि फिरि चना चवाउ विषै के, काम क्रोध मद लोभ के हो ॥
 तन की सकल संग्या घटि गयऊ, मनहि दिलासा दूनी हो ।
 कहँहि कबीर सुनहु हो संतो, सकल सयानप ऊनी हो ॥ ३ ॥

ओइन मोरा रामनाम, मैं रामहिं का बनिजारा हो ।
 राम नाम की करहुँ बनिजिया, हरि मोरा हटवाई हो ॥
 सहसनाम का करौँ पसारा, दिन दिन होत सवाई हो ।
 जाके देव वेद पछ राखा ताके होत अढ़ाई हो ॥
 कानि तराजू सेर तिन पौवा, डंढकैँ ढोल बजाई हो ।
 सेर पसेरी पूरा कैले, पासंग कतहु न जाई हो ॥
 कहँहि कबीर सुनहु हो संतो, जोर चला जहँडाई हो ॥ ४ ॥

राम नाम भजु राम नाम भजु, चेति देखु मन माहीं हो ।
 लच्छ करोरि जोरि धन गाड़िनि, चलत डोलावत वांही हो ॥
 दादा बाबा औ परपाजा, जिन्ह के ई भुइ भाँडे हो ।
 आँधर भए हियहु की फूटी, तिन्ह काहे सभ छाँडे हो ॥
 ई संसार असार को धंधा, अंतकाल कोई नाहीं हो ।
 उपजत बिनसत बार न लागै, जौ बादर की छाँहीं हो ॥
 नाता गोता कुल कुटुम सभ, इन्ह की कौन बड़ाई हो ।
 कहँहि कबीर एक राम भजे बिजु, बूड़ी सभ चतुराई हो ॥ ५ ॥

राम नाम विनु राम नाम विनु, मिथ्या जनम गवाँई हो ।
 सेमर सेइ सूवा ज्यों जँहड़े, ऊन परे पछिताई हो ॥
 जैसे मदपी गांठि अरथ दे, घरहु कै अकिल गवाँई हो ।
 स्वादै वोद्र भरै दहुँ कैसे, ओसैं प्यान्न न जाई हो ॥
 दर्द हीन कैसन पुरुषारथ, मनहीं मांह तवाँई हो ।
 गांठी रतन मरम नहिं जानै, पारख दीन्हा छोरी हो ॥
 कहँहिं कबीर यहि औसर बीते, रतन न मिलै बहोरी हो ॥ ६ ॥

रहहु सँभारे राम-बिचारे, कहता हौं जो पुकारे हो ।
 मूड़ मुडाय फूलि कै बैठे, मुद्रा पहिरि मंजूसा हो ॥
 तेहि ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो ।
 गाँव बसतु है गरब भारती, वाम काम हंकारा हो ॥
 मोहन जहाँ तहाँ लै जइहँ, नहि पति रहै तोहरा हो ।
 मांझ मंभरिया वसै जो जानै, जन होइ हैं सो थीरा हो ॥
 निरभै हूँ रहु गुरु की नगरिया, सुख सोवै दास कबीरा हो ॥ ७ ॥

छेम कुसल औ सही सलामत, कहहु कवन को दीन्हा हो ।
 आवत जात दोऊ विधि लूटैं, सर्व तंग हरि लीन्हा हो ॥
 सुर नर मुनि जति पीर औलिया, मीरा पैदा कीन्हा हो ।
 कहँ लौं गनौ अनंत कोटि लौं, सकल पयाना कीन्हा हो ॥
 पानी पौन अकास जाहिंगे, चंद जाहिंगे सूरा हो ।
 ए भी जाहिंगे वो भी जाहिंगे, परत न काहु के पूरा हो ॥
 कुसलै कहत कहत जग बिनसै, कुसल काल की फांसी हो ।
 कहँहिं कबीर सारी दुनिया बिनसै, रहँ राम अबिनासी हो ॥ ८ ॥

अँसनि देह निरालपं बौरे, मुये खुवै नहि कोई हो ।
 डांड कै डोरिया तोरि लराइन, जो कोटिन धन होई हो ॥
 उर्ध निसासा उपजि तरासा, हकरान्हि परिवारा हो ।
 जो कोई आवै बेगि चलावै, पल एक रहन न पाई हो ॥
 चंदन चूरं चतुर सभ लेपहिं, गरे गजमुकुता हारा हो ।
 चहुँदिसिं गीध मुये तनलूटै, जंबुक वोद्र बिदारा हो ॥
 कहहिं कबीर सुनहु हो संतो, ग्यान हीन मतिहीना हो ।
 एक एक दिन यह गति सभकी, काह राव का दीना हो ॥ ९ ॥

हौं सभहिन में हौं ना हौ मोंहि, बिलग बिलग बिलगाई हो ।
 ओढ़न मेरा एक पिछौरा, लोग बोलैं एकताई हो ॥
 एक निरन्तर अन्तर नाहीं, जौं ससि घट-जल भाई हो ।
 एक समान कोई समुझत नाहीं, जरा मरन भर्म जाई हो ॥
 रैनि दिवस मैं तहवां नाहीं, नारि पुरुष समताई हो ।
 ना मैं बालक बूढ़ो नाहीं, ना मोरे चिलकाई हो ॥
 तिरबिधि रहौं सभनि मां बरतौं, नाम मोर रसुराई हो ।
 पठये न जाउं आने नहि आवौं, सहज रहौं दुनियाई हो ॥
 जोलहा तान बान नहिं जानै, फाँटि बिनै दस ठाई हो ।
 गुरु-परताप जिन्हैं जस भाषो, जन बिरले सुधि पाई हो ॥
 अनंत कोटि मन हीरा बेधौ, फिटकी मोल न पाई हो ।
 सुर नर मुनि जाके खोजपरे हैं, कछु कछु कबीरान्हि पाई हो ॥ १० ॥

ननदी गे तै विषम सोहागिनि, तैं निंदले संसारा गे ।
 आवत देखि एक संग छती, तैं औ खसम हमारा गे ॥

मोरे बाप के दुइ मेहररुआ, मैं औ मोर जेठानी ने ।
जब हम अइलीं रसिकके जगमें, तबहिं बात जग जानी ने ॥
माई मोर मुअल पिताके संगे, सरा रचि मुअल संघाती ने ।
अपने मुवलि और लै मुवली, लोग कुडुम संग साथी ने ॥
जौलौं साँस रहै घट भीतर, तौलौं कुसल परी है ने ।
कहाँहि कबीर जब साँस निसरि गौ, मंदिल अनल जरी है ने ॥११॥

या माया रघुनाथ की बोरी, खेलन चली अहेरा हो ।
चतुर चिकनियाँ चुनि चुनि मारे, काहु न राखै नेरा हो ॥
मौनी बीर दिगंबर मारे, ध्यान धरते जोगी हो ।
जंगल मे के जंगम मारे, माया किन्हहुँ न भोगी हो ॥
बेद पढते पांडे मारे, पूजा करंते सामी हो ।
अरथ बिचारत पंडित मारे, बांधे सकल लगामी हो ॥
सिंगी रिषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो ।
नाथ मछंदर चले पीठिदै, सिंघल हूँ में बोरी हो ॥
साकट के घर करता धरता, हरि भगतन की चेरी हो ।
कहाँहि कबीर सुनहु हो संतो, ज्यौं आवै त्यों फेरी हो ॥ १२ ॥



बसंत

जहाँ बारह मास बसंत होय, परमारथ बूझै बिरला कोय ।
 बरसै अगिन अखंडधार, बन हरियर भौ अठारह भार ॥
 पनियाँ अन्दर घरेन कोय, पौन गहै कस मलिन धोय ।
 बिनु तरवर फूले अकास, सिव विरंचि तहँ लेहि बास ॥
 सनकादिक भूले भवर बोय, लखु चौरासी जोइनि जोय ।
 जो तोहिं संतगुरु सत्त लखाव, ताते न छूटै चरन भाव ॥
 अमर लोक फल लावै चाव, कहँहि कबीर बूझै सो पावै ॥१॥

रसना पढ़ि लेहु श्री बसंत, पुनि जाय परिहो जम के फंद ।
 मेरु दंड पर डंक दीन्ह, अष्ट कवल परजारि दीन्ह ॥
 ब्रह्म अगिनि कियो प्रगास, अर्ध उर्ध तहँ वहै बतास ।
 नौ नारी परिमल सो गाँव, सखी पाँच तहँ देखन धाव ॥
 अनहद बाजा रहल पूरि, पुरुष बहत्तरि खेलै धूरि ।
 माया देखि कस रहहु भूलि, जस बनसपती रहलि फूलि ॥
 कहँहि कबीर ई हरि के दास, फगुआ माँगै वैकुंठ बास ॥२॥

मैं आयों मेहतर मिलन तोहिं, रितु बसंत पहिरावहु मोहिं ।
 लम्बी पुरिया पाई छीन, सत पुराना खूँटा तीन ॥
 सर लागे तेहि तीन सै साठि, कसनि बहत्तरि लागु गाँठि ।
 खुर खुर खुर खुर चलै नारि, बैठि जोलाहिन पलथि मारि ॥
 ऊपर नचनियाँ करै कोड़, करिगह में दुइ चलै गोड़ ।
 पाँच पचीसो दसहँ द्वार, सखी पाँच तहँ रची धमार ॥
 रंग बिरंगी पहिरे चीर, हरि के चरन धरि गावै कबीर ॥३॥

बुढ़िया हँसि बोलै मैं नितहि वारि, मोहि अस तरुनि कहौ कौन नारि ।
 दाँत गैल मोर पान खात, केस गैल मोर गंग नहात ॥
 नैन गैल मोर कजरा देत, बैस गैल पर पुरुष लेत ।
 जान पुरुषवा मोर अहार, अनजाने पर करौ सिंगार ॥
 कहँहि कवीर बुढ़िया अनंद गाय, पूत भतारहि बैठी खाय ॥४॥

तुम बूझहु पंडित कवनि नारि, काहु न बियाहल है कुवॉरि ।
 सभ देवन्ह मिलि हरिहि दीन्ह, चारिउ जुग हरि संग लीन्ह ॥
 प्रथमै पदुमिनि रूप आहि, है सांपिनि जग खेदि खाय ।
 ई भर जुवती वै बार नाह, अति रे तेज त्रिय रैनि ताहि ॥
 कहँहि कवीर यह जगत पियारि, अपन बलकवै रहलि मारि ॥५॥

माई मोर मनुसा अती सुजान, धंधा कुटि कुटि करै बिहान ।
 बड़े मोर उठि आँगन बाहु, बड़े खाँच लै गोबर काहु ॥
 बासी भात मनुसँ लीहल खाय, बड़ा घैल लै पानी के जाय ।
 अपने सैयाँ के बांधौ पाट, लै बेचौंगी हाटै हाट ॥
 कहँहि कवीर ये हरि के काज, जोइया के टिगरहि कवनि लाज ॥६॥

घरहि म बाबू बढ़लि रारि, उठि उठि लागै चपल नारि ।
 एक बढ़ी जाके पाँच हाथ, पाँचहु के पचीस साथ ॥
 पचीस बतावै और और, और बतावै कैक ठौर ।
 अंतर मधे अंत लेइ, भकभोरी भोला जीवहि देइ ॥
 आपन आपन चाहँ भोग, कहु कैसे कुसल परी है जोग ।
 बिबेक बिचार न करै कोय, सब खलकतमासा देखै लोय ॥
 मुख फारि हँसै सभ राव रंक, ताते धरै न पावै एकौ अंग ।
 नियरे न खोजै बतावै दूरि, चहुँ दिसि बागुलि रहलि पूरि ॥

लच्छ अहेरी एक जीव, ताते पुकारै पीव पीव ।
अबकी धार जो होय चुकाव, कहँहि कबीर ताको पूर दाँव ॥७॥

कर पल्लौ के बल खेलै नारि, पंडित होय सो लेय विचारि ।
कपड़ा न पहिरै रहै उधारि, निरजिवसो धनि अति पियारि ।
उलटी पलटी बाजै तार, काहू मारै काहू उबार ।
कहँहि कबीर दासन के दास, काहू सुख दे काहू निरास ॥८॥

ऐसो दुर्लभ जात सरिर, राम नाम भजु लागु तीर ।
गये बेनु बलि गए कंस, दुरजोधन गए बूडो बंस ॥
पृथु गये पृथिवी के राव, तिर विक्रम गये रहे न काव ।
छव चकवै मंडलिक भारि, अजहूँ हो नल देख विचारि ।
हनुमत कस्यप जनक बालि, ई सभ छेकल जम के द्वार ।
गोपीचंद भल कीन्ह जोग, रावन मरिगौ करतै भोग ॥
अैसे जात देखि सभन्हि को जान, कहँहि कबीर भजु राम नाम ॥९॥

सभै मदमाते कोइ न जाग, संगहि चोर घर मूसन लाग ।
जोगी माते धरि योग ध्यान, पंडित माते पढ़ि पुरान ॥
तपसी माते तप के भेव, संन्यासी माते करि हमेव ।
मोलना माते पढ़ि मुसाफ, काजी माते दै निसाफ ॥
संसारी माते माया के धार, राजा माते करि हंकार ।
माते सुकदेव ऊधो अंकर, हनुमत माते लै लंगूर ॥
सिव माते हरि चरन सेव, कालि माते नामा जयदेव ।
सच सच कहै सुम्रिति वेद, जस रावन मारो घर के भेद ॥
चंचल मन के अधम काम, कहँहि कबीर भजु राम नाम ॥१०॥

सिव कासी कैसे भइ तोहारि, अजहूँ हो सिव देखु विचारि ।
 चोवा चंदन अंगर पान, घर घर मुन्निति होय पुरान ॥
 बहु विधि भवनन्हि लागु भोग, नगर कोलाहल करत लोग ।
 बहु विधि परजा लोग तोर, तेहि कारण चित ढीठ मोर ॥
 हमरे बलकवा के इहै ग्यान, तोहरा को समुझावै आन ।
 जे जाहि मनसे रहल आय, जीवको मरन कहु कहाँ समाय ॥
 ताकर जो कछु होय अकाज, ताहि दोस नहिँ साहेव लाज ।
 हर हरषित साँ कहल भेव, जहाँ हम तहाँ दुसर न केव ॥
 दिना चारि मन धरहु धीर, जस देखैं तस कहँहिँ कवीर ॥११॥

हमरा कहल के नहिँ पतियार, आपु बूड़े नल सलिल धार ।
 अंध कहै अंधा पतियाय, जस बिसुवा के लगन धराय ॥
 सोतो कहिए ऐसो अबूझ, खसम ठाढ़ टिग नाहीँ झझ ।
 आपन आपन चाहैं मान, भूठ प्रपंच साँच करि जान ॥
 झूठा कवहुँ न करिहै काज, हौँ बरजाँ तोहि सुनु नीलाज ।
 छाँड़हु पाखंड मानहु बात, नाहिँ तौ परिहौ जम के हाथ ॥
 कहँहिँ कवीर नलकियहु न खोज, भटकियुवल जस बन केरोझ ॥१२॥



चाँचर

खेलति माया मोहनी, जिन्ह जेर कियो संसार ।
रच्यो रंग ते चूनरी कोइ, सुन्दरि पहिरे आय ॥
सोभा अदबुद रूप की, महिमा बरनि न जाय ।
चंद्रबदनि मृग लोचनि माया, बुंदका दियो उधार ॥
जती सती सभ मोहिया, गज गति वाकी चाल ॥
नारद को मुख मांड़ि के, लीन्हों वसनं छिनाय ।
गरव गहेली गरव से, उलटि चली मुसुकाय ॥
सिव सन ब्रह्मा दौरि कै, दोउ पकरै जाय ।
फगुआ लियो छिनाय कै, बहुरि दियौ छिटकाय ॥
अनहद धुनि बाजा बजै, सवन सुनत भौ चाव ।
खेलनिहारा खेलि है, जैसी वाकी दांव ॥
अग्यानं ढाल आगेदियो, टारे टरै न पांव ।
खेलनि हारा खेलि है, बहुरि न ऐसो दांव ॥
सुर नर मुनि औ देवता, गोरख दत्ता ब्यास ।
सनक सनंदन हारिया, और की केतिक बात ॥
छिलकत थोथे प्रेम सों, धरि पिचकारी गात ।
करि लीन्हों बसि आपने, फिर-फिर चितवत जात ॥
ग्यान गाड़ लै रोंपिया, त्रिगुन दियो है साथ ।
सिव सन ब्रह्मा लेन कहो है, और की केतिक बात ॥
एक और सुर नर मुनि ठाढ़े, एक अकेली आप ।
द्विष्टि परे उन काहु न छाँड़े, कै लीन्हों एक धाप ॥

जेते थे तेते लिये, घूँघट माँहि समोय ।
 काजर वाकी रेख हैं, अदग गया नहि कोय ॥
 इन्द्र कृस्न द्वारे खड़े, लोचन ललचि लचाय ।
 कहँहि कबीर ते ऊवरे, जाहि न मोह समाय ॥१॥
 जारो जग का नेहरा मन बौरा हो ।
 जामे सोग संताप समुझ मन बौरा हो ॥
 तन धन सों का गर्वसी मन बौरा हो ।
 भसम किरिमि' जाके साज समुझ मन बौरा हो ॥
 बिना नेव का देव घरा मन बौरा हो ।
 विनु कहगिल की ईंट समुझ मन बौरा हो ॥
 कालबूत की हस्तिनी मन बौरा हो ।
 चित्र रचो जगदीस समुझ मन बौरा हो ॥
 काम अन्ध गज बसि परे मन बौरा ।
 अंकुस सहिया सीस समुझ मन बौरा हो ॥
 मरकट मूठी स्वाद की मन बौरा हो ।
 लीन्हौ भुजा पसारि समुझ मन बौरा हो ॥
 छूटन की संसय परी मन बौरा हो ।
 घर घर नाचेउ द्वार समुझ मन बौरा हो ॥
 ऊँच नीच जानेउ नहीं मन बौरा हो ।
 घर घर खायउ डांग समुझ मन बौरा ॥
 जाँ स्रवना ललनी गह्यौ मन बौरा हो ।
 औसो भरम विचार समुझ मन बौरा हो ॥
 पढ़े गुने का कीजिये मन बौरा हो ।
 अंत बिलैया खाय समुझ मन बौरा हो ॥

खने घर का पाहुना मन बौरा हो ।
 ज्यों आवै त्यों जाय समुझ मन बौरा हो ॥
 नहाने को तीरथ घना मन बौरा हो ।
 पूजन को बहु देव समुझ मन बौरा हो ॥
 विनु पानी नल बूढ़ि हो मन बौरा हो ।
 टेकहु^१ नाम जहाज समुझ मन बौरा हो ॥
 कहँहि^२ कवीर जग भरमिया मन बौरा हो ।
 छाँड़ेहु^३ हरि की सेव समुझ मन बौरा हो ॥२॥



बेलि

हंसा सरवर सररीर में हो रमैया राम ,
जागत चोर धर मूसल हो रमैया राम ।
जो जागल सो भागल हो रमैया राम ,
सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम ॥
आजु बसेरा नियरे हो रमैया राम ,
कान्हि बसेरा दूरि हो रमैया राम ।
जैहो' बिराने देस हो रमैया राम ,
नैन भरहुगे धूरि हो रमैया राम ॥
त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम ,
भवन मथेउ भरि पूरि हो रमैया राम ।
फिर हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम ,
बेधिनि पद निरवान हो रमैया राम ॥
तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम ,
हटलो न मानेहु मोर हो रमैया राम ।
जसरे कियहु तस पायहु हो रमैया राम ,
हमरे दोष जनि देहु हो रमैया राम ॥
अगम काटि गम कीयहु हो रमैया राम ,
सहज कियहु वैपार हो रमैया राम ।
राम नाम धन बनिज कियहु हो रमैया राम ,
लादेहु बस्तु अमोल हो रमैया राम ॥
पाँच लदनुवां लादि चले हो रमैया राम ,
नौ बहिया दस गोनि हो रमैया राम ।
पाँच लदनुवा खाँगि परे हो रमैया राम ,

खांखरि डारिनि फोरि हो रमैया राम ,
 सिर धुनि हंसा उड़ि चलै हो रमैया राम ।
 सरवर मीत जोहारि हो रमैया राम ,
 आगि जो लागी सरवर में हो रमैया राम ।
 सरवर जरि भौ धूरि हो रमैया राम ,
 कहँहि कबीर सुनु संतों हो रमैया राम ।
 परखि लेहु खरा खोट हो रमैया राम ॥ १ ॥

भल सुम्रिति जहँडायहु हो रमैया राम ,
 धोखे कियहु बिसवास हो रमैया राम ।
 सो तो है बन सीकसी हो रमैया राम ,
 सो रे कियहु बिसवास हो रमैया राम ।
 ई तो है वेद भागवत हो रमैया राम ,
 गुरु दीहल मोहिं थापि हो रमैया राम ।
 गोबर कोट उचाण हो रमैया राम ।
 परिहरि जैबहु खेत हो रमैया राम ॥
 बुधि बल जहाँ न पहुँचै हो रमैया राम ,
 तहाँ खोज कस होई हो रमैया राम ।
 सो सुनि मन धीरज भयल हो रमैया राम ,
 मन बढ़ि रहल लजाय हो रमैया राम ॥
 फिरि पाछे जनि हेरहु हो रमैया राम ,
 कालवूर्त सब आहिं हो रमैया राम ।
 कहँहि कबीर सुनो सन्तो हो रमैया राम ,
 मन बुधि मति फैलावहु हो रमैया ॥२॥

बिरहुली

आदि अन्त नहिं होत बिरहुली, नहिं जर पल्लौ पेड़ बिरहुली ।
निसु वासर नहिं होत बिरहुली, पौन पानी नहिं मूल बिरहुली ॥
ब्रह्मादिक सनकादि बिरहुली, कथि गेल जोग अपार बिरहुली ।
मास असाढ़े' सीतल बिरहुली, बोइनि सातो बीज बिरहुली ॥
नित कोड़े नित सीचै बिरहुली, नित नव पल्लौ पेड़ बिरहुली ।
छिछिल बिरहुली छिछिल बिरहुली, छिछिल रहलतिहुँलोक बिरहुली
फूल एक भल फूलल बिरहुली, फूलि रहल संसार बिरहुली ॥
सो फूल लोरै' संत जना बिरहुली, बंदिके राउर जाँहि बिरहुली ॥
सो फूल वन्दहिं भक्त बिरहुली, डसि गैल बैतल साँप बिरहुली ।
विषहर मंत्र न मान बिरहुली, गारुड़ि बोलै अपार बिरहुली ॥
विष की कियारी बोयहु बिरहुली, लोढ़त का पछिताहु बिरहुली ।
जनम जनम जम अंतर बिरहुली, फल एक कनयर डार बिरहुली ॥
कहँहिं कबीर सचुपाव बिरहुली, जो फल चाखहु मोर बिरहुली ॥१॥

हिंडोला

भरम हिंडोलना भूलै सब जग आय ,
 पाप पुत्रि के खंभा दोऊ मेरु माया मांहि ।
 लोभ मरुवा बिषै भँवरा काम कीला ठानि ,
 सुभ अमुभ बनाय डाँडी गहै दोनौ पानि ॥
 करम पटरिया बैठिकै को को न भूलै आनि ,
 भूलै गन गंध्रप मुनिवर भूलै सुरपनि इंद्र ।
 भूलै नारद सारदा भूलै व्यास फनिंद ,
 भूलै त्रिंचि महेस सुक मुनि भूलै सरज चन्द ॥
 आपु निरगुन सगुन होय के भूलिया गोविंद ,
 छौ चारि चौदह सात इकइस तीनि लोक बनाय ।
 खानी बानी खोजि देखहु थिर न कोउ रहाय ,
 खंड ब्रह्मंड षट दरसना छूटत कतहूँ नाहिं ॥
 साधु संत विचारि देखहु जीव तरि कहँ जाहिं ,
 ससि सर रैनी सारदी तहाँ तत्त पल्लौ नाहिं ।
 काल अकाल प्रलै नहीं तहाँ संत बिरलै जाहिं ,
 तहाँ के बिछुरे बहु कल्प बीते भूमि परे भुलाय ॥
 साधु संगति खोजि देखहु बहुरि उलटि समाय ,
 यह भूलिबे की भय नहीं जो होहिं संत सुजान ।
 कहँहि कबीर सत सुकित मिलै तौ बहुरि न भूलै आय ॥१॥
 बहु बिधि चित्र बनाय के हरि रच्यो क्रीड़ा रास ।
 जाहि न इच्छा भूलिबे की ऐसी बुधि केहि पास ॥

भूलत भूलत बहु कल्प बीते मन नहिं छोड़ै आस ।
 रच्यो^१ हिंडोला अहो निसि चारि जुग चौमास ॥
 कवहुँ ऊँचे कवहुँ नीचे मरग भूमि ले जाय ।
 अति भरमत^२ भरम हिंडोलना नेकु नहीं ठहराय ॥
 डरपत हौं यह भूलित्रे को राखु जादव राय ।
 कहँहिं कवीर गोपाल विनती सरन हरि तुम पास ॥ २ ॥

लोभ मोह के खंभा दोऊ मनसे रच्यो हिंडोल ।
 भूलहिं जीव जहान जहाँ लगि कतहुँ नहीं थित ठौर ॥
 चतुरा भूलहिं चतुराइया भूलहिं राजा सेस ।
 चाँद सरज दोउ भूलहिं उनहुं न अग्या भेव ॥
 लख चौरासी जीव भूलहिं रविसुत धरिया ध्यान ।
 कोटि कल्प जुग बीतल अजहुँ न मानै हारि ॥
 धरति अकास दोऊ भूलहिं भूलहिं पवना नीर ।
 देह धरे हरि भूलहिं ठाढ़े देखहिं हंस कवीर ॥

साखी

जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोय ।
छठी तिहारी हों जगा, तू कहाँ चला विगोय ॥ १ ॥

सब्द हमारा तू सब्द का, सुनि मति जाहु सरक ।
जो चाहो निज तत्व को, सब्दहिँ लेहु परभख ॥ २ ॥

सब्द हमारा आदि का, सब्दै पैठा जीव ।
फूल रहनि की टोकरी, घोरे खाया घीव ॥ ३ ॥

सब्द बिना स्तुति आँधरी, कहो कहाँ को जाय ।
द्वार न पावै सब्द का, फिरि फिरि भटका खाय ॥ ४ ॥

सब्द सब्द बहु अंतरा, सार सब्द मत लीजै ।
कहाँहिँ कबीर जेहि सार सब्द नहिँ, धिग जीवन सो जीजै ॥ ५ ॥

सब्दै मारा गिरि परा, सब्दै छोड़ा राज ।
जिन जिन सब्द विवेकिया, तिनकौ सरिगौ काज ॥ ६ ॥

सब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद ।
अन्त फलेगी माहली, ऊपर की सब बाद ॥ ७ ॥

जिन जिन सम्बल न कियो, अस पुर पाटन पाय ।
भालि परे दिन अथये, सम्बल कियौ न जाय ॥ ८ ॥

इहाँई सम्बल करिले, आगे बिषई बाट ।
सुरग बिसाहन सब चले, जहाँ बनिया ना हाट ॥ ९ ॥

जो जानहु जिय आपना, करहु जीव को सार ।
 जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार ॥१०॥
 जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव ।
 पानिप चाहहु आपना, पानी माँगि न पीव ॥११॥
 पानि पियावत का फिरौ, घर घर सायर वारि ।
 त्रिषार्वंत जो होयगा, पीवेगा भ्रुख मारि ॥१२॥
 हंसा मोती बिकानियाँ, कंचन थार भराय ।
 जाको मरम न जानई, ताको काह कराय ॥१३॥
 हंसा तू सुवरन बरन, का बरनों में तोहिं ।
 तरवर पाय पहेलि हो, तवै सराहौं तोहिं ॥१४॥
 हंसा तू तो सबल था, हलुकी अपनी चाल ।
 रंग कुरंगे रंगिया, किया और लगवार ॥१५॥
 हंसा सरवर तजि चले, देही परिगौ सून ।
 कहहिं कबीर पुकारि के, तेही दर तेहि धून ॥१६॥
 हंस बग देखा एक रंग, चरै हरियरे ताल ।
 हंस छीर ते जानिये, बागु उधरे ततकाल ॥१७॥
 काहे हरनी दूबरी, यही हरियरे ताल ।
 लच्छ अहेरी एक भ्रिग, केतिक टारै भाल ॥१८॥
 तीन लोक भौ पीजरा, पाप पुन्न भौ जाल ।
 सकल जीव सावज भये, एक अहेरी काल ॥१९॥
 लोभै जनम गवाँइया, पापै खाया पुन्न ।
 साधी सौं आधी कहै, तापर मेरा सुन्न ॥२०॥

आधी साखी सिर खड़ी, जो निरुवारी जाय ।
 का पंडित की पोथिया, राति दिवस मिलि गाय ॥२१॥
 पाँच तत्त का पूतरा, जुगुति रची में कीव ।
 में तोहि पूछौं पंडिता, सब्द बड़ा की जीव ॥२२॥
 पाँच तत्त का पूतरा, मानुस धरिया नाँव ।
 एक कला के विछुरे, विकल होत' सब ठाँव ॥२३॥
 रंगहि ते रंग ऊपजे, सभ रंग देखा एक ।
 कौन रंग है जीवका, ताका करहु विवेक ॥२४॥
 जाग्रित रूपी जीव है, सब्द सोहागा सेत ।
 जराद बुन्द जल कूकुही, कहँहि कबीर कोइ देख ॥२५॥
 पाँच तत्तु ले या तन कीन्हाँ, सो तन काहि लै दीन्हा ।
 कर्महि के बस जीव कहत है, कर्महि को जीव दीन्हा ॥२६॥
 पाँच तत्तु के भीतर, गुप्त वस्तु अस्थान ।
 विरल मरम कोई पाइहै, गुरु के सब्द प्रमान ॥२७॥
 असुन तखत अडि आसना, पिंड भरोखे नूर ।
 ताके दिल में हौं वसौं, सेना लिए हजूर ॥२८॥
 हिरदया भीतर आरसी, मुख देखा नहि जाय ।
 मुख तो तबहीं देखि हो, दिल की दुविधा जाय ॥२९॥
 भाँव ऊँच पहाड़ पर, औ मोटे की बाँह ।
 ऐसा ठाकुर सेइये, उबरिये जाकी छाँह ॥३०॥
 जेहि मारम गये पंडिता, तेई गये वहीर ।
 ऊँची घाटी राम की, तहँ चढ़ि रहै कबीर ॥३१॥

ऐ कबीर तैं उतरि रहु, संबल परोहन साथ ।
 संबल घटे औ पग थके, जीव बिराने हाथ ॥३२॥
 कबीर का घर सिखर पर, जहाँ सिलहली गैल ।
 पाँव न टिकै पिपील का, खलकन लादै बैल ॥३३॥
 बिन देखे बोहि देस की, बात कहै सो कूर ।
 आपुहि खारी खात है, बंचत फिरै कपूर ॥३४॥
 सब्द सब्द सब कोइ कहैं, वो तो सब्द बिदेह ।
 जिभ्या पर आवै नहीं, निरखि परखि करि लेह ॥३५॥
 परवत ऊपर हर बहै, घोरा चढ़ि बस गाँव ।
 बिना फूल भौरा रस चाहे, कहु बिरवा को नाँव ॥३६॥
 चन्दन बास निवारहु, तुझ कारन बन काटिया ।
 जियत जीव जनि मारहु, मूये सभै निपातिया ॥३७॥
 चन्दन सरप लपेटिया, चन्दन काह कराय ।
 रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाय ॥३८॥
 जौ मोदाद समसान सिल, सबै रूप समसान ।
 कहँहि कबीर वहि सावज की गति, तव की देखि भुकान ॥३९॥
 गही टेक छोड़ै नहीं, जीभ चोंच जरि जाय ।
 ऐसा तपत अँगार है, ताहि चकोर चवाय ॥४०॥
 चकोर भरोसे चन्द्र के, निगले तप्त अँगार ।
 कहँहि कबीर डाहै नहीं, ऐसी वस्तु लगार ॥४१॥
 भिलमिल भगरा भूलते, बाकी छूटि न काहु ।
 गोरख अँटके कालपुर, कौन कहावै साहु ॥४२॥

गोरख रसिया जोग के, मुये न जारी देह ।
 मांस गली माटी मिली, कोरी माँजी देह ॥४३॥
 बन ते भागि विहड़े परा, करहा अपनी बान ।
 बेदन करहा कासो कहै, को करहा को जान ॥४४॥
 बहुत दिवस ते हींड़िया, सुन्नि समाधि लगाय ।
 करहा पड़ा गाड़ में, दूरि परा पछिताय ॥४५॥
 कवीर भरम न माजिया, बहु विधि धरिया भेख ।
 साईं के परिचै बिना, अंतर रहि गई रेख ॥४६॥
 बिनु डाँड़े जग डाँड़िया, सोरठ परिया डाँड़ ।
 बाँटनहारा लोभिया, गुर ते मीठी खाँड़ ॥४७॥
 मलयागिर की बास में, ब्रिछ रहे सब गोय ।
 कहवे को चंदन भये, मलयागिर ना होय ॥४८॥
 मलयागिर की बास में, बेधे टाक पलास ।
 बेना कवहुँ न बेधिया, जुग जुग रहते पास ॥४९॥
 चलते चलते पगु थका, नगर रहा नौ कोस ।
 बीचहि मा डेरा परा, कहहु कौन को दोस ॥५०॥
 भालि परे दिन आथये, अंतर परि गई साँभ ।
 बहुत रसिक के लागते, बेसवा रहि गई बाँभ ॥५१॥
 मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाँव ।
 छौ मास के हींड़ते, आध कोस पर गाँव ॥५२॥
 ग्रिह तजि भये उदासी, बन खंड तप को जाय ।
 चोला थाके मारिया, बेरइ चुनि चुनि खाय ॥५३॥

राम नाम जिन चीहियाँ, भीना पंजर तासु ।
 नैन न आवै नींदरी, अंग न जामै मासु ॥५४॥
 जो जन भीजै राम रस, बिगसित कबहुँ न रूख ।
 अनभौ भाव न दरसई, ताको सुख न दुख ॥५५॥
 काटे आम न मौरसी, फाटे जुटै न कान ।
 गोरख पारस परस बिनु, कौने को चुकसान ॥५६॥
 पारस रूपी जीव है, लोह रूप संसार ।
 पारस ते पारस भया, परसि भया टकसार ॥५७॥
 प्रेम पाट का चोलना, पहिरि कबीरा नाँच ।
 पानिप दीन्हौ तासु को, तन मन बोलै साँच ॥५८॥
 दरपन केरी गुफा में, सुनहा पैठा धाय ।
 देखी प्रतिमा आपनी, भूँकि भूँकि मरि जाय ॥५९॥
 दरपन प्रतिबिंब देखिये, आप दुहुन मा सोय ।
 या तत ते वा तत्त है, पुनि याही है सोय ॥६०॥
 जोवन सायर मूकते, रसिया लाल कराहिं ।
 अब कबीर पाँजी परे, पंथी आवहिं जाहिं ॥६१॥
 दोहरा तो नूतन भया, पदहिं न चीन्है कोय ।
 जिन यह शब्द विवेकिया, छत्र धनी है सोय ॥६२॥
 कबीर जात पुकारिया, चढ़ि चन्दन की डार ।
 बाट लगाये ना लगे, पुनि का खेत हमार ॥६३॥
 सबते साँचा है भला, जो साँचा दिल होय ।
 साँच बिना सुख नाहिन, कोटि करे जो कोय ॥६४॥

साँचा सौदा कीजिये, अपने मन में जानि ।
 साँचे हीरा पाइए, भूठे मूलहु हानि ॥६५॥
 मुक़्त बचन मानै नहीं, आपु न करै विचार ।
 कहुँहि कबीर पुकारि के, सपने गया संसार ॥६६॥
 आगि जो लागी समुद्र में, धुवाँ न परगट होय ।
 जाने सो जो जरि मुवा, जाकी लाई सोय ॥६७॥
 लाई लावन हार की, जाकी लाई पर जै ॥
 बलिहारी लावन हार की, छप्पर बाँचे घर जै ॥६८॥
 बूंद जो परी समुद्र में, सो जानत सब कोय ।
 समुद्र समाना बूंद में, जानै बिरला कोय ॥६९॥
 जहर जिमी दै रोंपिया, असी सींचै सौ बार ।
 कबीर खलक ना तजै, जामें जौन विचार ॥७०॥
 धौकी डाही लाकड़ी, वो भी करै पुकार ।
 अब जो जाय लुहार घर, डाहै दूजी बार ॥७१॥
 बिरह की ओदी लाकड़ी, सपचै औ धुंधुवाय ।
 दुख ते तबही बाँचिहो, जब सकलो जरि जाय ॥७२॥
 बिरह वान जेहि लागिया, औपध लगे न ताहि ।
 सुमुक्ति सुमुक्ति मरि मरि जिये, उठे कराहि कराहि ॥७३॥
 साँचा सब्द कबीर का, हिरदय देखु विचारि ।
 चित दे समुझै नहीं, कहत भयल जुग चारि ॥७४॥
 जो तू साँचा वानिया, साँची हाट लगाव ।
 अंदर झारु देह के, कूरा दूरि बहाव ॥७५॥

कोठी तो है काठ की, ढिग ढिग दीन्हीं आगि ।
 पंडित जरि झोली भये, साकट उवरे भागि ॥७६॥
 सावन केरा मेहरा, बुंद परा असमान ।
 सब दुनिया वैसनव भई, गुरु नहि लागा कान ॥७७॥
 ढिग बूड़ा उझरा नहीं, याहि अँदेसा मोहिं ।
 सलिल मोह की धार में, नीदरि आई तोहि ॥७८॥
 साखी कइ गहै नहीं, चाल चली नहि जाय ।
 सलिल मोह नदिया वहै, पाँव नहीं ठहराय ॥७९॥
 कहता तो बहुतै भिजे, गहता मिला न कोय ।
 सो कहता वहि जान दे, जो नहि गहता होय ॥८०॥
 एक एक निरुवारिये, जो निरुवारी जाय ।
 दुइ दुइ मुख का बोलना, घना तमाचा खाय ॥८१॥
 जिभ्या को तो बंद दै, बहु बोलन निरुवार ।
 सो सारथि^१ से संग करु, गुरु मुख सब्द विचार ॥८२॥
 जाके जिभ्या बंध नहि, हिरदया नाही साँच ।
 ताके संग न लागिये, घाले बटिया माँझ ॥८३॥
 प्राणी तो जिभ्या डिगा, छिन छिन बोल कुबोल ।
 मन घाले भरमत फिरै, कालहिं देय हिंडोल ॥८४॥
 हिलगी भाल सरीर में, तीर रहा है टूटि ।
 चुंबक विन निसरै नहीं, कोटि पाहन गे छूटि ॥८५॥
 आगे सीढ़ी साँकरी, पाछे चकनाचूर ।
 परदा तर की सुंदरी, रही धका दे दूर ॥८६॥

संसारी समय विचारिया, कोइ गिरही कोइ जोग ।
 अक्सर मारे जात है, चेतु बिराने लोग ॥८७॥
 संसै सब जग खंधिया, संसै खंधै न कोय ।
 संसै खंधे सो जना, सब्द विवेकी होय ॥८८॥
 बोलन है बहु भाँति का, नैन कछू नहिं स्रभ ।
 कहँहिं कवीर पुकारि के, घट घट बानी ब्रूम ॥८९॥
 मूल गहे ते काम है, तैं मति भरम भुलाव ।
 मन सायर मनसा लहरि, वहिं कतहूँ मति जाव ॥९०॥
 भँवर बिलंबे वाम में, बहु फूलन की वास ।
 जीव बिलंबे विपै में, अंतहु चले निरास ॥९१॥
 भँवर जाल बगु जाल हैं, बूड़े बहुत अचेत ।
 कहँहिं कवीर ते बाँचि है, जाके हृदै विवेक ॥९२॥
 तीनि लोक टीढ़ी भये, उड़ै जो मन के साथ ।
 हरि जाने बिनु भटकते, परे काल के हाथ ॥९३॥
 नाना रंग तरंग है, मन मकरन्द अस्रभ ।
 कहँहिं कवीर पुकारि कै, अकिल कला ले ब्रूम ॥९४॥
 बाजीगर का वानरा, अैसे जीउ मन साथ ।
 नाना नाच नचाय कै, राखै अपने हाथ ॥९५॥
 यह मन चंचल चोर है, यह मन सुद्ध ठगार ।
 सुर नर मुनि जहँड़ाइया, मन के लच्छ दुवार ॥९६॥
 बिरह भुवंगम तन डस्यो, मंत्र न मानै कोय ।
 राम बियोगी ना जियै, जियै तौ वाउर होय ॥९७॥

राम वियोगी विकल तन, इन दुखवौ मति कोय ।
 झूवत ही मरि जायँगे, तालावेली होय ॥१८८॥
 बिरह भुवंगम पैठिके, कीन्ह करेजे घाव ।
 साधू अंग न मोरहीं, ज्यां भावै त्यां खाव ॥१८९॥
 करक करेजे गड़ि रही, वचन त्रिच्छ की फांस ।
 निकसाये निकसै नहीं, रही सो काहू गांस ॥१९०॥
 काला सरप सरीर में, खाइसि सब जग भारि ।
 बिरले ते जन वाचिहैं, रामहिं भजें विचारि ॥१९१॥
 काल खड़ा सिर ऊपरे, जागु बिराने मीत ।
 जाका घर है गैल में, क्या सोवै निर्भीत ॥१९२॥
 काली काठी कालो घुन, जतन जतन घुन खाय ।
 काया मध्ये काल बसे, मरम न कोऊ पाय ॥१९३॥
 मन माया की कोठरी, तन संसय का कोट ।
 विषहर मंत्र न मानै, काल सरप की चोट ॥१९४॥
 मन माया तौ एक है, माया मनहिं समाय ।
 तीन लोक संसै परा, काहिं कहाँ समुभाय ॥१९५॥
 वेड़ा दीन्हों खेत को, वेड़ा खेतहिं खाय ।
 तीनि लोक संसै परा, काहिं कहाँ समुभाय ॥१९६॥
 मन सायर मनसा लहरि, बूड़े बहुत अचेत ।
 कहँहि कबीर ते वाचिहैं, जिनके हिरदय बिबेक ॥१९७॥
 सायर बुद्धि बनाय के, वायु बिचच्छन चोर ।
 सब दुनिया जहँड़ाइ गै, कोई न लागा ठौर ॥१९८॥

मानुष हूँ कै न मुवा, मुवा सो डांगर ढोर ।
 एकौ ठौर न लागिया, भया सो हाथी घोर ॥१०६॥
 मानुष तैं बड़ पापिया, अच्छर गुरुहिं न मान ।
 बार बार वन कूकुही, गरभ धरतु है ध्यान ॥११०॥
 मानुष विचारा का करै, कहे न खेलै कपाट ।
 स्वान' चौक बैठाइये, पुनि पुनि ऐपन चाट ॥१११॥
 मानुष विचारा का करै, जाके सुन्न सरीर ।
 जे जिव भाँकि न ऊपजे, काह पुकार कबीर ॥११२॥
 मानुष जन्महि पायकै, चूकै अब की घात ।
 जाय परै भव चक्र में, सहै घनेरी लात ॥११३॥
 रतन ही का जतन करु, माटी का सिंगार ।
 आय कबीरा फिरि गया, फीका है संसार ॥११४॥
 मानुष जन्म दुरलभ अहै, होय न दूजी बार ।
 पाका फल जो गिरि परा, बहुरि न लागै डार ॥११५॥
 बाँह मरोरे जात हौ, सोवत लिये जगाय ।
 कहँहि कबीर पुकारि कै, पिँडै हूँ कै जाय ॥११६॥
 साखि पुरन्दर ढहि परै, बिवि अच्छर जुग चारि ।
 रसना रंभन होत है, कोइ न सकै निरुवारि ॥११७॥
 बेड़ा बांधिनि सरप का, भव सागर के माँहि ।
 जो छड़ै तो बूड़ै, गहै तौ डसि है बाँहि ॥११८॥
 कर' खोरा खोवा भरा, मग जोहत दिन जाय ।
 कबीर उतरा चित ते, छाँछ दियो नहिं जाय ॥११९॥

एक कहौं तौ है नहीं, दोय कहौं तौ गारि ।
 है जैसा तैसा रहै, कहँहि कत्रीर विचारि ॥१२०॥
 अमृत केरी पूरिया, बहु विधि दीन्ही छोरि ।
 आप सरीखा जो मिलै, ताहि पियात्रों धोरि ॥१२१॥
 अमृत केरी मोठी, सिर से धरी उतारि ।
 जाहि कहौं मैं एक है, मोहिं कहै दुइ चारि ॥१२२॥
 जाके मुनिवर तप करै, वेद थके गुन गाय ।
 सोई देउं सिखापना, कोई नहिं पतियाय ॥१२३॥
 एकहि ते अनंत भौ, अनंत एक हूँ आय ।
 परचै भई जब एक ते, अनंतौ एक समाय ॥१२४॥
 एक सब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार ।
 थाके मुनिवर ग्यानी, वेद न पावै पार ॥१२५॥
 राउर के पिछवारै, गावै चारों सैन ।
 जीव परा बहु लूटि में, ना कछु लेन न देन ॥१२६॥
 चौगोड़ा के देखते, ब्याधा भागा जाय ।
 एक अचंभा हौं लखा, मूवा कालहिं खाय ॥१२७॥
 तीन लोक चोरी भई, सब का सरवस लीन ।
 बिना मूंड का चौरवा, परा न काहू चीन्ह ॥१२८॥
 चक्की चलती देखिकै, नैनन आया रोय ।
 दुह पट भीतर आय के, सावुत गया न कोय ॥१२९॥
 चारि चोर चोरी चले, पगु पानही उतार ।
 चारिउ दर थूनी हनी, पंडित करहु विचार ॥१३०॥

बलिहारी वहि दूध की, जामें निकरै धीव ।
 आधी साखी कवीर की, चारि वेद का जीव ॥१३१॥
 बलिहारी तेहि पुरुष की, परचित परखन हार ।
 साई दीन्हीं खाँड़ की, खारी बोझै गँवार ॥१३२॥
 विष के विरवै घर किया, रहा सरप लपटाय ।
 ताते जियरहिं डर भया, जागत रैन विहाय ॥१३३॥
 जोई घर है सरप का, सो घर साधु न होय ।
 सकल सम्पदा लै गया, विषहर लाग़ा सोय ॥१३४॥
 घुँघची भरि कै बोइये, उपजै पसेरी आठ ।
 डेरा परिया काल का, साँभ सकारे जात ॥१३५॥
 मन भर के बोये कत्रौं, घुँघची भरि नहिं होय ।
 कहा हमार मानै नहीं, आपुहिं चला बिगोय ॥१३६॥
 आपा तजै औ हरि भजै, नख सिख तजै विकार ।
 सब जिउते निर बैर रहै, साधु मता है सार ॥१३७॥
 पछा पछी के कारने, सब जग रहा भुलान ।
 निरपछ है कै हरि भजै, सोई संत सुजान ॥१३८॥
 बड़े गये बड़ पने, रोम रोम हंकार ।
 सतगुर के परिचै बिना, चारों वरन चमार ॥१३९॥
 माया त्यागे का भया, मान तजा नहिं जाय ।
 जेहि मानै मुनिवर ठगे, मान सभनि को खाय ॥१४०॥
 माया की भ्रुक जग जरै, कनक कामिनी लागि ।
 कहँहिं कवीर कप बाँचिहो, रुई लपेटी आगि ॥१४१॥

माया जग साँपिनि भई, विषले बैठी पास ।
 सब जग फंदे फंदिया, चले कवीर उदास ॥१४२॥
 साँप वीछि का मंत्र है, माहुर भारे जाय ।
 बिकट नारि पाले परो, काढ़ि कलोजा खाय ॥१४३॥
 तामस केरे तीनि गुन, भँवर लेहिं तहँ वास ।
 एकै डारी तीनि फल, भाँटा ऊख कपास ॥१४४॥
 मन मतंग गइयर हने, मनसा भई सचान ।
 जंत्र मंत्र मानै नहीं, लागी उड़ि उड़ि खान ॥१४५॥
 मन गयन्द मानै नहीं, चलै सुरति के साथ ।
 दीन महावत का करै, अंकुस नाहीं हाथ ॥१४६॥
 ई माया है चूहड़ी, औ चूहड़ों की जोय ।
 बाप पूत अरुभाय के, संग न काहु के होय ॥१४७॥
 कनक कामिनी देखि के, तू मत भूल सुरंग ।
 बिछरन मिलन दुहेलरा, केचुल तजत भुवंग ॥१४८॥
 माया के बसि सब परे, ब्रह्मा बिस्तु महेस ।
 सनक सनंदन नारदहु, गौरी पूत गनेस ॥१४९॥
 पीपरि एक जो महागमानी, ताकर मरम कोई नहिं जानी ।
 डार लभाये कोइ न खाय, खसम अछत बहु पिपरे जाय ॥१५०॥
 साहू सेती चोरिया, चोरों सेती सख ।
 तब जानहु मे जीयरा, मार परेगी तूक ॥१५१॥
 ताकी पूरी क्यों परे, गुरु न लखाई बाट ।
 ताको बेड़ा बूढ़ि है, फिरि फिरि औघट घाट ॥१५२॥

जाना नहि बूझा नहीं, सद्युक्ति किया नहि गौन ।
 अंधे को अंधा मिला, राह बतावै कौन ॥१५३॥
 जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराय ।
 अंधे अंधा पेलिया, दोऊ कूप पराय ॥१५४॥
 लोगन केर अथाइया, मति कोई पैठो धाय ।
 एकहि खेते चरत हैं, बाघ गधेरा गाय ॥१५५॥
 चारि मास घन बरसिया, अति अपूर सर नीर ।
 पहिरे जड़ तन बखतरी, चुभै न एकौ तीर ॥१५६॥
 गुरु की भेली जिउ डरै, काया सींचन हार ।
 कुमति कमाई मन बसे, लागि जु बाकी लार ॥१५७॥
 तन संसै मन सोनहा, काल अहेरी नित्त ।
 एकै डांग बसेरवा, कुसल पूछौ का मित्त ॥१५८॥
 साहु चोर चीन्हैं नहीं, अंधा मति का हीन ।
 पारख बिना विनास है, करु विचार हो भीन ॥१५९॥
 गुरु सिकलीगर कीजिये, मनहि मसकला देय ।
 सब्द छोलना छोलिकै, चित दरपन करि लेय ॥१६०॥
 मूरख के सिखलावते, ग्यान गांठि का जाय ।
 कोयला होय न ऊजरा, सौ मन साबुन लाय ॥१६१॥
 मूढ करमिया मानवा, नख सिख पाखर आहि ।
 बाहनहारा का करे, बान न लागे ताहि ॥१६२॥
 सेमर केरा सूगना, छिउले बैठा जाय ।
 चोंच संवारै सिर धुनै, या वाही को भाय ॥१६३॥

सेमर सुगना बेगि तजु, घनी बिगुरचनि पांखि ।
 असा सेमर सेव जो, हृदया नहीं आंखि ॥१६४॥
 सेमर सुगना सेइया, दुइ टेंढी की आस ।
 टेढ़ी फूटि चटाक दै, सुगना चला निरास ॥१६५॥
 लोग भरोसे कौन के, वैठि रहे अरगाय ।
 जियरहिं लूटत जम फिरै, मेदै लूटै कसाय ॥१६६॥
 समुझि बूझि जड़ु है रहै, बल तजि निर्वल होय ।
 कहै कवीर ता संत का, पला न पकरै कोय ॥१६७॥
 हीरा सोई सराहिण, सहै घनन की चोट ।
 कपट कुरंगी मानवा, परखत निकरा खोट ॥१६८॥
 हरि हीरा जन जौहरी, सबन पसारी हाट ।
 जब आवै जन जौहरी, तब हीरों की साट ॥१६९॥
 हीरा तहां न खोलिये, जहां कुँजड़ों की हाट ।
 सहजै गांठी बाँधि कै, लगिये अपनी वाट ॥१७०॥
 हीरा परा बजार में, रहा छार लपटाय ।
 मूरुख था सो बहि गया, पारखि लिया उठाय ॥१७१॥
 हीरों की औबरी नहीं, मलयागिर नहीं पांति ।
 सिद्धों के लहड़ा नहीं, साधु न चलै जमाति ॥१७२॥
 अपने अपने सिरों का, सबन लीन है मान ।
 हरि की बात दुरंतरी, परी न काहू जान ॥१७३॥
 हाड़ जरै जस लाकड़ी, केस जरै जस घास ।
 जरै कवीरा राम रस, कोठी जरै कपास ॥१७४॥

घाट भुलाना वाट बिनु, भेष भुलाना कान ।
 जाकी मांडी जगत में, सो न परा पहिचान ॥१७५॥
 मूरख सों का बोलिये, सठ से काह बसाय ।
 पाहन में क्या मारिये, चोखा तीर नसाय ॥१७६॥
 जैसे गोली गुमुज की, नीच परी ठहराय ।
 तैसौ हृदया मूर्ख का, सब्द नहीं ठहराय ॥१७७॥
 ऊपर की दोऊ गई, हिय की गई हेराय ।
 कहहिं कवीर चारिऊ गई, ताको काह उपाय ॥१७८॥
 केते दिन ऐसे गये, अन रूचे का नेह ।
 ऊसर बोय न ऊपजे, अति घन बरसै मेह ॥१७९॥
 मैं रोवौं यहि जगत को, मोको रोव न कोय ।
 मोको रोवै सो जना, सब्द विवेकी होय ॥१८०॥
 साहेब साहेब सब कहैं, मोहिं अंदेशा और ।
 साहेब से परिचै नहीं, बैठोगे केहि ठौर ॥१८१॥
 जीव बिना जीव वांचै नहीं, जीव का जीव अधार ।
 जीव दया करि पालिये, पंडित करहु विचार ॥१८२॥
 हौं तो सब ही की कही, मोको कोऊ न जान ।
 तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हौं उँ न आन ॥१८३॥
 प्रगट कहौं तो मारिया, परदा लखै न कोय ।
 सुनहा छिपा पयार तर, को कहि वैरी होय ॥१८४॥
 देस बिदेसे हौं फिरा, मन ही भरा सुकाल ।
 जाको ठूढ़त हौं फिरौं, ताका परा दुकाल ॥१८५॥

कलि खोटा जग आंधरा, सब्द न माने कोय ।
 जाहिं कहौं हित आपना, सो उठि वैरी होय ॥१८६॥
 मसि कागद छूयो नहीं, कलम गही नहिं हाथ ।
 चारिउ जुग को महातम, मुखहिं जनाई वात ॥१८७॥
 फहम आगे फहम पीछे, फहम बांये डेरी ।
 फहम पर फहम निरवारै, सो फहम है मेरी ॥१८८॥
 हद चलै सो मानवा, वेहद चले सो साध ।
 हद वेहद दोऊ तजै, ताकर मता अगाध ॥१८९॥
 समुझे की मति एक है, जिन समझा सब ठौर ।
 कहहिं कबीर ये बीच के, बलकहिं और की ओर ॥१९०॥
 राह बिचारी क्या करै, पथिक न चलै बिचारि ।
 आपन मारग छांड़ि कै, फिरै उजारि उजारि ॥१९१॥
 मूवा है मरि जाहुगे, मुये की बाजी टोल ।
 सपन सनेही जग भया, सहिदानी रहिगा बोल ॥१९२॥
 मूवा है मरि जाहुगे, विन सर थोथी भाल ।
 परा कराहै' बिच्छ तर, आजु मरै की काल ॥१९३॥
 बोली हमरी पूरव की, हमें लखै नहिं कोय । ।
 हम को तो सोई लखै, धुर पूरव का होय ॥१९४॥
 जेहि चलते रवदे' परा, धरती होत विहाल ।
 सो साउज धामै जरै, पंडित करहु विचार ॥१९५॥
 पावन पुहुपी नापते, दरिया करते फाल ।
 हाथन परबत तौलते, ते धरि खायो काल ॥१९६॥

नौ मन दूध बटोरि कै, टिपके किया बिनास ।
 दूध फाटि काँजी भया, हूवा घ्रित का नास ॥१६७॥
 कितनु मनाऊँ पाँव परि, कितनु मनाऊँ रोय ।
 हिंदू मनावै देवता, तुरुक न काहू होय ॥१६८॥
 मानुष केरा गुन बड़ा, मासु न आवै काज ।
 हाड़ न होते आभरन, तुचा न बाजन बाज ॥१६९॥
 जो मोहिं जानैं, ताहि में जानौं ।
 लोक वेद का, कहा न मानौं ॥२००॥
 सब की उत्पति धरनि से, सब जीवन प्रतिपाल ।
 धरनि न जानै आप गुन, ऐसा गुरु दयाल ॥२०१॥
 धरनि जो जानति आप गुन, कधी न होती डोल ।
 तिल तिल बढ़ि गारू भई, होत ठिकों की मोल ॥२०२॥
 जहिया किरतम ना हता, धरती हती न नीर ।
 उत्पति परलै न हती, तब की कहै कबीर ॥२०३॥
 जहां बोल तहां अच्छर आया, जहां अच्छर तहां मनहिं दिदाया ।
 बोल अबोल एक है सोई, जिन यह लखा सो बिरला होई ॥२०४॥
 तौ लागि तारा जगमगै, जौ लागि उगै न सूर ।
 तौ लागि जीव करम बस डोलै, जौ लागि ग्यान न पूर ॥२०५॥
 नाम न जाने गाँव का, भूला मारग जाय ।
 काल गड़ेगा कांटवा, अगमन कस न खुराय ॥२०६॥
 संगति कीजै साधु की, हरै और की व्याधि ।
 ओछी संगति कूर की, आठौं पहर उपाधि ॥२०७॥

संगति से सुख उजजै, कुसंगति दुख होय ।
 कहँहि कवीर तहाँ जाइए, अपनी संगति होय ॥२०८॥
 जैसी लागी ओर से, वैसे निबहे छोर ।
 कौड़ी कौड़ी जोरि कै, जोरै लच्छ करोर ॥२०९॥
 आजु काल दिन कैक में, अस्थिर नाहिं सरीर ।
 केते दिन लौं राखि हो, काँचे बासन नीर ॥२१०॥
 बहु बंधन ते बांधिया, एक विचारा जीव ।
 की छूटै बल आपने, की रे छोड़वै पीव ॥२११॥
 जीव जनि मारहु बापुरा, सबका एकै प्रान ।
 हत्या कबहु न छूटिहै, कोटिन सुनहु पुरान ॥२१२॥
 जीव घात न कीजिए, बहुरि लेत वै कान ।
 तीरथ गये न वाचि हौ, कोटि हीरा करो दान ॥२१३॥
 तीरथ गए तीनि जन, चित चंचल मन चोर ।
 एकौ पाप न काटिया, लादिन दस मन और ॥२१४॥
 तीरथ गए ते बहि मुये, जूड़े पानी नहाय ।
 कहँहि कवीर संतो सुनो, राच्छस हूँ पछिताय ॥२१५॥
 तीरथ भई विष बेलरी, रही जुगन जुन छाप ।
 कविरन' मूल निकंदिया, क्यों न हलाहन खाय ॥२१६॥
 ये गुनवंती बेलरी, तब गुन बरनि न जाय ।
 जर काटे ते हरियरी, सींचे ते कुंभिलाय ॥२१७॥
 बेलि कुटंगी फल बुरो, फुलवा कुबुधि बसाय ।
 और विनष्टी तूमरी, सरे पात कल्लाय ॥२१८॥

पानी ते अति पातरा, धूँवा ते अति भीन ।
 पवनहुँ ते ऊतावला, दोस्त कवीर न कीन ॥११६॥
 गुरु वचन संतो सुनो, मति सिर लीजै भार ।
 हों हज़ूर ठाढ़ो कहों, अब तैं समर सँभार ॥२२०॥
 ए करुवाई वेलरी, है करुवा फल तोर ।
 सिद्ध नाम जब पाइए, वेलि विछोहा होय ॥२२१॥
 सिद्ध भया तो कथा भया, चहुँ दिसि फूटी बास ।
 अंतर वाके बीज है, फिरि जामन की आस ॥२२२॥
 परदे पानी ढारिया, संतो करहु विचार ।
 सरमा सरमी पचि मुवा, काल घसीटन हार ॥२२३॥
 अस्ति कहों तौ कोई न पतीजै, विना अस्ति का सिध ।
 कहँहि कवीर सुनहु हो संतो, हीरै हीरा विध ॥२२४॥
 सोना सज्जन साधु जन, टूटि जुरहिँ सौ बार ।
 दुरजन भाँड़ कुम्हार के, एकै धक्का दार ॥२२५॥
 काजर केरी कोठरी, बूढ़त यह संसार ।
 बलिहारी तेहि पुरुष की, पैठिकै निकरनि हार ॥२२६॥
 काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट ।
 तोंदी कारी ना भई, रही जो ओटहिँ ओट ॥२२७॥
 अब खरब लौं दरब है, उदय अस्त लौं राज ।
 भक्ति महातम ना तुलै, ई सभ कौने काज ॥२२८॥
 मछ विकाने सब चले, धीमर के दरवार ।
 अँखिया रतनारी तेरी, क्यों करि पहिरा जाल ॥२२९॥

पानी भीतर घर किया, सेजा किया पताल ।
 पासा परा करीम का, ताते पहिरा जाल ॥२३०॥
 मछ होय नहिं बाँचि हो, धीमर तेरो काल ।
 जेहि जेहि डाबर तुम फिरौ, तहँ तहँ मेलै जाल ॥२३१॥
 विन रसरी गर सब बँधे, तासो बँधा अलेख ।
 दीन्हों दरपन हाथ में, चसम विना का देख ॥२३२॥
 समुझाये समझै नहीं, पर हथ आपु विकाय ।
 मैं खँचत हौं आपु को, चला सो जमपुर जाय ॥२३३॥
 नित की खरसान, लोह घुन छूटै ।
 नित की गोस्टि, माया मोह टूटै ॥२३४॥
 लोहा केरी नावरी, पाहन गरुवा भार ।
 सिर पर त्रिष की मोटरी, उतरन चाहै पार ॥२३५॥
 कृसन समीपी पंडवा, गले हिवारै जाय ।
 लोहा को पारस मिले, काहे काई साथ ॥२३६॥
 पूरव उगि पच्छिम अर्थै, भखै पवन के फूल !
 ताहू को राहू ग्रसै, मानुष काहे को भूल ॥२३७॥
 नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर ।
 तीनि लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर ॥२३८॥
 मन सारथि आपहिरसिक, विषय लहर फहराय ।
 मन के चलाये तन चले, ताते सरबस जाय ॥२३९॥
 ऐसी गति संसार की, ज्यों गाड़र का ठाठ ।
 एक परा जो गाड़ में, सबै गाड़ में जात ॥२४०॥

मारग तो अति कठिन है, वहाँ कोई मति जाय ।
 गये ते बहुरे नहीं, कुसल कहै को आय ॥२४१॥
 मारी मरै कुसंग की, केरा साथे बेर ।
 वै हालै वै चीधरे, विधिनै संग निबेर ॥२४२॥
 केरा तबहिं न चेतिया, जव टिग लागी बेर ।
 अब के चेतै का भया, काँटन लीन्हा घेर ॥२४३॥
 जीव मरम जानै नहीं, अंध भया सब जाय ।
 वादी दाद न पावई, जनम जनम पछिताय ॥२४४॥
 जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहुँ दिसि धाय ।
 आंखि न स्रमै बावरा, घर जरै घूर बुताय ॥२४५॥
 बस्तु कहीं खोजै कहीं, क्यों करि आवै हाथ ।
 ग्यानी सोइ सराहिये, पारख राखै साथ ॥२४६॥
 सुनिये सब की, निबेरिये अपनी ।
 सेंधुरे का सिंधौरा, भूपनी की भूपनी ॥२४७॥
 वाजन दे वाजंतरी, कल कुकुही मत छेड़ ।
 तुम्है बिरानी का पड़ी, अपनी आप निबेर ॥२४८॥
 गावै कथै बिचारै नाहीं, अनजाने का दोहा ।
 कहँहि कबीर पारस परसे बिन, पाहन भीतर लोहा ॥२४९॥
 प्रथम एक जो हौं किया, भया सो बारह बाट ।
 कसत कसौटी ना टिका, पीतर भया निराट ॥२५०॥
 कबिरन भग्ति बिगारिया, कंकर फथर धोय ।
 अंतर में बिष राखि कै, अमृत डारिन खोय ॥२५१॥

रही एक की भई अनेक की, बेस्या बहुत भतारी ।
 कहँहि कबीर काकेसंग जरिहै, बहु पुरुषन की नारी ॥२५२॥
 तन बोहित मन काग है, लख जोजन उड़ि जाय ।
 कबहँ के भरमे अगम दरिया, कबहुँ कगनरहाय ॥२५३॥
 ग्यान रतन की कोठरी, चुंबक दीन्हौ ताल ।
 पारखि आगे खोलिये, कुंजी बचन रसाल ॥२५४॥
 सुरग पताल के बीचमें, दुई तुमरिया बिद्ध ।
 षट दरसन संसै परी, लख चौरासी सिद्ध ॥२५५॥
 सकलो दुरमति दूर करु, अच्छा जनम बनाव ।
 काग गौन गति छाँड़ि कै, हंस गौन चलि आव ॥२५६॥
 जैसी कहै करै पुनि तैसी, राग दोष निरुवारै ।
 तामे घटै बढ़ै रतियो नहिं, यहि बिधि आपुसँवारै ॥२५७॥
 द्वारे तेरे रामजी, मिलहु कबीरा मोहिं ।
 तँ तो सब सों मिलि रहा, मैं न मिलौंगा तोहिं ॥२५८॥
 भरम बढ़ा तिहुँ लोक में, भरम मँडा सब ठाँव ।
 कहँहि कबीर पुकारिकै, बसेउ भरम के गाँव ॥२५९॥
 रतन अड़ाइन रेत में, कंकर चुनि चुनि खाय ।
 कहँहि कबीर पुकारिकै, बहुरि चलै पछिताय ॥२६०॥
 जेते पत्र बनासपति, औ गंगा की रेन ।
 पंडित बिचारा का कहै, कबीर कहीं मुख बैन ॥२६१॥
 हौ जाना कुल हंस हो, ताते कीन्हा संग ।
 जो जानत बगु वावरा, छुवन न देते अंग ॥२६२॥

गुनिया तौ गुन ही कहै, निर्गुन गुनहिं धिनाय ।
 वैलहिं दीजै जायफर, का बूझै का खाय ॥२६३॥
 अहिरहु तजिखसमहु तजी, बिना दांत की ढोर ।
 मुक्ति बिना बिललात है, विद्रावन की खोर ॥२६४॥
 मुख को मीठी जो कहै, हिरदय है मति आन ।
 कहैहिं कबीर तेहि लोग से, तैसहिं राम सयान ॥२६५॥
 इतते सब कोई गये,भार लदाय लदाय ।
 उतते कोई न आइया, जासों पूछों धाय ।२६६॥
 भक्ति पियारी राम की, जैसी प्यारी आगि ।
 सारा पत्तन^१ जरि मुवा, बहुरि लै आवै^२ मांगि ॥२६७॥
 नारि कहावै पीव की, रहै और संग सोय ।
 जार मीत हिरदय बसे, खसम खुसी क्यों होय ॥२६८॥
 सज्जन तो दुरजन भया, सुनि काहू के बोला
 कांसा तांवा होय रहा, नहि हिरन्य का मोल ॥२६९॥
 बिरहिन साजी आरती, दरसन दीजै राम ।
 मूये दरसन देहुगो, आवै कौने काम ॥२७०॥
 पल में परलै वीतिया, लोगन लागि तमारि ।
 आगल सोच निवारि कै, पाछिल करौ गोहारि ॥२७१॥
 एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि ।
 कबीर समाना बूझ में, जहाँ दूसरा नाहि ॥२७२॥
 एक साथे सब साधिया, सब साथे एक जाय ।
 जैसे सींचे^३ मूल को, फूलै फलै अघाय ॥२७३॥

पा० १-परी । २-रामहु अधिक । ३-पट्टन । ४-फिरि फिरि आवै ।
 ५-सब । ६-बलटि जो सींचै ।

जेहि बन सिंघ न संचरै, पंछी ना उड़ि जाय ।
 सो बन कविरन हींड़िया, सुन्न समाधि लगाय ॥२७४॥
 सांच कहौ तो मारिया, भूठहिं लागु पियारी ।
 मो सिर डारे ढंकुली, सीचै और क्रियारि ॥२७५॥
 बोली तौ अनमोल है, जो कोई बोलै जानि ।
 हिये तराजू तौलकै, तब मुख बाहर आनि ॥२७६॥
 करु बहियाँ बल आपनी, छाडु विरानी आस ।
 जेहि आगन नदिया बहै, सो कस मरै पियास ॥२७७॥
 वो तो वैसेही हुआ, तू मति होहु अयान ।
 वो निरगुन गुनबंत तू, मत एकहि में मान ॥२७८॥
 जो मतवारे राम के, ममान हाँहि मन माँहि ।
 ज्यों दरपन की सुंदरी, गहे न आवै बाँहि ॥२७९॥
 साधू होना चाहिये, पक्का हूँ कै खेल ।
 कच्ची सरसों पेरिकै, खरी भई नहिं तेल ॥२८०॥
 सिंघों केरी खोलरी, मेंढा पैठा घाय ।
 बानी ते पहिचानिये, सब्दै देत लखाय ॥२८१॥
 जेहि खोजत कलपौ गये, घटही माँहि सो मूरं ।
 बाढ़ी गरब गुमान ते, ताते परि गइ दूर ॥२८२॥
 दस द्वारे का पिंजरा, तामें पंछी पौन ।
 रहिबे का अचरज अहै, जात अचंभौ कौन ॥२८३॥
 रामहिं सुमिरे रन भिरे, फिरे और की गैल ।
 मानुष केरी खोलरी, ओढ़ि फिरतु है बैल ॥२८४॥

खेत भला बीजौ भला, बोय मुठी का फेर ।
 काहे विरवा रूखरा, ये गुन खेतहिं केर ॥२८५॥
 गुरु सीढ़ी ते ऊतरे, सब्द विहूना होय ।
 ताको काल घसीटिहै, राखि सकै नहिं कोय ॥२८६॥
 भूंभुरि घाम वसे घट मांही, सब कोई वसे सोग की छांही ।२८७॥
 जो मिलिया सो गुरु मिलिया, भीख न मिलिया कोय ।
 छः लाख ज्ञानवे रमैनी, एक जीव पर होय ॥२८८॥
 जहँ गाँहक तहँ हौं नहीं, हौं तहाँ गाँहक नाहिं ।
 विनु विवेक भटकत फिरै, पकरि सब्द की छाँहिं ॥२८९॥
 नग पखान जग सकल है, परखे विरला कोय ।
 नग तो उत्तम पारखी, जग में विरला होय ॥२९०॥
 सपने सोया मानवा, खोलि जो देखा नैन ।
 जीव परा बहु लूटि में, ना कछु लेन न देन ॥२९१॥
 नस्टहिं का तो राज है, नफर का बरते तेज ।
 सार सब्द टकसार है, हिरदय माहिं विवेक ॥२९२॥
 जब लग ढोला तब लग बोला, तौलों धन व्यवहार ।
 ढोला फूटा बोला गया, कोई न भाँकै द्वार ॥२९३॥
 कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोय ।
 सो बंदगी बहि जान दै, सब्द विवेक न होय ॥२९४॥
 सुर नर मुनि औ देवता, सात दीप नौ खंड ।
 कहँहिं कवीर सब भोगिया, देह धरे का दंड ॥२९५॥

जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब मुख नाहिं ।
 चारिउ जुगन पुकारिया, सो संसै दिल माँहि ॥२६६॥
 जंत्र बजावत हौं मुना, टूटि गये सब तार ।
 जंत्र विचारा का करे, गया बजावनि हार ॥२६७॥
 जो तू चाहै मुझको, छाँड़ सकल की आस ।
 मुझहीं ऐसा होय रहू, सब मुख तेरे पास ॥२६८॥
 साधु भया तो का भया, बोलै नाहिं विचारि ।
 हते पराई आतमा, जीभ बाँधि तरवारि ॥२६९॥
 हंसा के घट भीतरे, बसे सरोवर खोट ।
 चले गाँव जहँवा नहीं, तहाँ उठावन कोट ॥३००॥
 मधुर वचन है औषधी, कटुक वचन है तीर ।
 खवन द्वार है संचरै, सालै सकल सरीर ॥३०१॥
 ढाढस देखो मरजीवा को, धँसिकै पैठ पताल ।
 जीव अटक मानै नहीं, ले गहि निकरा लाल ॥३०२॥
 ई जग तो जहँडे गया, भया जोग ना भोग ।
 तिलै झारि कबीरा लिया, तिलठी झारै लोग ॥३०३॥
 ये मरजीवा अमृत पीवा, का धँसि मरसि पतार ।
 गुरु की दया साधुकी संगति, निकरि आव यहि द्वार ॥३०४॥
 के ते बूंद हलफौं गये, केते गये विगोय ।
 एक बूंद के कारने, मानुष काहेक रोय ॥३०५॥
 आगि जो लागि समुद्र में, टूटि टूटि खसै खोल ।
 रोवै कबीरा डँफिया, हीरा जरै अमोल ॥३०६॥

छो दरसन महँ जो परमानाँ, तासु नाम बनवारी ।
 कहँहि कबीर सब खलक सयाना, इनमें हमहिँ अनारी ॥३०७॥
 साँचे स्नाप न लागई, साँचे काल न खाय ।
 साँचे साँचे जो चले, ताको काह नसाय ॥३०८॥
 पूरा साहब सेइये, सब विधि पूरा होय ।
 ओछ से नेह लगाय कै, मूलहुँ आवै खोय ॥३०८॥
 जाहु वेद घर आपने, बात न पूँछै कोय ।
 जिन यह भार लदाइया, निरबाहेगा सोय ॥३१०॥
 औरन के सिखलावते, मोहड़े परिगौ रेत ।
 रास बिरानी राखते, खइनि घर का खेत ॥३११॥
 में चितवत हौं तोहिं को, तू चितवत है ओहिं ।
 कहँहि कबीर कैसे बने, मोहिं तोहिं औ ओहिं ॥३१२॥
 तकत तकावत तकि रहा, सका न बेम्हा मारि ।
 सवै तीर खाली परे, चला कमानहिं डारि ॥३१३॥
 जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ग्यान ।
 कहँहि कबीर चुंबक बिना, क्यों जीतै संग्राम ॥३१४॥
 आपनि कहै मेरी सुनै, सुनि मिलि येकै होय ।
 हमरे देखत जग चला, ऐसा मिला न कोय ॥३१५॥
 देस विदेसन हौं फिरा, गाँव गाँव की खोरि ।
 ऐसा जियरा ना मिला, लेवै फटकि पछोरि ॥३१६॥
 हौं चितवत हौं तोहिं को, तू चितवत कछु औरि ।
 लानत ऐसे चित पर, येक चित दुइ ठौर ॥३१७॥

चुंबक लोहे प्रीति है, लोहे लेत उठाय ।
 ऐसा सब्द कबीर का, जम से लेत छुड़ाय ॥३१८॥
 भूला तो भूला, बहुरि कै चेतना ।
 सब्द की छूरी से, संसै को रेतना ॥३१९॥
 दोहरा कथि कहैं कबीर, प्रतिदिन समय जो देखि ।
 मुये गये नहिं बहुरे, बहुरि न आये फेरि ॥३२०॥
 गुरु बिचारा का करै, सीषहिं माँ है चूक ।
 भावै त्याँ परमोधिये, बाँस बजाए फूंक ॥३२१॥
 दादा भाई बाप कै लेखों, चरनन होइ हों बंदा ।
 अबकी पुरिया जो निरुवारे सो जन सदा अनदा ॥३२२॥
 सवते लघुता हैं भला, लघुता ते सब हांय ।
 जस दुतिया को चंद्रमा, सीस नवै सब कोय ॥३२३॥
 मरते मरते जग मुवा, मुवै न जाना कोय ।
 असा होय कै ना मुवा, बहुरि न मरना हांय ॥३२३॥
 मरते मरते जग मुवा, बहुरि न किया बिचार ।
 एक सयानी आपनी, परबस मुवा संसार ॥३२५॥
 सब्द अहै गाहक नहीं, वस्तू महँगे मोल ।
 बिना दाम का मानवा, फिरै सो डाँवा डोल ॥३२६॥
 ग्रिह तजिकै जोगी भये, जोगी के ग्रिह नाहिं ।
 बिनु बिवेक भटकत फिरै, पकरि सब्द की छाँहि ॥३२७॥
 सिंघ अकेला बन रमे, पलक पलक करै दौर ।
 जैसा बन है आपना, वैसा बन है और ॥३२८॥

पैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत ।
 जब जैसी चाहै गती, तब तैसी मति देत ॥३२६॥
 बोलत ही पहिचानिये, साहु चोर का घाट ।
 अंतर घट की करनी, निकरै मुख की वाट ॥३३०॥
 दिल का महरम कोई न मिलिया, जो लिया सो गरजी ।
 कहै कबीर असमानै फाटा, क्यों करि सीवै दरजी ॥३३१॥
 ई जग जरतै देखिया, अपनी अपनी आगि ।
 असा कोई न मिला, जासों रहिये लागि ॥३३२॥
 बना बनाया मानवा, बिना बुद्धि बेतूल ।
 कहा लाल लै कीजिये, बिना बास का फूल ॥३३३॥
 साँच बरोबरि तप नहीं, भूठ बरोबरि पाप ।
 जाके भीतर साँच है, ताके हिरदय आप ॥३३४॥
 का रे बड़े कुल ऊपजे, जो रे बड़ी बुधि नाहिं ।
 जैसा फूल उजार का, मिथ्या लभि भरि जाहि ॥३३५॥
 करते किया न बिधि किया, रवि ससि परी न दीठि ।
 तीनि लोक में है नही, जानै सकलौ स्त्रीस्टि ॥३३६॥
 सुरदुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया भूर ।
 बहुत जतन कै खोजिया, फल मीठा पै दूर ॥३३७॥
 बैठा रहै सो बानिया, ठाढ़ रहै सो ग्वाल ।
 जागत रहै सो पहरुआ, तेहि धरि खायौ काल ॥३३८॥
 आगे आगे दौ जरे, पाछे हरियर होय ।
 बलिहारी तेहि ब्रिछ की, जर काटे फल होय ॥३३९॥

जनम मरन बालापना, विरध अवस्था आय ।
जस बिलाइ मूसा तकै, जम जिव घात लगाय ॥३४०॥
है विगरायल ओर का, विगरो नाहिं विगारो ।
घाव काहिपर घालौं, जित देखै तित प्रानहमारो ॥३४१॥
पारस परसे कनक भौ, पारस कबहुँ न होय ।
पारस के असै परस, कनक कहावै सोय ॥३४२॥
दूँदत दूँदत दूँदिया, भया सो गूना गून ।
दूँदत दूँदत ना मिला, हारि कहा वेचून ॥३४३॥
बे चूने जग चूनिया, साई नूर निनार ।
तब आखिरकेबखत में, किसका करो दिदार ॥३४४॥
सोई नूर दिल पाक है, सोइ नूर पहिचान ।
जाके कीन्हें जग भया, सो वेचून क्यों जान ॥३४५॥
ब्रह्मा पूछै जननि से, कर जोरि सीस नवाय ।
कौन बरन वह पुरुष है, माता कहू समझाय ॥३४६॥
रेख रूप वै है नहीं, अघर धरी नहिं देह ।
गँगनमँडल के मध्य में, निरखो पुरुष विदेह ॥३४७॥
धरे ध्यान गँगनके माँही, लाये बज्र कँवार ।
देखी प्रतिमा आपनी, तीनिउँ भये निहाल ॥३४८॥
यहमन तो सीतल भया, जब उपजा ब्रह्मा ग्यान ।
जेहि घसंदर जग जरे, सो पुनि उदक समान ॥३४९॥
जासो नाता आदि का, बिसरि गया सो ठौर ।
चौरासी की बसि परै, कहे ओर की और ॥३५०॥

अलख लखौं अलखै लखौं, लखौं निरंजन तोहिं ।
 हौं कबीर सब को लखौं, मोको लखै न कोय ॥३५१॥
 हम तो लखा तिहु लोक, में तू क्यों कहै अलेख ।
 सार सब्द जाना नहीं, धोखे पहिरा भेख ॥३५२॥
 साखी आँखी ग्यान की, समुक्ति देखु मन माँहि ।
 बिन साखी संसार का, भगरा छूटत नाहिं ॥३५३॥



परिशिष्ट (क)

कोश

अ

अंकुल—सं० पु० [सं० अंकुर] अंखुवा । गाभ । आ० अहंकार इच्छा ।	अंतर जोति—सं० स्त्री० [सं० अंतर्ज्योति] अपने भीतर की ज्योति । आ० चैतन्य ।
अंकुस—सं० पु० [सं० अंकुश] हाथी हांकने का दो मुहँ भाला जिस का एक फल भुका रहता है । आंकुस । आ० संसारिक यातनायें । ज्ञान ।	अंतरिक्ष—सं० पु० [सं० अंतरिक्ष] पृथ्वी और सुर्यादि लोकों के बीच का स्थान । आकाश । स्वर्ग लोक । दे० प० ख० हरिश्चंद्र ।
अंचवन—सं० पु० [सं० आचमन] भोजन के पीछे हाथ मुँह धोकर कुल्ली करना । कि० स० पीना । पान करना ।	अदेशा—सं० पु० [फा० अदेशा] चिंता । सोच । फिक्र । संशय । भय । दुविधा ।
अंचवै—देखो अंचवन	अंध—वि० [सं०] नेत्र हीन । अज्ञानी । मूर्ख । अविवेकी । अचेत ।
अंजनी—सं० स्त्री० माया ।	अंधियारी—सं० स्त्री० [हि०] अंधकार । तम । आ० अज्ञान ।
अंठके—कि० अ० [सं० अ= नहीं + टिक्=चलना] अटकना । फंसना । उलझना	अंबु—सं० पु० [सं०] जल । पानी । आ० विन्दु । वीर्य ।
अंड—सं० पु० [सं०] अंडा । ब्रह्मांड, लोक पिंड । विश्व । अंडज । वीर्य । शुक्र	अंबर—सं० पु० [सं० अंबर] आकाश । आसमान । गगन मंडल । ब्रह्मरंध्र । शून्य । स्वर्ग । देवलोक । आ० चैतन्य । जीवात्मा । गगन गुफा ।
अंतर—कि० वि० भीतर । अंदर । सं० पु० [सं० अन्तस्] हृदय । अंतःकरण । मन ।	अउठा—दे० अहुंठा ।

अकथ—वि० [सं० अकथ्य] जो
कहा न जा सके । बरखन से परे ।
अकथनीय ।
अकरम—सं० पु० [सं० अकर्म]
न करने योग्य कार्य । दुष्कर्म ।
बुरा काम । कर्म का अभाव ।
अकहुआ—दे० अकथ
अकिल—सं० स्त्री० [अ० अक्ल]
बुद्धि । समझ । प्रज्ञा । ज्ञान ।
विवेक ।
अखधै—वि० [सं० अखाद्य]
न खाने योग्य । अभक्ष्य । आ०
अशुभ कर्म ।
अखै—वि० [सं० अक्षय] जिस
का क्षय न हो । अविनाशी ।
अगम—वि० [सं० अगम्य] जहाँ
कोई जा न सके । बुद्धि से परे ।
पहुच के बाहर । अथाह । दुर्गम ।
कठिन । दुर्लभ । बहुत । अपार ।
आ० निर्गुण ।
अगमन—क्रि० वि० [सं० अगवान]
आगे । पहिले । प्रथम । उ० तब
अगमन होय गोरा कहा । जा०
अगाध—वि० [सं०] अथाह ।
जिसका कोई पार न पा सके ।
बहुत गहरा ।
अगारी—क्रि० वि० आगे । सं०
पु० [सं० आगार] घर । निवास
स्थान । आ० हृदय ।
अगुआ—सं० पु० [सं० अग्रगामी]

अग्रसर । आगे चलने वाला ।
मुखिया । प्रधान । नेता । पथ
दर्शक । आ० ब्रह्मा । गुस्वा ।
अगुवन—सं० पु० [अगुवा का
बहुवचन] आगे चलने वाले ।
आ० देवता ।
अगिनि—दे० 'आगि' आ० जठर
अग्नि । त्रयताप ।
अघाय—क्रि०अ० परिपूर्ण होकर ।
अचरज—सं० पु० [सं० आश्चर्य]
अचंभा ।
अचारा—सं० पु० [सं० आचार]
शुद्धि । सफाई ।
अचेत—सं० पु० [सं० अचित्] जड़
प्रकृति । जड़त्व । माया । अज्ञान ।
अच्छय—दे० अखै
अच्छर—वि० [सं० अक्षर]
आकरादि वर्ण । हरफ़ । नित्य ।
स्थिर । अविनाशी आ० उपदेश ।
अच्छत—क्रि० वि० रहते हुए ।
सामने । विद्यमानता में । उ० तोर
अछत दशकन्धर मोर कि अस गति
होय ।—तु०
अ ड़लो, अछलौं—क्रि० अ० [प्रा०
अच्छ=होना] अछना । रहना ।
विद्यमान रहना । था ।
अजगूता—सं० पु० [सं० अयुक्त]
अचंभे की बात । आश्चर्यजनक
भेद । अस्वाभाविक व्यापार । उ०
तापर एक सुनोरी अजगुत लिखि
लिखि जोग पठावैं ।—सूर

अज्ञान—दे० अग्रयान
 अटक—सं० पु० [सं० आ+टक= बंधन] रोक । रुकावट । अड़चन । विघ्न । बाधा । उ० बाट बाट कहें अटक होय नहीं सब कोउ देह निवाहि ।—सूर
 अटल—वि० [सं० अ= नहीं + टल=चंचल] जो न टले । जो न डिगे । निश्चल । स्थिर ।
 अठारहभार—सं० पु० [देश०] सम्पूर्ण वनस्पति जगत । उ० ज्यूँ माषी मधु काडि ले, सोधि अठारह भार । त्यूँ रज्जव तत ही गहो, तीन्यु लोक मंभार—रज्जव ।
 अड़ाइनि—क्रि० स० [देश०] गिराना । ढरकाना । उठेहना ।
 अड़ि—क्रि० अ० ठहरना स्थिर होना ।
 अतीत—वि० [सं०] विरक्त । निर्लेप । असंग । सं० पु० वीतराग । सन्यासी । यती । विरक्त साधु ।
 अथई—क्रि० अ० अस्त होना । डूबना । आ० लय होना ।
 अथाइया— सं० स्त्री० [सं० स्थान] बैठने की जगह । चौबारा । घर की वह बाहरी चौपाल जहाँ लोग इष्ट मित्रों के साथ बैठते हैं । घर के सामने का चबूतरा जिस पर लोग उठते-बैठते हैं । मंडली । सभा । उ०

गोप बड़े-बड़े बैठें अथाइन केशव कोटि सभा अबगाही—के०
 अड़ग—वि० [सं० अदग्ध] निष्कलंक । शुद्ध । निर्मल । अछूता ।
 अदुदुद, अदुदुद—वि० [सं० अदुत] आश्चर्यजनक । विलक्षण । विचित्र । अनोखा । अपूर्व । अलौकिक ।
 अदल—सं० पु० [अ०] इंसाफ ।
 अदिष्ट—वि० [सं० अदष्ट] न देखा हुआ । सं० पु० भाग्य । प्रारब्ध । भावी । उ० केशव अदष्ट साथ बीज जोति जैसी—केशव ।
 अधकूचा—वि० [हिं० अधकचरा] अधूरा । अपूर्ण ।
 अदुध—वि० अर्धशिक्षित अधकचरा । जिसकी शिक्षा पूरी न हुई हो ।
 अधर कटोरी—सं० स्त्री० [देश०] [सं० चषक] प्याला । आ० इठ-योगियों के जिह्वा उलट कर निर्भर पान करने का एक रूप ।
 अधार—सं० पु० [सं०] आश्रय । सहारा । अवलंब ।
 अधारा—दे० अधार
 अधारी—सं० स्त्री० [सं० अधार] काठ के ठंठे में लगे हुए पीढ़े की अधारी कहते हैं, जिसे योगी (साधू) सहारे के लिये रखते हैं । आसा । उ० जोग बाट रुद्राक्ष अधारी । जा० आ० जाँव । चैतन्य ।

अधीकारी—सं० पु० [सं० अधि-कारिन] स्वत्वाधारी । योग्यता रखने वाला । उपयुक्त पात्र । मु० सब मनुष्य वेदांत के अधीकारी नहीं हैं ।

अनंत—वि० [सं०] अनेक । असंख्य । बहुत अधिक । जिसका अंत न हो । ब्रह्म ।

अनंता—दे० अनंत

अनगुनी—वि० [सं० निगुणी] विना गुण वाला । आ० निगुणोपासक ।

अनजान—वि० [सं० अन + हिं० जान] अज्ञानी ।

अनवनि—वि० भिन्न-भिन्न । नाना (प्रकार) विविध । अनेक । उ० भा कटाव सब अनवन भाँती—जा०

अनवेधल—वि० [सं० अन+विद्ध] विना वेधा हुआ । बिना छेद किया हुआ । आ० चैतन्यात्मा ।

अनबोला—वि० [सं० अन्=नहीं+बोल] न बोलने वाला । मौन । गुँगा । आ० अनहद शब्द ।

अनल—सं० पु० [सं०] अग्नि । आग । आ० विषय । त्रितापाग्नि ।

अनहद—सं० पु० [सं०] अनहद शब्द । बिना अघात का शब्द । योग का एक साधन । गगन गिरा । वह नाद वा शब्द जो दोनों हाथों के अँगूठे से दोनों कानों की लबे

बंद कर के ध्यान करने से सुनाई देता है ।

अनारी—सं० पु० [सं० अनार्य्य] ना समझ । नादान । गंवार । अनजान । अज्ञानी ।

अनुख—सं० पु० [सं० अनख] क्रोध । दुःख । भङ्कट । अनरीति ।

अनभव, अनभौ—सं० पु० [सं० अनुभव] वह ज्ञान जो साक्षात् करने से प्राप्त हो । स्मृति भिन्न ज्ञान, मु० सब जीव पीड़ा का अनुभव करते हैं ।

अनूपम—वि० [सं० अनुपम] उपमा रहित । बेजोड़ । उत्तम । श्रेष्ठ ।

अपनपौ—सं० पु० [हिं० अपना+पौ (प्रत्य०) आत्मीयता । आत्मस्वरूप । संज्ञा । सुध । ज्ञान । उ० सो मैं निरखि अपनपौ खोयो गई मथनिया मांगन री ।—सूर

अपरमपार—वि० जिसका परावार न हो । असीम । बेहद । अनंत ।

अपार—दे० 'अपरमपार'

अपावन—वि० [सं०] अपवित्र । अशुद्ध ।

अपूरी—सं० स्त्री० भरा हुआ । फैला हुआ । व्याप्त । भरपूर ।

अपूर—वि० [सं० आपूर्ण] पूरा । उ० जल थल भरे अपूर सब धरनि गगन मिल एक । जा०

अबधू—सं० पु० [अबधूत]
 त्यागी । सन्यासी । विरागी । संत ।
 साधु । अबधूत । आ० ज्ञानी ।
 योगी । उ० दसवै द्वारि अबधू
 मधुकरी माँगो ।—गोरख

अविगत, अविगत—वि० [सं०]
 जो जाना न जाय । अविनाशी ।
 जो नाश न हो । नित्य । जो उत्पन्न
 न हुआ हो । व्यापक । ज्ञान रूप ।
 विचित्र ।

अविचल—वि० [सं०] जो विचलित
 न हो । अचल । स्थिर । अटल ।

अविनासी—दे० अविनासी ।

अवरन—वि० [सं० अवर्ण] विना
 रूप रंग का । वर्ण शून्य । रूप
 रहित । निराकार । [सं० अवर्ण्य]
 अकथनीय उ० अलख अरूप अवरन
 सो करता ।—जा०

अबुझा—वि० [सं० अबुद्ध]
 अबूझ । अबोध । नासमझ ।
 नादान ।

अबेध—वि० [सं० अविद्ध] जो
 छिदा न हो । बिना बेधा । अन-
 विधा । आ० अखंड

अभार—वि० [सं० अ=नहीं+भार=
 बोझा] न दोने योग्य । दुर्बह ।

अभिअंतर—सं० पु० [सं० अभ्यंतर]
 हृदय । क्रि० वि० भीतर । अंदर ।

अभिमान—सं० पु० [सं०]
 अहंकार । गर्व । घमंड ।

अमर—वि० [सं०] जो मरे
 नहीं । अविनाशी । जीव ।

अमर पद—सं० पु० [सं०]
 अविनाशी पद । मोक्ष ।

अमर लोक—सं० पु० [सं०]
 अविनासी लोक । स्वर्ग ।
 इन्द्रपुरी । देवलोक । सत्य लोक ।

अमल—सं० पु० [अ०] अधि-
 कार । शासन । हुकूमत । प्रभाव ।
 असर । साधन । नशा ।

अमली—वि० [अ०] अमल
 करने वाला । नशीली चीजें खाने
 वाला । व्यसनी ।

अमहल—सं० पु० [सं० अ=
 नहीं + अ० महल] विना घर
 का । अनिकेत । व्यापक । आ०
 कल्पित लोक आदि ।

अमाई—क्रि० अ० समाना ।
 अटना । पूरा-पूरा भरना ।

अमाय—दे० अमाई

अमोलिक—वि० [सं० आ + हि०
 मोल] अमोलक । अमूल्य ।
 बहुमूल्य । कीमती । उ० छाँडि
 कनक मणि रत्न अमोलक कांच
 की किरच गही ।—सूर

अमृत—सं० पु० [सं०] सुधा ।
 पीयूष । मुक्ति । आ० मोक्ष ।
 आत्मा । विचार ।

अमृत बेली—सं० स्त्री० [सं०
 अमृत बल्ली] कुंडलिनी शक्ति जब
 उलट कर ब्राह्मांड में पहुँच

जाती है और नख से शिख तक सर्वांग में वायु व्याप्त हो जाती है। तब उलटा सहस्रार से अमृत का निर्भर प्रवाहित होता है। उसीको अमृत बहारी का पान करना कहते हैं।

अयान—वि० [सं० अ=नहीं + ज्ञान] अज्ञान। अनजान। न समझ। अज्ञानी।

अयाना—दे० अयान

अरगाय—क्रि० अ० [हि० अल-गाना] अलग होना। मौन होना। चुप्पी साधना। उ० अपनी चाल समुक्ति मन माहीं गुनि अरगाय रह्यो।—सूर

अर्थ, अर्थ—सं० पु० [सं० अर्थ] धन। संपत्ति। मतलब। अभिप्राय। अर्थावै—क्रि० सं० [सं० अर्थ] निर्णय करना। व्याख्या करना। विवरण करना। समझाना।

अरध—वि० [सं० अर्द्ध] आधा। अरव—सं० पु० [देश०] प्रकाश।

अरस परस—सं० पु० [सं० दर्शन स्पर्शन] देखना। छूना। परिचय करना।

अरुक्ति—क्रि० अ० [सं० अर-रोध] उलझना। फँसना। उ० करत न प्रान पयान सुनहु सखी अरुक्ति परी एहि लेखे।—तु०

अर्घ—सं० पु० [सं०] षोडशोपचार में एक। किसी देवता को जल आदि अर्पण करना। सामने जल गिराना।

अरघा—दे० अर्घ

अलक—सं० पु० [सं०] मस्तक के इधर उधर लटकते हुए मरोड़दार बाल। बाल। केश। आ० लगन। आशा।

अलख—वि० [सं० अलक्ष्य] जो दिखाई न पड़े। अदृश्य। आ० मन।

अलेख—वि० [सं०] वे हिसाब। वे अंदाज। बहुत अधिक।

अलोप—सं० पु० [सं० लोप] गुप्त। लुप्त। देखाई न देना।

अवतारि—सं० पु० [सं० अवतार] उतरना। जन्म। शरीर ग्रहण करना।

अवस्था—सं० स्त्री० [सं०] मनुष्य की चारि अवस्थाएँ बाल, कुमार, युवा और वृद्ध। दशा। काल।

अविनाशी—वि० [सं० अविनाशिन] जिसका नाश न हो। अक्षय। अक्षर। अमर। नित्य। शाश्वत। चिरन्तन।

अष्ट कष्ट—सं० पु० [सं०] आठ कष्ट। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, अथवा पंचक्लेश-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और दैहिक,

दैविक भौतिक ताप । या अग्निमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य । ईशत्व, वशित्व आदि सिद्धियाँ ।

असमाना—दे० आकास

असरारा—क्रि० वि० [हिं० सर सर] निरंतर । लगातार । बराबर । सं० पु० [अ० असरार] इठ । दुराग्रह । शौक ।

असवारा—सं० पु० [फा० सवार] जो किसी चीज पर चढ़ा हो । सवार ।

असाधा—वि० [सं० असाध्य] जिसका साधन न हो सके । साधना रहित । असहाय ।

असार—वि० [सं०] सार रहित । तत्व शून्य । निःसार । असाढ़े—सं० पु० [सं० आसाढ़] एक मास का नाम ।

असी सहस—सं० पु० [सं० अस्ती सहस्र] अस्ती हजार ।

असुन—सं० पु० हृदय । अन्तःकरण ।

असुर—सं० पु० [सं०] दैत्य । राक्षस । नीच वृत्तिका मनुष्य ।

असूक्त—वि० अंधकार मय । जिसका वार पार न दिखाई पड़े । आ० अज्ञान । नादान ।

असौच—सं० पु० [सं० अशौच] अपवित्र । अशुद्ध ।

अस्ति—सं० स्त्री० [सं०] भाव । सत्ता । विद्यमानता । है ।

अस्थिर—वि० [सं० आस्थिर] निश्चल । अटल । सं० पु० मुक्ति । मोक्ष ।

अस्थूज—वि० [सं०] जो स्थूल न हो । सूक्ष्म ।

अहुँठा—सं० पु० [अउठा] नापने की दो हाथ की लकड़ी जो जोलाहों के काम आती है । वि० [अहुठ] साढ़े तीन । आ० शरीर । उ० अहुठ पटण मैं भिष्या करै ।—गो०

अहमक—वि० [अ०] बेवकूफ मूर्ख । नासमझ । दुर्बुद्धि ।

अहिर—सं० पु० [सं० आभीर] एक जाति जिसका काम गाय भैंस पालना और दूध बेचना है । श्रीकृष्ण ।

अहेर—सं० पु० [सं० आखेट] शिकार । मृगया । वह जन्तु जिसका शिकार खेला जाय ।

अहेरा—दे० 'अहेर'

अहेरी—सं० पु० [हिं० अहेर] शिकारी आदमी । आखेटक

अहो निसि—क्रि० वि० [सं० अहर्निश] आठ पहर । रात दिन । सदा । नित्य ।

आ

आँगन—सं० पु० [सं० अङ्गण]
घर के भीतर का सहन । चौक ।
अजिर । आ० अंग । हृदय ।

आँता—सं० स्त्री० [सं० अन्त्र]
प्राणियों के शरीर में फेफड़ों के
नीचे की वे नलिकाएँ जो पेट के
दोनों ओर व्याप्त रहती हैं । और
पाचन क्रिया में सहायता देती हैं ।
अवयव ।

आँधरि—वि० [सं० अन्ध] अंधी ।
नेत्र हीन । आ० विवेक हीन ।

आऊ—सं० स्त्री [सं० आयु] वय ।
उम्र । जिन्दगी । जीवन काल ।

आकास—सं० पु० [सं० आकाश]
अंतरिक्ष । आसमान । गगन ।
शून्य स्थान । आ० ब्रह्म । ब्रह्मांड ।

आखिर—सं० पु० [फा०] अंत ।

आगम—सं० पु० [सं०] वेद ।
शास्त्र । तंत्र शास्त्र । नीति शास्त्र ।
नीति । भवितव्यता ।

आगल—वि० [हिं० अगला]
आगे का । अग्रिम ।

आग्नि—सं० स्त्री० [सं० अग्नि]
अग्नि । पंच तत्वों में से एक,
जिसका गुण दाहक है । आ०
अज्ञान ।

आत्म—सं० स्त्री० [सं० आत्मा]
जीव । मन । ब्रह्म ।

आतस—दे० 'आशि'

आश्रये—क्रि० अ० [सं० अस्तमन]
अस्त होना । झुबना । उ० सेवक
सखा भगति भायप गुण चाहत
अव अथये हैं । तु० । आ०शरीरान्त
होना ।

आदति—सं० स्त्री० [आ० आदत]
स्वभाव । अभ्यास ।

आदर—सं० पु० [सं०] सम्मान ।
सत्कार । प्रतिष्ठा । आदर ।

आध कोस—सं० पु० आ० अर्ध-
मात्रा ।

आन—वि० [सं० अन्य] दूसरा ।
और ।

आनि—सं० स्त्री० लाकर ।

आपा—सं० पु० [हिं० आप]
अहंकार । धर्मंड ।

आपु—सर्व० [सं० आत्मन] स्वयं ।
खुद ।

आव—सं० स्त्री० [फा०] प्रतिष्ठा ।
इज्जत । महिमा ।

आभरन—सं० पु० [सं० आभरण]
गहना । आभूषण । जेवर ।

आरसी—सं० स्त्री० [सं० आदर्श]
शीशा । दर्पण । आइना । आ०
ज्ञान ।

आलम—सं० पु० [अ०] संसार ।
जहान ।

आवा गमन—सं पु० [सं०] आना
जाना । अवाई जवाई । जन्म
मरण । मरना जीना ।

आस—सं० स्त्री० [सं० आशा]
आशा ।

आसना—क्रि० अ० [सं० अस
=होना] होना । सं० पु० [सं०
आसन] जीव ।

आसिक—सं० पु० [अ० आशिक]

प्रेम करने वाला मनुष्य । वि०
प्रेमी । आसक्त । मोहित ।

आदि—क्रि० अ० आसना का वर्तमान
कालिक रूप । है । अस्ति ।

आहुति—सं० स्त्री० [सं०] हवन में
डालने की सामग्री । होम । हवन ।

इ

इंद्रि—सं० स्त्री० [सं० इंद्रिय]
मनुष्य के शरीर में दस इंद्रियाँ
होती हैं, जिनमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ,
जिनके द्वारा अनुभव किया जाता
है । पाँच कर्मेन्द्रियाँ, जिनके द्वारा

कर्म किए जाते हैं । गो ।

इच्छा—सं० स्त्री० [सं०] चाह ।
कामना । खाहिस । अभिलाषा ।

इत—क्रि० वि० [सं० इतः] इधर ।
यहाँ । इस ओर । आ० मृत्यु लोक ।

ई

ई—[सं० इ=निकट का संकेत] यह ।
ईद—सं० स्त्री० [अ०] मुसलमानों
का त्योहार । रमजान महीने में
तीस दिन रोजा (व्रत) रखने के
बाद जिस दिन दूहज का चाँद
दिखाई पड़ता है उस के दूसरे दिन
यह त्योहार मनाया जाता है ।

ईधन—सं० पु० [सं०] जलाने की
सामग्री । जलाने की लकड़ी ।

ईश—सं० पु० [सं० ईश] स्वामी ।
मास्तिक । महादेव । शिव ।

ईसरी—सं० स्त्री० [सं० ईश्वरीय]
ईश्वर सम्बन्धी । ईश्वर की ।

उ

उक्ती—सं० स्त्री० [सं० उक्ति]
कथन । विचार ।

उखेला—क्रि० सं० [सं० उल्लेखन]
उरेहना । लिखना । तसवीर
बनाना । बनाना ।

उगि—दे० उदै ।

उगौ—दे० उदै ।

उघरे—क्रि० अ० [सं० उद्घाटन]

खुलना । असली रूप में प्रगट
होना । भंडा फूटना । भेद
खुलना । उ० उघरे अंत न होय
निवाहू ।—तु०

उधार—क्रि० सं० [सं० उद्घाटन]
[प्रा० उगघाडना] उधारना ।

खोलना । आवरण रहित ।

उधारि—दे० उधार ।

उच्चरी—क्रि० सं० [सं० उच्चारण]
निकली । उच्चरना । उच्चारित
होना । प्रकट होना ।

उच्चायो—क्रि० सं० [सं० उच्च+करना]
ऊपर उठाना । सर पर रखना ।
आ० संसारासक्त होना ।

उचिष्टा—वि० [सं० उच्छिष्ट] जूठा ।
किसी के खाने से बचा हुआ ।

उछर्रा—क्रि० अ० [सं० उच्छलन]
उतराना । तरना । ऊपर उठना ।
आ० संसार से पार होना ।

उजर—वि० [सं० उज्ज्वल]
सफेद । साफ । निर्मल ।

उजारि—सं० पु० [हि० उजड़ना]
उजाड़ । शून्य स्थान । जंगल ।
वयावान । निर्जन ।

उजू—सं० पु० [अ० वजू] नमाज
पढ़ने के पूर्व पवित्रता के लिये
हाथ पाँव आदि धोना । मुसलमानों
का नियम है कि वे पहिले तीन बार
हाथ धोते हैं फिर तीन बार कुह्ली
कर के नथुनों में पानी देते हैं ।
पुनः सुँह धोकर कुहनियों तक
हाथ धोते हैं और सिर पर पानी लगे
हाथ फेरते हैं । अंत में पाँव धोते
हैं । इसी आचार का नाम वजू है ।

उत्तंग—वि० [सं० उत्तुङ्ग] ऊँचा ।
उन्नत । महान ।

उत्पत्ति—सं० स्त्री० [सं० उत्पत्ति]
जन्म । उद्भव । पैदाइस । सृष्टि ।
आरंभ ।

उत्पात—सं० पु० [सं० उत्पात]
कष्ट पहुँचाने वाली आकस्मिक
घटना । उपद्रव । आ० पिंड ।
शरीरादिक ।

उत्पाती—दे० उतपानी ।

उत्पानी—क्रि० सं० उत्पन्न करना ।
पैदा करना । बनाना । उ० तासों
मिलि नृप बहु सुख माने । षष्ठ पुत्र
तासों उत्पाने । सूर ।

उत्तरि—क्रि० सं० [सं० उत्तरण]
उतरना । पार होना । उ० उत्तरि
ठाढ़ि भे सुरसरि रेता । तु० । आ०
जीवन मुक्त होना ।

उत्तारि—क्रि० सं० [हि० उतारना]
किसी धारण की हुई वस्तु को दूर
करना । त्यागना ।

उदक—सं० पु० [सं०] जल ।
पानी ।

उदधि—सं० पु० [सं०] समुद्र ।
आ० संसार । भव ।

उदास—सं० पु० [सं०] दुःख ।
रंज ।

उदासी—सं० पु० [सं० उदास+
हिं० ई (प्रत्य०)] विरक्त पुरुष ।
त्यागी पुरुष । सन्यासी । उ०
होय गृही पुनि होय उदासी । अंत
काल दोनो विश्वासी । जा० ।

उदै—सं० पु० [सं० उदय]
निकलना । प्रगट होना ।

उधारन—क्रि० सं० [सं० उद्धारन]
उद्धार करना । मुक्त करना । छुट-

कारा करना । वि० उद्धार करने वाली ।
 उत्तमाना—सं० पु० [सं० अत्तमान] अत्तमान । निश्चय । अत्तभव । ख्याल । ध्यान । समझ । उ० कहिवे में न कछू सक राखी । बुधि विवेक उत्तमान आपनो मुख आई सो भाखी । सूर ।
 उत्तमुनी—सं० स्त्री० [सं० उत्तमुनी] एक प्रकार की मुद्रा । दे० प० घ ।
 उत्तजत—दे० उत्तजल ।
 उत्तजल—क्रि० अ० [सं० उत्तजन] उत्पन्न होना । पैदा होना ।
 उत्तजै—दे० उत्तजल ।
 उत्तनिषद—सं० पु० [सं०] भारतीय दर्शन से सम्बन्ध रखने वाली पुस्तकें जिनकी संख्या १०८ है । वेद की शाखाओं के ब्राह्मण के अंतिमभाग । ब्रह्म विद्या ।
 उत्तराजा—क्रि० सं० [हिं० उत्तजना] का सं० रूप] उत्पन्न करना । पैदा करना । उ० तेहि पवन सो विजुरी साजा । ओहि मेघ परवत उत्तराजा । जा० ।
 उत्तधि—सं० स्त्री० [सं०] उत्तद्रव उत्पात ।
 उत्तानी—दे० उत्ताने ।
 उत्ताने—क्रि० सं० [सं० उत्पन्न] [स्त्री० उत्तानी] पैदा होना । पैदा हुए ।
 उत्तया—दे० उत्ताने ।

उत्तारे—क्रि० सं० [सं० उत्पादन] उखाड़ना ।
 उत्तहै—क्रि० सं० [सं० उद्बहन] पानी फेंकना । उत्तलीचना ।
 उत्ताना—सं० पु० [हिं० उत्तहना] कपड़ा बुनने में राछ के बाहर जो सूत रह जाता है । अलग रहना ।
 उत्तंगे—क्रि० अ० [हिं० उत्तंग + ना] उभड़ना । निकलना ।
 उत्तग—सं० पु० [सं०] सांप ।
 उत्तर्ध—क्रि० वि० [सं० ऊर्ध्व] ऊपर । ऊपर की ओर ।
 उत्तधे—दे० उर्ध ।
 उत्तले—वि० [सं० अत्तर, अत्तर+ हिं० ला (प्रत्य०)] पिछला । पीछे का ।
 उत्तवै—क्रि० सं० [सं० उत्तवधन] नाचना । फाँदना ।
 उत्तटि—क्रि० अ० [हिं० उत्तटना] फिरना । घूमना । पलटना ।
 उत्तटी—वि० [हिं० उत्तटा का स्त्री० रूप०] विपरीत । विरुद्ध ।
 उत्तहान—सं० पु० [सं० उत्तलभन] उत्तहाना । शिकायत । गिला ।
 उत्तहाँ—क्रि० वि० [हिं० वहाँ] वहाँ । उस जगह । उस स्थान पर आ० स्वर्ग वैकुण्ठ आदि ।
 उहै—सर्व० [हिं० वह+ही] जिसके सम्बन्ध में कुछ कहा जा चुका हो । पूर्वोक्त ।

ऊ

ऊँकार—सं० पु० [सं० आँकार]
 ऊँ शब्द । प्रणव । ब्रह्म बीज ।
 त्रिदेव ।
 उ—सर्व० वह ।
 ऊख—सं० पु० [सं० इक्षु] ईख ।
 गन्ना । आ० रजोगुण । दःख ।
 ऊजरा—दे० उजर
 ऊढै—क्रि० अ० [सं० उड्डीयन]
 जाता रहना । गायब होना ।
 दूर होना । मिटना । नष्ट होना ।
 उतावला—वि० [हिं० उतावला]
 चंचल । वेगवान ।
 उदेस—सं० पु० [सं० उद्देश्य]
 तात्पर्य । मतलब । अभिप्राय ।
 हेतु । कारण । लक्ष्य ।
 ऊन—वि० [सं०] घाटा । कम ।

न्यून । सं० पु० रुई ।
 ऊँव—क्रि० अ० [सं० उद्वेजन]
 उकताना । घबड़ाना । अकुलाना ।
 अशीर होना ।
 ऊवरै—क्रि० अ० [सं० उद्धारण]
 उवरना । बचना । छूटना ।
 ऊभी—वि० [ऊर्ध्व=प्रा० उल्फ=
 अप० ऊवभ] ऊँचा ऊपर उठा
 हुआ । अत्यंत ।
 ऊरध—दे० उर्ध
 ऊसर—सं० पु० [सं० ऊषर] वह
 भूमि जिसमें रेह अधिक हो और
 कुछ उत्पन्न न हो । जहाँ कोई
 वनस्पति जम न सके । निर्जन
 स्थान ।

ए

एकल—वि० [सं०] अकेला । एकता ।
 आ० कला रहित । निगुण ।
 एकताई—सं० स्त्री० [सं० एकता]

एक्य । समानता । बराबरी ।
 एतिक—वि० स्त्री० [हिं० एती +
 एक] इतनी ।

ऐ

ऐसन—सं० पु० [सं० प्रलेप]
 एक मांगलिक द्रव्य जो चाल
 और हल्दी को एक साथ गीला
 पीसने से बनता है । देवताओं की
 पूजा में इस से थापा लगाने हैं

और घड़े पर चिह्न करते हैं । आ०
 विषय ।
 ऐसनि—क्रि० वि० [हिं० ऐसा]
 इस तरह की । इस प्रकार की ।
 ऐसो—दे० ऐसनि ।

श्री

श्री—अ०य० एक संशोधन सूचक शब्द । वह ।

श्रील्ल—वि० [सं० तुच्छ] क्षुद्र । छिछोरा । बुरा । नीच । आ० मन

श्रीट—सं० स्त्री० शरण । पनाह । रक्षा । आड़ ।

श्रीटत—क्रि० सं० [सं० आवर्तन] कपास को चरखी में दबा कर रुई और विनौलों को अलग करना । आ० विधि विधान करना । वाद विवाद करना ।

श्रीटा—सं० पु० [सं० श्रीट] आड़ दे० श्रीट

श्रीदी—वि० [सं० आर्द्र] गीली । नम । तर । भीगी ।

श्रीवरी—सं० स्त्री० [सं० विवर] कोठरी । उ० वह मथुरा काजर की श्रीवरी जो आवे ते कारो ।—सुर

श्रीर—सं० पु० आदि । आरंभ । हृदय के दरजे का । उ० हौ तो बिगरायल श्रीर को बिगरो न बिगारिए ।—तु०

श्रीस—सं० स्त्री० [सं० अवश्याय] हवा में मिली भाप जो रात की सरदी से जम कर और जल विन्दु के रूप में हवा से अलग होकर पदार्थों पर लग जाती है । शीत । शवनम । आ० आशा ।

श्री

श्रीधि घड़ा—सं० पु० [सं० अधः+घट] उलटा घड़ा । जिसका मुँह नीचे हो । आ० वहिरंग वृत्ति । जगत मुख ।

श्री—अ०य० [सं० अपर] और ।

श्रीगह—दे० श्रीगाह

श्रीगाह—वि० [सं० अचगाध] अथाह । बहुत गहरा । उ० खल

अध अगुन साधु गुन गाहा । उभय अपार उदधि श्रीगाहा तु० ।

श्रीघट—वि० [सं० अध+घट=घाट]

अधघट । कुघाट । दुर्गम । आ० कुमार्ग । कुसंग । अशुभ कर्म । चौरासी ।

श्रीलिया—सं० पु० [अध० वली का बहु०] मुसलमान मत का सिद्ध । पहुँचे हुए फकीर । योग क्रिया को जानने वाला ।

श्रीषध—सं० पु० [सं०] वह वस्तु जिस से शरीर की व्याधि नाश होती है । दवा । आ० सत्य ज्ञान ।

क

कंकर—सं० पु० [सं० कर्कर] एक खनिज पदार्थ जो उत्तर भारत में पृथ्वी के खोदने से निकलता है। कंकड़। कांकर। रोड़े। आ० विषय। दुर्गुण।

कंचन—सं० पु० [सं० काञ्चन] सोना। सुवर्ण। धन। संपत्ति। वि० नीरोग। स्वस्थ। सुन्दर। आ० माया।

कंत—सं० पु० [सं० कांत] पति। स्वामी। मालिक। ईश्वर।

कंथा—सं० स्त्री० [सं०] गूदड़ी। कथड़ी। उ० फारि पटोर सो पहिरौ कंथा। जा०। आ० शरीर। उ० मनुवाँ योगी काया मढ़ी। पंचतत्त ले कंथा गढ़ी। गो०

कँदला—सं० स्त्री० [सं० कंदरा] गुफा। गुहा। आ० ज्ञान गुफा। हृदय।

कंध—सं० पु० [सं० स्कंध] किसी कार्य में लगना।

कँवल—सं० पु० [सं० कमल] पानी में होने वाला एक फूल। कमल। कमल के आकार का एक मांस पिंड जो पेट में दाहिनी ओर होता है। हृदय कमल। उ० हृदय कमल, नैन कमल, देखि कै कमल नैन, होड़ुंगी कमल नैनी और हौ कहीं कहीं। के०।

कजरा—सं० पु० [सं० कजल] काजल। अंजन। आ० तामस।

कठवत—सं० पु० [हिं० काठ+श्रौता] काठ का एक बड़ा वर्तन जिस का किनारा बहुत ऊंचा और बहुत ढालू होता है।

कडिहँरिया—सं० पु० [सं० कर्ण-धार] नाविक। नाव चलाने वाला। मांभी। मल्लाह। केवट। पार करने वाला। आ० गुरु।

कथनी—सं० स्त्री० [सं० कथन+ई (प्रत्य०)] बात। कथन। कहना।

कथि—क्रि० स० [सं० कथन] कथना। बात करना। कहना।

कधी—क्रि० वि० [हिं० कद+ही (प्रत्य०)] कभी। किसी समय।

कनक—सं० पु० [सं०] सोना। सुवर्ण [सं० कनिक] गेहूँ।

कनयर—सं० पु० [सं० कणोर] फूलों का एक पेड़ जो सफेद, काला लाल, पीला और गुलाबी पांच रंग का होता है। यह बिपैला भी होता है। आ० अज्ञान।

कन्धा—सं० स्त्री० [सं०] अवि-वाहिता लड़की। क्वारी लड़की। आ० माया। बुद्धि।

कपड़ा—सं० पु० [सं० कर्पट] कपड़ा। बख़। पट। रुई, रेशम

ऊन व सन के तागों से बना हुआ
 आच्छादन ।
 कपाट—सं० पु० [सं०] क्वाड ।
 पाट । आ० अज्ञान ।
 कपास—सं० स्त्री० [सं० कर्पसि]
 भारत के अनेक भागों में पाया
 जाने वाला एक पौधा जिस के
 डेढ़ से रुई निकलती है । आ०
 सतोगुण । सुख
 कपि - सं० पु० [सं०] हनुमान ।
 बानर । दे० प० ख ।
 कपूर—सं० पु० [सं० कर्पूर] एक
 सफेद रंग का जमा हुआ सुगंधित
 द्रव्य । आ० ज्ञान ।
 कविरन—सं० पु० [अ० कवीर =
 श्रेष्ठ + न = नहीं] जो श्रेष्ठ न हो ।
 अज्ञान ।
 कवीर—सं० पु० [अ०] बड़ा ।
 श्रेष्ठ । संत कवीर ।
 कवीरा—दे० कवीर ।
 कमऊ—क्रि० वि० कवहूँ । कभी भी ।
 कमला—सं० स्त्री० [सं०] लक्ष्मी ।
 आ० माया ।
 कमान—दे० धनुस । आ० शरीर ।
 कर—सं० पु० [सं०] हाथ ।
 करक—सं० पु० [हिं०] बाँस आदि
 की बहुत छोटी फांस । रुक रुक
 कर होने वाली पीड़ा । कसक ।
 करकच—सं० पु० [देश०] बखेड़ा ।
 रगड़ । भगड़ा ।
 करगी—सं० स्त्री० [प्रा०] बाढ़ ।

बूडा । निकट । समीप । आ०
 मृत्यु । बंधन ।
 करता—सं० पु० [सं० कर्ता] करने
 वाला । रचने वाला । विधाता ।
 ईश्वर ।
 करतूता—दे० करतूती ।
 करतूती—सं० स्त्री० [हिं० करनी]
 कम । करनी । काम । करतव । उ०
 ऊँच निवास नीच करतूती ।-तु०
 करपल्लौ—सं० पु० [सं० करपल्लव]
 उंगलियाँ । हाथ का अगला
 भाग । पंजा ।
 करमिया—वि० [सं० कर्मी] कामे
 करने वाला । कर्मठ । कर्मरत ।
 करवा—सं० पु० [सं० करक] धातु
 वा मिट्टी का टोंटीदार लोटा ।
 बंधना । आ० देह । हृदय
 करह—सं० पु० [सं० कलिः] फूल
 की कली ।
 करहा—सं० पु० [सं० करभ] ऊँट ।
 हाथी का बच्चा । आ० हठ योगी ।
 करामाती—वि० [हिं० करामात]
 करामात दिखाने वाला । आश्चर्य-
 जनक क्रियायें दिखाने वाला
 व्यक्ति । सिद्ध । मु० यदि तुम बड़े
 करामाती हो तो इस पानी में
 बहते हुए को जिला दो ।
 कराहि—दे० कराहै ।
 कराहै—क्रि० अ० [हिं० करना +
 आह] व्यथा सूचक शब्द मुँह से
 निकालना । आह करना ।

करिगह—सं० पु० [फा० कारगाह]
 जुलाहों के कारखाने की वह नीची
 जगह जिसमें जुलाहे पैर लटका
 कर बैठते हैं। और कपड़ा बुनते
 हैं। जुलाहों के कपड़ा बुनने का
 यंत्र। जुलाहों का कारखाना।
 आ० शरीर।
 करीम—सं० पु० [अ०] ईश्वर।
 वि० [अ०] कृपालु। दयालु।
 करोमा—दे० करीम।
 करुवा—वि० [सं० कटु] कटु।
 स्वाद में उग्र और अप्रिय।
 तीक्ष्ण। कड़ुआ।
 करुवाई—सं० स्त्री० [हिं० करुआ]
 कड़ुआपन उ० धूमहु तजै सइज
 करुवाई। तु०।
 करोरा—सं० पु० [हिं० करोड़]
 करोड़ पति। बहुत बड़ा धनी।
 कलंकी—सं० पु० [सं० कल्कि]
 कल्कि अवतार।
 कल—सं० स्त्री० [सं० कल्प, प्रा०
 कल] अराम चैन सुख। संतोष।
 कल कुकुही—सं० स्त्री० [कल=
 वाद्य+कुकुही=वनमुर्गी] वनमुर्गी
 के आकार का एक बाजा। आ०
 कुण्डलनी।
 कलत्र—सं० स्त्री० [सं०] स्त्री। पत्नी।
 कल्प—सं० पु० [सं०] काल का
 एक विभाग जिसे ब्रह्मा का एक
 दिन कहते हैं, और जिसमें १४
 मन्वन्तर व ४३२००००००० वर्ष

होते हैं। विभाग।
 कल्पौ—दे० कल्प।
 कल—सं० स्त्री० [सं०] किसी कार्य
 को भली भांति करने का कौशल।
 हुनर। आ० चैतन्यात्मा। चेतना
 शक्ति।
 कलाल—सं० पु० [सं० कल्पपाल]
 कलवार। मद्य बेचने वाला।
 कलि—सं० पु० [सं०] कलियुग। पाप।
 कलिमा—सं० पु० [अ० कलमा]
 वाक्य। बात। वह वाक्य जो
 मुसलमान धर्म का मूल मंत्र है।
 ला इलाह इल्लिहाह मुहम्मद
 रसूलिल्लाह।
 कलेज—दे० कलेजा।
 कलेजा—सं० पु० [सं० यकृत]
 प्राणियों का एक भीतरी अवयव
 जो छाती के भीतर बाईं ओर होता
 है जिस से नाड़ियों के सहारे
 शरीर में रक्त का संचार होता है।
 हृदय। दिल।
 कलेवा—सं० पु० [सं० कल्पवर्त]
 वह हलका भोजन जो सुबह बासी
 मुँह किया जाता है। जलपान।
 उ० छगन मगन प्यारे लाल
 कीजिये कलेवा। सूर
 कल्हारै—क्रि० अ० [सं० कल=शोर
 करना] दुख से कराहना। चिल्लाना।
 कवि—सं० पु० [सं०] काव्य
 करने वाला।

कस—क्रि० वि० [देश०] क्रिस
तरह । कैसे । क्योंकर ।
कसनि—सं० स्त्री० [हिं० कसना]
बंधन ।
कसमल—सं० पु० [सं० कशमल]
पाप । अथ । उ० कसमल होता
ते भड़ि पड़िया रहि गया तहाँ
ततसार । गो० ।
कसाई—सं० पु० [अ० कसाव]
बधिक । घातक । गो घातक ।
बूचड़ । आ० काल ।
कसाव—सं० पु० [सं० कषाय]
कसैलापन । खिंचाव ।
कसावै—क्रि० सं० [हिं० कसना]
कसाना । बाँधाना ।
कसौटी—सं० स्त्री० [हिं०] परख ।
जाँच ।
कहगिल—सं० स्त्री० [फा० काह=
घास+गिल+मिट्टी] दीवार जोड़ने
का मिट्टी का पतला गारा ।
काँचे—दे० काचे ।
काँजी—सं० स्त्री० [सं० कञ्जिक]
फटे हुए दूध का पानी । उ० दूध
फाटि जैसे भइ काँजी कौन स्वाद
करि खाइ । सू०
काँटवा—सं० पु० [सं० कंट] किसी
किसी पेड़ की डालियाँ और
टहनियों में निकले हुए सुई की
तरह के नुकीले अंकुर जो पुष्ट होने
पर बहुत कड़े हो जाते हैं ।
कंटक ।

काँसा—सं० पु० [सं० कांस्य] एक
मिश्रित धातु जो ताँबे और जस्ते
के संयोग से बनती है । आ० तुच्छ ।
का—सर्व० [सं० कः] क्या उ० का
छति लाभ जीर्ण धनु तोरे । तु० ।
काग—सं० पु० [सं० काक]
कौआ । बायस । उ० होय निरा-
मिप कवहु कि कागा । तु० । आ०
अविवेक ।
कागद कार—सं० पु० [अ० कागज
+कार=बनाने वाला] कागज
बनाने वाला ।
कागा—दे० काग । आ० गुरूवा ।
काचे—वि० [हिं० कच्चा] जो आग
में पका न हो । जैसे कच्चा घड़ा ।
काजी—सं० पु० [अ०] मुसलमानों
के धर्म और रीति नीति के अनुसार
न्याय की व्यवस्था करने वाला ।
मुसलमानी शासन के समय का
न्यायाध्यक्ष ।
काटि—क्रि० सं० [सं० कर्तन] नष्ट
करना । दूर करना । मिटाना ।
काठ—सं० पु० [सं० काष्ठ] पेड़ का
कोई स्थूल अंग जो आधार से
अलग हो गया हो । लकड़ी ।
काठ के घोरा—सं० पु० लकड़ी का
घोड़ा । आ० विषय ।
काठी—दे० काठ । आ० शरीर ।
काहु—क्रि० सं० [सं० कर्षण]
निकालना । बटोरना । उ० तव मथि
काठि लिए नवनीता तु०

कातल—क्रि० सं० [सं० कर्तन, प्रा० कत्तन] रुई से सूत बनाना । रुई को ऐण्ठ वा बट कर तागा बनाना । चरखा चलाना । आ० कर्म करना ।

कातल—दे० कातत । कातने की वर्तमान कालिक क्रिया ।

कान—सं० पु० [सं० कर्ण] वह इन्द्रिय जिस से शब्द का ज्ञान होता है । तराजू का पसंगा । बदला । सं० स्त्री० कानि । लोक लजा । मर्यादा ।

कानि—दे० कान ।

कापर—सं० पु० [सं० कर्पट=वस्त्र] कपड़ा । उ० काढहु कोरे कापर अरु काढौ घी की मौन । सू० । आ० शरीर

काम—सं० पु० [सं०] कामना । इच्छा । मनोरथ । मैथुन की इच्छा । चार पदार्थों में से एक ।

कामरि—सं० स्त्री० [सं० कम्बल] मोटे ऊन के धागों से बनाया गया एक प्रकार का ओढ़ने का वस्त्र । कमली । उ० सूर दास काली कामरि पर चढ़त न दूजो रंग । सू० । आ० शरीर ।

कामिनि—दे० कामिनी

कामिनी—सं० स्त्री० [सं०] स्त्री । सुन्दरी । आ० माया ।

काया—सं० स्त्री० [सं० काय] शरीर । तन । देह । उ० राग को न साज

न विराग जोग जाग जिय, काया नहीं छाँड़ि ठाटिवो कुठाट को । तु०

कारकुन—सं० पु० [फा०] किसी के बदले काम करने वाला । प्रबंध कर्ता । कारिन्दा ।

कारे—वि० [हि० काला] कृष्ण । स्याह । आ० काले केश वाले युवा पुरुष ।

काल—सं० पु० [सं०] समय । वक्त । मृत्यु । आ० निरंजन (मन) कल्पना ।

कालवूत—वि० [सं० कृत्रिम] नकली । बनावटी । सं० पु० [फ० कालवूद] कच्चा भराव जिस पर महराब बनाई जाती है । उ० कालवूत दूती विना जुरै न और उपाय । फिर ताके टारे बनै पाके प्रेम लदाय । वि० आ० नाशमान ।

काला—वि० [सं० कृष्ण] काजल या कोयले के रंग का । कृष्ण स्याह ।

कासी—सं० स्त्री० [सं० काशी] काशी नगरी । आ० शरीर

किंचित—वि० [सं०] कुछ । थोड़ा । अल्प ।

कितेव—सं० स्त्री० [अ० क्तिताव] पुस्तक । ग्रन्थ ।

क्रियारी—सं० स्त्री० [सं० केदार] खेत का एक भाग । खेतों व बागीचों में थोड़े थोड़े अंतर पर दो पतली मेंडों के बीच की भूमि,

जिस में बीज व पौधे लगाए जाते हैं । क्यारी । सिंचाई के लिए बनाये गए खेतों के छोटे टुकड़े । उ० महा वृष्टि भइ फूटि कियारी । तु०

किरतम—सं० पु० [सं० कृत्रिम]
बनावटी । नकली ।

किरमि—सं० पु० [सं० कृमि]
कीड़ा । आ० ईर्ष्या । द्वेष ।

किलोल—सं० पु० [सं० कल्लोल]
कीड़ा । आमोद प्रमोद । केलि ।
उ० विचित्र विहंग अलि जलज ज्यों, सुखमा करत कलोल । तु० ।

किसान—सं० पु० [प्रा०] कृषि व खेती करने वाला । खेतिहर ।
उ० कृषी निरावहि चतुर किसाना ।
तु० । आ० कर्मा जीव

कीट—सं० पु० [सं०] रेंगने या उड़ने वाला छुद्र जन्तु । कीड़ा । मकोड़ा ।

कीर—सं० पु० [सं०] शुक ।
सुग्गा । तोता । व्याध ।

कीला—दे० कीली

कीली—सं० स्त्री० [हिं० कील]
कील । खूँटी । मेख । बिल्ली ।
दे० प० ख ।

कीव—सं० पु० [सं० कृतम्]
किया । करना ।

कुंजडों—सं० पु० [सं० कुज+डा
(प्रत्य)] एक जाति जो तरकारी
बोती और बेचती है । आ०

अविवेकी ।

कुंजल—सं० पु० [सं०] हाथी ।
आ० शान

कुंड—सं० पु० [सं०] गडदा ।
आ० गर्भस्थान ।

कुंडल—सं० पु० [सं०] मंडल ।
कुंभ—सं० पु० [सं०] मिट्टी का
घड़ा । घट । कलश ।

कुंभरा—दे० कुम्हार ।

कुंभारा—दे० कुम्हार ।

कुभिलाई—क्रि० अ० [सं० कु+
भ्लान] मुरभाना । कांति का
मलीन पड़ना । प्रफुल्लता रहित
होना । उ० सुनि राजा अति
अप्रिय वानी, हृदय कंप मुख दुति
कुम्हिलानी । तु०

कुकरि—सं० स्त्री० [सं० कुकुरी]
कुतिया । आ० माया ।

कुकुरी—सं० स्त्री० [सं० कुक्कुरी]
कच्चे सूत का लपेटा हुआ लच्छा
जो कात कर तकले पर से उतारा
जाता है । अंटी ।

कुकुही—सं० स्त्री० [सं० कुक्कुम]
वनसुगी ।

कुचाली—सं० पु० [हिं० कुचाल]
दुष्टता । बदमाशी ।

कुटिल—सं० पु० [सं०] कपट ।
छल ।

कुटुम—सं० पु० [सं० कुटुम्ब]
परिवार । कुनबा । खानदान ।
वंश ।

कुढंगी—वि० [हिं० कुढंग] वेढंगी ।
 देढी मेढी ।
 कुतुवा—सं० पु० [फा०] लिखी हुई
 चीज । पुस्तक । कुरान ।
 कुदरति—सं० स्त्री० [अ० कुदरत]
 प्रकृति । माया । ईश्वरी शक्ति ।
 कुबुजा—सं० पु० [सं० कुबज]
 कुबड़ा मनुष्य । आ० अविवेक ।
 कुबुधि—वि० [सं० कुबुद्धि] जिस
 की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो ।
 दुर्बुद्धि । मूर्ख ।
 कुमारग—सं० पु० [सं० कुमारग]
 बुरामार्ग । बुरीराह । उ० रे तिय
 चोर कुमारग गामी । तु०
 कुम्हार—सं० पु० [सं० कुम्भकार]
 मिट्टी के बर्तन बनाने वाला ।
 मिट्टी के बर्तन बनाने वाली एक
 जाति । कुम्हार । आ० ब्रह्मा ।
 मन । अज्ञानी जीव ।
 कुम्हिलानी—दे० कुम्हिलाई
 कुरंगी—वि० [सं० कु + हिं० रंग]
 बुरे लक्षण वाला ।
 कुरंगे—सं० पु० [सं० कु + हिं०
 रंग] बुरे लक्षण । खराब रंग ।
 कुरिया—सं० स्त्री० [देश०] मकान ।
 घर । महल ।
 कुज—सं० पु० [सं०] वंश । घराना ।
 खानदान । जाति । समूह । कुंड ।
 कुलाल—दे० कुम्हार ।
 कुलात्ता—दे० कुम्हार ।
 कुलीन—वि० [सं०] उत्तम कुल में

उत्पन्न । अच्छे घराने का ।
 पवित्र । शुद्ध । उ० गंग जो
 निरमल नीर कुलीना । जा० ।
 कुसंभ—सं० पु० [सं० कुसुंभ]
 कुसुम । केसर । कुमकुम । अग्नि
 शिखा ।
 कुदतु—क्रि० सं० [सं० कु + हनन =
 मारना] मारना । बुरी तरह से
 मारना । उ० आपु व्याध को रूप
 धरि कुहौ कुरंगहि राग । तुलसी
 जौ मृग मन मरै परै प्रेम पर
 दाग । तु०
 कुहिया—सं० पु० [देश०] घातक ।
 मारने वाला ।
 कूकुर—सं० पु० [सं० कुक्कुर]
 कुत्ता । श्वान । आ० अज्ञानी ।
 कूच सं० पु० [तु०] प्रस्थान ।
 रवानगी ।
 कूट—सं० पु० [सं०] हास्य । व्यंग ।
 निंदा ।
 कूप—दे० कूवाँ ।
 कूर—वि० [सं० क्रूर] दुष्ट ।
 बुरा । कुमार्गी । मूर्ख ।
 कूरा—सं० पु० [सं० कूट] जमीन
 पर पड़ी हुई गद्द । खर पत्ते आदि
 निकम्मी चीजें । कूड़ा करकट । आ०
 विकार ।
 कूवा—सं० पु० [सं० कूप] कुआँ ।
 इनारा । कूप । गड्ढा । कुंड ।
 आ० गर्भवास । नरक ।

कृमि—सं० पु० [सं०] छुद्रकीट ।
छोटा कीड़ा ।
केंचुलि—सं० स्त्री० [सं० कंचक]
सर्प आदि प्राणियों के शरीर पर
कः भिखी दार चमड़ा जो हर साल
गिर जाता है ।
केंचुवा—सं० पु० [सं० क्विचिलिक]
सूत के आकार का एक बरसाती
कीड़ा ।
केतिक—वि० [सं० कति + एक]
कितना । किस कदर । संख्या
वाचक शब्द ।
केर—अव्य० [सं० कृत] सम्बन्ध
सूचक अव्यय । अवधी भाषा में
यह क, की, के विभक्तियों के
स्थान में आता है । उ० छमड्ड
चूक अन जानत केरी । तु०
केरा—सं० पु० [सं० कदल] एक
पेड़ जिसके पत्ते राज डेढ़ गज
लम्बे और हाथ भर चौड़े होते
हैं । इस पेड़ में डालियाँ नहीं होती
हैं । केला । आ० सालकी ।
केरि—दे० केर ।
केलि—सं० स्त्री० [सं०] क्रीड़ा ।
खेल । विहार । हंसी । मजाक ।
केवट—सं० पु० [सं० कैवर्त्त]
मल्लाह । कर्णधार । मांभी । नाव
खेने वाला । उ० केवट राम रजायसु
पावा । तु० । आ० यमराज ।
केस—सं० पु० [सं० केश] सिर के
बाल ।

केसो—सं० पु० [सं० केशव]
विष्णु का एक नाम ।
केहरि—सं० पु० [सं० केसरी]
सिंह । शेर । आ० जीव । ज्ञान ।
केहु—सर्व० [हिं० के] कोई ।
कैंडा—सं० पु० [सं० काइ=एक
प्रकार का वर्गमाप] किली वस्तु के
विस्तार आदि नापने का पैमाना ।
कैंक—वि० [प्रा० कइ+एक] कित-
ने एक । कितनों ।
कोख—सं० पु० [सं० कुक्षि] उदर ।
पेट ।
कोखिया—दे० कोख । आ० अंतः
करण ।
कोट—सं० पु० [सं०] दुर्ग । गढ़ ।
किला । आ० शरीर ।
कोटिक—वि० [सं० कोटि+क]
अमित । अनगिनत । बहुतअधिक ।
करोड़ों ।
कोठरी—सं० स्त्री० [हिं०] वह
छोटा स्थान जो चारों ओर
दीवारों व दरवाजों आदि से
घिरा और ऊपर से छाया हुआ
हो । छोटा कमरा । तंग कोठा ।
आ० शरीर ।
कोठा—सं० पु० [सं० कोष्ठक]
शरीर या मस्तिष्क का कोई भीतरी
भाग ।
कोठी—सं० स्त्री० [हिं० कोठा]
बड़ा पक्का मकान । हवेली । आ०
शरीर ।

कोड़—सं० पु० [देश०] कार्य ।
काम । काज ।
कोड़ै—क्रि० सं० [सं० कुंड=खंडित
एक] खेत गोड़ना । खेत की
मिट्टी को कुछ गहराई तक खोद
कर उलट देना ।
कोतवखिया—सं० स्त्री० [देश०]
रक्षा । रखवाली । आ० गुरूपन
कोदइत—सं० पु० [देश०] कोदो
दरने की चक्री । मु० कोदो
दलना=निकृष्ट या तुच्छ काम
करना । आ० लौकिक सुख ।
कोरिया—दे० कोरी । आ० आत्मा ।
जीव ।
कोरी—वि० [सं० कोटि] सौलाख ।
करोड़ । सं० पु० [हिं०]
हिन्दुओं की एक जाति जो सादे

और मोटे कपड़े बुनती है । हिन्दू
जुलाहा । आ० जीव । वि०
[सं० केवल] साफ ।
कोलाहल—सं० पु० [सं०] बहुत
से लोगों की अस्पष्ट चिह्नाहट ।
शोर । हल्ला ।
कोल्हू—सं० पु० [हिं०] तेल
पेरने का यंत्र जो डमरू के आकार
का और बहुत बड़ा होता है ।
कोहू—सं० पु० [सं० क्रोध]
गुस्सा । क्रोध
कौतुक—सं० पु० [सं०] आश्चर्य ।
आनन्द । प्रसन्नता ।
क्रितिया—वि० [सं० कृत्रिम]
काल्पनिक । बनावटी ।
क्रीड़ा—सं० स्त्री० [सं०] कल्लोल ।
केलि । आमोद । प्रमोद ।

ख

खंदा—क्रि० अ० [प्रा० खंत]
खाना । भक्षण करना । उ० खंतु
पियंतु कि जीव जई । प्रा० दो०
खंदे—सं० पु० [अ० खंदक]
गडढा । खंदक ।
खंधिया—क्रि० सं० [हिं० खनना]
खोदना । नष्ट करना ।
खंधे—दे० खंधिया ।
खंभ—सं० पु० [सं० स्तम्भ] पत्थर
व लकड़ी का मोटा खंभा जिस के
आधार पर छप्पर या छत बनाई
जाती है । खंभा । स्तम्भ ।
आधार ।

खंभे—दे० खंभ ।
खग—सं० पु० [सं०] पक्षी ।
चिड़िया । आ० मन ।
खजूर—सं० पु० [हिं०] एक वृक्ष
विशेष जो बहुत ऊँचा होता है
उसके तने में शाखाएँ नहीं होती
हैं ।
खट—वि० [सं० षट] छः । एक
संख्या वाचक शब्द ।
खटोला—सं० पु० [हिं०] छोटी
खाट या चारपाई । आ० अर्थी ।
खतमा—सं० पु० [अ० खुतबा]
प्रशंसा । तारीफ ।

खताना—क्रि० अ० [हिं० खुटाना]

समाप्त होना । खतम होना । बुझ जाना ।

खदेरा—क्रि० स० [हिं० खेदना]

हटाना । दूर करना ।

खद्य—वि० [सं० खाद्य] खाने

योग्य । भोज्य । भक्ष्य । आ०

शुभ कर्म

खन—सं० पु० [सं० क्षण] क्षण ।

लमहा ।

खना—दे० खन ।

खपै—क्रि० अ० [सं० क्षेपन]

नष्ट होना ।

खप्पर—सं० पु० [सं० खर्पर]

भिन्ना पात्र । आ० खोपड़ी ।

खर—सं० पु० [सं०] गदहा ।

गधा । आ० अज्ञानी । मूर्ख । वि०

[सं० खर=तीक्ष्ण] अच्छा ।

बढ़िया ।

खरग—सं० पु० [सं० खङ्ग] तलवार ।

खरसान—सं० स्त्री० [हिं० खर+

सान] एक प्रकार की सान जो

अधिक तीक्ष्ण होती है । इस पर

तलवार उतारी जाती है । शाण ।

सान ।

खरा—वि० [सं०] असली ।

अच्छा । बढ़िया ।

खरी—सं० स्त्री० [सं० खलि] तेल

निकाल लेने पर तेलहन की बची

हुई सीठी

खलक—दे० आलम ।

खलकन—दे० आलम ।

खवासी—सं० पु० [हिं० खवास+ई

(प्रत्य०)] खिदमतगारी ।

चाकरी । नौकरी उ० उग्रसेन

की करत खवासी । वि० सा०

खसम—सं० पु० [अ०] पति ।

स्वामी । उ० जियत खसम किन

भस्म रमायो । सूर । आ० ईश्वर ।

सद्गुरु । जीव ।

खसै—क्रि० अ० [सं० खसना]

अपने स्थान से हटना । खसकना ।

गिरना । उ० खसी माल मूरति

मुसकानी ।—तु०

खांखरि—वि० [हिं० खांखर]

जिसमें बहुत छेद हों । आ०

खोपड़ी । शरीर

खांगि—क्रि० अ० [सं० खंज]

चलने में असमर्थ होना । छीजना ।

असमर्थ होना ।

खांच—सं० पु० [हिं० खाचना]

पतली टहनी आदि का बना बड़ा

टोकरा । खौंची ।—आ० तृष्णा ।

खांड—सं० स्त्री० [सं० खंड] दिना

साफ की हुई चीनी । कच्ची शकर

आ० गुरुपद ।

खाइसि—क्रि० स० [सं० खादन]

विपैले कीड़ों के काटने के अर्थ में

केवल काला (सांप) के साथ

इस क्रिया का प्रयोग होता है ।

जैसे तुम्हें काला खाय ।

खाई—सं० स्त्री० [सं० परिखा] वह नहर जो किसी गाँव, किले, बाग या महल आदि की रक्षा के लिए खोदी गई हो। खंदक। [देश०] वह ऊँची मेंड़ जो बाग या फूल-वारी की रक्षा के लिए बनाई जाती है।

खाटा—सं० स्त्री० [सं० खट्वा] चारपाई। खटिया। आ० वृत्ति।

खानि—सं० स्त्री० [सं० खनि] उत्पत्ति स्थान। योनिया जैसे श्रारडज, पिरडज, स्वेदज तथा उपमज।

खानी—सं० स्त्री० [सं० खानि] वह जगह जिस में या जहाँ कोई वस्तु अधिकता से हो। खजाना।

खारी—सं० स्त्री० [सं०] एक प्रकार का द्वार लवण [नमक] जो दवा के काम में आता है। आ० विषय, विकार।

खिमुवा—सं० पु० [सं० खिद्यते] खिभने वाला।

खिरपै—क्रि० स० [प्रा० खेरइ] क्लिट क्लिटाना। पीसना। मु० दाँत पीसना। दाँत क्लिट क्लिटाना।

खीभि—दे० खीभि।

खीभि—क्रि० अ० [हिं०] दुखी और क्रुद्ध होना। भुंभलाना।

खीन—वि० [सं० क्षीण] क्षीण। कमजोर। नाश।

खीलि—क्रि० स० [सं० कीलन]

गाड़ना। जड़ना।

खीसै—वि० [सं० क्रिष्क=वध, नाश] नष्ट। बरबाद। उ० सती मरन सुनि संभु गण, लगे करन मख खीस। तु०

खुटुकार—सं० स्त्री० [हिं० लगन] किसी ओर ध्यान लगाने की क्रिया। लौ। लगन [हिं० खुटका] चिंता।

खुदी—सं० पु० [फ०] अहंभाव। अहंकार। अभिमान। घमंड। शेखी।

खुन्न—सं० पु० [फा०] सखुन। वात। कथन।

खुमारी—सं० स्त्री० [अ० खुमार] मद। नशा। उ० जब जान्यो ब्रज देव मुरारी। उतरि गई तब गर्व खुमारी। सू०

खुर—सं० पु० [सं०] सींग वाले चौपायों के पैर की कड़ी टाप जो बीच में फटी होती है। गाय, भैंस आदि सींग वाले चौपायों के पैर का निचला छोर जो खड़े होने पर पृथ्वी पर पड़ता है।

खुर-खुर—सं० पु० [हिं०] घर घर शब्द। खुर खुर शब्द।

खुशय—वि० [देश०] सावधान। सचेत। सतर्क।

खूटा—सं० पु० [सं० क्षोड] बड़ी मेल। पशुओं के बांधने के लिए खड़ी गड़ी हुई लकड़ी। आ० आशा। ध्येय

खटी—सं० स्त्री०] हिं० खूँटा]
छोटी मेस्र । [हिं० खूँडा]
खूँडी, एक पतली लकड़ी जिसके
सिरे पर काँच का एक चुल्ला फोड़
कर बांध देते हैं । इसी चुल्ले में
रेशम के महीन तागे डालकर
धुलाये ताना तनते हैं ।

खेड़ा—सं० पु० [सं० खेट] छोटा
गांव । आ० शरीर ।

खेतु—सं० पु० [हिं० खेत=समर
भूमि] लड़ाई । संग्राम । समर ।
उ० इति हौं खेत खिताइ
खिलाई । तोहि श्रवहि का करौं
बड़ाई । जा०

खेदे—क्रि० सं० [हिं० खेदना]
भगाना । खदेरना । खेदना ।

खेवै—क्रि० सं० [हिं० खेना] नाव
चलाना । नाव के डाढ़ों को
चलाना । आ० तारना । उपदेश
करना ।

खेहा—सं० स्त्री० [प्रा० खेह]
धूल । राख । खाक । मिट्टी । उ०
कीन्हेसि अग्नि पवन जल
खेहा । जा०

खोदाई—दे० खोदाय ।

खोज—सं० स्त्री० [हिं०] पैर आदि
का निशान । [हिं० खोजना]

तलाश करना । पता लगाना ।
ढूँढना ।

खोजिन—दे० खोजना ।

खोजिया—दे० खोजना ।

खोट—सं० स्त्री० [सं०] दोष ।
ऐव । बुरा । उ० सूरदास पारस के
परमे मिटत लोह की खोट । सूर

खोटा—वि० [सं० चुद्र=खोट=
खोड़ा] जिस में कोई ऐव हो ।
दूषित । बुरा ।

खोटि—दे० खोटा ।

खोटी—दे० खोटा ।

खोदाय—सं० पु० [फा० खुदा]
ईश्वर ।

खोर—सं० स्त्री० [सं०] संकरी गली ।

कूचा । बस्तियों की तंग गली ।

चौपायों को चारा देने की नाँद ।

खोरा—सं० पु० [हिं०] कटोरा ।
बेला । आ० बुद्धि ।

खोरि—सं० स्त्री० [सं० खोट या
खोर] ऐव । दोष । नुक्स ।
उ० कहीं पुकारि खोरि मोहि
नाहीं । तु०

खोरी—दे० खोरि ।

खोलरी—सं० पु० [सं० खोल]
उपरी आवरण ।

खोवा—सं० पु० [हिं०] खोया ।
मावा । आ० सदुपदेश । ज्ञान ।

गाँठि—सं० स्त्री० [हिं० गाँठ, सं० ग्रन्थि] गांठ

गाँठि जोरि—क्रि०सं० [हिं० गाँठ+ जोड़ना] गांठ बंधन करना । विवाह करना ।

गाँठी—दे० गाँठि । आ० हृदय ।

गांथल—क्रि० सं० [सं० ग्रंथन] गूथना । गूथना गांठना । जोड़ना । उ० गुरु के बचन फूल हिय गाथे । जा०

गाँव—सं० पु० [सं० ग्राम] खेड़ा । छोटी बस्ती । आ० शरीर । स्थान । स्थिति स्थान ।

गाँस—सं० स्त्री० [हिं०] गाँठ । हथियार वा कांटा की नोक । बैर । द्वेष । मनो मालिन्य । उ० मानीराम अधिक जननी ते जननिहु गंस न गही । तु०

गाइत्री—सं० स्त्री० [सं०] गाइत्री नाम की एक स्त्री । एक पवित्र मंत्र का नाम जिसे सावित्री भी कहते हैं । दे० प० ख

गाइन—दे० गौ । आ० इडा आदि नाडियाँ । संत ।

गाई—दे० गौ

गाऊँ—दे० गांव

गाजै—क्रि० अ० [सं० गर्जन] गरजना । शब्द करना । उ० सैन भेष अस दुहु दिसि गाजा । जा०

गाड़—सं० स्त्री० [सं० गर्त]

गड़हा । गड़ड़ा । उ० रुधिर गाड़ भरि भरि जमेउ ऊपर धूरि उड़ाइ । तु०

गाड़र—सं० स्त्री० [सं० गड़ठरी वा गड़ठरिका] भेंड़ ।

गाड़ि—सं० पु० गाड़ना । धंसान । मु० जैसे खूँटा गाड़ना ।

गाढ़ो—क्रि० वि० [हिं० गाढा] दृढ़ता से । जोर से । भर्त्ताभांति ।

गात—सं० पु० [सं० गात्र] शरीर । अंग ।

गाय—दे० गौ । आ० सतोगुण । सात्त्विकी वृत्ति । माया ।

गायन—सं० पु० [सं० गायक] गीत । राग । [हिं० गाना] गीत गाना ।

गारि—सं० स्त्री० [सं० गालि] गाली । दुर्बचन ।

गारी—सं० स्त्री० [हिं० गाली] कलंक सूचक आरोप । आ० सम्बन्ध ।

गारु—दे० गरुआ

गारुड़ि—सं० पु० [सं० गारुड़ी] मंत्र से सांप का विष उतारने वाला । सांप भाड़ने वाला । उ० चले सब गारुड़ी पछिताय । नेकहू नहिं मंत्र लागत समुक्ति काहू न जाइ । सुर । आ० गुरु

गाहक—सं० पु० [सं० ग्राहक] लेनेवाला । खरीदने वाला । खरीदार । आ० जिज्ञासु ।

खुटी—सं० स्त्री०] हिं० खूँटा]
छोटी मेख । [हिं० खूँडा]
खूँडी, एक पतली लकड़ी जिसके
सिरे पर काँच का एक चुल्ला फोड़
कर बांध देते हैं । इसी चुल्ले में
रेशम के महीन तागे डालकर
जुलाहे ताना तनते हैं ।

खेड़ा—सं० पु० [सं० खेट] छोटा
गांव । आ० शरीर ।

खेतू—सं० पु० [हिं० खेत=समर
भूमि] लड़ाई । संग्राम । समर ।
उ० हति हौं खेत खिलाइ
खिलाई । तोहि अबहि का करौं
बढ़ाई । जा०

खेदे—क्रि० सं० [हिं० खेदना]
भगाना । खदेरना । खेदना ।

खेवै—क्रि० सं० [हिं० खेना] नाव
चलाना । नाव के डायों को
चलाना । आ० तारना । उपदेश
करना ।

खेहा—सं० स्त्री० [प्रा० खेइ]
धूल । राख । खाक । मिट्टी । उ०
कीन्हेसि अगिनि पवन जल
खेहा । जा०

खोदाई—दे० खोदाय ।

खोज—सं० स्त्री० [हिं०] पैर आदि
का निशान । [हिं० खोजना]

तलाश करना । पता लगाना ।
इदना ।

खोजिन—दे० खोजना ।

खोजिया—दे० खोजना ।

खोट—सं० स्त्री० [सं०] दोष ।
ऐव । बुरा । उ० सूरदास पारस के
परमे मिटत लोह की खोट । सूर

खोटा—वि० [सं० छुद्र=खोट=
खोंडा] जिस में कोई ऐव हो ।
दूषित । बुरा ।

खोटि—दे० खोटा ।

खोटी—दे० खोटा ।

खोदाय—सं० पु० [फा० खुदा]
ईश्वर ।

खोर—सं० स्त्री० [सं०] संकरी गली ।

कूचा । बस्तियों की तंग गली ।

चौनायों को चारा देने की नाँद ।

खोरा—सं० पु० [हिं०] कटोरा ।
बेला । आ० बुद्धि ।

खोरि—सं० स्त्री० [सं० खोट या
खोर] ऐव । दोष । उक्तस ।
उ० कहीं पुकारि खोरि मोहि
नाहीं । तु०

खोरी—दे० खोरि ।

खोचरी—सं० पु० [सं० खोल]
उपरी आवरण ।

खोवा—सं० पु० [हिं०] खोया ।
मावा । आ० सद् उपदेश । ज्ञान ।

गौंठि—सं० स्त्री० [हि० गौंठ, सं० ग्रन्थि] गंठ

गौंठि जोरि—क्रि०सं० [हि० गौंठ+ जोड़ना] गंठ बंधन करना। विवाह करना।

गौंठी—दे० गौंठि । आ० हृदय ।

गांधल—क्रि० सं० [सं० ग्रंथन] गूथना। गूथना गांठना। जोड़ना। उ० गुरु के बचन फूल हिय गाये। जा०

गाँव—सं० पु० [सं० ग्राम] खेड़ा। छोटी बस्ती। आ० शरीर। स्थान। स्थिति स्थान।

गाँस—सं० स्त्री० [हि०] गौंठ। इथियार वा कांटा की नोक। बैर। द्वेष। मनो मालिन्य। उ० मानीराम अधिक जननी ते जननिहु गंस न गही। तु०

गाइत्री—सं० स्त्री० [सं०] गाइत्री नाम की एक स्त्री। एक पवित्र मंत्र का नाम जिसे सावित्री भी कहते हैं। दे० प० ख

गाइन—दे० गौ। आ० इडा आदि नाडियों। संत।

गाई—दे० गौ

गाऊँ—दे० गांव

गाऊँ—क्रि० अ० [सं० गर्जन] गरजना। शब्द करना। उ० सैन मेघ अस दुहु दिसि गाजा। जा०

गाहू—सं० स्त्री० [सं० गर्त]

गड़दा। गड़दा। उ० रुधिर गाड़ भरि भरि जमेउ ऊपर धूरि उड़ाइ। तु०

गाड़र—सं० स्त्री० [सं० गड़्ठरी वा गड़्ठरिका] भेंड़।

गाड़ि—सं० पु० गाड़ना। भंसान। सु० जैसे खूँटा गाड़ना।

गाढ़ो—क्रि० वि० [हि० गाढा] दृढ़ता से। जोर से। भलीभांति।

गात—सं० पु० [सं० गात्र] शरीर। अंग।

गाय—दे० गौ। आ० सतोगुण। सात्त्विकी वृत्ति। माया।

गायन—सं० पु० [सं० गायक] गीत। राग। [हि० गाना] गीत गाना।

गारि—सं० स्त्री० [सं० गालि] गाली। दुर्बचन।

गारी—सं० स्त्री० [हि० गाली] कलंक सूचक आरोप। आ० सम्बन्ध।

गारु—दे० गरुआ

गारुड़ि—सं० पु० [सं० गारुड़ी] मंत्र से सांप का विष उतारने वाला। सांप भाड़ने वाला। उ० चले सब गारुड़ी पछिताय। नेकहू नहिं मंत्र लागत समुक्ति काहू न जाइ। सुर। आ० गुरु

गाहक—सं० पु० [सं० ग्राहक] लेनेवाला। खरीदने वाला।

खरीदार। आ० जिशासु।

गिरदान—सं० पु० [हिं० गिरगिट]
गिरगिट ।

गिरही—सं० पु० [सं० गृहस्थ]
बरबार वाला । बाल बच्चों वाला ।

गुजारा—क्रि० सं० [फा०] पेश
करना । सु० नमाज गुजारना=
ईश्वर की प्रार्थना करना ।

गुनवंती—वि० [सं० गुणवती]
गुणवाली । जिसमें कुछ गुण
हों ।

गुनातीत—वि० [सं०] गुणों से
परे । जो गुणों के प्रभाव से अलग
हो । त्रिगुणात्मिका से परे । निर्लित
सं० पु० परमेश्वर ।

गुनिया—सं० पु० [हिं० गुर्णी]
वह व्यक्ति जिसमें गुण हो ।
गुणवान । आ० सदगुणी ।
विचारवान ।

गुनी—वि० [सं० गुणिन] गुण
वाला । निपुण । दे० गुनिया

गुने—क्रि० अ० [सं० गुणन]
विचार करना । मनन करना ।
समझाना ।

गुप्ता—दे० गुप्त

गुप्त—वि० [सं० गुप्त] छिपा
हुआ । पोशीदा । गोप्य ।

गुफा—सं० स्त्री० [सं० गुहा]
कंदरा । गुहा । आ० गगन गुफा ।

गुमान—सं० पु० [फा०] अनु-
मान । क्यास । धमंड । अहं-
कार । गर्व ।

गुमाना—दे० गुमान

गुमानी—वि० [हिं० गुमान]
धमंडी । अहंकारी । शरूर करने
वाला ।

गुर—सं० पु० [देश०] गुरखा ।
गुनरखा । मसतूल । नाव का वह
मसतूल जिसमें गोन (रस्सी) बांध
कर उसे खींचते हैं । आ० मेरु
दंड । वि० [सं० गुरु] आचार्य ।
किसी मंत्र का उपदेश ।

गुवारा—सं० पु० [सं० गो+पाल]
अहीर । एक जाति विशेष जो गौ
पालन का कार्य करती हैं ।

गुष्टि—दे० गोस्टि ।

गूंगा—वि० [फा० गुंग] जो
बोल न सके । मूक । आ० जीव ।
मन ।

गूदा—सं० पु० [सं० गुप्त] भेजा ।
मग्न । खोपड़ी का सार ।

गूनागून—वि० [सं० प्रगुप्त] अत्यंत
गुप्त । प्रच्छन्न । लापता ।

गे—सम्बोधन हे । मिथला प्रान्त में
स्त्रियों परस्पर वार्तालाप में गे
सम्बोधन करती हैं ।

गेह—दे० ग्रीह ।

गैया—दे० गौ

गोड़—सं० पु० [हिं०] पैरा । पाँव

गोड़ा—सं० पु० [हिं० गोडा=पैर]
पाया । घोड़िया ।

गोड़े—दे० गोडा आ० मन, बुद्धि

वह स्थान जहाँ नाव पर चढ़ कर या पानी में हल कर लोग पार उतरते हैं ।

घाटी—सं० स्त्री० [हिं० घाट] पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग ।

घात—सं० पु० [सं०] दाँव । औसर । समय । मौका ।

धाम - सं० पु० [सं० धर्म] धूप । सुर्यातप । उ० धाम घरीक निवारिये कलित ललित अलि पुंज । वि० । आ० त्रयताप ।

धामे—दे० धाम

घालि—क्रि० सं० [हिं० घालना] डालना । रखना । बिगाड़ना । गड़बड़ करना । नाश करना या कर डालना ।

घाले—दे० घालि

घालौं—दे० घालि

घाव—सं० पु० [सं० घात] शरीर पर का वह स्थान जो कट या चिर गया हो । क्षत । जखम । आ० यातना ।

घास—सं० स्त्री० [सं०] पृथ्वी पर उगने वाले छोटे छोटे उद्भिज ।

घिनाय—क्रि० अ० [हिं० घिन] घिनाना । घृणा करना । नफरत करना ।

घीन—सं० पु० [सं० घृण्य] जुगुपसित । निन्दित । घृणित । त्याज्य ।

घीब—सं० पु० [सं० घृत] दूधका चिकनासार जिस में से जल का

अंश तपा कर निकाल दिया गया हो । घृत । आ० जीवात्मा । मोक्ष ।

घुँघुची—सं० स्त्री० [सं० गुँजा] गुँजा । एक प्रकार के छोटे छोटे लाल व सफेद बीज । इन का सारा अंग लाल या सफेद होता है केवल मुँह काला होता है । मु० घुँघची भर=योड़ा ।

घुन—सं० पु० [सं० घृण] एक प्रकार का छोटा कीड़ा जो अनाज और लकड़ी में लगता है । सुरचा । मु० घुनलगना=भीतर ही भीतर किसी वस्तु का क्षीण होना । आ० काल । कल्पना । विकार ।

घूर—सं० पु० [हिं० घूरा] कूड़े करकट का ढेर । वह स्थान जहाँ कूड़ा करकट फेंका जाता है । कूड़े का ढेर । आ० संसार ।

घूरि घूरि—क्रि० वि० [सं० घूर्ण] घूम घूम कर । लौट लौट कर । फेरा दे दे कर ।

घेर—क्रि० सं० [हिं० घेरना] चारों ओर हो जाना । चारों ओर से छेकना ।

घैल—सं० पु० [सं० घट] घड़ा । कलसा । गगरा । आ० तृष्णा ।

घोंटि—क्रि० सं० छुरा या उस्तरा फेर कर शरीर के बाल दूर करना । मूँडना ।

गिरदान—सं० पु० [हि० गिरगिट]
गिरगिट ।

गिरही—सं० पु० [सं० गृहस्थ]
घरबार वाला । बाल बच्चों वाला ।

गुजारा—क्रि० सं० [फा०] पेश
करना । मु० नमाज गुजारना=
ईश्वर की प्रार्थना करना ।

गुनवंती—वि० [सं० गुणवती]
गुणवाती । जिसमें कुछ गुण
हों ।

गुनातीत—वि० [सं०] गुणों से
परे । जो गुणों के प्रभाव से अलग
हो । त्रिगुणात्मिका से परे । निर्लित
सं० पु० परमेश्वर ।

गुनिया—सं० पु० [हि० गुणी]
वह व्यक्ति जिसमें गुण हो ।
गुणवान । आ० सद्गुणी ।
विचारवान ।

गुनी—वि० [सं० गुणिन] गुण
वाला । निपुण । दे० गुनिया

गुने—क्रि० आ० [सं० गुणन]
विचार करना । मनन करना ।
समझाना ।

गुप्ता—दे० गुपत

गुपत—वि० [सं० गुप्त] छिपा
हुआ । पोशीदा । गोप्य ।

गुफा—सं० स्त्री० [सं० गुहा]
कंदरा । गुहा । आ० मगन गुफा ।

गुमान—सं० पु० [फा०] अनु-
मान । क्यास । धमंड । अहं-
कार । गर्व ।

गुमाना—दे० गुमान

गुमाती—वि० [हि० गुमान]
धमंडी । अहंकारी । गरूर करने
वाला ।

गुर—सं० पु० [देश०] गुरखा ।
गुनरखा । मसतूल । नाव का वह
मसतूल जिसमें गोन (रस्ती) बांध
कर उसे खींचते हैं । आ० मेरु
दंड । वि० [सं० गुरु] आचार्य ।
किसी मंत्र का उपदेश ।

गुवारा—सं० पु० [सं० गो+पाल]
अहीर । एक जाति विशेष जो गौ
पालन का कार्य करती हैं ।

गुष्टि—दे० गोस्टि ।

गूगा—वि० [फा० गुंग] जो
बोल न सके । मूक । आ० जीव ।
मन ।

गूदा—सं० पु० [सं० गुप्त] भेजा ।
मग्ज । खोपड़ी का सार ।

गूनागून—वि० [सं० प्रगुप्त] अत्यंत
गुप्त । प्रच्छन्न । लापता ।

गै—सम्बोधन हे । मिथला प्रान्त में
त्रियॉ परस्पर वार्तालाप में गै
सम्बोधन करती हैं ।

गैह—दे० ग्रीह ।

गैया—दे० गौ

गोड़—सं० पु० [हि०] पैरा । पाँव

गोड़ा—सं० पु० [हि० गोडा=पैर]
पाया । षोडिया ।

गोड़े—दे० गोड़ा आ० मन, बुद्धि

वह स्थान जहाँ नाव पर चढ़ कर या पानी में इल कर लोग पार उतरते हैं ।

घाटी—सं० स्त्री० [हिं० घाट]

पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग ।

घात—सं० पु० [सं०] दौँव ।

औसर । समय । मौका ।

घाम - सं० पु० [सं० धर्म] धूप ।

सुर्य्यातप । उ० घाम घरीक निवा-

रिये कलित ललित अलि पुंज ।

वि० । आ० त्रयताप ।

घामे—दे० घाम

घालि—क्रि० स० [हिं० घालना]

डालना । रखना । बिगाड़ना । गड़बड़

करना । नाश करना या कर डालना ।

घाले—दे० घालि

घालौं—दे० घालि

घाव—सं० पु० [सं० घात] शरीर

पर का वह स्थान जो कट या

चिर गया हो । चूत । जख्म ।

आ० यातना ।

घास—सं० स्त्री० [सं०] पृथ्वी पर

उगने वाले छोटे छोटे उद्भिज्ज ।

घिनाय—क्रि० अ० [हिं० घिन]

घिनाना । घृणा करना । नफरत

करना ।

घीन—सं० पु० [सं० घृण्य] जुगुप-

सित । निन्दित । घृणित । त्याज्य ।

घीव—सं० पु० [सं० घृत] दूधका

चिकनासार जिस में से जल का

अंश तपा कर निकाल दिया गया हो । घृत । आ० जीवात्मा । मोक्ष ।

घुँघुची—सं० स्त्री० [सं० गुँजा]

गुँजा । एक प्रकार के छोटे छोटे

लाल व सफ़ेद बीज । इन का सारा

अंग लाल या सफ़ेद होता है केवल

मुँह काला होता है । मु० घुँघची

भर=धोड़ा ।

घुन—सं० पु० [सं० घुण] एक

प्रकार का छोटा कीड़ा जो अनाज

और लकड़ी में लगता है । मुरचा ।

मु० घुनलगना=भीतर ही भीतर

किसी वस्तु का क्षीण होना । आ०

काल । कल्पना । विकार ।

घूर—सं० पु० [हिं० कूरा] कूड़े

करकट का ढेर । वह स्थान जहाँ

कूड़ा करकट फेंका जाता है । कूड़े

का ढेर । आ० संसार ।

घूरि घूरि—क्रि० वि० [सं० घूर्ण]

घूम घूम कर । लौट लौट कर ।

फेरा दे दे कर ।

घेर—क्रि० स० [हिं० घेरना] चारों

ओर हो जाना । चारों ओर से

छेकना ।

घैल—सं० पु० [सं० घट] घड़ा ।

कलसा । गगरा । आ० तृष्णा ।

घोंटि—क्रि० स० छुरा या उस्तरा

फेर कर शरीर के बाल दूर करना ।

मुँडना ।

घोर—सं० पु० [हि० घोड़ा]
 घोड़ा । उ० चोर मोर घोर । पानी
 पिये उठि भोर ।
 घोरा—दे० घोर
 घोरि—क्रि० म० [हि० घोलना]

पानी या और किसी द्रव पदार्थ में
 किसी वस्तु को हिलाकर मिलाना ।
 घोरे—दे० घोर [देश० घाल]
 छाँछ । तक्र । मढा । आ० अवि-
 वेक । वामना ।

च

चंद्र, चंद्र—सं० पु० [सं० चंद्र]
 चंद्रमा । आ० इडा । जिज्ञासु ।
 चंद्रन, चन्द्रन—सं० पु० [सं०]
 एक पेड़ जिसके हीर की लकड़ी
 बहुत सुगंधित होती है । आ०
 जीव । मनुष्य शरीर ।
 चंद्रवदन—सं० स्त्री० [सं०]
 चन्द्रमा जैसी मुख वाली । सुन्दर
 रूप ।
 चंद्रा—सं० पु० [सं० चंद्र वा चन्द्र]
 चंद्रना । उ० ज्यों चकोर चंद्रा
 को निरखै इत उत दृष्टि न जाहि ।
 सूर । आ० इडा ।
 चंपा—सं० पु० [सं० चंपक]
 एक मझोले कद का पेड़ जिसमें
 हलके पीले रंग के फूल लगते हैं ।
 चकनाचूर—वि० [हि० चक=भर-
 पूर+चूर] जिसके टूट फूट कर
 बहुत से छोटे छोटे टुकड़े हो गये
 हों । चूर चूर । खंड खंड । चूरित ।
 चकर्ना—सं० स्त्री० [सं० चक्री]
 अनाज दलने की एक प्रकार की
 विशिष्ट चक्री । छोटी चक्री ।
 चकवै—वि० [सं० चक्रवर्ती]

चक्रवर्ती (राजा) असमुद्रांत
 पृथ्वी का राजा ।
 चकोर—सं० पु० [सं० चक्रवाक]
 एक प्रकार का बड़ा पहाड़ी तीतर
 जो नैपाल, नैनीताल आदि स्थानों
 में बहुत मिलता है । इसके ऊपर
 का रंग काला होता है, जिस पर
 सफेद चित्तियाँ होती हैं । पेट का
 रंग कुछ सफेदी लिए होता है,
 चाँच और आंखें लाल होती हैं ।
 भारत वर्ष में यह प्रसिद्ध है कि
 यह चन्द्रमा का बड़ा प्रेमी है
 और उसकी ओर एक टक देखा
 करता है । यहाँ तक कि वह आग
 की चिनगारियों को चंद्रमा की
 किरनें समझ कर निगल जाता है ।
 चटाक - क्रि० वि० [सं० चट]
 चट शब्द करके टूटना । कली
 का फूट कर खिलना] उ० लगे
 गुलाब खुशामदी चट चट चुटकी
 दैन ।-विहारी
 चढ़त—क्रि० अ० [सं० उच्चलन]
 नीचे से ऊपर को जाना ।

चढ़ावन—क्रि० सं० [हिं० चढ़ाना]

नीचे से ऊपर ले जाना ।

चतुरा—सं० पु० [हिं० चतुर]

चतुर । प्रवीण ।

चतुराई—सं० स्त्री० [सं०] होशि-

यारी । निपुणता । दक्षता ।

चपल—वि० [सं०] चंचल ।

तेज । फुरतीला । कुछ काल तक एक स्थिति में न रहने वाला ।

चपेरे—क्रि० सं० चाँपना । दबाना बसमें करना । आ० शम, दम आदि का प्रयोग करना ।

चबाड—क्रि० सं० [सं० चर्चण]

दांतों से कुचलना । उ० बरस पचासक लौं विषय ही में बास क्रियों तऊ न उदास भयो चबे को चबाइए।—प्रिय आ० विषय भोगना ।

चमरा गांठ—सं० पु० चमड़े का गाँठ । आ० शरीर ।

चर—वि० [सं०] आप से आप चलने वाला । जंगम । जैसे चर-जीव, चराचर एक स्थान पर न ठहरने वाला ।

चरई—सं० स्त्री० [सं० चारिका] बड़े तारों के बीच में छोटे पतले तार को बाँधने वाली जगह ।

चरखा—सं० पु० [फा० चर्ख]

लकड़ी का बना हुआ एक प्रकार का यंत्र जिसकी सहायता से ऊन, कपास या रेशम आदि को कात

कर सूत बनाते हैं । आ० शरीर ।

चरखी—सं० स्त्री० [हिं० चरखा का

स्त्री० अल्प०] छोटा चरखा ।

सूत लपेटने की फिरकी । पतली कमचियों से बना हुआ जुलाहों का एक औजार जिसकी सहायता से कई सूत एक में लपेटे जाते हैं । आ० वेद ।

चरखुल्ला—दे० 'चरखा'

चरचि—क्रि० सं० [सं० चर्चन]

चरचना । देह में चन्दन आदि लगाना । लेपना ।

चरनन—दे० 'गोह'

चरा—सं० पु० [फा०] क्यों । वि०

चर=अस्थिर] चलायमान ।

चराचित—वि० [सं० चर=चंचल+

चित] चंचल चित

चरिदा—सं० पु० [फा०] चरने-

वाला जीव । जैसे गाय, भैंस, बैल आदि पशु । हैवान ।

चरै—क्रि० अ० [सं० चर=चलना]

धूमना । फिरना । विचरना उ० जेहि ते विपरीत क्रिया करिये । दुख से

सुख मानि सुखी चरिये।—तु०

चसम—सं० स्त्री० [फा० चश्म] आँख ।

नेत्र । नयन । लोचन । आ० ज्ञान

चहले—सं० पु० [सं० विकल]

कीचड़ । पंक । उ० एक भीजे

चहले परे बूड़े बहे हजार ।

—बिहारी । आ० वासना ।

चाँद—दे० चंद्र

चाँप—क्रि० सं० [देश०] चापना ।
पकड़ना ।

चासुर—सं० स्त्री० [देश०] खेत से
घास निकालने की क्रिया ।
निराई ।

चाखें—क्रि० सं० [सं० चप] स्वाद
लेना । खाना । स्वाद लेते
हुए खाना ।

चाचर—सं० स्त्री० [सं० चर्चरी]
होली में होने वाले खेल नमाशे ।
होली का स्वांग और हुल्लड़ । होली
की धमार । हर्ष क्रीड़ा । उ० श्रुति
पुरान बुध सम्मत चाचरि चरित
मुरारि ।— तु०

चाट—क्रि० सं० [सं० लेह्य अनु०
चट चट=जीभ चलाने का शब्द]
किसी चीज को खाने पर स्वाद
लेने के लिए जीभ से चाटना ।

चाटक—सं० पु० [सं० चेटक]
जादू या इन्द्रजाल विद्या । नजर
बन्द का तमाशा । कौतुक । उ०
कतहू नाद शब्द हो भला । कतहूँ
नाटक चेटक कला ।— जा०

चात्रिक—सं० पु० [सं० चातक]
एक पक्षी जो वर्षा काज में बहुत
बोलता है । पपीहा । आ०
उपासक ।

चारन—सं० पु० [सं० चारण]
भाट । वंश की कीर्ति गाने वाले
बंदीजन

चारा—सं० पु० [हि०] चिड़ियों,
मछलियों या और जीवों के खाने
की वस्तु जिसे कटिया में लगाकर
मछली फँसाते हैं । आ० विषय ।

वाल—दे० 'गौन'

चाव—सं० पु० [हिं० चाह]
इच्छा । अभिलाषा । लालसा ।
अरमान । उ० चित्रकेतु पृथ्वी
पतिराव । सुतहित भयो तासु हिथ
चाव ।—जा०

चिऊँटी—सं० स्त्री० [हिं०] [सं०
विपीलिका] एक बहुत छोटा
कीड़ा जो मीठा के पास बहुत
जाता है । चोंटी । आ० मन ।
वाणी । बुद्धि

चिकनियाँ—वि० [हिं० चिकना]
शौकीन । बाँका । बनाठना । उ०
सूरदास प्रभू वाके बस परि अब
हरि भये चिकनियाँ । सूर० । आ०
विषयी ।

चित—सं० पु० [सं० चित्त] अन्तः
करण का एक भेद । अन्तः
करण । मन । जी । दिल ।

चितेला—सं० पु० [सं० चित्रकार]
चितेरा । चित्र बनाने वाला ।
तसवीर खींचने वाला । मुसौवर ।
आ० चैतन्य ।

चित्र—सं० पु० [सं०] मूर्ति ।
नकशा । आकार । तसवीर । उ०
चित्र लिखित कपि देखि डराती ।
तु० । आ० शरीर

चित्रकारी—सं० स्त्री० [हिं० चित्र-
कार+ई] चित्र विद्या । चित्र
बनाने की कला । चित्रकार का
काम । कारीगरी ।

चित्रवंत—दे० चितेला आ०
आत्मा ।

चित्र विचित्र—वि० [सं०] रंग
विरंग । कई रंगों का । बेल बूटे
दार । नक्काशीदार ।

चिमिक—सं० स्त्री० [सं० चमत्कृत]
चमक । प्रकाश । ज्योति । रोशनी ।

चिमिके—क्रि० अ० [हिं० चमक]
चमकना । प्रकाश वा ज्योति से
युक्त दिखाई देना । प्रकाशित
होना । देदीय्य मान होना । जग
मगाना जैसे सूर्य का चमकना ।

चिलकाई—सं० स्त्री० उत्तेजना ।
उतार चढ़ाव ।

चींधरे—क्रि० सं० [सं० चीर्ण]
चीथना । टुकड़े टुकड़े होना ।
फाटना ।

चीता—सं० पु० [सं० चित्रक]
बिल्ली की जाति का एक प्रकार
का बड़ा हिंसक पशु । आ०
संतोष । विवेक ।

चीर—सं० पु० [सं०] वस्त्र ।
कपड़ा । उ० लै कै चीर कदंब
चढ़े हरि विनवत हैं वृजनारी ।—सूर

चुडित—वि० [हिं० चुंडी]
चुटिया वाला । जटाधारी ।

चुंबक—सं० पु० [सं० चुंबक]

एक प्रकार का पत्थर वा घातु
जिसमें लोहा को अपनी ओर
आकर्षित करने की शक्ति होती
है । चुम्बक दो प्रकार का होता
है एक प्राकृतिक दूसरा कृत्रिम ।
आ० गुरू पद । सारशब्द ।

चुकाव—क्रि० अ० [सं० च्युत्क]
चुकना । वेवाक होना । अदा
होना । आ० मुक्ति ।

चुनते—क्रि० सं० [सं० चयन]
चुगना । चिड़ियों का चोंच से
दाना उठा कर खाना । चोंच
से दाना बीनना । उ० उथलहि
सीप मोति उतराही । चुगहि हंस
आँ केलि कराही ।—जा०

चुनी चुनि—क्रि० सं० [सं० चयन]
चुनना । बहुतां में से छांट छांट
कर अलग करना । आ० सरासार
विवेक करना ।

चुभै—क्रि० सं० [हिं० चुभना]
गड़ना । धंसना । किसी तुकीली
वस्तु का दबाव पाकर किसी
नरम वस्तु के भीतर खुसना ।

चुवत—क्रि० सं० [सं० चयन]
चूना । टपकना । बूंद बूंद हो
कर नीचे गिरना ।

चुवै—दे० चुवत

चुहड़ों—सं० पु० [देश०] चुहड़ा ।
भंगी या मेहतर । चांडाल । श्वपच ।
आ० मायासक्त

चूनरी—सं० स्त्री० [हिं०] चुनरी ।

एक प्रकार का लाल रँगा हुआ कपड़ा जिसके बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर सफेद बुँदिकियाँ होती हैं। विवाह के अवसर पर कन्या के पहनने की माँगी। आ० भक्ति।

चूनिया—क्रि० सं० [सं० चयन] चुनना। बनाना।

चूर—सं० पु० [सं० चूर्ण] चूर्ण। क्रि० पदार्थ के बहुत महीन टुकड़े जो उस पदार्थ के कूटने आदि से बनते हैं।

चूरहा—सं० पु० [सं०] अंगीठी की तरह का मिट्टी या लोहे आदि का बना हुआ पात्र जिसका रूप प्रायः अर्ध चन्द्राकार होता है। जिस पर नीचे आग जलाकर भोजन पकाया जाता है। आ० सकामकर्म।

चूहड़ा—सं० स्त्री० [देश०] भंगी की स्त्री। मेहतरानी। आ० माया।

चेत—सं० पु० [सं० चेतस] चित्त की वृत्ति। चेतना। ज्ञान। बोध। आ० चेतन।

चेतत—दे० 'चेतना'

चेतना क्रि० अ० [सं०] संज्ञा में होना। होश में आना। सावधान होना। परमार्थ में लग जाना। उ० यह मन हरि हर खेत, तरुणों हरनो चर गई। अजहूँ चेत अचेत यह अथ चरा वचाय ले।—तु०

चेतवनि—क्रि० सं० [हि० चित्तवना का प्रे०] दिखाना। तकाना।

चेना—दे० 'चेतना'

चेमि—क्रि० अ० [हि० चेतना] विचार करना।

चेनु—दे० चैति

चेरी—सं० स्त्री० [हि०] दासी।

चौच—सं० स्त्री० [सं० चंचु] पत्तियों के मुँह का अगला भाग जिसके द्वारा कोई चीज उठाते और खाते हैं। टाँट। आ० मन, वृत्ति।

चोख सं० स्त्री० [हि० चोखा] तंजी। फुरती। बेग। उ० एक जो मयाने भर माटी जल आने लै चढ़ाए धाम धाम फेंट वाधि ठाढ़े चोख सों।—इनुमान।

चोखा—वि० [सं० चोख] जिसकी धार तेज हो। धारदार। उत्तम

चोट—सं० स्त्री० [सं० चुट=काटना] किसी हिंसक पशु का आक्रमण। किसी जानवर का काटने वा खाने के लिए भपटना। उ० यह जानवर आदमियों पर बहुत कम चोट करता है।

चोखा—सं० पु० [हि० चोर] जो छिप कर पराई वस्तु का अपहरण करे। चोर। तस्कर। आ० मन

चौलना—सं० पु० [सं० चोल] एक प्रकार का बहुत लंबा और ढीला ढाला कुरता जो प्रायः साधु फकीर और मुल्ला आदि पहनते हैं। आ० शरीर।

चोला—सं० पु० [सं० चोल] चोला ।

शरीर । बदन । जिह्म । तन ।

चोवा—सं० पु० [हिं० चोआ] एक प्रकार का सुगंधित द्रव पदार्थ जो कई गंध द्रव्यों को एक साथ मिलाकर गरमी की सहायता ने उनका रस टपकाने से तैयार होता है ।

चौक—सं० पु० [प्रा० चउक] व्याह आदि मंगल अवसरों पर आंगन में या और किसी समतल भूमि पर आटे अंबीर आदि की रेखाओं से बना हुआ चौखंड क्षेत्र जिसमें कई प्रकार के खाने और चित्र बने रहते हैं । इस क्षेत्र के ऊपर देवताओं का पूजन होता है ।

चौके—दे० चौक

चौगोड़ा—वि० [हिं० चौ+गोड़=पैर]

चार पैर वाला सं० पु० खरहा । खरगोश । चौपाया । पशु० । आ० साधन चतुष्टय ।

चौधरी—सं० पु० [हिं०] किसी जाति, समाज या मंडली का मुखिया ।

चौपरि—क्रि० सं० [सं० चतुष्पट] कपड़े आदि की तह लगाना । चौपरतना । सं० स्त्री० चौपड़, चौसर नामक खेल । आ० चार अवस्था । अंतःकरण चतुष्टय ।

चौमाल—सं० पु० [सं० चतुर्मास] वर्षाकाल के चार महीने । अषाढ़, सावन, भादौ, कुंवार । आ० चारों युग ।

चौरे—वि० [हिं०] चकला । चौड़ा । सं० पु० मैदान ।

चौसठि—सं० पु० [देश०] गृध ।

छ

छकि—क्रि० अ० [सं० चकन=वृत्तहोना] वृत्त होना ।

छठी—सं० स्त्री० [सं० षष्ठी] छठी । छठवीं । आ० चेतन । आत्मा ।

छतरिया—सं० स्त्री० [सं० छत्र] छाता । छतरी । आ० शांति प्रद ज्ञान । सतसंग विचार ।

छत्र धनी—सं० पु० [सं० क्षत्रधारिण] राजा । छत्रधारी । क्षत्र धारण करने वाला । छत्र का अभिपति ।

छत्रपति—दे० छत्रधनी आ० आत्म देव ।

छप्पर—सं० पु० [हिं०] वांस या लकड़ी की फट्टियों और फूस आदि की बनी हुई छाजन जो मकान के ऊपर छाई जाती है । छान । आ० आत्मा ।

छल—सं० पु० [सं०] धोखा । कपट ।

छली—वि० [सं० छलिन्] छल करने वाला । कपटी । धोखे बाज ।

छाँछ—सं० स्त्री० [सं० छच्छिका] मथा हुआ दही । वह पनीला दही या दूध जिसका घी वा मक्खन

निकाल लिया गया हो। मट्टा।
 मही। सार हीन तक। वह मट्टा।
 जो घी या मक्खन तपाने पर नीचे
 बैठ जाता है। उ० ताहि अहीन
 की छोकरियोँ छुछिया भर छाँड़
 पै नाच नचावै। आ० व्यवहारिक
 ज्ञान।
 छाँड़री—सं० छाँ० [सं० मत्सरी]
 मछली। आ० चित्त वृत्ति
 छाँड़ि—दे० छाँड़ि
 छाँह—सं० छाँ० [सं० छाया]
 छाया। वह स्थान जहाँ आइ क
 रोक के कारण धूप न पड़ती हो।
 उ० हरखित भये नंदलाल बैठि
 तरु छाँह में।—सूर
 छागर—सं० छाँ० [सं० छागल]
 बकरा। आ० गुस्वा।
 छाजै—क्रि० अ० [हिं० छाजना]
 छाजना। शांभादेना। अच्छा
 लगना।
 छाया—दे० 'छाँह'
 छार, छारा—सं० पु० [सं० चार]
 भस्म। राख। खाक। उ० तुह
 तहि क्रम भयो जरि छारा।—तु०
 छिउजे—सं० पु० [देश०] [सं०
 पलाश] छिउल। ढाक। टेसू।
 आ० परतोक
 छिछिला - वि० [सं० उच्छल]
 जो गहरी न हो। उथला।
 छिटकाय—क्रि० सं० [हिं० छिटकाना]
 छिटकना। पृथक करना। अलग

कर देना। इधर उधर डालना।
 छिन—सं० पु० [सं० क्षण] काल
 या समय का एक बहुत छोटा
 भाग। क्षण। लमहा।
 छिनाय—क्रि० सं० [हिं० छीनना]
 छीनना। हरण करना।
 छियाई—क्रि० सं० [सं० क्षिप]
 छिपाना। आवरण या ओट में
 करना। ढाकना। गुप्त रखना।
 छिपिया—सं० पु० [हिं० छीप] छीट
 छापने वाला। कपड़े पर बेल बूटे
 बनाने वाला। आ० भक्त।
 छिमा—सं० स्त्री० [सं० क्षमा]
 सहिष्णुता। सहनशीलता। किसी
 के द्वारा पहुँचाये गए कष्ट को
 सह लेना उसके प्रतिकार या दंड
 की इच्छा न करना।
 छिरियाई—क्रि० सं० [देश०]
 छिरियाना। छिटकना। फैलना।
 छितरना।
 छिलकत—क्रि० अ० [हिं० छीटा+
 करना] छिड़कना। पानी या किसी
 और द्रव पदार्थ को इस प्रकार
 फेंकना कि उसके महीन महीन
 छीटे फैल कर इधर उधर पड़ें।
 न्योछावर करना।
 छीजन—दे० 'छीजै'
 छीजै—क्रि० अ० [हिं० छीजना]
 क्षीण होना। घटना। कम होना।
 उ० पावडिया पग फिसलै अवधू
 लाहै छीजत काया।—गो०

छीन, छीना—वि० [सं० क्षीण]
 धनता । कृश । शिथिल । मंद ।
 महिन ।
 छीर—सं० पु० [सं० क्षीर] दूध ।
 पय । आ० सत्य ।
 छुपाई—दे० 'छिपाई'
 छूँछा—वि० [सं० तुच्छ] छूँछा ।
 खाली । रीता । रिक्त । निष्फल ।
 उ० सो सब कीन बिना तव पूछे ।
 ताने परे मनोरथ छूँछे ।—तु०
 छूटि—सं० स्त्री० [हि० छूटना]
 छुटकारा । मुक्ति । क्रि० स०
 अलग होना ।
 छूरी—सं० स्त्री० [हि०] लोहे
 का एक धारदार हथियार जिसमें
 बेंट लगा रहता है ।
 छेकल—क्रि० स० [सं० छद=
 दांकना+करण] स्थान घेरना ।
 जगह लेना ।
 छेम—सं० पु० [सं० क्षेम] प्राप्त

वस्तु की रक्षा । कहयाण । कुशल ।
 सुख । आनंद । मुक्ति ।
 छेरी—सं० स्त्री० [सं० छेलिका]
 बकरी । अजा । आ० नाथ ।
 छेव—सं० पु० [हि०] नाश । मृत्यु ।
 छेवा—सं० पु० [हि० छेव] प्रहार ।
 बध । नाश ।
 छोड़ि—क्रि० स० [सं० छोरण]
 किसी पकड़ी हुई वस्तु को पृथक
 करना । त्यागना । छोड़ना ।
 छोर—सं० स्त्री० [हि०] अंत । किनारा
 छोरि, छोरी—क्रि० स० [सं० छोरण=
 परित्याग] छोड़ना । बंधन आदि
 अलग करना । उजभन या फांसाव
 आदि दूर करना । बंधन से मुक्त
 करना । छोड़ना । त्याग देना ।
 छोलना सं० पु० [हि०] छोलनी ।
 लोहे का एक औजार जिससे
 सिकलीगर हथियारों का मुरचा
 खुरचते हैं । आ० सद्उपदेश ।

ज

जंगम—सं० पु० [सं०] दक्षिणा-
 त्य लिंगायत शैव संप्रदाय के गुरु ।
 ये दो प्रकार के होते हैं विरक्त
 और गृहस्थ । विरक्त सिर पर
 जटा रखते हैं और कौपीन पहनते
 हैं । गले में शिव लिंग धारण करना
 इनके लिए आवश्यक होता है ।
 जंतर—सं० पु० [सं० यंत्र] यंत्र ।
 बीणा । बीन नाम का बाजा ।
 विशेष दे० जंत्र

जंत्र—सं० पु० [सं० यंत्र] बाजा ।
 वाद्य । बाजों के द्वारा बाने वाला
 संगीत । बीन । आ० शरीर
 जंत्री—सं० पु० [सं० यंत्रिण]
 बाजा बजाने वाला । उ० सुरदास
 स्वामी के चतिते ज्यों यंत्री बिन
 यंत्र सकात । आ० जाव । चैतन्य ।
 जंबुक—सं० पु० [सं०] शृंगाल ।
 गीदड़ । आ० अज्ञान ।
 जमुक—दे० जंबुक

जगदीश—सं० पु० [सं०] परमे-
श्वर । विष्णु । माहिक ।

जगन्नाथ—दे० जगन्नाथ

जगन्नाथ—सं० पु० [सं०] बंगाल
के दक्षिण उड़ीसा के अंतर्गत
समुद्र के किनारे का एक प्रसिद्ध
तीर्थ जो हिन्दुओं के चारों धामों
के अंतर्गत है । इसे पुरी, जग-
दीश पुरी और जगन्नाथ पुरी
भी कहते हैं ।

जगन्मगै—क्रि० अ० [अतु०]
जगमगाना । किसी वस्तु का स्वयं
या किसी का प्रकाश पड़ने पर
चमकना । भलकना । दमकना ।

जग्य—सं० पु० [सं० यज्ञ] प्राचीन
भारतीय आर्यों का एक प्रसिद्ध
वैदिक कृत्य जिसमें हवन और पूजन
हुआ करता था । मख । याग ।

जटाधर—सं० पु० [सं०] जटा-
धारी । शिव । महादेव । एक
बुद्ध का नाम । वि० जो जटा
रखे हो । जिस के जटा हो ।

जठर अग्नि—सं० स्त्री० [सं०
जठराग्नि] पेट की वह गरमी या
अग्नि जिसमें अन्न पचता है ।

जड़—सं० पु० [सं०] जड़ भरत ।
वि० अनजान । अनभिज्ञ ।
अज्ञानी । मूर्ख ।

जतइत—सं० पु० [सं० यंत्र]
जांता । पत्थर की बड़ी चकड़ी ।
आ० पाग्लौकिक ।

जतन—सं० पु० [सं० यत्न]
उपाय । कोशिश । तदवीर ।

जती—सं० पु० [सं० यती]
वड़ जिसने इन्द्रियों पर विजय
प्राप्त करली हो और जो संसार
से विरक्त हो कर मोक्ष प्राप्त का
उद्योग करता हो । सन्यासी ।
त्यागी । योगी ।

जन—सं० पु० [सं०] लोक ।
लोग । मनुष्य ।

जनक—सं० पु० [सं०] मिथिला
धिप । राजा जनक । जन्म दाता ।
उत्पादक । पिता ।

जननी—सं० स्त्री० [सं०] माता ।
जना—सं० पु० [सं०] उत्पत्ति ।
लोक । लोग । क्रि० स० [सं०
जन] पैदा करना । उत्पन्न करना ।
आ० पुरुष ।

जनि—अव्य० मत । नहीं । न ।
निषेधार्थक शब्द ।

जनी—सं० स्त्री० [सं० जन] स्त्री ।
उत्पन्न करने वाली । नाता ।
आ० माया ।

जने—दे० जन

जश्द—सं० पु० [अ०] रेत रेत कर
गला काटना । हलाल । गलाकाट
कर प्राण लेने की क्रिया । हिंसा ।

जम—सं० पु० [सं० यम] मृत्यु ।
यमराज । काल । संयोग होना ।

जमश—दे० जम

जर—सं० पु० [हिं० जड़] वृद्धो

और पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है और जिस से उनका पालन पोषण होता है। मूल।	जवन—सं० पु० [सं० यवन] मुसलमान।
जरत—क्रि० अ० [सं० ज्वलन] ईर्ष्या या द्वेष आदि के कारण कुटना। मन ही मन संतप्त होना। मोह ममता आदि में जलना।	जहंडाइया—क्रि० अ० [हिं० जह- डाना] जहडाना। हानि उठाना। ठगा जाना। धोखे में पड़ना।
जरद—वि० [फा० जर्द] पीला। जर्द। पीत। आ० रज।	जहँड़े—दे० जहंडाइया
जरल—सं० स्त्री० [हिं० जलना] बहुत अधिक ईर्ष्या।	जहर—सं० स्त्री० [फा० जह] जहर। विष। गरल। आ० विषय, विकार।
जरा—सं० स्त्री० [सं०] बुढ़ापा। वृद्धावस्था।	जहिया—क्रि० वि० [सं० यद्+ हिया] जब। जिस समय। उ० भुज बल विश्व जितव तुम जहिया। धरि हैं विष्णु मनुज तन तहिया।—तु०
जरि—क्रि० अ० [सं० ज्वलन] जलना। दग्ध होना। बलना। दे० जर	जाँचो—क्रि० सं० [सं० याचन] जांचना। किसी विषय के सत्या- सत्य की परिक्षा करना। मांगना। याचना।
जरै—दे० जरि	जाग—सं० पु० [सं० याज्ञवल्क्य] याज्ञवल्क्य। दे० प० ख
जल्ल—सं० पु० [सं०] पानी। आ० आत्मा। बाणी।	जागत—दे० जाग्रित
जल कूकुही—सं० स्त्री० [हिं० कूई] जल में होने वाला कमल की तरह का एक पौधा, जो रात में फूलता है। इसके फूल सफेद होते हैं। पर कहीं कहीं लाल और पीले फूल भी होते हैं। आ० शरीर।	जाग्रित—वि० [सं०] वह अवस्था जिसमें सब बातों का परिज्ञान हो। आ० चैतन्य।
जलहल—वि० [हिं० जल+हर] जलमय। जल से भरा हुआ।	जात—सं० स्त्री० [अ०] शरीर। देह। काया। दे० जाति
सं० पु० [हिं० जलघर] जलाशय। आ० निजानंद।	जाति—सं० स्त्री० [सं०] कोटि। वर्ग। प्रकार। हिन्दुओं में मनुष्य समाज का वह विभाग जो पहिले पहल कार्यानुसार किया गया था, पर पीछे स्वभावतः जन्मानुसार हो गया।

जाती—दे० जाति

जाइव—सं० पु० [सं० यादव]
यादव । यदुवंशी । एक जाति
विशेष । अहीर ।

जादवराय—सं० पु० [सं० यादव-
राय] श्री कृष्ण । उ० गई मारन
पूतना कुच काल कूट लगाइ ।
मातु की गति दर्ई ताहि कृपाल
जादव राइ ।—तु०

जादो—दे० जादव

जान—वि० [सं० ज्ञान] सुजान ।
जानकार । ज्ञानवान । चतुर । उ०
जान सिरोमनि हौ हनुमान सदा
जन के मन बास तिहारो ।—तु०

जाने—दे० जान

जामन—क्रि० अ० [सं० जन्म+
ना (प्रत्य०)] उगना ।
उपजना । उत्पन्न होना । जमना ।

जामनी—सं० स्त्री० [सं० यामिनी]
रात । आ० अविद्या ।

जायफर—सं० पु० [सं० जातीफल]
जायफल । अखरोट की तरह
का, पर उससे छोटा (प्रायः
जामुन के बराबर) एक प्रकार
का सुगंधित फल जिसका व्यवहार
औषध और मसाले में होता है ।
आ० सद्‌उपदेश ।

जाया—क्रि० स० [सं० जनन]
जाना । उत्पन्न करना । जन्म
देना । पैदा करना ।

जार—सं० पु० [सं०] वह पुरुष
जिसके साथ किसी दूसरे की विवा-
हित स्त्री का प्रेम व अनुचित
सम्बंध हो । उपपति । पराई स्त्री
से प्रेम करने वाला । यार । आ०
देवी । देवता ।

जारो—क्रि० स० [हिं० जलाना]
जारना । नष्ट करना ।

जाल—सं० पु० [सं०] किसी प्रकार
के तार या सूत आदि का बहुत
दूर दूर पर बुना हुआ पट जिसका
व्यवहार मछलियों और चिड़ियों के
पकड़ने के लिए होता है । समूह ।

जिभ्या—दे० जीभि ।

जिमी—सं० स्त्री० [फ०] जमीन ।
पृथ्वी । आ० अंतः करण ।

जियत—वि० [सं० जीवित] जीता
हुआ । जिंदा । चैतन्य ।

जियर।—सं० पु० [हिं० जीव] जीव ।

जियाजंतु—सं० पु० [सं० जीवजन्तु]
जानवर । प्राणी । कीड़ा मकोड़ा ।

जीभि—सं० स्त्री० [सं० जिह्वा]
जीभ । जवान । रसना ।

जीव—सं० पु० [सं०] प्राणियों का
चेतन तत्व । जीवात्मा । आत्मा ।
प्राण । जीवन तत्व । जान ।
प्राणी । जीवधारी । इंद्रिय विशिष्ट
शरीरी । जानदार ।

जीवो—दे० जीव ।

जुआरि—सं० पु० [हिं० जुआ]
जुआरी । जुआ खेलने वाला ।

जुग जुग—सं० पु० [सं० युग]
चिरकाल । बहुत दिनों की अवधि
अनंत काल । सदैव ।

जुगल जुग—दे० जुग जुग ।

जुक्ति—सं० स्त्री० [सं० युक्ति] उचित
विचार । उपाय । ढंग । तरकीब ।

जुड़ाव—क्रि० अ० [हिं० जुड़]
जुड़ाना । ठंडा होना । शांत
होना । शांत होना । संतुष्ट होना ।
प्रसन्न होना ।

जुरि—क्रि० सं० [हिं० जुटना] जुड़ना ।
किसी कार्य में योग देने के लिए
उपस्थित होना ।

जुंवावै—क्रि० सं० [हिं० जवन]
जैवाना । खिलाना । भोजन कराना ।

जे—सर्व० [सं० ये] जो का बहु
वचन ।

जेठ—सं० पु० [सं० ज्येष्ठ] पति का
बड़ा भाई । भसुर । वि० अग्रज ।
बड़ा । आ० मन ।

जेठानी—सं० स्त्री० [हिं० जेठ] जेठ
की स्त्री । आ० कुमति ।

जेर—वि० [फा० ज़ेर] परास्त ।
पराजित ।

जेवरि—सं० स्त्री० [सं० जीवा] रस्ती ।
आ० कर्मकाण्ड ।

जैनि, जैनी—सं० पु० [हिं० जैन]
जैनी । जैन मतावलम्बी । जैन धर्म
का अनुयायी ।

जो पै—अव्य० [हिं० जो+पर] यदि ।
अगर । यद्यपि । अगरचे । उ०

जो पै रहनि राम से नाहीं ।—तु०
जोइया—दे० जोय

जोग—सं० पु० [सं० योग] तप और
ध्यान वैराग्य ।

जोगिया—वि० [हिं० जोगी + ह्या
(प्रत्य०)] जोगी सम्बन्धी । योगी
का जैसे जोगिया भेस । सं० पु०
[सं० योगी] वह जो योग करता
हो । योगी । आ० जीवात्मा ।

ज्योति—सं० स्त्री० [सं० ज्योतिष]
ज्योति । प्रकाश । उजाला । द्युति
अग्नि शिखा । लपट । लौ । अग्नि ।
आ० ब्रह्म ज्योति । शब्द ।

जोनि—सं० स्त्री० [सं० योनि]
आकर । खानि । प्राणियों का
विभाग । जाति या वर्ग ।

जोवन—सं० पु० [सं० यौवन]
युवा होने का भाव । यौवन । उ०
धन जोवन अभिमान अल्प जल
कहूँ कूर आपुनी बोरी ।—सूर । आ०
नर तन ।

जोय—सं० स्त्री० [सं० जाया]
जोरू । स्त्री । पत्नी । आ० माया ।
क्रि० सं० [हिं० जोहना]
देखना । अवलोकन करना ।
खोजना । ढूँढना ।

जोर—सं० पु० [फा०] बल ।
शक्ति । ताकत । मु० जोर करना =
बल प्रयोग करना । ताकत लगाना ।

जोरिन—क्रि० सं० [सं० जुड़ =
बंधना] जोड़ना, किसी दूटी हुई

वस्तु के टुकड़ों को मिला कर जोड़ना । एकत्र करना । इकट्ठा करना ।

जोरी—दे० जोरिन

जोलाहा—सं० पु० [फा० जौलाह]
जुलाहा । मुसलमान कपड़े बनाने वाला । तन्दुवाय । तंनुकार ।
आ० जीव । मन ।

जोलाहिन—सं० स्त्री० जुलाह की स्त्री । आ० अविद्या ।

जोहारि—क्रि० अ० [हिं० जोहारना]
प्रशान या नमस्कार आदि करना ।
अभिवादन करना । पुकारना ।

जोहत—क्रि० स० [सं० जुपण= सेवन] जोहना । देखना । अवलोकन करना । ताकना । खोजना । प्रतीक्षा करना । आसरा देखना । राह देखना ।

जोहै—दे० जोहत

जौरा—क्रि० वि० [फा० जवार]
निकट । समीप । आसपास ।
सं० पु० यमरा । यमराज ।

जौ—अव्य० [सं० यद्] यदि ।
अगर । उ० जौ लरिका कल्लु अनुचित करहीं । दु० । क्रि० वि० जब ।

भ

भंखत—क्रि० अ० [हिं० खीजना]
बहुत दुखी होकर पछताना और कुदना । भोखना ।

भक—सं० स्त्री० [अनु०] धुन ।
सनक । लहर । मौजा ।

भकभारी—सं० पु० [अनु०] भोका ।
भटका । घका । उ० काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति भकभोर ।—सूर

भखमारि—सं० स्त्री० [हिं० भोखना]
भोखने का भाव या क्रिया । मु०
भखमारना=विवश होना । लाचार होना ।

भखमारी—दे० भखमारि

भगरा—सं० पु० [हिं० भकभक से

अनु०] भगड़ा । विवाद । लड़ाई
बखेड़ा । कलह । हुजत । तकरार ।
भटका—सं० पु० [अनु०] पशुवध
का वह प्रहार जिसमें पशु हथियार
के एक ही आघात से काट डाला
जाता है ।

भपनी—सं० स्त्री० [देश० भपनी]
दंकना । वह जिसमें कोई चीज
ढकी जाय । पिटारी । आ०
आवरण ।

भरी भरि—क्रि० अ० [सं० बरण]
बूँद बूँद बहना ।

भरोखे—सं० पु० [अनु० भर भर=
वायु बहने का शब्द + गौल]
भरोखा । दीवारों आदि में बनी

हुई भँभरीदार छोटी खिड़की या
 मोखा । गवान् । गौखा । आ०
 इन्द्री द्वार ।
 भाँई—सं० स्त्री० [सं० छाया] भाँई ।
 परछाई । प्रतिविम्ब । छाया ।
 आभा । भलक । उ० कह सुग्रीव
 सुनहु रघुराई । ससि मँह प्रकट
 भूमि की भाँई ।—तु०
 भाँकि—सं० स्त्री० [हिं० भाँकना]
 दर्शन । अवलोकन । भाँकने या
 देखने की क्रिया अथवा भाव ।
 भारि, भारी—वि० [सं० सर्व०]
 भार । एक मात्र । निपट । केवल ।
 सम्पूर्णा । कुल । सब । समस्त ।
 समूह । झुँड ।
 भाहू—सं० पु० [हिं० भाड़ना]
 भाड़ना । बोहारी । सोहनी ।
 बढनी । मु० भाड़ देना=बोहा-
 रना । साफ करना ।
 भालि—सं० स्त्री० [हिं० भड़] पानी
 की भड़ी । अचेरा । आ० अज्ञान ।
 भिभि—वि० [आ० भीष] भीना ।
 सद्म ।
 भिलामिल—सं० स्त्री० [अनु०]
 भिलमिल । कांपती हुई रोशनी ।

हिलता हुआ प्रकाश । भलमलाता
 हुआ उजाला । ज्योति । अस्थिरता ।
 रह रह कर प्रकाश के घटने बढ़ने
 की क्रिया । आ० ज्योति ।

भीभी—वि० [प्रा० भीष] मंद ।
 धीमा । भीना ।

भीन—दे० भीना

भीना—वि० [सं० क्षीण] बहुत
 महीन । बारीक । पतला । दुबला
 दुर्बल ।

भूर—वि० [हिं० धूर या चूर]
 सूखा । शुश्क । शुष्क । क्रि० वि०
 [हिं०] व्यर्थ । निष्प्रयोजन ।

भूरी—दे० भूर

भूल—क्रि० सं० [हिं० भूलना]
 भूलना । किसी शाख या ऊँची
 वस्तु के सहारे आगे पीछे आना
 जाना ।

भेलिक भेला—क्रि० अ० [देश०]
 ठेला ठेली । खींचतान ।

भोला—सं० पु० [हिं०] धक्का ।
 भटका । आघात । भोका ।
 बाधा । आ० दुख आपत्ति ।

भोली—सं० स्त्री० [सं० ज्वाल या
 भाला] राख । भस्म ।

ट

टकसार—सं० स्त्री० [हिं० टकसाल]
 ऊँची या प्रमाणिक वस्तु । असली
 चीज़ । निर्दोष वस्तु । आ० आत्म
 स्वरूप । चैतन्य । निजरूप ।

टकसारा—दे० टकसार

टिपके—सं० पु० [हिं० टिपकना]
 टिपका । बूँद । कतरा । बिंदु
 आ० अहंकार ।

टीका—सं० पु० [सं० तिलक]
राज सिंहासन या गद्दी पर बैठने
का कृत्य । राज तिलक ।

टीड़ी—सं० स्त्री० [सं० टिट्टिभ]
एक जाति का टिड्डा या उड़ने
वाला कीड़ा जो बड़ा भारी दल
या समूह बांध कर चलता है ।
श्रौर मार्ग के पेड़ पौधों तथा
फसल को बड़ी हानि पहुँचाता है ।
आ० मनोरथ ।

टेक—सं० स्त्री० [हिं०] चित्त में
टिका या बैठा हुआ संकल्प ।
मन में ठानी हुई बात । दृढ़
संकल्प । अड़ । हठ । जिद । उ०
सोइ गोसाइ जो विधि गति छेकी ।
सकइ को टारि टेक जो टेकी ।—तु०
टेकड़ु—क्रि० सं० [हिं० टेक]
सहारा लेना । आश्रय बनाना ।

टेढ़ो—क्रि० वि० [हिं० टेढ़ा]
घमंडी । मु० टेढ़े टेढ़े चलना=
इतराना । घमंड करना ।

टोकरा—सं० स्त्री० [हिं० टोकरा]
छोटा टोकरा । छोटा डला ।
डलिया । भाँपी । आ० अन्तः
करण ।

टोंटी—सं० स्त्री० [सं० तुंड] पानी
आदि ढालने के लिए भारी लोटे
आदि में लगी हुई नली जो दूर
तक निकली रहती है । तुलतुली ।
उ० बदत गोरख सुनौ रे श्रवधू
करवै होय से निकरै टोंटी ।—गो०

टोवहु—क्रि० सं० [हिं० टोना]
हाथ से टटोलना । छूना । छूकर
मालूम करना । [हिं० टोह]
ढूँढना । खोजना ।

ठ

ठग—सं० पु० [हिं०] धोखा देकर
लोगों का धन हरण करने वाला ।
छली । धूर्त । धोखे बाज । आ०
बञ्चक गुरु । मन ।

ठगत—क्रि० सं० [हिं० ठगना]
ठगना । धोखा देकर माल लूटना ।
धोखा देना । छल करना ।

ठगौरी—सं० स्त्री० [हिं० ठग+औरी]
ठग विद्या । ठगों की माया ।
मोहिनी । सुधि बुद्धि भुलाने
वाली शक्ति ।

ठवर—दे० ठाँव

ठहर—दे० ठौर

ठहराय—क्रि० अ० [सं० स्थैर्य + ना
(प्रत्य०)] रुकना । टिकना ।

ठाँव—सं० पु० [सं० स्थान]
स्थान । जगह । ठिकाना । उ०
निडर नीच निर्गुन निर्धन कह
जग हूसरों न ठाकुर ठाँव ।—तु०

ठाकुर—सं० पु० [हिं०] ईश्वर ।
परमेश्वर । भगवान । पूज्य व्यक्ति ।
किसी प्रदेश का अधिकारी ।

नायक । सरदार । अधिष्ठाता ।
 नास्तिक स्वामी । आ० मन ।
 जीव । यमराज ।
 ठाठ—सं० पु० [हिं० ठाट] समूह ।
 कुंड ।
 ठाना—क्रि० सं० [सं० अनुष्ठान]
 स्थापित करना ।
 ठानी—दे० ठाना
 ठामा—दे० ठाँव
 ठिक—वि० [हिं० ठिकाना] ठीक ।
 यथार्थ । सच । उपयुक्त । अच्छा ।

ठिकों—सं० पु० [हिं० टुकड़ा]
 ठीकरा । सिटकी ।
 ठूठा—वि० [हिं०] बिना हाथ का
 जिसका हाथ कटा हो । लूला ।
 ठैऊ—दे० ठौर
 ठोंकत—क्रि० सं० [हिं० ठोंकना]
 प्रहार करना । आघात करना ।
 ठौर—सं० पु० [हिं०] स्थान ।
 जगह । ठिकाना ।
 ठौरा—दे० ठौर

ड

डंक—सं० पु० [सं० ढक्का=डुंडुभि
 शब्द] डंका । एक प्रकार का
 बाजा जो नाद के आकार का
 तांबे या लोहे के बरतनों पर
 चमड़ा मढ़ कर बनाया जाता है ।
 डँड—सं० पु० [सं० दंड] घाटा ।
 हानि । भय । बाहु दंड । बांह ।
 दंड । डांड । कर । उ० गोमती
 करत सनान दान तहाँ ब्राह्मण
 मांगै । दरवाजै होय अटक छाप
 लेतौं डंड लागै ।—बालकराम
 डंकिण—क्रि० अ० [अनु०]
 डकारना । चिल्लाना । दहाड़
 मारना । जोर से रोना या
 चिल्लाना ।
 डसि—क्रि० सं० [सं० दशन]
 डसना । किसी ऐसे कीड़े का
 दांत से काटना जिसके दांत में

विष हो । सांप आदि जहरीले
 कीड़ों का काटना । डंक मारना ।
 डस्यो—दे० डसि
 डाँग—सं० पु० [सं० टंक=पहाड़
 का किनारा और चोटी] पहाड़ी ।
 बन जंगल । घना बन खंड । उ०
 चित्रविचित्र विविध मृग डोलत
 डांगर डांग ।—तु० । आ० शरीर ।
 सं० पु० [हिं० डागा] मोटे
 बांस का डंडा । लड्ड ।
 डांगर—सं० पु० [देश०] चौपाया ।
 पशु ।
 डांड—सं० पु० [सं० दंड] दंड ।
 कर । जबरदस्ती वसूल किया
 हुआ धन ।
 डांडि—सं० पु० [देश०] कमर ।
 डाँडी—सं० स्त्री० [हिं० डाँड]
 हिंडोले में लगी हुई वे चार सीधी

नकड़ियाँ या डोरी की लड़ें जिनसे
लगी हुई बैठने की पटरी लटकती
रहती है।

डांडिया—क्रि० स० [हिं० डांडना]
दंडित होना।

डांडे—क्रि० अ० [सं० दंड]
दंडित किए।

डांवाडोल—सं० पु० [हिं० डोलना]
अस्थिर। एक स्थित पर न रहने
वाला। चंचल। विचलित।

डांडी—सं० पु० [सं० डाकिनी]
टोनहाई। वह स्त्री जिमकी दृष्टि
आदि के प्रभाव से बच्चे मर जाते
हैं। आ० माया।

डाजा—क्रि० अ० [देश०] क्रोधित
होना। जलना।

डाढ़ा—सं० स्त्री० [प्रा० डडढ]
आग। उ० राम कृपा कपि दल
बल बाढ़ा। जिमि तृण पाइ लागि
अति डाढ़ा।-तु०

डाढ़र—सं० पु० [सं० दध्र=समुद्र
या भीतल] गड़ही। पोखरी तलैया।
गड्ढा जिसमें बरसाती पानी जमा
रहता है। उ० सुर सर सुभग
बनज बनचारी। डाढ़र जोग कि
हंस कुमारी।-तु०। आ० शरीर

डार सं० स्त्री० [हिं०] डाल।
शाखा। आ० शरीर के अवयव।

डारि, डारिन—दे० डारे।

डारी—दे० डार। आ० तमोगुण
प्रधान माया।

डारे—क्रि०स० [हिं० डारना] डालना।
छोड़ना। फेंकना। त्यागना।

डाही—वि० [हिं० दाहना] जली
हुई। जलाई हुई।

डाहै—दे० डाहो

डाहो—क्रि० स० [सं० दाहन] डाहना
जलाना। दाहना।

डिंगर—सं० पु० [सं०] दास।
गुलाम।

डिंभ—सं० पु० [सं० डिम्ब] बच्चा।
पाखंड। दंभ। उ० सकल वियापी
सुयं सिंभ, सब गुण रहिता नाहि
डिंभ।—गरीबदास। आ० जीव।

डिगा—क्रि० स० [हिं० डिगना]
हिलना। स्थान छोड़ना।

डैरा—सं० पु० [देश०] टिकान।
ठहराव। पड़ाव।

डैरी—वि० [देश०] बायाँ।

डेहरि—सं० स्त्री० [हिं० दह]
डेहरि, अन्न रखने के लिए कच्ची
मिट्टी का ऊँचा बरतन। आ०
अन्तः करण। मन।

डोरिया—सं० पु० [हिं० डोरा]
सूत। तागा। धागा। डोरा।
करधनी।

डोरे—क्रि० वि० [हिं० डोर] साथ
पकड़े हुए। बस में करना।

डोलावत—क्रि० स० [हिं० डोलाना]
हिलाना। धुमाना।

डोलै—क्रि० स० [सं० दोलन]
डोलना। चलना। फिरना।

ढ

ढहि—क्रि० अ० [सं० ध्वंसन]
ढहना । गिर पड़ना । ध्वस्त होना
नष्ट होना । मिट जाना ।

ढाँकनो—क्रि० स० [सं० ढक=
छिपाना] अोट में करना ।
छिपाना ।

ढाक—सं० पु० [सं० आसाढक=
पलास] पलास का पेड़ । छीउल

ढाढ़स—सं० पु० [सं० दृढ]
दृढता । साहस । हिम्मत ।

ढारिया, ढारो—क्रि० स० [सं०
घार, हिं० ढार+ना] ढारना ।
गिराना । ऊपर से छोड़ना ।
डालना । जैसे पासा ढारना ।

ढिंगर—दे० ङिंगर

ढिंग—क्रि० वि० [सं० दिङ्=ओर]
समीप । पास । निकट । सं० स्त्री०
तट । किनारा । छोर । उ० सेतु
बंध ढिंग चढ़ि रघुराई ।-तु० ।

ढिंग ढिंग—दे० तीर तीर

ढीठ—वि० [सं० धृष्ट] बिना डर
का । निडर । साहसी । हिम्मतवर ।

ढील—सं० स्त्री० [हिं० ढीला]
ढीला । जो कसा और तना न हो ।
शिथिल ।

ढुकि ढुकि—क्रि०अ० [देश० ढुकना]
झुकि झुकि ।

ढेंढी—सं० स्त्री० [हिं० ढेंढा]
कपास आदि का डोडा ।

ढेंकुली—सं० स्त्री० [हिं० ढेकली]
ढेंकी । सिंचाई के लिए कुएँ से
पानी निकालने का एक यंत्र । उ०
तुलसी वहाँ न जाइए, जहाँ कपट
को हेत । मम तन ढारें ढेंकुली,
सीचें आपन खेत । तु०

ढेला—सं० पु० [सं० दल हिं०
डला] ईंट, मिट्टी, कंकड़, पत्थर
आदि का ढकड़ा ।

ढोटा—सं० पु० [देश०] पुत्र ।
बेटा । उ० देखत छोट खोट नृप
ढोटा ।-तु० । आ० इन्द्रियाँ ।
विषय ।

ढोर—सं० पु० [हिं० ढुरना] गाय ।
बैब, भैंस, आदि पशु । चौपाया ।
मवेशी । उ० जब हरि मधुवन को
जु सिधारे धीरज धरत न ढोर । सूर

ढोल—सं० पु० [सं०] एक प्रकार
का बाजा जिसके दोनों ओर
चमड़ा मढ़ा होता है ।

ढोला—सं० पु० [हिं० ढोल]
पिंड । शरीर । देह ।

त

तंग—सं० पु० [देश०] तंगी । बोरा ।
 आ० ज्ञान ।
 तकत—क्रि० अ० [हिं०] ताकना ।
 देखना । निहारना । अवलोकन
 करना । उ० कहि हरि दास जान
 ठाकुर बिहारी तकत न भोर पाट ।
 ह० । सोचना । विचारना ।
 तकाय—क्रि० स० [हिं० तकना का
 प्रे०] दिखाना ।
 तकावत—दे० तकाय
 तकि—दे० तकत
 तकुला—सं० पु० [देश०] देखने योग्य ।
 आ० परमपद ।
 तट—सं० पु० [सं०] क्षेत्र । खेत ।
 तीर किनारा । कूल ।
 ततबीर—सं० स्त्री० [अ०] उपाय ।
 युक्ति । तरकीब । यत्न । उ० कोउ
 गई जल पैठि तरुनो और ठाढी
 तीर । तिनहि लई बोलाई राधा
 करत सुख तदबीर ।—सूर ।
 तत्तु—दे० तत्तु ।
 तत्त—दे० तत्तु ।
 तत्तपल्लौ—सं० पु० [सं० तत्व+पल्लव]
 पल्लव रूपी तत्व । प्राकृतिक तत्व ।
 तत्तु—सं० पु० [सं०] पंच महाभूत
 (पृथ्वी, तेज, जल, वायु और
 आकाश) सार वस्तु । सारांश ।
 परमात्मा । ब्रह्म । वास्तविक
 स्थिति । यथार्थता । वास्तविकता ।

असलियत । जगत का मूल कारण ।
 तन—सं० पु० [सं० तनु] शरीर ।
 देह । गात । जिस्म ।
 तनकी—वि० [सं० तनु = अल्प]
 छोटी । उ० यहाँ ह्रुती मेरी तनिक
 मडैया को नृप आइ छरयौ ।—सूर ।
 तपै—क्रि० अ० [सं० तपन्] तपना ।
 तप्त होना । संतप्त होना । उ०
 निज अघ समुझिन कछु कहि जाई ।
 तपई अवाँ इव उर अधिकारै । तु०
 तमारि—सं० स्त्री० [हिं०] तंवार ।
 सिर में चक्कर आना । धुमड ।
 आ० अज्ञान ।
 तमासा—सं० पु० [फ० तमाशा] वह
 दृश्य जिसके देखने से मनोरंजन
 प्राप्त हो । अद्भुत व्यापार ।
 अनोखी बात ।
 तरंग—सं० स्त्री० [सं०] पानी की
 वह उछाल जो हवा लगने के
 कारण होती है । लहर । मौज ।
 हिलोर ।
 तर—क्रि० वि० [सं० तले] तले ।
 नीचे । उ० कौने विरिछ तर भीजत
 होइहैं रामलपन दूनौ भाई ।—गीत
 तरकस बंदा—सं० पु० [फा० तरकश
 बंदा] तरकस बाँधने वाला ।
 तरन—सं० पु० [सं० तरण] बेड़ा ।
 निस्तार । उद्धार ।
 तरब—क्रि० स० [सं० तरण] पुर

होना । उ० कैसे तरब हम जाय । यारी । क्रि० अ० भवसागर के पार होना । मुक्त होना । सद्गति प्राप्त करना ।	तात—सं० पु० [सं०] पिता । बाप ।
तराजू—सं० स्त्री० [फ०] तौलने का यंत्र । तुला । तकड़ी । आ० विवेक	तातपर्ज—सं० पु० [सं० तात्पर्य] अभिप्राय । अर्थ । आशय । मतलाब ।
तरासा—दे० त्रास ।	ताता—वि० [सं० तप्त] तपा हुआ । गरम । उष्ण । उ० सब जग ताहि अनल ते ताता । तु०
तरिया—दे० तरब ।	ताना—सं० पु० [हिं०] कपड़े की बुनावट में वह सूत जो लम्बाई के बल होता है । वह तार या सूत जिसे जोलाहे कपड़े की लम्बाई के अनुसार फैलाते हैं । फैलाव । विस्तार । आ० सकाम कर्म ।
तरिवर—सं० पु० [सं० तरवर] तरवर । बड़ा पेड़ । पेड़ । वृक्ष । आ० संसार ।	तामस—वि० [सं०] तमो गुण युक्त । उ० होय भजन नहि तामस देहा । -तु० । आ० प्रकृति ।
तरु—दे० तरिवर ।	तार—सं० पु० [सं०] तागा । तंतु । सूत्र । आ० स्वांस ।
तरुनि—सं० स्त्री० [सं० तरुणी] युवती । जवान स्त्री । आ० इन्द्रियाँ ।	तारन—सं० पु० [सं०] दूसरे को पार करने का काम । उद्धार । निस्तार । उद्धार करने वाला । तारने वाला । उ० जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार । तु०
तलफि—क्रि० अ० [अनु०] तलफना कष्ट या पीड़ा से अङ्ग पटकना । छुटपटाना । व्याकुल होना । बेचैन होना । विकल होना ।	तारा—सं० पु० [सं०] नक्षत्र । तारा । आ० कर्म ।
तवाई—सं० पु० [सं० ताप, हिं० ताव] जलन । दाह । ताप ।	तारागण—सं० पु० [सं० तारागण] तारा मंडल । नक्षत्र ।
तहँई—क्रि० वि० [हिं० तहाँ] वहीं । उसी जगह । उसी स्थान पर ।	तारी—सं० स्त्री० [देश०] समाधि । ध्यान । ताली ।
तहिया—क्रि० वि० [सं० तदाहि] तब । उस समय ।	ताल—सं० पु० [सं०] ताली । करतल
तहियो—दे० तैयो ।	
ताकि—दे० तकत ।	
तागा—सं० पु० [हिं०] सूत । डोरा । धागा । आ० कर्म ।	
ताजी—सं० पु० [फा०] अरब का घोड़ा । आ० विवेक ।	

ध्वनि । मंजीर या भौंभ नाम का बाजा । ताला । कुफुल ।
 तालाबेली—सं० स्त्री० [सं० व्यग्रता] व्याकुलता । घबराहट । उ० विन पिया तनु तालाबेली ।—बखना ।
 तिरगुन—सं० स्त्री० [सं० त्रिगुण] सत, रज और तम । तीन गुण ।
 तिरविधि—दे० त्रिविधि ।
 तिरये—वि० [सं० त्रय] तीन । एक संख्या वाचक शब्द । दे० त्रिया ।
 तिलठी—सं० स्त्री० [हिं० सीठी] तिल के पेड़ का वह डंठल जिस से तिल भाड़ लिया गया हो ।
 आ० निस्तार ।
 तिलै—सं० पु० [सं० तिल] एक पौधा अथवा उसका बीज जिससे तेल निकलता है । आ० सार ।
 तिहाई—सं० पु० [सं० त्रि + भाग] तीन भाग त्रितीयांश । तीसरा भाग ।
 आ० त्रयताय ।
 तिहारी—सर्व [सं० त्वदीय] तुम्हारी । तेरी ।
 तिहुँलोक—सं० पु० [देश०] तीन फेरी करके सूत को गास देते हैं उसे तिलोक कहते हैं ।
 तीन दंड—सं० पु० [सं० त्रिदंड] दैहिक, दैविक, भौतिक ताप ।
 संन्यासियों का दंड । जिस में एक बाँस की लकड़ी में क्रमशः एक, दो वा तीन थैलियाँ एक तागे के सहारे बंधी रहती हैं और ऊपर से

सफेद कपड़ा लपेटा रहता है ।
 थैलियों का समूह नारायण का और सफेद कपड़ा लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है । तीनों थैलियाँ द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत की प्रतीक हैं ।
 तीर—सं० पु० [सं०] तट । नदी का किनारा । कूल । पास । समीप ।
 निकट [फ०] बाण । शर । तीर ।
 आ० भ्रम । विषय । सद्उपदेश ।
 तीर तीर—सं० पु० [सं० तीर+तीर] ठौर ठौर स्थान स्थान पर ।
 तीरा—सं० पु० [सं० तीर] नदी के किनारे । तट । आ० मुक्तिपद ।
 तुचा—सं० स्त्री० [सं० त्वक] त्वचा । चर्म । चमड़ा ।
 तुतुरे—वि० [हिं० तोतला] तुतुरा । अस्पष्ट बोलने वाला ।
 तुमरिया—सं० स्त्री० [देश०] तूमड़ी । तूबी । कड़वी लौकी के तूबे की सहायता से दो छोटे छोटे नलों वाली बांसुरी जिस में लकड़ी लगी रहती है विशेषतया संपेरे लोग इसे काम में लाते हैं । आ० नासारंध ।
 तुरिया—वि० [सं० तुरीय] चतुर्थ । चौथा । चतुर्थावस्था ।
 तुरूक—सं० पु० [फा० तुर्क] मुसलमान । एक जाति विशेष ।
 तुरूकिनी—सं० स्त्री० [फा० तुर्किन] तुर्क की स्त्री । तुर्क जाति की स्त्री ।

तुरूकी—सं० पु० [फा० तुर्की]
तुर्किस्तान का घोड़ा । आ०
विचार ।

तुलानी—क्रि० आ० [हिं० तुलना]
तौल में बराबर आना । पहुँचना ।
समीप आना । निकट आना । उ०
आपनों काल आपु ही बोल्यो
इनकी मीचु तुलानी । सूर ।

तूलै—वि० [सं० तुल्य] तुल्य ।
समान । सादृश ।

तूँबा, तूँबा—सं० पु० [सं० तूँबा]
कड़ुआ गोल कद्दू या लौका जिस
को खोखला कर के सितार आदि
बाजा में ध्वनि कोश बनाने के
लिए लगाते हैं ।

तूमरी—सं० स्त्री० [सं० तुम्बक]
कड़ुआ गोल कद्दू । तितलौकी ।
आ० माया ।

तूर—सं० पु० [सं० तूर्ण] एक
प्रकार का बाजा । नगारा । तुरही
नाम का बाजा । सिंघा । उ०
तोरेन तूरन तूर बजै वर भावत
भाटिन गावति ठाढ़ी । के०

तृषा—सं० स्त्री० [सं०] प्यास । इच्छा ।
अभिलाषा । लाभ । लालच ।

तृषावन्त—वि० [सं० तृषावान]
प्यासा । उ० तृषावन्त जिमि पाय
पियूषा ।-तु० ।

तैयो—अव्य० [हिं० तब+उ
(प्रत्य०)] तौ भी । तिस पर भी ।
तब भी । तथापि ।

तौंदी—सं० स्त्री० [सं० तुंद] नाभी
ढोंढी ।

तोपची—सं० पु० [आ० तोप+ची]
तोप चलाने वाला । वह जो तोप
में गोला भर कर चलाता हो ।
गोलंदाज ।

तोरि—क्रि० सं० [हिं० तोड़ना]
आघात या भटके से किसी पदार्थ
के दो या अधिक खंड करना ।
टुकड़े करना । जैसे रस्सी तोड़ना ।
दूर करना । अलग करना ।

त्रास—सं० स्त्री० [सं०] डर ।
भय । कष्ट । तकलीफ ।

त्रिकुटी—सं० स्त्री० [सं० त्रिकूट]
त्रिकूटी चक्र का स्थान । दोनों
भौंहों के कुछ ऊपर का स्थान ।
उ० पूरक कुंभक रेचक करहू ।
उलटि ध्यान त्रिकूटी को धरहू ।
वि० सा०

त्रिगुन—दे० तिरगुन

त्रिविध—वि० [सं० त्रिविध] तीन
तरह का । तीन प्रकार का । उ०
त्रिविध ताप त्रासक त्रिसुहानी ।
तु० । आ० सत, रज, तम ।

त्रिभुवन नाथ—सं० पु० [सं० त्रि+
भुवन+नाथ] तीनों भुवनों अर्थात्
स्वर्ग, मृत्यु, पाताल का मालिक ।
आ० मन । निरंजन ।

त्रिया—सं० स्त्री० [सं०] औरत ।
स्त्री । आ० माया ।

त्रियौ—क्रि० अ० [सं० तरण]

तिरना । तैरना । पैरना । पार-
होना । तरना । मुक्त होना ।
त्रिषा—दे० वृषा ।
त्रिसना—सं० स्त्री० [सं० वृष्णा]

प्राप्त के लिए आकुल करने
वाली इच्छा । लोभ । लालच ।
प्यास ।

थ

थमाइ—क्रि० अ० [सं० स्तम्भन]
थमना । रुकना । ठहरना ।
थंभे—सं० पु० [सं० स्तम्भ] थम ।
खंभा । स्तम्भ । थूनी । आधार ।
उ० थम विह्वंशी गगन रचीले तेल
विह्वंशी बाती । गो०
थल—सं० पु० [सं० स्थल] स्थान ।
जगह । ठिकाना । सुखी धरती ।
थाके—क्रि० अ० [हिं० थकना]
थकना । परिश्रम करते करते
परिश्रम के योग न रहना । शिथिल
होना । क्लान्त होना । ऊब जाना ।
हैरान हो जाना ।
थान—सं० पु० [सं० स्थान]
जगह । ठौर । ठिकाना । रहने या
ठहरने की जगह । डेरा । निवास
स्थान ।
थाना—दे० थान । आ० नरतन ।
थापे—क्रि० स० [सं० स्थापन]
स्थापित करना । बैठाना ।
रखना ।
थापै—दे० थापे ।
थारी—सं० स्त्री० [हिं० थाली]
थाली । पीतल या कास का चौड़ा

वर्तन जिस में भोजन किया जाता
है ।
थाहो—क्रि० स० [हिं० थाहना]
थाह लेना । गहराई का पता
लगाना । अंदाज लेना । पता
लगाना ।
थित—सं० स्त्री० [सं० स्थिति]
थिति । ठहराव । स्थायित्व ।
स्थिति आ० शांति ।
थिति—दे० थिति ।
थिर—सं० पु० [देश० सं० स्थिर]
अचल । शांत । धीर । स्थाई ।
दृढ़ ।
थीरा—दे० थिर ।
थून—सं० स्त्री० [सं० स्थूण] थून ।
थूनी । चांड । खंभा । उ० प्रेम
प्रमोद परस्पर प्रगटत गोपहि ।
जनु हिरदय गुन ग्राम थून
थिर रोपहि । तु०
थूनी—सं० स्त्री० [सं० स्थूण] लकड़ी
आदि का गडा हुआ खड़ा बल्ला ।
थूल—वि० [सं०] स्थूल । सहज में
दिखाई देने या समझ में आने
योग्य । सूक्ष्म का उलटा ।

थोथी, थोथे—वि० [देश० थोथा]
जिसके भीतर सार न हो।
खोखला। खाली। पोला। जिस
की धार तेज न हो। कुंठित।
गुठला। भद्दा। उ० थोथी कथनी

काम न आवै। थोथा फटकै उड़ि
उड़ि जावे।—मुकदेव।
थोर—वि० [देश०] थोड़ा। अल्प।
थोरा—वि० [हिं०] न्यून। अल्प।
कम। तनिक। जरासा।

द

दंड—सं० पु० [सं०] दंड। कर।
कष्ट। डंडा। राज दंड।
दत्त, दत्ता दत्तै—सं० पु० [सं०]
दत्तात्रेय।
दधि—सं० पु० [सं०] दही। जमाया
हुआ दूध। [सं० उदधि] समुद्र।
सागर। आ० अंतःकरण।
दम-दम—सं० पु० [देश०] क्षण क्षण।
दर—सं० पु० [फा०] जगह। स्थान।
प्रमाण। ठीक ठेकाना।
दरजी—० पु० [फा० दर्जी] कपड़ा
सीने वाला। वह जो कपड़ा सीने
का व्यवसाय करे। आ० सद्गुरु।
दरन—सं० स्त्री० [हिं०] दलने वाली
वस्तु। वह वस्तु जो दली जाय।
दरपन—सं० पु० [सं० दर्पण]
आइना। आरसी। मुँह देखने का
शीशा। आ० हृदय पटल।
दरबदर—सं० पु० [सं० द्रव्य] घन।
दौलत।
दरबी—सं० स्त्री० [सं० दर्बी] करछी।
चमचा। डौवा। आ० वाचक
ज्ञानी।

दरवेसा—सं० पु० [फा० दरवेस]
साधु। फकीर। उ० दरवेस सोई
जो दर की जाणों। गो०
दरर—दे० दरन।
दरिद्रा—सं० स्त्री० [फा०] नदी।
सिन्धु। उ० तजि आस भो दास
रघुपति को दसरथ के दानि दया
दरिया। तु० आ० माया।
दव—सं० स्त्री० [सं०] दवाग्नि। वह
आग जो वन में आप से आप
लग जाती है। दवारि। दावा।
आग अग्नि। उ० गई सहमि सुनि
बचन कठोरा। मृगी देखि जनु
दव चहुँ ओरा। तु० आ०
चिंता। संसार।
दबन—सं० पु० [सं० दमन] दबाने
या रोकने की क्रिया। दंड जो
किसी को दबाने के लिए दिया
जाता है। इन्द्रियों की चंचलता
को रोकना। निग्रह। दम।
दवा—सं० स्त्री० [सं० दव] अग्नि।
आग। उ० विरह दवा को जरत

बुझावा, जेहि लागे सो सौँहै धावा । जा०	दारा—सं० स्त्री० [सं० दार] स्त्री । पत्नी । भाय्या ।
दसन—सं० पु० [सं० दशन] दांत । उ० दसन गहहु तृण कंठ कुठारी । तु०	दारी—सं० स्त्री० [सं० दारिका] दासी । लौड़ी । आ० माया ।
दसरथ नाथ—सं० पु० [हिं०] राजा दसरथ । रामचन्द्र ।	दारून—वि० [सं० दारुण] भयंकर । घोर । कठिन । प्रचंड । विकट । उ० जाकह विधि दारुन दुख देहीं । तु०
दहुँ—दे० धौं ।	दालिद—सं० पु० [सं० दारिद्र्य] दरिद्रता । निर्धनता । गरीबी । आ० अज्ञान ।
दहुँदिसि—सं० स्त्री० [सं० दश+दिस] दसों दिसायें जैसे पूरब, आग्नेय, दक्षिण, नैऋतय, पश्चिम, वायव्य उत्तर, ईशान, आकाश और पाताल । दोनो ओर ।	दासा—सं० पु० [सं० दास] शूद्र । एक उपाधि जो शूद्रों के नाम के पीछे लगाई जाती है । सेवक ।
दौव—सं० पु० [सं०] समय । अवसर । मौका । संयोग । घात ।	दिगंबर—सं० पु० [सं०] शिव । महादेव । नंगा रहने वाला जैन साधु । दिगम्बर यती । क्षपणक । वि० दिशाएँ ही जिसका वस्त्र हो अर्थात् नंगा ।
दाता—सं० पु० [सं०] वह जो दान दे । दानशील । देने वाला ।	दिगंतर—दे० देसंतर ।
दाद—सं० स्त्री० [फा०] इंसफ । न्याय । निर्णय । आ० बोध । गुरुपद ।	दिगमग—सं० पु० [सं० दिग्मण्डल] दिशाओं का समूह । सम्पूर्ण दिशाएँ ।
दादुल—सं० पु० [हिं० दादुर] मेढक । मंडक । उ० दादुर धुनि चहु ओर सुहाई । तु० । आ० मन । भ्रम । अज्ञानी ।	दिच्छा—सं० स्त्री० [सं० दीक्षा] उपदेश । गायत्री मंत्र । गुरु मंत्र ।
दाम—सं० पु० [सं०] धन । रुपया पैसा । मूल्य । तत्व । उ० कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । तु० । आ० विवेक । विचार ।	दिठियार—वि० [हिं० दीठ+इयार (प्रत्य०)] देखने वाला । आँख वाला । जिसे दिखाई देता हो । आ० ज्ञानी ।
दामिनि—सं० स्त्री० [सं०] बिजली । विद्युत । उ० दामिनि दमकि रही घन माहीं । तु० ।	दिढ़ाई—क्रि० स० [सं० दृढ़+ना (प्रत्य०) दढ़ाना । दढ़ करना ।

पक्का करना । निश्चय करना ।
 मजबूत करना । उ० चलत गगन
 भइ गिरा सुहाई । जय महेश
 भलि भक्ति दिदाई । तु०
 दिवाय—दे० दिदाई ।
 दिदार—सं० पु० [फा० दीदार]
 दर्शन । साक्षात्कार ।
 दिन—सं० पु० [हिं०] दिन ।
 दिवस । आ० शरीर । तरुणा-
 वस्था ।
 दिना—दे० दिन ।
 दिनकार—सं० पु० [सं० दिनकर]
 सूर्य ।
 दियन—सं० पु० [सं० दीपक]
 दीपक । चिराग । दिआ । मु०
 दिआ बुझना=किसी के मरने से
 कुल में अंधकार छा जाना ।
 आ० जीवन ज्योति ।
 द्विग—दे० दिसा ।
 दिल—सं० पु० [फा०] मन ।
 चित्त । हृदय ।
 दिवस—दे० दिन । आ० नर तन ।
 दिवाना—वि० [फा० दीवाना]
 पागल । विद्विप्त ।
 दिसा—सं० स्त्री० [सं० दिशा]
 दिशा । ओर । तरफ । दिशाएँ
 दस होती हैं । पूर्व, पश्चिम,
 उत्तर, दक्षिण, वायव्य, ईशान,
 नैऋत, आग्नेय तथा ऊपर नीचे ।
 दिसि—दे० दिसा ।
 दिस्टि—सं० स्त्री० [सं० दृष्टि]

नजर । निगाह । देखने की शक्ति ।
 दीठा—क्रि० सं० [हिं० देखना]
 देखना ।
 दीन—सं० पु० [अ०] मत ।
 मजहब । धर्म । विश्वास ।
 दीसै—क्रि० सं० [सं० दृश=देखना ।
 दीसना । दिखाई देना । दिखाई
 पड़ना । दृष्टि गोचर होना ।
 भक्तकना ।
 दुंद, दुंदि—सं० पु० [सं० युद्ध]
 युगम । दो वस्तुएँ एक साथ हों ।
 जन्म मरण, हर्ष शोक, सुख दुःख,
 स्वर्ग नरक, भगड़ा । कलह ।
 दुंदुर—सं० पु० [सं० दादुर]
 मेढ़क । उ० अश्वगुन दुंदुर मेटउ
 मारे रखया करि राखा रत्नपाल ।
 गरीबदास । आ० विकार (काम
 क्रोध, लोभ, मोह और मद आदि) ।
 दुंद्रा—दे० दुंद ।
 दुकाल—सं० पु० [सं० दुष्काल]
 अकाल । दुर्भिक्ष ।
 दुतिया—वि० [सं० द्वितीय]
 दूसरा । सं० स्त्री० [सं० द्वितीया]
 दूज पक्ष की दूसरी तिथि ।
 दुनियाई—सं० स्त्री० [अ० दुनिया+
 हिं० ई (प्रत्य०)] संसार । जगत
 उ० ते विष वान लिखौं कहँताई ।
 रक्त जो सुवा भीज दुनियाई । जा०
 दुनी—सं० स्त्री० [अ० दुनिया]
 खलक । संसार । जगत् । उ० सातो
 द्वीप दुनी सब नये । जा०

दुविधा—सं० स्त्री० [सं० द्विधा]
अनिश्चय। चित्त की अस्थिरता।
उ० दुविधा में दोऊ गए माया
मिली न राम। अज्ञात।
दुरंतरी—वि० [सं० दुरंत] दुर्गम।
दुस्तर। कठिन। जिसका अंत या
पार पाना कठिन हो।
दुर्मति—सं० स्त्री० [सं०] बुरी
बुद्धि। नासमझी। अज्ञान।
दुलहाई—दे० दूलहा।
दुलहिन—सं० स्त्री० [हिं० दुलहा+
इन (प्रत्य०)] स्त्री। पत्नी।
भाय्या। आ० आत्मा।
दुहेलरा—दे० दुहेला।
दुहेला—वि०, [दुहेल=कठिन खेल]
दुःखदायी। दुस्साध्य। कठिन।
दुहेली—सं० स्त्री० दे० दुहेला।
दूध—सं० पु० [सं० दुग्ध] दूध।
पय। सफेद रंग का द्रव पदार्थ जो
स्तनमयी जीवोंकी मादा के स्तन में
होता है, इससे उनके बच्चों का
पोषण होता है।
दूनी—दे० दुनी।
दूषरी—वि० [सं० दुर्बल] दुबली।
क्षीण। कमजोर। दीन।
दूरे—क्रि० वि० [फा० दूर]
दूर। बहुत फासले पर।
दूलहा—सं० पु० [प्रा० दुल्लह]
वह मनुष्य जिसका विवाह अभी

हाल में हुआ हो अथवा शीघ्र ही
होने वाला हो। बर। दुलहा।
नौशा। पति। खाविन्द। स्वामी
सूफी साधुओं के मत में ईश्वर को
भी दूलह कह कर सम्बोधित
करते हैं। आ० जीव। विवेक।
देव—सं० पु० [सं०] स्वर्ग में रहने
या क्रीड़ा करने वाला अमर
प्राणी। दिव्य शरीरधारी।
देवता। सुर।
देवघर—सं० पु० [सं० देव गृह]
मंदिर। जैन मंदिर।
देवघरा—सं० पु० [सं० देव गृह]
मंदिर। देवतायन। आ० शरीर।
देव लांक—सं० पु० [सं०] स्वर्ग।
देशंतर—सं० पु० [सं० देशांतर] अन्य
देश। परदेश। आ० अन्य शरीर।
देहरि—सं० स्त्री० [सं० देहली] देहरी।
द्वार की चौखट। उ० राम नाम
मनि दीप धरू जीह देहरी
द्वार।—दु०
दोजख—सं० पु० [फा०] मुसलमानों
के धार्मिक विश्वास के अनुसार
नरक जिस के सात विभाग हैं
और जिसमें दुष्ट तथा पापी मनुष्य
मरने के उपरांत रखे जाते हैं।
दोष—सं० पु० [सं० द्वेष] द्वेष।
विरोध। शत्रुता। उ० सो जन
जगत जहाज है जाके राग न
दोष।—दु०

दोस—सं० पु० [सं० दोष] अपराध ।
कसूर ।

दोहरा—सं० पु० [हिं० दो + हरा
(प्रत्य०) दोहरा नाम का छंद ।

दौ—सं० पु० [सं० दव] वन । जंगल ।
दे० दवा । आ० संसार ।

दौना—सं० पु० [हिं०] एक पौधा

जिसकी पत्तियाँ गुलदाऊदी की
तरह कटावदार होती हैं और
जिनमें तेज परन्तु कुछ कड़ुई सुगंध
आती है ।

दौरि—सं० स्त्री० [देश०] रस्सी ।
रज्जु । उ० ले दवरि बांधन लगी
जसुदा है बे पीर ।—व्यास ।
आ० वृत्ति ।

ध

धंधा—सं० पु० [हिं०] उद्यम ।
व्यवसाय । धन या जीविका के
लिये उद्यम । काम काज । आ०
गोरख धंधा=बहुत भ्रगड़े या
उलझन वाला काम । भ्रगड़ा ।
उलझन । पैंच ।

धंधे—दे० धंधा ।

धंसि—क्रि० स० [हिं० धंसना]
पैठना । जल आदि में प्रवेश
करना । डुबकी लगाना । गोता
मारना । उ० जो पथ मिलै महेश
हिसेई । गये समुद्र ओही धंस
लेई । जा०

धइल—क्रि० स० [सं० धारना]
धरना । पकड़ना । सम्बन्ध करना ।

धका—सं० पु० [हिं० धमक]
धक्का । अघात या प्रतिघात ।
टक्कर । भोंका । आ० सांसारिक
भ्रगड़े ।

धजा—सं० स्त्री० [सं० ध्वज]

ध्वजा । पताका । धजा । रूपरंग ।
डील डौल । आ० मेरूदंड । शरीर ।

धन—सं० पु० [हिं०] रूपया
पैसा । दौलत । सम्पति ।

धनवा—सं० पु० [हिं० धान]
धान । भूसी लगा हुआ चावल ।
आ० लौकिक कार्य ।

धना—दे० दारा

धनि—दे० दारा । आ० जीवात्मा ।
माया ।

धनिक—वि० [सं०] धनी । जिस
के पास धन हो । रुपये जैसे
वाला । सं० पु० धनी मनुष्य ।
महाजन ।

धनुस—सं० पु० [सं० धनुष]
फलदार तीर फेरने का वह अस्त्र
जो बाँस या तोहे के लचीले डंडे
को झुका कर और उनके दोनों
छोरों के बीच डोरी या तांत बांध
कर बनाया जाता है । कमान ।

धमार—सं० स्त्री० [अनु०] उच्छल
कूद । उपद्रव । उत्पात । धमा
चौकड़ी । होली में गाने का एक
गीत ।

धर—वि० [सं०] संभालने वाला ।
थामने वाला । सं० पु० पर्वत ।
कच्छप जो पृथ्वी को ऊपर लिये
है ।

धरती—सं० स्त्री० [सं० धरित्री]
पृथ्वी । जमीन । संसार । दुनिया ।
जगत । आ० बुद्धि । अन्तःकरण ।

धरनि, धरनी—सं० स्त्री० [सं०
धरणी] दे० धरती ।

धरम—सं० पु० [सं० धर्म] धर्म
शास्त्र । किसी मान्य ग्रन्थ,
आचार्य वा ऋषि द्वारा निर्दिष्ट
कर्म, जो पारलौकिक सुख के लिए
किया जाय ।

धाप—सं० पु० [देश०] दौड़ ।

धाय—क्रि० अ० [सं० धावन]
धाना । दौड़ना । तेजी से चलना ।

धार—सं० पु० [हिं०] किसी
प्रकार का ढाका । आक्रमण ।

धारा—सं० स्त्री० [सं०] धारा
नगरी । मालव की राजधानी जो
राजा भोज के समय प्रसिद्ध थी ।

धरमी—वि० [सं० धार्मिन]
धार्मिक । पुण्यात्मा । मत या
धर्म को मानने वाला ।

धिया—सं० स्त्री० [सं० दुहिता]
कन्या । बेटी । लड़की । बालिका ।

उ० शमी गरभ में अनल ज्यों त्यों
तेरी धिय संत । ल० सिंह ।
आ० बुद्धि ।

धींगा धींगी—सं० स्त्री० [हिं० धींग]
शरारत । बदमाशी । उपद्रव ।
पाजोपन । जबरदस्ती । बल प्रयोग ।
धीमर—सं० पु० [सं० धीवर] एक
जाति विशेष जो प्रायः मछली पक-
ड़ने और बेचने का काम करती
है । मछुवा । मल्लाह । केवट ।
आ० काल । मन ।

धुंधवाय—क्रि० अ० [हिं० धुंध-
वाना] धुँआ दे देकर जलना ।
उ० चिंता ज्वाल शरीर बन दावा
लगि लगि जाय । प्रगट धुँआ
नहि देखिए उर अंतर धुँधवाय ।
—गिरधर ।

धुंधा—सं० पु० [सं० द्रंद] भगड़ा ।
कलह ।

धुर—अव्य० [सं० धुर] बिलकुल
ठीक । वि० [सं० ध्रुव] पक्का ।

धूत—वि० [सं० धूर्त] धूर्स ।
दगाबाज ।

धृग—अव्य० [सं० धिक] लानत ।
धिक्कार । उ० धिक धर्मध्वज
धंधक घोरी ।—तु०

धेनु—सं० स्त्री० [सं०] वह गाय
जिसे बच्चा जने बहुत दिन न हुए
हों सवत्सा गो । आ० मनोवृत्ति ।

धौं—अव्य० [सं० अथवा हिं०
दव, दहुं] एक अव्यय जो ऐसे

प्रश्नों के पहिले लगाया जाता है जिनमें जिज्ञासा का भाव कम और संशय का अधिक होता है। न जाने। मालूम नहीं। कहा नहीं जा सकता। उ० सीय स्वयंवर देखिय जाई। ईस काहि धौं देहि बड़ाई।—तु०

धौकी—सं० स्त्री० [हिं० धौकना] भाथी। भट्ठी। आ० गर्भवास। ध्यान—सं० पु० [सं०] बाह्य इंद्रियों के प्रयोग के बिना केवल मन में लाने की क्रिया या भाव। सोच विचार। चिंतन। मनन। उ० बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू।—तु०

न

नकल—सं० स्त्री० [अ०] वह जो सच्चा, खरा या असल न हो, बल्कि असल को देख कर रूपरंग आकृति आदि में उसी के अनुसार बनाया गया हो। अनुकृति। बनावटी। कृत्रिम।

नख—सं० पु० [सं०] हाथ या पैर का नाखून। उ० श्री गुरुपद नख मनि गन जोती। तु०

नख सिख—सं० पु० [सं०] पैर के नख से लेकर शिखा तक के सब अंग। सिर से पैर तक। ऊपर से नीचे तक। संपूर्ण शरीर।

नग—वि० [सं० न+ग] न गमन करने वाला। अचल। स्थिर। आ० चैतन्य। सं० पु० [फा० नगीना] नग। अंगूठी और आभूषणों में जड़ा जाने वाला मूल्यवान पत्थर। जैसे पन्ना, पुख-राज, हीरा, मणी आदि।

नगर—सं० पु० [सं०] मनुष्यों की

वह बड़ी बस्ती जो गांव या कस्बे आदि से बड़ी हो और जिसमें अनेक जातियों तथा पेशों के लोग रहते हों। शहर। उ० जायस नगर धर्म स्थानू। जा०। आ० शरीर। संसार।

नचनिया—सं० पु० [हिं० नाचना+इया (प्रत्य०) नाचने वाला। करघे की दोनो लकड़ियाँ जो बेसर के कुलवासे से लटकती होती हैं। इन्हीं के नीचे चक्रडोर से दोनो राखें (कंधियाँ) बँधी रहती हैं। इन्ही की सहायता से राखें (कंधियाँ) ऊपर नीचे आती जाती रहती हैं। आ० इन्द्री।

नटत—क्रि० अ० [देश०] नाचना। नृत्य करना।

नटवत—सं० पु० [सं० नट+वत] नट की भाँति नाट्य या अभिनय करना। स्वांग भरना। नट की तरह। उ० एक ग्वाल्लि नटवति

बहु लीला एक कर्म गुण गावति । सर
ननद—सं० स्त्री० [सं०] पति की
बहिन । आ० अविद्या । माया ।
कुमति ।

ननदी—दे० ननद

नपाकै—वि० [फा० नापक]
अपवित्र । अशुद्ध । अस्पृश्य ।

नफर—सं० पु० [फा०] दास ।
सेवक । गुलाम । उ० दादू नफर
कबीर का । दादू

नबी—सं० पु० [अ०] ईश्वर का दूत ।
खुदा का भेजा हुआ पैगम्बर ।

नर—सं० पु० [सं०] पुरुष ।
आदमी । मनुष्य ।

नरलोई—सं० पु० [सं० नर+लोई]
नर लोगो । मनुष्यों ।

नरायन—सं० पु० [सं० नारायण]
विष्णु । भगवान । ईश्वर । [सं०
नर+अयन] मनुष्य का शरीर ।
आ० नर जीवों का भोग स्थान ।
जड़ शरीर । चैतन्य का अधिष्ठान
जड़ ।

नरी—सं० स्त्री० [फा०] नलिका ।
ढरकी के भीतर की नली जिस पर
तार लपेटा रहता है ।

नल—दे० नर

नष्ट—वि० [सं०] जिसका नाश हो
गया हो । जो बरबाद हो गया
हो । जो अदृश्य हो । जो दिखाई
न दे । अलक्षित । अज्ञम । नीच ।
आ० मन ।

नसाई—क्रि० सं० [हिं० नसाना]
अनुचित कार्य करना । नष्ट करना ।
खराब करना । बरबाद करना ।

नसानी—क्रि० अ० [सं० नाश] न
रह जाना । नष्ट होना ।

नसौना—दे० नसाई

नस्ट—दे० नष्ट

नाई—सं० स्त्री० [सं० न्याय] समान
दशा । एक सी गति । वि० [देश०]
समान । तुल्य । उ० समरथ को
नहि दोष गुसाई । रवि पावक,
सुरसरि की नाई । तु०

नाई—दे० नाई

नाऊँ—'० पु० [हिं० नाम] वह
शब्द जिससे किसी व्यक्ति या समूह
का बोध हो । नाम ।

नाखै—क्रि० सं० [सं० नष्ट] नाखना ।
देखना । विचार करना । नाश
करना । [हिं० नाकना] नाकना ।
उल्लंघन करना । उ० जो हरि चरित्र
ध्यान उर राखै । आनन्द सदा
दुरित दुख नाखै । सर

नाग—सं० पु० [सं०] सर्प । सांप ।
नाग बंस । शेष नाग ।

नाग फांस—सं० स्त्री० [सं० नाग
पाश] वरुण के एक अस्त्र का
नाम जिससे शत्रुओं को बांध लेते
थे । शत्रु बांधने के लिये एक
प्रकार का बंधन । आ० त्रिगुण
का फंदा । (काम, वृष्णादि) ।

नाचै—क्रि० सं० [हिं० नाचना]

संगीत के मेल में ताल स्वर के अनुसार हाव भाव पूर्वक उछलना, कूदना तथा थिरकना । नृत्य करना । आनन्द में मग्न होना ।

नाता—सं० पु० [हिं० नात] दो या कई मनुष्यों के बीच वह लगाव जो एक ही कुल में उत्पन्न होने या विवाह आदि के कारण होता है । कुटुम्ब की घनिष्ठता । जाति सम्बन्ध । रिश्ता । उ० कह रघुवर सुनु भामिनि बाता । मानहु एक भक्ति कर नाता । तु० ।

नाथ - सं० पु० [सं०] गोरख पंथी साधुओं का एक पदवी जो उनके नामों के साथ लगी रहती है । एक सम्प्रदाय जिसके प्रवर्तक महादेव (आदि नाथ) कहे जाते हैं ।

नाद—सं० पु० [सं०] शब्द । अकाश । अव्यक्त शब्द जिसका ठीक विवेचन न किया जा सके । अनाहत नाद । भेरी आदिक शब्द । हठ योगियों का एक पारिभाषिक शब्द । उ० नाद विद्बु जाके घट जरै । गो०

नादे—दे० नाद

नादाना—वि० [फा० नदान] ना समझ । अनजान । मूर्ख ।

नाथे—क्रि० सं० [हिं० नथना] [सं० नद्ध=न (प्रत्य०)] रस्सी या तस्मे के द्वारा बैल थोड़े आदि का उस वस्तु के साथ जुड़ना या बंधना

जिसे उन्हें खींच कर ले जाना हो । जुतना । किसी कार्य में लगे रहना । उ० वहत बृषभ वहलन मह नाथे ।—रघुराज । आ० सांसारिक माया जाल में पड़े रहना । भोग विलास में फंसे रहना । सकाम कर्म में जुते रहना ।

नाना—वि० [सं०] अनेक प्रकार के । बहुत तरह के । विविध । अनेक । बहुत ।

नारि—सं० स्त्री० [हिं० नार] जुलाहों की ढरकी । जुलाहों की नली जिस में वे सूत लपेट कर रखते हैं । आ० इडा, पिंगला आदि नाडियों । [सं० नारी] स्त्री । औरत । आ० लेखनी । वाणी । माया ।

नारी—सं० स्त्री० [सं०] स्त्री । औरत । आ० माया । प्रकृति । सुरति । ब्रह्मरंध । कुंडलनी ।

नाल—सं० स्त्री० [सं०] पौधे का डंठल । कांड । डांडी । आ० मेरुदंड ।

नाव—दे० नौका । आ० शरीर ।

नावरी—सं० स्त्री० [हिं० नावर] नाव । नौका । आ० शरीर ।

नाह—सं० पु० [सं० नाथ] । नाथ । स्वामी । मालिक । पति । आ० चेतन । आत्मा ।

नाहर—सं० पु० [सं० नरहरि] सिंह । शेर । बाघ । आ० जीव ।

निकंदिया—क्रि० स० [सं० नि + कंदन=निकंदन, नाश, बध] नाश करना । भंग करना । उखाड़ डालना ।

निकरै—क्रि० अ० [हिं० निकलना] निकलना । बाहेर होना । भीतर से बाहेर आना ।

निकुंज—सं० पु० [सं०] लता-गृह । ऐसा स्थान जो घनी लताओं से घिरा हो ।

निगम—सं० पु० [सं०] वेद ।

निग्रह—सं० पु० [सं०] रोक । अवरोध । इन्द्रियों का संयम ।

निगले—क्रि० स० [सं० निगरण, निगलन] निगलना । लील जाना । खा जाना ।

निर्चीत—वि० [सं० निश्चित] चिंता रहित । बेफिक्र ।

निच्छत्र—वि० [सं० निःक्षेत्र] क्षत्रियों से हीन । बिना छत्रिय का । उ० मारयो मुनि बिन ही अपराधहि कामधेनु लै आऊ । इकइस वार निच्छत्र तब कीन्हौं तहाँ न देखे हाऊ ।—सूर

निज—वि० [सं०] खास । मुख्य । प्रधान । स्वयं । विशेष रूपसे । उ० देखु विचारि सार का सांचो कहा निगम निजु गायो ।—तु०

निजु—दे० निज

निभरू—सं० पु० [सं० निर्भर] निर्भर । भरना । सोता ।

निठुर—वि० [सं० निष्ठुर] कठोर हृदय । जिसे दूसरे की पीड़ा का अनुभव न हो । निर्दय । क्रूर ।

निधि—सं० स्त्री० [सं०] गढ़ा हुआ धन । खजाना । धन । नौ प्रकार के रत्न (पद्म, महा पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्च) । साधना की सम्पत्ति । भजन के प्रताप से प्राप्त सिद्धि ।

निनार—दे० निनारा ।

निनारा—वि० [सं० निः+निकट] अलग । जुदा । भिन्न । न्वारा । दूर । उ० दूध पानि सब करै निनारा । जा०

निनारी—दे० निनारा ।

निपात—सं० पु० [सं०] पतन । गिराव । अधः पतन । नाश । मृत्यु । विनाश । उ० कंस निपात करहु गे तुमही हम जानी यह बात सही पर । सूर

निपातिया—वि० [सं० निपतित] नष्ट हुआ । मरा हुआ । गीरा हुआ । अधः पतित ।

निपुन—वि० [सं० निपुण] दक्ष । कुशल । प्रवीण । चतुर । कार्य करने में पटु ।

निबेरा—सं० पु० [हिं० निबेरना] निबटारा । फैसला । निर्णय ।

निबेरे—क्रि० स० [हिं० निबेड़ना] निबटाना । फैसला करना । दूर करना । हटाना । निवारण करना ।

निबेरिये—क्रि० अ० [हिं० निवे-
इना] निर्याय करना । सुलभाना ।
निमाज—सं० पु० [फा० नमाज]
मुसलमानों की ईश्वर प्रार्थना जो
नित्य पांच बार होती है इसके
अतिरिक्त सूर्य चन्द्र ग्रहण के समय
अनावृष्टि के समय, ईद के दिन,
किसी के मरने पर तथा इसी
प्रकार के अन्य अवसरों पर भी
नमाज पढ़ी जाती है ।
निमिखै—सं० पु० [सं० निमिष]
उतना काल जितना पलक गिराने
में लगता है । पलक मारने भर
का समय ।
नियरानी—क्रि० अ० [हिं० नियर+
आनी (प्रत्य०)] समीप आना ।
नियरायल—क्रि० अ० [हिं०
नियर+आना (प्रत्य०)] निकट
पहुँचना । पास आना । नजदीक
आना ।
नियरे—अव्य० [सं० निकट]
नियर । समीप । पास । नजदीक ।
नियारी—दे० निनारा ।
निरंतर—वि० [सं०] अंतर रहित ।
लगातार । जिसमें या जिसके बीच
अंतर या फासला न हो ।
निर—अव्य० [सं० निः] नहीं । बिना ।
निरखत—क्रि० सं० [सं० निरीक्षण]
देखना । ताकना । अवलोकन
करना । उ० बहुतक चढ़ी अटारिन्ह
निरखहि गगन विमान । तु०

निरगुन—सं० पु० [सं० निगुण]
सत, रज और तम इन तीनों
गुणों से परे । परमेश्वर । बिना
गुण वाला ।
निरजिव—वि० [सं० निर्जीव] जीव
रहित । बेजान । मृतक । प्राणहीन ।
निरन्तर—दे० निरंतर ।
निरबक—वि० [आ०] खालिश ।
निरा । केवल । एक मात्र ।
निरवान—सं० पु० [सं० निर्वाण]
सुक्ति । मोक्ष । शांति ।
निरवैर—वि० [सं० निः+वैर] बिना
वैर के । वैर रहित । शत्रुता हीन ।
निरभै—वि० [सं०] जिसे कोई डर
न हो । बेखौफ । निडर ।
निराट—वि० [हिं० निराल] जिसके
साथ और कुछ न हो । अकेला ।
एक मात्र । बिल्कुल । निपट ।
उ० साधत देह न नेह निराट कहे
मति कोई कहुँ अटकी सी ।—देव
निराधार—वि० [सं०] अवलंब वा
आश्रय रहित । जिसे सहारा न हो
या जो सहारे पर न हो । बिना
आलंब या सहारे का । आ० चेतन ।
निरापन—वि० [सं० निः + हिं०
अपना] जो अपना न हो ।
पराया । बेगाना ।
निरालप—वि० [देश०] अपवित्र ।
अशुद्ध । नापाक । मलिन दूषित ।
निरालंब—दे० निराधार ।
निरासल—वि० [हिं० निः+आशय]

आशा हीन । ना उम्मीद । निराश ।
 निरुवारिये—दे० निरुवारै ।
 निरुवारी—दे० निरुवारै ।
 निरुवारै—क्रि० सं० [सं० निवारण]
 सुलभाना । उलभन मिटाना
 निवटाना । निण्य करना । गांठ
 आदि छुड़ाना । उ० तव सोइ
 बुद्धि पाय उजियारा । उर गृह
 बैठि ग्रंथि निरुवारा ।—तु०
 निर्वही—क्रि० अ० [सं० निर्वहन]
 निभना । निर्वाह होना ।
 निवारहु—क्रि० सं० [सं० निवारण]
 रोकना । दूर करना । हटाना ।
 निसतरई—क्रि० सं० [सं० निस्तार]
 निस्तार पाना । मुक्त होना ।
 छुटकारा पाना । छुट्टी पाना ।
 निसाने—सं० पु० [फा० निशाना]
 लक्ष्य । वह जिस पर ताक कर
 किसी अस्त्र या शस्त्र आदि का
 वार किया जाय ।
 निसाफ—सं० पु० [अ० इन्साफ]
 न्याय । इन्साफ ।
 निसासा—वि० [सं० निःश्वास,
 हिं० नि (प्रत्य०) सांस] विगत
 श्वास । बेदम ।
 निसुदिन—दे० निसुबासर ।
 निसुबासर—सं० पु० [सं० निशि
 बासर] रात दिन । सदा । सर्वदा ।
 हमेशा ।
 निस्वै—सं० पु० [सं० निश्चय]
 यकीन । विश्वास । पक्का विचार ।

निहकरमी—वि० [सं० निष्कर्म्मिन]
 जो कर्मों में लिप्त न हो । अकर्मि ।
 निहाल—वि० [फा०] जो सब प्रकार
 से सन्तुष्ट और प्रसन्न हो गया हो ।
 पूर्ण कर्म । उ० गए जो शरण
 आरत के लीन्हें । निरखि निहाल
 निमिष माँ कीन्हें ।—तु०
 निहुरि—क्रि० अ० [हिं० नि +
 होइन] झुकना । नवना । झुककर ।
 निहोरा—सं० पु० [हिं०] अनुग्रह ।
 एहसान, कृतज्ञता, उपकार । उ०
 जो कछु देवन मोहि निहोरा ।—तु०
 नींद—सं० स्त्री० [सं० निद्रा] निद्रा ।
 जीवन की एक नित्य प्रति होने
 वाली अवस्था जिसमें चेतन
 क्रियाएँ रुकी रहती हैं तथा शरीर
 और अंतःकरण दोनों विश्राम
 करते हैं । सोने की अवस्था । उ०
 जोकरि कष्ट जाय पुनि कोई ।
 जातहि नींद जुड़ाई होई ।—तु०
 आ० अज्ञान ।
 नींदरी—दे० नींद । उ० हौ जमात
 अलसात तात तेरी बानि जानि मैं
 पाई । गाइ गाइ हलराइ बोलिहौं
 सुख नींदरी सुहाई ।—तु०
 नीको—वि० [सं० निक्त = साफ]
 नीका । अच्छा । उत्तम । भला ।
 उ० प्रभू पद प्रीति न सामुक्ति
 नीकी ।—तु०
 नीठि—क्रि० वि० । कठिनता से ।

मुश्किल से । ज्यों त्यों करके किसी प्रकार ।
 नीर—सं० पु० [सं०] पानी । जल ।
 नीरू—दे० नीर ।
 नीलाज—वि० [सं० निर्लज]
 लज्जा हीन । बेहया । बेशर्म ।
 नुंचित—वि० [सं० लुंचित]
 उखाड़ा हुआ । जैन जतियों की एक क्रिया जिसमें उनके शिर के बाल नोचे जाते हैं ।
 नूतन—वि० [सं०] नया । नवीन । विलक्षण ।
 नूर—सं० पु० [अ०] ज्योति । प्रकाश । आभा । श्री । कांति । शोभा ।
 नेकु—वि० [हिं० न+एक] थोड़ा । तनिक । जरा सा । किञ्चित ।
 नेम—सं० पु० [सं०] धर्म की दृष्टि से कुछ क्रियाओं का पालन जैसे व्रत उपवास ।
 नेमी—वि० [सं० नियम] नियम का पालन करने वाला । धर्म की दृष्टि से पूजा, पाठ, व्रत, उपवास आदि करने वाला ।
 नेरा—अव्य० [सं० निकट] नियर । समीप । पास । नजदीक ।

वि० [हिं० विन्यास] अलग । खुदा । पृथक ।
 नेव—सं० स्त्री० [हिं० नीव] नीव । घर बनाने में गहरी नाली के रूप में खुदा हुआ गडढा । दीवार उठाने के लिए गहरा किया हुआ स्थान । जड़ । मूल । आधार ।
 नेवाज—वि० [फा० निवाज] कृपा करने वाला । अनुग्रह करने वाला । ईश्वर ।
 नेह—सं० पु० [सं० स्नेह] प्रेम । प्रीत । प्यार । आ० आशक्ति ।
 नेहरा—दे० नेह ।
 नैन—सं० पु० [सं० नयन] चक्षु । नेत्र । आखें ।
 नौका—सं० स्त्री० [सं०] लकड़ी की बनी हुई जल के ऊपर तैरने या चलने वाली सवारी । जलयान । नाव । किशती । जहाज । आ० शरीर ।
 नौवा—सं० पु० [सं० नाविक] मल्लाह । आ० जीवात्मा ।
 न्याव—सं० पु० [सं० न्याय] इंसफ । वाद विवाद वा झगड़े का निबटारा । निर्णय ।

प

पँखुरी—सं० स्त्री० [सं० पक्ष्म] फूलों का वह रंगीन पटल जिसके खिलने या छितराने से फूल रूप बनता है पुष्प दल । पंखुड़ी ।

पंखै—सं० पु० [पक्ष, प्रा० पक्ष] पंख । पर । डैना । वह अवयव जिससे चिड़िया, पतंग आदि उड़ते हैं । उ० काटेसि पंख परा खग धरनी ।—तु०

पंगा—वि० [सं० पंगु] जिसके पैर काम न करते हों। लंगड़ा। बेकाम।

पंचासन—दे० पीठासन।

पंछी—सं० पु० [सं० पन्नी] पखेरू। चिड़िया। आ० प्राण

पंजर—सं० पु० [सं०] हड्डियों का ठहर। शरीर। देह। पिंजड़ा कंकाल। ठठरी।

पंडित—वि० [सं०] विद्वान। शास्त्रज्ञ। शानी। चतुर। सं० पु० ब्राह्मण। आ० ब्रह्मा।

पंडौ—सं० पु० [सं० पाण्डव] कुन्ती और माद्री के गर्भ से उत्पन्न राजा पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचौ पुत्र।

पंथ—सं० पु० [सं० पथ] मार्ग। रास्ता। राह। धर्म मार्ग। संप्रदाय। मत। उ० सैयद असरफ पीर पियारा। जिन मोहि दीन पंथ उजियारा।—जा०। आ० कल्याण-मार्ग, सतसंग, परमपद प्राप्ति का मार्ग।

पंथी—सं० पु० [सं० पथिन] राही। बटोही। पथिक। उ० करहि पयान भोर उठि नितही कोश दस जाहि। पंथी पंथा जो चलहि ते कित रहै ओटाहि।—जा०। आ० जिज्ञासु। साधक।

पंवारें—क्रि० सं० [सं० प्रवारण]

रोकना। हटाना। फेंकना। प्रवाह करना। त्यागना

पग, पगु—सं० पु० [सं० पदक] पैर। पांव।

पचहु—क्रि० अ० [सं० पचन] क्षय होना। समाप्त होना। खपना। बहुत हैरान होना। दुःख सहना।

पचि—दे० पचहु

पछ—सं० पु० [सं० पच] अनुकूल मत या प्रवृत्ति। तरफदारी।

पछारिन्हि—क्रि० सं० [देश०] मारना। बध करना। मु० सिंह जानवरों को पछाड़ता है।

पछोरि—क्रि० सं० [सं० प्रक्षालन] सूप आदि में रख कर (अन्न आदि के दानों को) साफ करना। फटकना। उ० कहौ कौन पै कहै कनूका भुस की राशि पछोरे। सूर। आ० सत्यासत्य विवेक।

पट—सं० पु० [सं०] बख। कपड़ा चक्की का पाट। आ० नर शरीर।

पटरिया—सं० स्त्री० [हिं० पटरा] पटरी। काठ का पतला और लम्बा तख्ता। आ० शरीर।

पटवारी—सं० पु० [सं० पट्ट+हिं० वार] पटवारी का कार्य। वह कार्य जो पटवारी करता है। पटवार गिरी। आ० निस्सार उपदेश।

पटिया—सं० स्त्री० [सं० पट्टिका] खाट या पलंग की पाटी। मांग। पट्टी।

पटोरा—सं० पु० [सं० पटोल]
 पटोर । रेशमी कपड़ा ।
 पतंग—सं० पु० [सं०] पतंग ।
 उड़ने वाला कीड़ा । शलभ ।
 परवाना । पक्षी ।
 पतंगा—दे० पतंग ।
 पतारा—दे० पताल ।
 पताल—सं० पु० [सं० पताल]
 पृथ्वी के नीचे के सात लोकों में
 से सातवाँ अधोलोक । नाग लोक ।
 पाताल ।
 पति—सं० पु० [सं०] मालिक ।
 स्वामी । प्रभू । आ० ईश्वर । मन ।
 सं० स्त्री० मर्यादा । प्रतिष्ठा । लज्जा ।
 इज्जत । साख । उ० अब पति
 राखि लेहु भगवान ।—सूर
 पतियाई—दे० पतियाना ।
 पतियाना—क्रि० स० [हिं०]
 विश्वास करना । सच मानना ।
 प्रतीत करना ।
 पतियाय—दे० पतियाना ।
 पतियारा—वि० [हिं० पतियाना]
 पतियाने के योग्य । काबिल एत-
 वार । विश्वास करने योग्य ।
 पतिजे—क्रि० अ० [हिं० पतीजना]
 पतीजना । पतिआना । एतवार
 करना । विश्वास करना । प्रतीत
 करना । भरोसा करना । उ० तब
 देवकी दीन है भाष्यो नृप को
 नहीं पतीजै ।—सूर
 पत्तन—दे० नगर । आ० संसार ।

पत्र—सं० पु० [सं०] किसी वृक्ष
 का पत्ता । पत्ती । दल [सं०
 पात्र] बर्तन । आधार । आ०
 भिक्षा-पात्र । शरीर ।
 पत्री—सं० पु० [सं०] पक्षी ।
 चिड़िया ।
 पटुभिनि—सं० स्त्री० [सं० पद्मिनी]
 कोक शास्त्र के अनुसार स्त्रियों की
 चार जातियों में से सर्वोत्तम
 जाति । कहते हैं इस जाति की
 स्त्री अत्यन्त कोमलांगी, सुशीला,
 रूपवती और पतिव्रता होती है ।
 दे० प० ख
 पथिक—दे० पंथी
 पनिया—सं० पु० [सं० पानीय]
 पानी । जल ।
 पयाना—सं० पु० [सं० प्रयाण]
 गमन । यात्रा । खानगी ।
 पयार—सं० पु० [सं० पत्ताल]
 पुआल । धान या कोदों आदि के
 सूखे डन्ठल जिनके दाने भाड़
 लिये गये हों । धान का गांव
 पयार ते जानौ ज्ञान विषय रस
 भोरे ।—सूर । आ० माया । शरीर
 पर—वि० [सं०] दूसरा । अन्य ।
 अपने को छोड़ कर शेष गैर । उ०
 पर उपदेश कुशल बहुतेरे ।—तुलसी
 परक्ख—क्रि० स० [सं० परीक्षण]
 परीक्षा करना । जांच करना ।
 परखत—दे० परक्ख
 परखावत—क्रि० स० [हिं० प्रखना

का प्रे०] परिज्ञा कराना । जंच-
वाना ।

परगासा—क्रि० सं० [हिं० प्रकटना]
प्रकट होना । दिखाई पड़ना ।
प्रकाशित होना ।

परचै—सं० पु० [सं० परिचय]
जानकारी । ज्ञान । जान पहिचान ।

परजरे—दे० प्रजाली

परजारि—दे० प्रजाली

परतछै—वि० [सं० प्रत्यक्ष] जो
देखा जा सके । जो आँखों के
सामने हो । जिसका ज्ञान इंद्रियों
के द्वारा हो सके जो किसी इन्द्रिय
की सहायता से जाना जा सके ।

परदा—सं० पु० [फा०] आँड़ ।
आवरण । ओट ।

परपंच—दे० प्रपंच ।

परपंची—दे० प्रपंच ।

परबत—सं० पु० [सं० पर्वत]
जमीन के ऊपर का बहुत अधिक
उठा हुआ प्राकृतिक भाग जो
आस पास की जमीन से बहुत
अधिक ऊँचा होता है । और
प्रायः पत्थर ही पत्थर होता है ।
पहाड़ । आ० मन ।

परबस—वि० [सं० परवश] जो
दूसरे के वश में हो । पराधीन ।

परम तत्तु—सं० पु० [सं० परमतत्व]
मूल तत्व जिससे संपूर्ण विश्व का
विकास है । मूल सत्ता । ब्रह्म ।

ईश्वर सम्बंधी ज्ञान । ब्रह्म विद्या ।
आ० गुरुपद ।

परम निधाना—वि० [हिं० परम-
निधान] उत्तम धन । मुख्य
आधार । अमूल्य वस्तु ।

परमाना—सं० पु० [सं० प्रमाण]
प्रमाण ।

परलै—सं० स्त्री० [सं० प्रलय]
सृष्टि का नाश वा अन्त ।

परवाना—सं० पु० [सं० उपाख्यान]
कथा । कहावत । मसला । उ०
बालापन से रहत निकट ही सुन्योन
एक परवानो । सूर । दे० परमाना ।

परस—सं० पु० [सं० स्पर्श] स्पर्श ।
छूना । उ० दरस परस मंजन अरु
पाना । —तुलसी

परसादे—सं० पु० [सं० प्रसाद]
अनुग्रह । कृपा । मेहरवानी ।

परसाही—सं० स्त्री० [सं० प्रति-
च्छाया] परछाई । छाया ।

परसै—क्रि० सं० [सं० स्पर्शन]
छूना । स्पर्श करना ।

परसोत्तिम—सं० पु० [सं० पुरुषो-
त्तम] पुरुष श्रेष्ठ । श्रेष्ठ पुरुष ।

परस्पर—क्रि० वि० [सं०] एक
दूसरे के साथ । आपस में ।

पराई—क्रि० अ० [सं० पलायन]
पराना । भाजना । उ० देखि
विकट भट अति विकटाई । जच्छ
जीव लई गयउ पराई । —तु०

पराना—सं० पु० [सं० प्राण]
जीवन । जान । शरीर की वह वायु
जिससे मनुष्य जीवित रहता है ।
प्राण वायु । उ० प्राण पवन हृदय
महँ वासा । जेहिते निस दिन
निकसत सांसा । वि० सा०

पराय—क्रि० अ० [प्रा० पड़न]
पड़ना । गिरना । पतित होना ।

परारी—सं० स्त्री० [हिं० परार]
दूसरे की । परायी । विरानी ।

परिचै—दे० परचै ।

परिमल—सं० पु० [सं०] सुवास ।
उत्तम गंध । चंदन की खुशबू ।

परिहरि—क्रि० स० [सं० परिहरण]
त्यागना । छोड़ना । तज देना ।
उ० परिहरि सोच रहो तुम सोई ।
बिनु औषधिहिं व्याध बिधि
खोई । —तुलसी

परिहरु—दे० परिहरि ।

परोसिन—सं० स्त्री० [हिं०]
पड़ोस में रहने वाली ।

परोहन—सं० पु० [सं० प्ररोहण]
वह जिस पर सवार होकर यात्रा
की जाय । या कोई वस्तु लादी
जाय । घोड़ा । बैल आदि । आ०
विवेक ।

पर्ग—दे० पैग ।

पल—सं० पु० [सं०] क्षण ।

पल्ला—सं० पु० [हिं० पल्ला]
पल्ला । आँचल ।

पल्लथि—सं० स्त्री० [प्रा० पल्लथ]

पालथी । हठ योग का एक
आसन । जिसमें दाहिने पैर का
पंजा बाँए और बाँए पैर का पंजा
दाहिने पट्टे के नीचे दबा कर
बैठते हैं । स्वस्तिकासन ।

पलट(या)—क्रि० स० [हिं० पलटना]
बदलना ।

पलास—सं० पु० [सं०] ढाक ।
टेसू ।

पलुहावन—क्रि० स० [हिं० पलुहना]
पलुहाना । पल्लवित करना । हरा
भरा करना । उ० कबहुक कपि
राघव आवहिंगे । विरह अगिनि
जरि रही लता ज्यो कृपा दृष्टि
जल पलुहावहिं गे । —तु०

पलौ—सं० पु० [सं० पल्लव] नए
निकले हुए कोमल पतों का समूह
या गुच्छा । कोपल । कल्ला । उ०
नव पल्लव भये विटप अनेका ।
—तु० । आ० वासना ।

पवन—सं० पु० [सं०] वायु ।
हवा । आ० प्राण । स्वांसा ।

पवना—दे० पवन ।

पषान—सं० पु० [सं० पषाण]
पत्थर । प्रस्तर । शिला । आ०
जड़ ।

पसार—सं० पु० [सं० प्रसार]
फैलाव । विस्तार ।

पसारिन—क्रि० स० [सं० प्रसारण]
फैलाना ।

पसीजहु—क्रि० स० [प्रा० पसि-

वजई] दयार्द्र होना । पिचलना ।
 नर्म होना । कोमल चित्त होना ।
 पसेरी—सं० स्त्री० [हिं० पांच+सेर
 +ई [प्रत्य०)] पसेरी पांच सेर
 का बांट । तोल की एक माप ।
 आ० पांच तत्व । कर्म इन्द्रियाँ ।
 पहरिया—दे० पहरू
 पहरुआ—दे० पहरू ।
 पहरू—सं० पु० [हिं० पहरा+ऊ
 (प्रत्य०)] पहरा देने वाला । चौकी-
 दार । रत्नक । प्रहरी । संतरी ।
 पहिरा—क्रि० सं० [हिं० पहनना]
 धारण करना ।
 पहिरि—दे० पहिरा
 पहुँना—दे० पाहुना ।
 पहेलि—क्रि० सं० [सं० प्रहीन]
 अवहेलना करना । छोड़ना ।
 पांखि—सं० पु० [सं० पन्ख] पंख ।
 पर । पत्नी का डैना । आ० विचार ।
 पांजी—सं० स्त्री० [सं० पदाति,
 हिं० पांजी=पैदल] मार्ग । रास्ता ।
 किसी नदी का इतना सूख जाना
 कि लोग उसे हल कर पार कर
 सकें । आ० रूढ़ि ।
 पांडुर—सं० पु० [देश०] एक प्रकार
 का सांप । सर्प । आ० अज्ञान ।
 पाँडे—सं० पु० [सं० पंडित]
 पंडित । विद्वान । ब्राह्मण ।
 पाई—सं० स्त्री० पतली छड़ियों वा
 बेंत का बना हुआ जोलाहों का
 एक ढांचा जिस पर ताने के सूत

को फैलाकर उसे खूब मांजते हैं ।
 पाक—वि० [फा०] पवित्र । शुद्ध ।
 परिमार्जित ।
 पाखंड—सं० पु० [सं० पाषंड] असत्य
 धर्म । धर्म का ढोंग । लोक में पूजा
 पाने के लिए धर्म का ढोंग रचने
 वाला । ढोंग । आडम्बर । धर्म ।
 पाखर—सं० स्त्री० [प्रखर, प्रखर]
 लोहे की वह भूल जो लड़ाई के
 समय रक्षा के लिये हाथी व घोड़ों
 पर डाली जाती है । राल चढ़ाया
 हुआ टाट या उस से बनी हुई
 पोशाक । आ० जड़ ।
 पाखान—दे० पषान ।
 पाट—सं० पु० [सं० पट्ट, पाट]
 पाठ । शबक । वस्त्र । कपड़ा ।
 रेशमी वस्त्र । चौड़ाई । फैलाव ।
 पीढ़ा । तख्ता । गद्दी । पटिया ।
 पाटी । पट्टी । आ० शान ।
 पाटन—दे० नगर । आ० शरीर ।
 पात—दे० पत्र ।
 पाती—सं० स्त्री० [प्रा० पत्ती] पत्ती ।
 पत्र । बेल अथवा तुलसी की पत्ती ।
 पातरी—वि० [हिं० पातर] पतला ।
 सूझम । क्षीण । बारीक । आ०
 भीनी माया ।
 पाथर—दे० पषान । आ० शालि-
 ग्राम ।
 पादसाह—सं० पु० [सं० पाट शा-
 शक] तख्त का मालिक । राज
 सिंहासन पर बैठने वाला । बाद-

शाह । राजा । शाशक । आ० ईश्वर । अल्लाह ।	पारथ—सं० पु० [सं०] अर्जुन । [सं० परिधान=आच्छादन]
पान—सं० पु० [सं० पर्य] पता । एक प्रसिद्ध लता जिसके पत्तों का बीड़ा बना कर खाते हैं । तांबूल । आ० ज्ञान ।	पारधी । व्याध । आ० जीव ।
पानही—सं० स्त्री० [सं० उपानह] जूता । पदत्राय । आ० विवेक, विचार ।	पारथि - सं० पु० [सं० परिधान=आच्छादन] पारधी । टट्टी आदि की ओट से पशु पक्षियों को पकड़ने या मारने वाला । बहेलिया । व्याध । शिकारी । अहेरी । हत्या-रा । बधिक । आ० मन
पानिप—सं० पु० [हिं० पानी+प (प्रत्य०)] ओप । द्युति । कांति चमक । आव । इज्जत । मर्यादा ।	पारन—सं० पु० [सं० पारण] किसी व्रत या उपवास के दूसरे दिन किया जाने वाला पहला भोजन और तत्संबंधी कृत्य । उ० अबलौं उपासी अब पारन करूँगी मैं । अनूप ।
पानी—सं० पु० [सं० पानीय] जल । नीर । आ० वाणी । आनंद । प्रपंच । वीर्य ।	पारब्रह्म—सं० पु० [सं०] ब्रह्म जो जगत से परे है । निर्गुन निरुपाधि ब्रह्म ।
पानी ग्रहण—सं० पु० [सं० पाणि ग्रहण] विवाह की एक रीति जिसमें कन्या का पिता उस का हाथ वर के हाथ में देता है । विवाह । व्याह ।	पारस—सं० पु० [हिं० परस] एक कल्पित पत्थर जिस के विषय में प्रसिद्ध है कि यदि लोहा उस से छुलाया जाय तो सोना हो जाता है । स्पर्श मणि । आ० गुरुज्ञान ।
पाप—सं० पु० [सं०] वह कर्म जिस का फल इस लोक और परलोक में अशुभ हो । बुरा काम । निर्दित कार्य । अनाचार । गुनाह । अकल्याणकर कर्म ।	पारा—क्रि० सं० [हिं० पाना] समर्थ होना । सकना । [सं० पार] अंत । छोर । किनारा । हद । अव्य० परे ।
पार—सं० पु० [सं०] परम ।	पावक—दे० आगि । आ० त्रयताप । विरहमि । ज्ञान ।
पारख—सं० स्त्री० [सं० परीक्षा] परीक्षा । पहिचान । आ० गुरुपद । पारख पद ।	पांस—दे० पासा ।
पारखी—सं० पु० [हिं० पारिख+ई (प्रत्य०)] परखने वाला । परीक्षक । आ० सारासार विवेकी ।	पासंग—सं० पु० [फा०] तराजू की डंडी बराबर न होने पर उसे

बराबर करने के लिए उठे हुए पल्ले पर रखा हुआ पत्थर या और कोई बोझ । पसंवा । आ० इच्छा । वासना ।

पासा—सं० पु० [सं० पाशक] हाथी दांत या किसी हड्डी के उंगुली के बराबर छः पहलदार टुकड़े जिन के पहलों पर विंदियाँ बनी होती हैं । और जिन्हे चौसर खेलने वाले खेलारी बारी बारी से फेंकते हैं, जिस बल से पड़ते हैं उसी के अनुसार विषात पर गोटियाँ चली जाती हैं और अंत में हार जीत होती है । उ० कौरव पांसा कपट बनाये । धर्म पुत्र को जुवा खेलाये । सूर ।

पाहन—दे० पपान । आ० जड़

पाहुना—सं० पु० [हिं०] अतिथि । अभ्यागत । मेहमान ।

पिंजरा—सं० पु० [सं० पंजर] पिंजड़ा । लोहे बांस आदि की तीलियों का बना हुआ भावा जिनमें पक्षी पाले जाते हैं । आ० शरीर ।

पिंड—सं० पु० [सं०] शरीर । देह । लोकपिंड ।

पिंडै—दे० पिंड

पिंडरिया—सं० स्त्री० [सं० पिंजिका] धुनी हुई रुई की वह बत्ती जो चरखे पर सूत कातने के लिये तय्यार की जाती है ।

पिछौरा—सं० पु० [हिं० पेछवड़ा] दुपट्टा । चादरा । आ० प्रकृति ।

पिछवारै—सं० पु० [हिं० पीछ+वाड़ा (प्रत्य०)] पीछे । आ० आंड । आश्रय ।

पिता—सं० पु० [सं० पितृ] जन्म देकर पालन पोषण करने वाला बाप । जनक । आ० ईश्वर ।

पिपराही—सं० पु० [हिं० पिपर+आही (प्रत्य०)] पीपल का बन । पीपल का जंगल । आ० कामना

पिपील—सं० स्त्री० [सं० पिपीलका] चिऊँटी । चींटी । कीड़ी । आ० बुद्धि ।

पिय—सं० पु० [सं० प्रिय] पति । स्वामी । आ० ईश्वर । सच्चा गुरु ।

पियरा—वि० [सं० पीत] पीला । हलदी, सोनो या केशर के रंग का । पीत वर्ण । जर्द ।

पियाऔं—क्रि० स० [हिं० पीना] पिलाना । पान कराना ।

पियारि—वि० [सं० प्रिय] प्रिय । जो अच्छा लगे ।

पियाला—सं० पु० [फा०] छोटा कटोरा । बेला । जाम ।।

पिराना—क्रि० स० [सं० पीड़न] पीड़ित होना । दर्द करना । दुखना । उ० चलत चलत मग पांय पिराने । सूर ।

पिरानी—दे० पिराना

पीठासन—सं० पु० [सं० पीठासन]

पीठासन । आसन विशेष ।
विशिष्ट आसन । किसी विशेष
व्यक्ति या अतिथि के आने पर
उसके बैठने के लिये दिया गया
एक प्रकार का पीढ़ा ।

पीतर—सं० पु० [सं० पित्तल]
एक प्रसिद्ध धातु जो तांबे और
जस्ते के संयोग से बनती है । आ०
पीतल की मूर्ति । ठाकुर जी ।

पीपरि—सं० पु० [सं० पिप्पल] पिपल
का पेड़ । अश्वत्थ । आ० माया ।

पीर—सं० पु० [फा० पीर=गुरु]
गुरु । उस्ताद ।

पीव—दे० पिय । आ० सद्गुरु ।

पुत्र—सं० पु० [सं०] लड़का ।
बेटा । पुत्रात्म नर्क से रक्षा करने
वाला । आ० जीव ।

पुनीत—वि० [सं०] पवित्र । पाक ।

पुन्न—वि० [सं०] पवित्र । शुभ ।
अच्छा । भला । धर्म विहित ।
सं० पु० सुकृत । भलाकाम ।

पुरइन—सं० स्त्री० [हिं० पुरइनि]
कमल । कमल का पत्ता । उ०
पुरइनि सघन ओट जल वेगि न
पाइय मर्म । माया छन्न न देखिये
जैसे निर्गुण ब्रह्म । तु० ।

पुर—सं० पु० [सं०] नगर । लोक ।
शरीर ।

पुरन्दर—दे० सुरपति ।

पुरान—वि० [सं० पुराण] पुरातन ।
प्राचीन । सं० पु० प्राचीन आख-

यान । पुरानी कथा । हिन्दुओं के
धर्म सम्बंधी आख्यान ग्रंथ जिन
की संख्या अठारह है । दे० प० ग ।

पुरिया—सं० स्त्री० [हिं० पूरना] पुरिया
वह नरी जिस पर जुलाहे बाने को
बुनने के पहिले फैलाते हैं । तानी ।
सं० पु० घर । भंडार । आ० शरीर ।

पुरुष—सं० पु० [सं०] पति ।
स्वामी । आत्मा । जीव । शिव ।
मनुष्य । आदमी । नर । मनुष्य
का शरीर वा आत्मा । आ० ईश्वर ।

पुहमी, पुहुमी—सं० स्त्री० [सं० भूमि,
प्रा० पुहुमी] पृथ्वी । पार्थिव ।
भूमि । उ० परै गाज पुहुमी तपि
कूटै । जा० । आ० पार्थिव शरीर ।

पूछ—सं० स्त्री० [सं० पुच्छ] पुच्छ ।
लांगूल । दुम । आ० अंत ।

पूजी—सं० स्त्री० [सं० पुंज]
पूंजी । मूलधन । संचित धन ।
संपति । जमा । आ० ज्ञान ।

पूजि—क्रि० अ० [सं० पूर्यते, प्रा०
पूजति] पूजना । पूरा होना ।

पूत—सं० पु० [सं० पुत्र, प्रा० पुत्त]
बेटा । लड़का । पुत्र । आ० जीव ।

पूतरा—सं० पु० [सं० पुत्तल] मूर्ति
आ० शरीर ।

पूता—दे० पूत ।

पूर—वि० [सं० पूर्य] भरपूर ।

पूरव—सं० पु० [सं० पूर्व] वह दिशा
जिस ओर सूरज निकलता दिखाई
दे । वि० [सं० पूर्व] पहिले का ।

आगे का। अगला। पुराना। प्राचीन
पिछला। क्रि० वि० पहिले।
पूरिन—क्रि० सं० [सं० पूरण]
भरना। पूर्ति करना।
पूरी—वि० [सं० पूर्ण] भरा। परि-
पूर्ण। भरपूर। यथेच्छ। काफी।
बहुत।
पूश्च दिस्ता—सं० पु० [सं० पूर्व
दिशा] पहिली अवस्था। पूर्व
अवस्था। आ० हृदय कमल।
पृथिमी—प्रिथिमी।
पेखना—क्रि० सं० [सं० प्रेक्षण, प्रा०
पेक्ष्ण] देखना। अवलोकन करना।
पेट—सं० पु० [सं० पेट=थैला]
उदर। शरीर में थैले के आकार
का वह भाग जिस में पहुँच कर
भोजन पकता है।
पेड़—सं० पु० [सं० पिंड] वृक्ष।
दरख्त। आ० मूल प्रकृति।
पेलना—सं० पु० [सं०] नाव खेने
की छोटी चौड़ी लकड़ी जिस से
छोटी नाव खेई जाती है। आ०
तरयावस्था।
पेलि—क्रि० सं० [सं० प्रेरणा] कर
चलना। काम पूरा करना।
पैङ्गे—सं० पु० [हिं० पैङ्ग] रास्ता।
पथ। मार्ग।
पैगम्बर—सं० पु० [फा० पैगम्बर]
मनुष्यों के पास ईश्वर का संदेश
लेकर आने वाला धर्म प्रवर्तक।
जैसे मूसा, ईसा, मुहम्मद।

पैठा, पैठी—दे० पैठे।
पैठे—क्रि० अ० [हिं० पैठ+ना
(प्रत्य०)] घुसना। प्रविष्ट होना।
प्रवेश करना। उ० चलेउ नाइ
सिर पैठेउ वागा। तु०
पोंगरा—सं० पु० [सं० पौगरड]
बालावस्था। बालक। वि० [देश०
पोंगा] मूर्ख। बुद्धिहीन।
पोखरि—सं० पु० [सं० पुष्कर, प्रा०
पुक्खर] पोखर। तलाव। पोखरा
पोच—वि० [फा०] तुच्छ। लुद्र।
बुरा। निकृष्ट। नीच। उ० भलो
पोच जग विधि उपजाये। तु०।
पौ—सं० स्त्री० [सं० पाद] जड़।
पौवा—सं० पु० [हिं० पाव] तोलने
की एक माप। एक सेर का चौथाई
भाग। दे० प० ग, तिन पौवा।
प्रगाप्ते—दे० प्रगासिन।
प्रजाली—क्रि० सं० [सं० (उप०)
पर+हिं० जारना] प्रज्वलित करना।
अच्छी तरह जलाना। जारना।
जलाना। उ० बाजहि ढोल देहि
सब गारी। नगर फेरि पुनि पूंछ
प्रजारी। तु०
प्रतिग्रह—सं० पु० [सं० प्रतिग्रह]
स्वीकार। ग्रहण। उस दान का
लेना जो ब्राह्मण को विधि पूर्वक
दिया जाय।
प्रतिपाला—सं० पु० [सं० प्रति-
पालन] रक्षण। पालन। पोषण।
प्रतिबिंब—सं० पु० [सं०] परछाईं।

छाया । मूर्ति । प्रतिमा । चित्र ।
भलक ।

प्रतिमा—सं० स्त्री० [सं०] प्रतिबिंब ।
छाया । किसी की वास्तविक
अथवा कल्पित आकृति के अनुसार
बनाई हुई मूर्ति या चित्र आदि ।
अनुकृति । देवमूर्ति ।

प्रपञ्च—सं० पु० [सं० प्रपञ्च]
संसार । सृष्टि । भवजाल । सांसा-
रिक व्यवहारों का विस्तार । दुनिया
का जंजाल । बखेड़ा । भंभट ।
आडम्बर । ढोंग ।

प्रलै—परलै ।

प्रसूती—सं० स्त्री० [सं० प्रसूति]
प्रसव । जनना । उद्भव । पैदा
होना । प्रगट होना ।

प्रहारी—वि० [सं० प्रहारिन्] नष्ट
करने वाला ।

प्रिथिमी—दे० पुद्गुमी । आ० पृथ्वी
वाले । संसारी ।

प्रेत—सं० पु० [सं०] मरा हुआ मनुष्य ।
मृतक आदमी । पुराणानुसार वह
कल्पित शरीर जो मनुष्य को मरने
के उपरांत प्राप्त होता है । भूत ।

प्रेत कनक—सं० पु० [सं०] प्रेत
के उद्देश्य से सुवर्णादि दान वाली
क्रिया । कहते हैं कि प्राण निक-
लते समय मुख में सोना डालने
पर फिर जीव प्रेत नहीं होता है ।

प्रेत का जूठ—सं० पु० [सं० प्रेत+
जूठ] प्रेत के उद्देश्य से दिया
गया अन्न । भूत, प्रेत, भैरव,
भवानी का प्रसाद ।

फ

फंद—सं० पु० [सं० बंध, हिं० फंदा]
बंध । बंधन । जाल । फांस । छल ।
धोखा ।

फगुआ—सं० पु० [हिं०] वह
वस्तु जो किसी को फाग के उप-
लक्ष्य में दी जाय । फागुआ खेलने
के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला
उपहार ।

फटकि—क्रि० स० [सं० स्फोटन,
स्फुट=जुदा जुदा करना] सूप पर
अन्न आदि को हिलाकर साफ

करना । अन्न आदि का कूड़ा
ककट निकालना । अच्छी तरह
जाँच पड़ताल करना । ठोकना
बजाना । जाँचना । परखना । आ०
सत्यासत्य विवेक ।

फनिंद—सं० पु० [सं० फणीन्द्र]
शेष ।

फरमाया—क्रि० स० [फा० फर-
माना] आज्ञा देना । कहना ।

फरिया—क्रि० अ० [सं० फल]
फलना । फल देना । फल लगाना ।

फल—सं० पु० [सं०] बनस्पति में होने वाला वह बीज अथवा पोषक द्रव्य या गूदे से परिपूर्ण बीज कोश जो किसी विशिष्ट ऋतु में फूलों के आने के बाद उत्पन्न होता है।
 आ० अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष।
 फहम—सं० स्त्री० [अ०] ज्ञान। समझ। विवेक। उ० जल चाहत पावक लहों त्रिष होत अमी को। कलि कुचालि संतन कही सोइ सही मोहि कुछु फहम न तरनि तमी को। तु०।
 फाँटि—सं० पु० [सं० पट्ट] वस्त्र। कपड़ा। थान।
 फाँस—सं० स्त्री० [सं० पाश] पाश। बंधन। फंदा। उ० माया मोह लोभ अरु मान। ए सब त्रयगुण फांस समान। सूर। सं० स्त्री० [सं० पनस] बाँस या सूखी लकड़ी या काठ का कड़ा रेशा जिसकी नोक काँटे की तरह हो जाती है। और जो शरीर में चुभ जाती है। महीन काँटा।
 फाल—सं० पु० [सं० प्लव] डग। फलौंग। कदम भर का फासला। पैँड। उ० तीन फाल बसुधा सब कीनी सोइ वामन भगवान। सूर।
 फिटकी—सं० स्त्री० [अनु०] सूत के छोटे छोटे फुचड़े जो कपड़े की बुनावट में निकले रहते हैं। फुचरा। फिटकरी।

फुर—वि० [हिं० फुरना] सत्य। सच्चा। उ० सुदिन सुमंगल दायक सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई। तु०।
 फुलवा—दे० फूल। आ० शरीर।
 फूँक—सं० स्त्री० [अनु० फू फू] मुहँ को बटोर कर वेग के साथ छोड़ी हुई हवा। सांस। आ० उपदेश।
 फूटल—क्रि० अ० [सं० स्फुटन, आ० फुडन] अकुँर शाखा आदि का निकलना। उत्पन्न होना। अँखुआ फूटना।
 फूल—सं० पु० [हिं०] पुष्प। आ० सहस्र दल कमल।
 फूलल—क्रि० अ० [हिं० फूल+ना (प्रत्य०)] फूलों से युक्त होना। खिलना। पुष्पित होना। उ० फूलै फरै न वेत जदपि सुधा बर-सहिँ जलद। तु०।
 फूले—क्रि० अ० [सं० स्फुटन] गर्व करना। घमंड करना। इतराना। मु० फूले फिरना=गर्व करते हुये घूमना। घमंड में रहना।
 फोरि—क्रि० स० [स्फोटन, प्रा० फोडना] केवल आघात या दबाव से भेदन करना। धक्के से दरार डालकर उस पार निकल जाना। जैसे :—पानी बाँध फोड़कर निकल गया। तोड़ना। फोड़ना। विदीर्ण करना। दरकाना।

व्य

बंग—दे० बाँग ।
 बंभा—दे० बाँभ ।
 बंद—सं० पु० [सं०] बंधन । कैद ।
 गाँठ । गिरह ।
 बंदि—सं० स्त्री० [सं० बंदिन]
 कैद । कारा निवास । उ० सिर
 पर कंस कबहु सुनिपाई । सकल
 तुमहि बंदि मांहि डराई ।
 रघुनाथदास
 बंधवत—सं० पु० [सं० बंध+वत]
 बंधन की भान्ति । बंधन में ।
 बंधा—क्रि० अ० [सं० बंधन]
 बंधन में आना । बद्ध होना ।
 फंसना ।
 बंधू—सं० पु० [सं० बन्धु] भाई ।
 आता । मित्र । दोस्त । सहायक ।
 बंब—सं० पु० [अत्रु०] नगारा ।
 बुदंभी । डंका । बं बं शब्द ।
 बंस—दे० बांस ।
 बंसी—सं० स्त्री० [सं० वंशी]
 मछली पकड़ने का एक औजार ।
 इस में एक लम्बी पतली छड़ी के
 एक सिरे पर डोरी बंधी होती है ।
 और डोरी के दूसरे सिरे पर अंकुस
 के आकार की लोहे की एक
 कटिया बंधी रहती है । इसी कटि-
 या में चारा लपेट कर रस्सी को
 जल में फेंकते हैं । जब मछली
 वह चारा खाने लगती है तब फंस

जाती है और वह खींचकर निकाली
 जाती है ।
 बकला—सं० पु० [सं० बकल]
 पेंड की छाल । फल के ऊपर का
 छिलका । आ० असार ।
 बखत—सं० पु० [फा० वक्त] समय ।
 काल ।
 बखतरी—सं० पु० [फा० बकतर]
 बखतर । एक प्रकार की जिरह
 या कवच जिसे थोड़ा लड़ाई में
 पहनते हैं । लोहे की मजबूत
 जाली का बना हुआ कोट जिसे
 लड़ाई के समय थोड़ा लोग,
 सामने से वार बचाने के लिए
 पहनते हैं ।]
 बग—सं० पु० [सं० बक] बगुला
 सफेद रंग का एक प्रसिद्ध पत्ती ।
 उ० बगउल्लूक भगरत गये अवध
 जहाँ रघुराउ । तु०
 बगुजाल—सं० पु० [ग्रा०] रस्सी
 का जाल । जिस का उपयोग पानी
 में किया जाता है, उसके ऊपरी
 भाग में लौकियाँ बंधी रहती हैं ।
 बगुला—दे० बग । आ० बंचक ।
 बक ध्यानी ।
 बछ्—सं० पु० [सं० वच्छ] बछ्छा ।
 गाय का बच्चा ।
 बजाय—क्रि० सं० [हि० बाजना]
 डंके की चोट करना ।

बजारै—सं० पु० [फा० बजार]
 वह स्थान जहाँ बिक्री के लिये
 दुकानों में पदार्थ रखे हों । हाट ।
 पैंठ । उ० चारू बजार विचित्र
 अबारी । तु०
 बटिया—सं० स्त्री० [सं० बाट=
 मार्ग] बाट । मार्ग । रास्ता ।
 बटेर—सं० स्त्री० [सं० वर्त्क, प्रा०
 वट्टा] तीतर वा लवा की तरह
 की छोटी चिड़िया । आ० मन ।
 अविवेक ।
 बटोरा—क्रि० सं० [हिं० बटोरना ।
 इकट्ठा करना । एकत्र करना ।
 जुटाना ।
 बड़पने—सं० पु० [हिं० बड़+पन]
 बड़प्पन । बड़ाई । श्रेष्ठ या बड़ा
 होने का भाव । महत्व । गौरव ।
 बड़वत—क्रि० सं० [हिं० बड़ाना]
 बढ़ाना । विस्तृत करना । फैलाना ।
 पद, मर्यादा, अधिकार, विद्या,
 बुद्धि, सुख संपत्ति आदि में आधि-
 कार करना । दौलत या रतवे
 वगैरह का ज्यादा करना ।
 बड़ैया—सं० पु० [प्रा० बड़ई]
 बड़ई काठ को छील और गढ़
 कर अनेक प्रकार के सामान
 बनाने वाला । लकड़ी का काम
 करने वाला । आ० मन । बासना ।
 बतास—सं० स्त्री० [सं० बातास]
 वायु । हवा । आ० प्राणवायु ।
 बदकरमी—सं० पु० [फा० बद +

हिं० करमी] बुरे काम करने
 वाला । कुकर्मी ।
 बदन—सं० पु० [फा०] शरीर ।
 देह । मुँह ।
 बदनी—दे० बदि ।
 बदरिया—सं० स्त्री० [सं० बदली]
 फूल कर छाया हुआ बादल ।
 घन । बादल । आ० मोह ।
 अविद्या ।
 बदि—क्रि० सं० [सं० कथन] बदना ।
 निश्चित करना । ठहराना ।
 बध—सं० पु० [सं०] इनन । हत्या ।
 क्रि० सं० मार डालना ।
 बधावा—सं० पु० [हिं० बधाई]
 आनंद मंगल के अवसर का गाना
 बजाना । मंगलाचार ।
 बधिक—सं० पु० [सं० बधक]
 बध करने वाला । मारने वाला ।
 हत्यारा । जल्लाद । व्याध । बड़े-
 लिया । आ० अज्ञान ।
 बन—सं० पु० [सं० वन] कपास
 का पौधा । उ० सुजन सुतरू बन,
 ऊख सम खल टंकिका रूखान ।
 तु० । जगंत । कानन । आरण्य ।
 जल । पानी । घर । आलय । उ०
 स्वामी बन षडि जांउ तो घुध्या
 व्यापै नग्री जांउ त माया ।-गोरख ।
 आ० संसार । शरीर ।
 बनकुकुही—सं० स्त्री० [सं० कुब-
 कुम] बन मुर्गी ।

वनवारी—सं० पु० [सं० वनमाली]
 श्रीकृष्ण । आ० ब्रह्म । जीवात्मा ।
 वनसपती—सं० स्त्री० [सं०
 वनस्पति] जड़ी बूटी, पत्र पुष्प
 आदि ।
 वन सीकसी—सं० पु० [सं० वन +
 सीकस] ऊसर प्रदेश ।
 वनिज—सं० पु० [सं० वाणिज्य]
 व्यापार । रोजगार । सौदा ।
 वनिजारा—सं० पु० [सं० वनिज +
 हारा] वह व्यक्ति जो बैलों पर
 श्रम लाद कर बँचने के लिए
 एक देश से दूसरे देश को जाता है
 बनिया । व्यापारी । सौदागर ।
 उ० चित्तउर गढ़ कर एक वन-
 जारा । सिंहल दीप चला बैपारा ।
 जा० ।
 वनिजिया—दे० वनिज ।
 वनिया—सं० पु० [सं० वणिक]
 व्यापार करने वाला व्यक्ति ।
 व्यापारी । वैश्य । आटा, चावल,
 दाल आदि बँचने वाला । मोदी ।
 आ० सद्गुरु ।
 वनौरी—सं० पु० [हिं० वन्या]
 वनरा । विवाह के समय का एक
 प्रकार का मंगल गीत । वि०
 [हिं० बनावटी] बनावटी ।
 वपु—सं० पु० [सं० वपु] शरीर ।
 देह । रूप । अवतार ।
 वपुरा—वि० [सं० वराक] वेचारा ।
 आशक्त । गरीब । अनाथ । उ०

शिव विरंचि कह मोहे को है
 वपुरा आन ।—तु०
 वपुरे—दे० वपुरा ।
 वयाई—सं० स्त्री० [हिं० वया +
 आई (प्रत्य०)] अन्न आदि तौलने
 की मजदूरी । तौलाई । हिसाब ।
 किताब ।
 वर—सं० पु० [सं० वर] वह
 जिसका विवाह होता हो । दूल्हा ।
 पति । उ० जद्यपि वर अनेक जग
 माहीं । एहि कह सिव तजि दूसर
 नाहीं ।—तु०
 वरजौ—क्रि० अ० [सं० वर्जन]
 मना करना । रोकना । निवारण
 करना । निषेध करना ।
 वरतौ—क्रि० अ० [सं० वर्तन]
 वरतना । वरताव करना । व्यवहार
 करना ।
 वरन—सं० पु० [सं० वर्ण] जन
 समुदाय के चार विभाग, ब्राह्मण,
 क्षत्री, वैश्य, शूद्र । भेद ।
 प्रकारा । किस्म ।
 वरना—वि० [सं० वर्णनीय, वरणीय,
 वर्णित] किसी बात को सविस्तार
 कहना । कथन । बयान । उ० सो
 चौबीस रूप निज कहियत वर्णन
 करत विचार ।—सूर
 वरमन—सं० पु० [सं० वर्मन्]
 क्षत्रियों की उपाधि जो उनके
 नाम के अंत में लगाई जाती है ।

बरबर—सं० स्त्री० [अनु०] व्यर्थ की बातें। बक बक। उ० मुनि मृगु पति के बैन मन ही मन मुसक्यात मुनि। अबै ज्ञान यह है न वृथा बकत, बर बर करत।—रघुराज।

बरबस—क्रि० वि० [सं० बल+बस] बल पूर्वक। जबरदस्ती। हठात। उ० खेलत में को काको गुसैयाँ। हरि हारे जीते श्री दामा बरबस ही कत करत रि सैयाँ।—सूर।

बरस—सं० पु० [सं० वर्ष] वर्ष। साल। उ० तापस भेष विशेष उदासी। चौदह बरस राम बन-बासी।—तु०

बरही—सं० स्त्री० [देश०] ईंधन का बोझ। आ० मानव शरीर।

बरात—सं० स्त्री० [हिं०] वरपक्ष के लोग जो विवाह के समय वर के साथ कन्या वालों के यहाँ जाते हैं। जनेत।

बराते—दे० बरात।

बरियाई—क्रि० वि० [सं० बलात] बलात। जबरदस्ती। उ० मंत्रिन पुर देखा बिन साईं। मों कह राज दीन बरियाई।—तु०।

बरी—क्रि० स० [सं० बट=बटना] बरना। बटना। कई तंतुओं, तागों या तारों को एक साथ मिला कर इस प्रकार ढँठना या धुमाना कि

वे सब मिलकर एक हो जाएँ। आ० रचना।

बरै—क्रि० स० [सं० वरण] बर या बधू के रूप में ग्रहण करना। पति या पत्नी के रूप में अंगीकार करना। व्याहना। उ० जो एहि बरै अमर सो होई। तु०

बरोह—सं० स्त्री० [सं० बट+रोह=उगने वाला] बरगद के पेड़ के ऊपर की डालियों में निकली हुई सूत या रस्सी के रूप की वह शाखाएँ जो क्रमशः नीचे की ओर बढ़ती हुई जमीन पर जाकर जड़ पकड़ लेती हैं। बरगद की जड़। आ० कामना।

बर्मन—दे० वरमन।

बलकवा—दे० बालक। आ० अज्ञान।

बलकहिं—क्रि० अ० [अनु०] बलकना। उबलना। उमड़ना। आवेश में होकर और का और बकना। उ० राज काज कुपथ कुसाज भोग रोग को है वेद बुधि विद्या जाय बिवस बलकही। तु०

बसंत—सं० पु० [सं०] वर्ष की छः ऋतुओं में से प्रधान और प्रथम ऋतु जिसके अंतर्गत चैत्र और वैशाख के महीने माने गए हैं। नई पत्ती लगने और बहुत से फूल फूलने की सुन्दर ऋतु। बहार का मौसिम। छः रागों में दूसरा राग।

बसंदर—सं० पु० [सं० वैश्वानर]

आग । उ० कथा कहानी सुनि
शठ जरा । मानो घीव बसंदर
परा । जा० । आ० त्रितापामि ।

बसाय—क्रि० अ० [हिं० बश]

बश चलना । जोर चलना । उ०
काटिय तासु जीभि जो बसाई ।
सवन मूँदि नतु चलिय पराई ।
तु० । क्रि० अ० [सं० वास]
बसाना । सुगंध आना । बदबू
आना ।

बसावल—क्रि० स० [हिं० बसाना]

बसाना । अबाद करना । जैसे
गाँव बसाना ।

बसती—सं० स्त्री० [सं० बसति]

आवादी । बहुत घरों का समूह
जिस में लोग बसते हैं । जनपद ।
खेड़ा । गाँव । कस्बा । नगर ।

बसुधा—सं० स्त्री० [सं०] पृथ्वी ।

बसेरवा—दे० बसेरा

बसेरा—वि० [हिं० बसना] बास ।

नेवास । डेरा । बासा । रहना ।
बसना । आबाद होना ।

बसेरी—क्रि० स० [हिं० बसना]

रहना ।

बहनी—सं० पु० [सं० बहि]

अग्नि । आग । उ० अमृत मय
तजि सुभाऊ बरषत कत बहनी ।

सूर ।

बहनोई—सं० पु० [सं० भगनी पति]

बहन का पति ।

बहा—क्रि० अ० [सं० बहन]

सन्मार्ग से दूर हो जाना । कुमार्गी
होना । मारा मारा फिरना ।
भटकना ।

बहिया—सं० पु० [सं० वाहक]

वाहक । वैल लादने वाले व्यापारी
बही—दे० बहा ।

बहीर—सं० स्त्री० [हिं० भीड़]

भीड़ । जन समुदाय । उ० ऐसे
रघुवीर छीर नीर के विवेक कवि
भीर की बहीर को समय के
निकारिहौं । हनुमान ।

बहुतक—वि० [हिं० बहुत+एक,

अथवा स्वार्थे 'क'] बहुत से ।
बहुतेरे । उ० बहुतक चढ़ी अटा-
रिन्ह निरखहि गगन विमान । तु०

बहुतेरा—वि० [हिं० बहुत+एरा
(प्रत्य०)] बहुत सा । अधिक ।

बहुरि—क्रि० स० [हिं० बहुरना]

[बहुरि=फिर कर] पुनः । फिर ।
इस के उपरांत । पीछे । अनंतर ।
उ० आगे चले बहुरि रघुराई । तु०

बहुरिया—सं० स्त्री० [सं० बधुटी,

प्रा० बहूडिया] नई बहू । स्त्री ।

बहुरे—क्रि० अ० [सं० प्रधूर्णन,

प्रा० पहोलन] लौटना । बहुरना ।
फिर कर आना । वापस आना ।

बहे—क्रि० अ० [सं० बहन]

चलना ।

बहोरी—दे० बहुरि ।

बाँको—वि० [सं० बंक] बाँका ।
देढ़ा । तिरछा । उ० होय न बाँको
बार भगत को जो कोउ कोटि
उपाय करै ।

बाँग—सं० स्त्री० [फा०] अवाज ।
शब्द । पुकार । चिल्लाहट । वह
ऊँचा शब्द जो नमाज का समय
बताने के लिए कोई मुल्ला मसजिद
में करता है । अजान ।

बाँछे—सं० स्त्री० [सं०] इच्छा ।
कामना । अभिलाषा । आकांक्षा ।

बाँझ—सं० स्त्री० [सं० बंध्या] वह
स्त्री जिसे संतान होती ही न हो ।
बन्ध्या । आ० मिथ्या कल्पना ।

बाँस—सं० पु० [सं० वंश] बांस ।
एक प्रकार का वनस्पति जो बहुत
लम्बी होती है । लोग इससे छप्पर
तथा टट्टर आदि बनाने के काम
में लाते हैं । इसमें बहुत सी गांठें
होती हैं, जिनके बीच का स्थान
लम्बा और पोला होता है । प्रायः
इसी से बंशी बनाई जाती है ।
आ० शून्य हृदय ।

बाउर—वि० [सं० बाहुल] बावला ।
पागल । मूर्ख । अज्ञान ।

बाए—दे० बाये ।

बाखरि—सं० स्त्री० [हिं० बखार]
[स्त्री० अल्प० बखरी] मकान ।
गृह । गाँव । उ० जानत हौ गोरस
को लेवो बाही बाखरि मांझ । सर
आ० बैखरी बाणी ।

बागुलि—सं० पु० [देश०] बागुर ।
पक्षी या मृग आदि फंसाने का
जाल, जिसे बागौर भी कहते हैं ।
आ० मायाजाल ।

बाघ—सं० पु० [सं० व्याघ्र] शेर
नाम का एक प्रसिद्ध हिंसक जन्तु
आ० जीव । ज्ञान ।

बाछ—सं० स्त्री० [प्रा०] वृक्ष का
किनारा जो कपड़ा बुनते समय
फालतू पड़ा रहता है ।

बाज—सं० पु० [आ० वाज] एक
प्रसिद्ध शिकारी पक्षी जो प्रायः
सारे संसार में पाया जाता है ।
उ० बाज पराये पानि परतू पंछीनु
न मारि । विहारी । आ० चेतन ।
विवेक । ज्ञान ।

बाजन—सं० पु० [हिं०] ऐसे यंत्र
जो स्वर ताल उत्पन्न करने के
लिए बजाये जाते हैं । बजाने के
यंत्र । आ० अनहद बाजा ।

बाजंतरी—दे० जंत्री

बाजी—सं० स्त्री० [फा०] खेल ।
तमाशा । दांव । आ० माया प्रपंच ।
मायिक पदार्थ ।

बाजीगर—सं० पु० [फा०] जादू
के खेल दिखाने वाला । जादू-
गर । ऐन्द्रजालिक । उ० कै कहुँ
रंक कहुँ ईश्वरता नट बाजीगर
जैसे । सर । आ० चैतन्य ।

बाजु—सं० पु० [फा० बाजू] भुजा ।
बाहु । बांह ।

बाम्नी—क्रि० अ० [हिं० बम्नना]
 बंधना । फंसना । बंधन में पड़ना ।
 बाट—सं० पु० [सं० वाट-मार्ग]
 बाटी—दे० वाट
 बाटे—दे० वाट
 बाढलि—क्रि० अ० [सं० वर्द्धन]
 बाढ़ना । अधिक होना । उन्नत होना ।
 बाढ़ि—सं० स्त्री० [हिं० बाहु]
 वृद्धि । तेजी । जोर ।
 बाहु—क्रि० स० [देश०] बहारना ।
 सफाई करना । सं० स्त्री० [हिं०
 बढ़ना] बढ़ाव । वृद्धि ।
 बाद—अव्य० [सं० वाद, हिं० वादि=
 वाद करके, हठ करके व्यर्थ]
 व्यर्थ । निष्प्रयोजन । फजूल ।
 बिना मतलब । सं० पु० [सं०
 वाद] विवाद । झगड़ा । हुजत ।
 नाना प्रकार के तर्क वितर्क द्वारा
 बात का विस्तार । प्रतिज्ञा । शर्त ।
 बाजी ।
 बादर—सं० पु० [सं० बारिद,
 विपर्यय द्वारा वादरि] बादल ।
 मेघ । उ० देति पांवडे अरघ चली
 लै सादर । उमगि चल्यो आनंद
 भुवन भुईं बादर । तु० । आ०
 अज्ञानी जीव ।
 बाद्दी—सं० पु० [सं० बादिन,
 बादी] मुद्दई । प्रतिद्वन्दी । वक्ता ।
 बोलने वाला । आ० दुराम्राही ।
 बान—सं० स्त्री० [हिं० बनना]
 देव । आदत । स्वभाव । अभ्यास ।

सं० पु० [सं० बाण] बाण तीर ।
 लक्ष्य । आ० ज्ञान ।
 बाना—सं० पु० [हिं० बनाना वा
 सं० वर्ण=रूप] वेशविन्यास ।
 बानि—दे० बान । उ० श्री रघुवीर
 की यह बानि । तु० । सं० स्त्री०
 [सं० बाणी] बाणी । वचन ।
 उ० कट्ट बानि निपट निलज
 बैन विलाख हूँ । सूर
 बानिज—दे० बनिज ।
 बानिया—दे० बनिया ।
 बानी—सं० पु० [सं० वणिक]
 बनिया । दे० बान । सं० स्त्री०
 [सं० वर्ण] वर्ण । रंग । आभा ।
 दमक । सं० स्त्री० [सं० वाणी]
 वचन । शब्द । सरस्वती ।
 बाप—दे० जनक । आ० ईश्वर ।
 बापुरा—दे० बपुरा ।
 बाबा—सं० पु० [तु०] पिता ।
 पितामह । दादा । साधु सन्या-
 सियों के लिये आदर सूचक शब्द ।
 आ० गुरु ।
 बाबुल—सं० पु० [हिं० बाबू]
 बाबू । आदर सूचक शब्द ।
 भला मानुस । आ० जीव ।
 बाबू—दे० बाबुल ।
 बाम—वि० [सं०] प्रतिकूल ।
 अहित में तत्पर । उ० विधि बाम
 की करनी कठिन जिन मातु कीन्ही
 बावरी । तु० । दुष्ट । नीच । सं०
 स्त्री० [सं० वाम] स्त्री । टेढ़ा ।
 कुटिल । खोटा ।

वायु—सं० स्त्री० [सं० वायु] वायु
हवा । वात ।

बायें—वि० [हिं० बायँ] बाईं
ओर । विपरीत । आ० वाममार्ग ।

बाये—क्रि० सं० [सं० व्यापन]
वाना । फैलाना । जैसे मुँह वाना ।
मु० (किसी वस्तु के लिये) मुहँ
वाना=लेने की इच्छा करना ।

बार—सं० पु० [सं० बाल] केश ।
रोम । होय न बाँको बार भक्त को
जो कोउ कोटि उपाय करे ।

तु० । सं० स्त्री० [सं० वार]
काल । समय । देर । विलम्ब ।
बेर । उ० देखि रूप मुनि विरति
विसारी । बड़ी बार लगि रहे
निहारी । तु० । सं० पु० [सं०
बाल] बाल । बालक । लड़का ।

बारहबाट—वि० [हिं० बारह+
बाट] तितर वितर । छिन्न
भिन्न । नष्ट भ्रष्ट । उ० रावन
सहित समाज अब जाइहि बारह
बाट । तु० ।

बारा—दे० बार ।

बारि—सं० स्त्री० [सं० अवार]
किनारा । छोर पर का भाग ।
हासिया । [सं० वारी=छोटी]
लड़की । कन्य । नव यौवना ।
युवती । सं० पु० [सं०] जल ।
पानी ।

बारी—सं० स्त्री० [सं० बाटी,
बाटिका=बगीचा, घेरा घर]

वाग । बागीचा । उ० उत्तंग
जमीर होय रखवारी । छुई को
सकै राजा की बारी । जा० ।

बारेव—क्रि० सं० [हिं० वारना]
त्यागना । छोड़ना । दे० बारै ।

बारै—क्रि० सं० [हिं० वारना]
वालना । जलाना । प्रज्वलित करना ।

बारो—दे० बार

बालक—सं० पु० [सं०] लड़का ।
पुत्र । थोड़ी उमर का बच्चा ।
अबोध व्यक्ति । आ० अज्ञानी ।

बालन—सं० स्त्री० [देश०] बाला
का बहुवचन । स्त्रियाँ । औरतें ।
आ० अज्ञानी ।

बाला—सं० पु० [सं० बाल]
लड़का । बालक । [हिं० बाल]
जो बालकों के समान अज्ञान हो ।
बहुत सीधा सादा । सरल । निर-
छल । आ० अज्ञान

बावरा—दे० बाउर

बास—सं० पु० [सं० बास] वृ ।
गंध । महक ।

बासन—सं० पु० [देश०] वर्तन ।
भांडा । आ० शरीर

बासा—सं० पु० [सं० बास]
निवास । रहने का स्थान । निवास
स्थान ।

बासी—वि० [हिं०] बहुत देर का
बना हुआ खाद्य पदार्थ

बाहन—सं० पु० [सं०] सवारी ।

बाहनहारा—सं० पु० [सं० बहन]

चलाने वाला । फेकने वाला ।

आ० सद्गुरु

बाहनो—दे० बाहन

बाहर—वि० [सं० बाह्य] स्थान,

पद अवस्था या सम्बंध आदि के

विचार से किसी निश्चित अथवा

कल्पित सीमा (या मर्याद) से

हटकर अलग या निकला हुआ ।

भीतर या अन्दर का उलटा ।

बिंदु—सं० पु० [सं० बिंदु] वीर्य ।

बिंदु । उ० जो कामी नर कृपण

कहि करे आपनी रिंद । तदपि

अकार्य न दीजिये विद्या विंद ह

जिंद । वि० सा०

बिंदु—दे० बिंदु

बिंदै—दे० बिंदु

बिंधा—क्रि० सं० [सं० बंधन]

विधना । फंसना । उलझना ।

बिंब—सं० पु० [सं० बिंब] प्रति-

बिंब । छाया । अकस । भलक ।

अभास ।

बिभ्राय—क्रि० सं० [हिं० विया+ना

(प्रत्य०)] वियाना । जनना ।

उत्पन्न करना । पैदा करना । गर्भ

से निकलना ।

बिकट—वि० [सं० विकट] दुर्गम ।

कठिन । मुश्किल । भयंकर ।

भीषण । बक्र । टेढ़ा । उ० बिकट

शुकुटि कचं घूंघस्वारे । तु०

बिकल—वि० [सं० विकल]

व्याकुल । धबराया हुआ । बेचैन ।

बिकार—सं० पु० [सं० विकार]

खराब । बुरा । मनो वेग या

प्रवृत्ति । वासना । आ० विषय

वासना । क्रोधादि । उ० सकल

प्रकार विकार बिहाई । तु० ।

बिकाय—क्रि० अ० [सं० विक्रय]

विकाना । विकना । विक्री होना ।

बिगसित—क्रि० अ० [सं० विक-

सना] खिलना । उदय होना ।

फूलना ।

बिगरायल—वि० [हिं० बिगड़ना+

ऐल (प्रत्य०)] या बिगड़े दिल]

जो बिगड़ा हुआ हो । कुमारगं पर

चलनेवाला । बुरे रास्ते पर चलने

वाला । उ० हौं तो बिगरायल और

को बिगरो न बिगारिए । तु० ।

बिगारै—क्रि० सं० [हिं० बिगाड़ना]

किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण या

रूप को नष्ट कर देना ।

बिगरो—क्रि० अ० [सं० विकृत]

दुरवस्था को प्राप्त होना । खराब

दशा में आना ।

बिगारो—क्रि० सं० [सं० विकार]

बिगाड़ना । कल्याण मार्ग से

बिमुख करना । कुमारगं में लगाना ।

बिगुरचा—सं० स्त्री० [सं० विकुचन

अथवा विवेचन] विगूचना । वह

अवस्था जिसमें मनुष्य किंकर्तव्य

विमूढ़ हो जाता है । असमंजस ।

अइचन । कठिनता । दिक्कत ।
 बंधन । उ० सूरदास अब होत विगू-
 चन भजिलै सारंग पान । सूर ।
 विगुरचन, विगुरचनि—दे० विगु-
 रचा ।
 विगुरचे—दे० विगुरचा ।
 विगूचा—क्रि० अ० [सं० विकुंचन]
 विगूचना । संकोच में पड़ना ।
 दिक्कत में पड़ना । अइचन या
 असमंजस में पड़ना । उल्भन ।
 विगोई—क्रि० सं० [सं० विगोपन]
 विगोना । नष्ट होना । नष्ट करना ।
 विनाश करना । विगाइना । उ०
 जिन्ह एहि बारि न मानस धोये ।
 ते कायर कलिकाल विगोये । तु० ।
 विगूता—दे० विगूचा ।
 विगोय—दे० विगोई ।
 विचच्छन—सं० पु० [सं० विच-
 क्षण] चतुर । निपुन । पारदर्शी ।
 पंडित । विद्वान । बहुत बड़ा चतुर
 या बुद्धिमान । उ० परम साधु सब
 बात विचक्षण ।—रघुराज ।
 विछुरे—क्रि० अ० [सं० विच्छेद]
 विछुड़ना । जुदा होना । अलग
 होना । वियुक्त होना ।
 विछोहा—सं० पु० [हिं० विछु-
 इन] विछोह । जुदाई । बियोग ।
 अलग ।
 विछौलन—क्रि० सं० [सं० विस्त-
 रण] विछाना । जैसे विछौना
 विछाना ।

विटमाया—क्रि० अ० [सं० विरचन]
 विटमाना । रचना करना । निर्माण
 करना ।
 विटिया—दे० धिय । आ० अविद्या ।
 विडारत—क्रि० सं० [हिं० विडरना]
 विडराना । इधर उधर करना ।
 तितर वितर करना । नोचना ।
 बिद्वै—क्रि० सं० [हिं० बढ़ाना]
 कमाना । संचय करना । इकट्ठा
 करना ।
 वित—सं० पु० [सं० वित्त] धन ।
 द्रव्य । सामर्थ्य । शक्ति ।
 विदारे—क्रि० सं० [सं० विदारण]
 विदारना । चीरना । फाड़ना ।
 नष्ट करना ।
 विदेह—सं० पु० [सं०] वह जो शरीर
 रहित हो । राजा जनक का
 एक नाम ।
 विदेही थान—सं० पु० [सं० विदेह+
 थान] विदेह मुक्ति । वह मुक्ति
 या मोक्ष जो जीवन मुक्त को मरने
 पर मिलती है ।
 विद्ध—सं० पु० [सं० विद्ध] आबद्ध ।
 बंधा हुआ ।
 विधाता—दे० ब्रह्मा ।
 विधि—सं० स्त्री० [सं० विधि] प्रकार ।
 तरह । भाँति । ब्रह्मा । कोई कार्य
 करने की रीति । कार्यक्रम ।
 प्रणाली । ढंग । नियम । कायदा ।
 जैसे पूँजा की विधि । यज्ञ की
 विधि । व्यवस्था ।

बिन जोग—सं० पु० [सं० बिन
(उप०) + योग] बिना संयोग
के । संयोग रहित । वियोग ।

बिनसत्—क्रि० अ० [सं० विनष्ट]
विनशना । विनष्ट होना । नाश
होना ।

बिनस्टी—सं० पु० [सं० विनष्टि]
नाश । पतन । लुप्त ।

बिना—अव्य० [सं० विना] बगैर ।
जैसे आपके बिना यहाँ कोई काम
न होगा ।

बिनावन—क्रि० स० [देश०] बुनाना ।
वस्त्र बनवाना ।

बिनु—दे० बिना ।

बिनै—क्रि० स० [सं० वयन] जुलाहों
की वह क्रिया जिस से वे सूतों या
तारों की सहायता से कपड़ा तैयार
करते हैं । बुनना ।

बिनौरा—सं० पु० [विनौला] कपास
का बीज । बनौर । कुकटी ।

बिपरीत—वि० [सं० विपरीत] उलटा ।
विरुद्ध । प्रतिकूल ।

बिबर्जित—वि० [सं० विवर्जित]
मना क्रिया हुआ । वर्जित ।
निषिद्ध । उपेक्षित । अनादरित ।
बंचित । रहित । उ० पेट की अग्नि
बिबरजित । गो०

बिबि—वि० [सं० द्वि] दो । उ०
बिबि रसना तन स्याम है, वक्र
चलनि विष खानि । तु०

बिवेक—सं० पु० [सं०] सत असत

का ज्ञान । समझ । विचार ।
बुद्धि । सत्य ज्ञान ।

बिवेका—दे० बिवेक ।

बिभिचारी—सं० पु० [सं० व्यभि-
चारिन] वह जो अपने मार्ग से
गिर गया हो । मार्ग भ्रष्ट ।

बिभूती—सं० स्त्री० [सं० विभूति]
भभूत । वह भस्म जो शिव जी
लगाया करते थे । शिव की मूर्ति के
आगे जलने वाली अग्नि की भस्म
जिसे शैव लोग मस्तक और
भुजाओं आदि में लगाते हैं ।

बिमलख—वि० [सं० विमलाक्ष]
दिव्य दृष्टि । अंजन लगाये हुए
नेत्र ।

बिमूखा—वि० [सं० विमुख] मुँह
फेर लेना । अलग हो जाना ।
विरत । अतत्पर । निवृत्त ।
उदासीन ।

बियान—क्रि० स० [हिं० वियाना]
व्याना । जनना । उत्पन्न करना ।
पैदाकरना । आ० अनेक रूप
धारण करना ।

बियाने—दे० बिआय ।

बियापै—क्रि० अ० [सं० व्यापन]
व्यापना । फैलना । श्रोत प्रोत
होना । भरजाना ।

बियाह—सं० पु० [सं० विवाह]
शादी । व्याह ।

बियाहल—क्रि० स० [सं० विवाह+
ना (प्रत्य०)] विवाहना । देश

काल के अनुसार किसी स्त्री को अपनी पत्नी या स्त्री का किसी पुरुष को अपना पति बनाना। व्याहना।

बियाही—दे० बियाहल।

बिरंगी—वि० [हिं० वि (उप०) + रंग] बिरंग। कई रंगों का।

बिरंचि—दे० ब्रह्मा।

बिरक्त—वि० [सं० विरक्त] जो अनुरक्त न हो। जिसे चाह न हो। उदासीन। साधु। सन्यासी।

बिरघ—दे० बृद्ध।

बिरवा—सं० पु० [हिं०] वृद्ध। पौधा। वनस्पति। द्रुम। विटप। पेड़। आ० संसार। शरीर।

बिराजी—क्रि० अ० [सं० वि + रंजन] विराजना। शोभित होना। स्थापित होना। शोभा देना। बैठना।

बिराने—वि० [फा० बेगाना] बिराना। पराया। जो अपने से अलग हो। दूसरे का। जो अपना न हो।

बिर्छ—दे० बिरवा।

बिषभ—सं० पु० [सं० वृष] बैल।

बिलग—वि० [हिं० वि (उप०) + लगना] अलग। पृथक। जुदा। उ० बिलग बिलग है चलहु सब निज निज सहित समाज। तु०

बिलगाना—क्रि० स० [हिं० बिलग + आना (प्रत्य०)] अलग करना।

पृथक करना। दूर करना।

बिलंबे—क्रि० अ० [सं० बिलंब] बिलम्बना। ठहर जाना। रुकना। किसी के प्रेम पाश में फंस कर कहीं रुक रहना।

बिललात—क्रि० अ० [सं० विलाप अथवा अनु०] बिललाना। बिलख बिलख कर रोना। विलाप करना। उ० औघाई सीसी मुलखि बिरह बरी बिललात। बिहारी।

बिलसहु—क्रि० स० [सं० बिलसन] बिलसना। भोग बिलास करना। भोगना। उ० इन्द्रासन बैठे सुख बिलसत दूर किये भुवभार। सूर

बिलाई—सं० स्त्री० [हिं० बिल्ली] बिल्ली। बिलारी। मंजार। उ० नवनि नीच कै अति दुखदाई। जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। तु०। आ० माया। वञ्चक गुरु।

बिलार—दे० बिलाई।

बिलैया—दे० बिलाई।

बिल्ली—दे० बिलाई। आ० कामना

बिष—सं० पु० [सं०] गरल। जहर जिस के खाने से मनुष्य मर जाता है। आ० अज्ञान। अविवेक। विषय।

बिषई—वि० [सं० विषयन] बिलासी दे० विषम।

बिषम—वि० [सं० विषम] भीषण। विकट। बेढब। जो सम या समान न हो।

विषया—सं० स्त्री० [सं० विषय]

भोग विलास ।

विषहर—सं० पु० [सं० विषहर,

प्रा० विसहर] सर्प । सांप । उ०

भंवर केस वह मालति रानी ।

विसहर तरहि लेइ अरधानी । जा०

[सं० विषहर] वह औषध या

मंत्र आदि जिस से विष का प्रभाव

दूर होता है । आ० मन । गुरु ।

विसमिल—सं० पु० [अ० विस-

मिल्लाह] श्री गणेश । आरंभ ।

आदि । क्रि० स० [अ० विस-

मिल] जबह करना ।

विसाह्न—क्रि० स० [हिं० विसाह]

विसहना । मोल लेना । खरीदना ।

उ० कोई करै विसाहनी काहू केर

बिकाय । जा० ।

विसुवा—सं० स्त्री० [सं० वेश्या]

रंडी । वारंगना । कसबी ।

विसूरी—सं० स्त्री० [सं० विसूरण]

फिक्क । सोच ।

विसेषा—सं० पु० [सं० विशेष]

सार । मर्म । सं० स्त्री० विशेषता ।

खासपन ।

विहंगम—सं० पु० [सं० विहंगम]

पत्नी । चिड़िया । सूर्य । आ०

विहंगमार्ग ।

विहंडे—वि० [सं० विकट, प्रा०-

विहङ्क] विषम । कठिन । विशाल ।

ऊबड़ खाबड़ । जैसे बीहड़ जंगल ।

वह भूमि जो पहाड़ी घाटी से कटी

हुई और डूटी फूटी हो ।

बिहान—सं० पु० [प्रा० विहाण]

सबेरा । प्रातः काल । उ० परयो

मनहु सुरसरि सलिल रवि प्रति

बिंब विहान ? वि० । आ० जन्म ।

बिहाना—दे० विहान ।

बिहानी—क्रि० अ० [हिं० बीतना]

व्यतीत होना । गुजरना । उ० गहै

बीन मकु रैनि बिहाई । जा०

बिहाय—दे० विहानी । उ० बड़ी

बिरह की रैनि यह क्यौ हूँ कै न

बिहाय । रस निधि ।

बिहाल—वि० [फा० वे + अ०

हाल] व्याकुल । विकल । बेचैन ।

उ० लागत कुटिल कटाच सर क्यौ

न होत बेहाल । वि० ।

बिहुरै—क्रि० स० [अप०] उप-

भोग करना । विहार करना ।

बिहूना—वि० [हिं० विहीन] बिना ।

रहित ।

बीगर—सं० पु० [सं० वृक] बीग ।

भेड़िया । आ० जीव ।

बीज—सं० पु० [सं०] बीया ।

तुल्म । दाना । प्रधान कारण ।

मूल प्रकृति । जड़ । मूल । आ०

वासना ।

बीजक—सं० पु० [सं०] कबीर

साहेब का मुख्य ग्रन्थ । वह सूची

जिस में गढ़े हुए धन का संकेत

होता है ।

बीते—क्रि० अ० [सं० व्यातीत]

बीतना । समय का विगत होना ।
 उ० कछु दिन पत्र भन्कर बीते
 कछु दिन लीन्हो पानी ।—सूर
 बीबी—सं० स्त्री० [फा०] पत्नी ।
 स्त्री । आ० सुमति । बुद्धि । विद्या
 बीरज—सं० पु० [सं० वीर्य्य]
 शुक्र । रेत । बीज ।
 बीरा—सं० पु० [सं० वीर] शूर ।
 बहादुर । वीर ।
 बीरू—दे० बीरा ।
 बीहर—वि० [देश०] बेहर । अचर
 स्थावर । आ० जङ्ग ।
 बुँद, बुँद—दे० बिँद । आ० वीर्य्य ।
 बुँदका—सं० पु० [सं० विदु + का
 (प्रत्य०)] बिँदी । गोल टीका ।
 आ० राग । विषयानुराग ।
 बुद्धिया—सं० स्त्री० [सं० वृद्धा]
 जिस की अवस्था अधिक हो गई
 हो । ५०, ६० वर्ष से ऊपर की
 अवस्था । बुढ़ी । आ० माया ।
 बुध—सं० पु० [सं०] बुद्धिमान
 अथवा विद्वान पुरुष ।
 बुधि—सं० स्त्री० [सं० बुद्धि]
 अकल । समझ । ज्ञान । विवेक
 या निश्चय करने की शक्ति ।
 बुरो—वि० [सं० विरुप [बुरा] जो
 अच्छा या उत्तम न हो । खराब ।
 निकृष्ट । मंदा ।
 बुँद—दे० बिँदा । आ० वीर्य्य ।
 शुक्र ।
 बूझ—दे० बूझा ।

बूझा—क्रि० सं० [हिं० बूझ
 (बुधि)] बूझना । समझना ।
 जानना । पूछना । प्रश्न करना ।
 बूझि—दे० बूझा ।
 बूड़े—क्रि० सं० [हिं० बूढ़ना]
 बूढ़ना । उ० बूड़े सकल समाज
 चढ़े जो प्रथमहि मोह बस । तु०
 बूता—सं० पु० [हिं० वित्त] वल ।
 पराक्रम । शक्ति । क्रि० सं० वल
 धारण करना ।
 बुद्ध—दे० विरवा
 बुद्ध—वि० [सं०] बुढ़ा । चौथी
 अवस्था । बुढ़ापा ।
 बे—अव्य० [हिं० हे] छोटे के
 लिये एक सम्बोधन शब्द जो
 प्रायः आशिष्टता सूचक माना
 जाता है ।
 बेगर बेगर—अव्य० [देश०]
 अलग अलग । जुदा जुदा । भिन्न
 भिन्न ।
 बेगि—क्रि० वि० [सं० वेग]
 जल्दी से । शीघ्रता पूर्वक । चट-
 पट । फौरन । तुरंत ।
 बेचून—सं० पु० [फा०] उपमा
 रहित ।
 बेम्हा—सं० पु० [सं० वेध]
 निशान । लक्ष्य ।
 बेठ—सं० पु० [देश०] बेगार
 करना । अगाऊ प्राप्त किये हुए
 धन को चुकाना ।
 बेड़ा—सं० पु० [सं० वेष्ट] नदी

पार करने के लिये टट्टर आदि का बांध कर बनाया हुआ ढाँचा। तिरना। नाव। सं० पु० [हि० वेढना=घेरना] घेरा। रूंधना। बाढ़। खेत की रक्षा के लिये। चारों ओर से टट्टी बाँधकर कांटे बिछा कर या और किसी प्रकार से घेरना।

बेड़ी—सं० स्त्री० [सं० वलय]
बेड़ी। लोहे के कड़ों की जंजीर जो कैदियों को पहिनाई जाती है जिससे वे स्वतंत्रा पूर्वक घूम फिर न सकें। आ० बंधन।

बेढो—दे० बेढा

बेता—दे० बैता

बेतूल—वि० [देश०] अव्यवस्थित।

बेद—सं० पु० [सं० वेद] ज्ञान। श्रुति। हिन्दुओं का पवित्र धार्मिक ग्रन्थ जिनकी संख्या चार है। ऋग, यजुर, साम अथर्व आदि इन में प्रत्येक की कई संहितायें हैं।

बेदन—सं० पु० [सं०] दुःख या कष्ट आदि का होने वाला अनुभव। पीड़ा। व्यथा। तकलीफ।

बेदमुख—सं० पु० [सं० वेद+मुख] वेदोक्ति। श्रेष्ठ मुख। चार प्रकार।

बेदुवा—सं० पु० [सं०] वेदवाह। वेदों का ज्ञाता। वेदपाठी। श्रोत्रिय

बेधि—क्रि० स० [सं० बेधन] बेधना।

छेदना। भेदना। प्रवेश करना। व्यापना।

बेधे, बेधै—दे० बेधि।

बेधो—दे० बेधि।

बेना—सं० पु० [सं० वेणु] बांस।

आ० शून्य हृदय। वञ्चक।

वेर—सं० पु० [हि०] एक प्रसिद्ध

कंटीला वृक्ष जिसमें एक प्रकार के लंबोतरे फल लगते हैं। आ० विषय। कुसंग। दुर्जन। स० स्त्री० [हि० वार] वार। दफा। नदी या समुद्र का किनारा।

वेरइ—सं० स्त्री० [देश०] औषधियों के छोटे छोटे पौधे।

बेहई—सं० स्त्री० [हि० वेढना = घेरना] वह रोटी या पूरी जिस के बीच में दाल या पीठी भरी हो। आ० विषय।

बेरा—सं० पु० [देश०] नाव। आ० नरतन।

बेरी—दे० बेड़ी। आ० बंधन।

बेलि—सं० स्त्री० [सं० बल्लरी] बल्ली। लता। आ० माया।

बेलरी—दे० बेलि।

बेवहारा—सं० पु० [सं० व्यवहार] क्रिया। कार्य। काम। बर्ताव। इष्ट मित्रों का सम्बंध।

बेस—सं० पु० [सं० वेष] बाहरी रूप रंग और पहिनाव आदि। वेष।

बेसवा—दे० विसुवा। आ० इच्छा। जीवात्मा।

बेहद—वि० [फा०] जिस की कोई सीमा न हो । असीम ।

बै—सं० स्त्री० [सं० वय] बैसर । कंधी । जुलाहों के करघे में सूत का एक जाल ।

बैठावन—क्रि० अ० [हिं०] लकड़ी का एक औजार जिस से बाना बैठाया जाता है । स्थित होना । आसीम होना । आसन जमाना ।

बैतल—वि० [सं० वात्यायी] बातुल । विषधर । विकार फैलाने वाला ।

बैता—सं० स्त्री० [अ० बैत] पद्य । एक छंद का नाम । दो लाइन की गजल ।

बैन—सं० पु० [सं० वचन, प्रा० वयन] वचन । बात । उ० विप्र आइ माला दये कहै कुशल के बैन ।—सूर

बैपार—दे० वनिज । आ० सांसारिक धन्धे ।

बैल—सं० पु० [सं० वलद] एक चौपाया जो हल में जोटा जाता है । वृषभ । मूर्ख मनुष्य । आ० अज्ञान ।

बैलाना—क्रि० अ० [हिं० बौरानना] अस्थिर मति होना । विवेक या बुद्धि से रहित हो जाना ।

बैली—वि० [हिं० बैल] मुखता से युक्त बैस—सं० स्त्री० [सं० वयस]

अवस्था । उम्र ।

बैसा—क्रि० अ० [सं० वेसन] बैठना ।

बोइनि—क्रि० स० [सं० वपन] बोना । बीज को जमने के लिये जुते खेत या भुरभुरी की हुई जमीन में छितराना ।

बोइन्हि—दे० बोइनि

बोइया—दे० बोइनि

बोभै—क्रि० स० [सिं० बोभ] बोभना । लादना । नैया मेरी तनक सी पाथर बोभै भार । गिरधर

बोय—सं० स्त्री० [फा० वू] गंध । बास । सुगंध । उ० कल करील की कुंज ते उठत अतर की बोय । पद्माकर । आ० बासना ।

बोरै—क्रि० स० [हिं० बूड़ना] बोरना । डुबा देना । बोर देना । निमग्न कर देना । आ० व्यर्थ गंवा देना

बोलना—क्रि० अ० [हिं० वचन] बोलना । मुहँ से शब्द उच्चारण करना । बात चीत करना ।

बोहित—सं० पु० [सं० बोहित्य] नाव । जहाज । उ० बंदौँ चारिउ वेद भव वारिध बोहित सरिस । तु०

बौध—सं० पु० [सं० बौद्ध] बौध अवतार ।

बौधा—क्रि० वि० [सं० बहुधा] बहुत प्रकार से । अनेक ढंग से । प्रायः

बौरा—दे० बाउर

बौराई—दे० बौराना

बौराना—क्रि० अ० [हिं० बौर+ना
(प्रत्य०)] पागल हो जाना ।
उन्मत्त हो जाना । विवेक या
बुद्धि से रहित हो जाना ।
ब्रह्म—सं० पु० [सं० ब्रह्मा] सृष्टि
करता । बिधाता । ईश्वर । सत,

चित, आनंद स्वरूप तत्व ।
ब्रह्मंडा—सं० पु० [सं० चौदह
भुवनों का समूह । सम्पूर्ण विश्व ।
व्यास—सं० पु० [सं० व्यास] वक्ता ।
व्योतत—क्रि० स० [हिं० व्योत]
नापना ।

भ

भंजै—सं० पु० [सं० भंजन]
भंग । ध्वंस । नाश । क्रि० स०
तोड़ना । नाश करना ।
भँड़हर—सं० पु० [हिं०] मिट्टी के
बर्तन । आ० पिंड । शरीर ।
भँवर—सं० पु० [सं० भ्रमर प्रा०
भँवर] भौरा । आ० मन । जीव ।
युवा ।
भँवर जाल—सं० पु० [हिं० भंवर+
जाल] सांसार और सांसारिक भगड़े
बखेड़े । भ्रमजाल ।
भँवरा—सं० पु० [सं० भ्रमर]
हिंडोले की एक लकड़ी जो मयारी
में लगी रहती है और जिस में
डोरी व डंडी बंधी रहती है । उ०
हिंडोरना माई भूलत गोपाल ।
संग राधा परम सुन्दरी चहूधा
ब्रजबाल । सुभग यमुना पुलिन
मनोहर रच्यो रुचिर हिंडोर ।
लाल डांडी स्फटिक पटुली मणिन
मरुआ घोर । भौरा मयारिन नील
मरकत खंचे पतित अपार । सरल

कंचन खंभसुंदर रच्यो काम श्रुति
सार ।—सूर
भईया—क्रि० अ० [सं० भव]
होना । या होने का भाव । हुआ ।
भक्तन—वि० [सं० भक्त] [स्त्री०
भगतिन] सेवक । उपासक । भक्त
लोग ।
भखै—क्रि० स० [सं० भक्षण]
भखना । खाना । भोजन करना ।
भोग करना । उ० नीलकंठ क्रीड़ा
भखै मुख वाके है राम ।
भग—सं० पु० [सं०] योनि ।
ऐश्वर्य । इच्छा । यत्न ।
भच्छन—दे० भखै ।
भजाऊ—क्रि० स० [सं० भजन]
भजना । आश्रय लेना । आश्रित
होना । पहुँचना । प्राप्त होना ।
भजि—सं० स्त्री० [सं० भजन]
खंड । भाग ।
भटक—क्रि० अ० [सं० भ्रमन]
भटकना । व्यर्थ इधर उधर घूमते
फिरना । भ्रम में पड़ना ।

भंतार—सं० पु० [सं० भंतार । पति
 खारिद । खसम । आ० ईश्वर ।
 भनीजे—क्रि० सं० [सं० भणन]
 मनना । कहना ।
 भभरि—क्रि० अ० [हिं० भय]
 भभरना । भयभीत होना । डरना ।
 उ० समय लोक सब लोक पति
 चाहत भभरि भगान ।—तु०
 भभरे—भभरि ।
 भभूका—सं० पु० [हिं० भभक]
 ज्वाला । लपट । आ० विकार ।
 भयल—दे० भया ।
 भया—क्रि० अ० [सं० भव] हुआ
 भयावनि—वि० [हिं० भय+आवन
 (प्रत्य०)] भयावन । डरावनी ।
 भयानक । भयंकर ।
 भरना—क्रि० सं० [सं० भरण]
 पूर्ण करना । जुलाहों का नली में
 सूत भरना । सं० स्त्री० [हिं०
 भरना] करघे में की डरकी । नार ।
 भरनी ।
 भरमित—वि० [हिं० भरमना]
 घूमना । चलना । भटकना ।
 भरिया—वि० [हिं० भरना] भरना
 पूर्ण करना ।
 भरिष्ट—वि० [सं० भ्रष्ट] पतित ।
 दूषित । जो खराब हो गया हो ।
 भर्म—सं० पु० [सं० भ्रम] भ्रांति ।
 संदेह । धोखा । भेद । रहस्य । किसी
 पदार्थ को और का और समझना ।
 मिथ्या ज्ञान । संशय । शक ।

भल—वि० [सं० भद्र] भला ।
 बढ़िया । अच्छा । उ० हृदय हेरि
 हारेउ सब श्रोरा । एकहिं भांति
 भलेहि भल मोरा । तु०
 भलुइया—सं० स्त्री [सं० भल्लुकी]
 भालू । आ० लालची गुरु ।
 भव—सं० पु० [सं०] उत्पत्ति ।
 जन्म । संसार । जगत । संसार का
 दुख । जन्म मरण का दुःख ।
 [सं० भय] डर । उ० भव भय
 विभव पराभव कारिणी । तु०
 भव चक्र—सं० पु० [सं०] संसार
 चक्र । जन्म मरण चक्र ।
 भवन—सं० पु० [सं०] घर ।
 मकान । प्रासाद । आ० शरीर ।
 हृदय ।
 भवसागर—सं० पु० [सं०] संसार
 सागर ।
 भसम—सं० पु० [सं० भस्म]
 राख ।
 भसुर—सं० पु० [हिं० ससुर का
 अनु०] पति का बड़ा भाई । जेठ
 भाँटा—सं० पु० [सं० वंगण] एक
 वार्षिक पौधा जिस के फल की
 तरकारी बनाई जाती है । बैंगन ।
 आ० तमोगुण । मोह ।
 भाँडे—सं० पु० [सं० भाराड]
 भांडा । बरतन । वासन । पात्र ।
 उ० काचै भाँडे रहे न पारी । गो०
 आ० शरीर ।
 भाँवरि—सं० स्त्री० [सं० भ्रमण]

अभि की वह परिक्रमा जो विवाह के समय बर और बधू मिलकर करते हैं, चारों ओर घूमना ।
 आ० अम गांठ ।
 भाई—सं० पु० [सं० भ्रातृ] बन्धु । सहोदर । भ्राता ।
 भाजिया—क्रि० अ० [हिं० भजना] भाजना । भागना । भाग जाना । भागा ।
 भाजै—दे० भाजिया ।
 भाठी—सं० स्त्री० [सं० भस्त्री] वह स्थान जहाँ मद्य चुवाया जाता है । भठी ।
 भात—सं० पु० [प्रा० भक्त] पकाया हुआ चावल । विवाह की एक रसम । यह विवाह के दूसरे दिन होती है, इसमें बरातियों को भात खिलाया जाता है ।
 भान—सं० पु० [सं० भानु] सूर्य दिनकर । जगत को प्रकाशित करने वाला । आ० ब्रह्म-ज्योति ।
 भामिनि—सं० स्त्री० [सं० भामिनी] स्त्री । औरत । उ० कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । दु० । आ० माया ।
 भार—सं० पु० [सं०] बोझ । एक परिमाण जो बीस पसेरी का होता है ।
 भारती—सं० स्त्री० [सं०] सन्यासियों के दस भेदों में से एक ।
 भारी—वि० [हिं० भार] बोझिल ।

वजनी । गुरु । गरुबा । उ० लप-टहि कोप पटहि तरवारी । औ गोला ओला जस भारी । जा० ।
 भात—सं० पु० [सं० फल] तीर का फल । तीर की नोक । भाला । बरछा । आ० वासना ।
 भितियन—सं० स्त्री० [सं० भित्ति] चित्र खींचने का आधार । वह पदार्थ जिस पर चित्र बनाया जाता है । दीवार । भीति ।
 भिन्न—वि० [सं०] अलग । पृथक । जुदा । इतर । दूसरा । अन्य ।
 भिस्त—सं० स्त्री० [फा० बहिश्त] बैकुंठ । स्वर्ग ।
 भीजे, भीजै—क्रि० सं० [हिं० भीगना] भीजना । तर होना । भीगना । समा जाना । उ० एक भीजे चहले पड़े बूड़े बहे हजार । वि० ।
 भीट—सं० पु० [देश०] भीटा । दूहे वाली जमीन । टीलेदार भूमि आ० हृदय ।
 भीगी—वि० [हिं०] तर । गीली । आर्द्र । आ० असमर्थ ।
 भीति—सं० स्त्री० [सं० भित्ति] भित्तिका । दीवार ।
 भीनिया—क्रि० अ० [हिं० भीगना] भीनना । भरजाना । समा जाना । उ० कौन ठगौरी भरी हरि आजु बजाई है बाँसुरिया रंग भीनी । रसखान ।

भुइ—सं० स्त्री० [सं० भूमि] पृथ्वी ।
भूमि । उ० विपत बीज वर्षा रितु
चेरी । भुँइ भइ कुमति कैकई
कैरी । तु०

भुकान—क्रि० अ० [अनु० भूकना]
भूँ भूँ या भौँ भौँ शब्द करना ।
आ० व्यर्थ बकना ।

भुगुति—दे० भुगुती । उ० सुख
बैकुंठ भुगुति औ भोगू । जा०

भुगुती—सं० स्त्री० [सं० भुक्ति]
भोजन । अहार । विषयोपभोग ।
लौकिक सुख ।

भुजा—सं० स्त्री० [सं०] बांह ।
हाथ ।

भुतवा—सं० पु० [सं० भूत] प्रेत
भूत । जिन । पिशाच ।

भुजाना—क्रि० अ० [हिं० भूलना]
भ्रम में पड़ना । भूल जाना ।

भुलाय—क्रि० अ० [हिं० भूलना]
भटकना । भ्रमना । राह भूलना ।

भुलाव—क्रि० अ० [हिं० भूलना]
आसक्त होना । लुभाना । चूकना ।
गलती होना । धोखे में पड़ना ।

भुवंग, भुवंगा—सं० पु० [सं०
भुजंग, प्रा० भुअंग] सांप ।
आ० अभिमान ।

भुवंगम—दे० भुवंग । दे० माई री
मोहि डस्यो भुवंगम कारो । -सूर

भूँकि—दे० भुकान ।

भूँभुरि—सं० स्त्री० [सं० भू+भुर्ज]
भूमल । गर्भ रेत । गर्भ राख व

धूल । उ० जायहु वितै हुपहरी में
बलि जाँऊ । भुँइ भूभुरि कस घरि
हौ कोमल पांड । प्रताप नारायण ।
आ० मानसिक ताप ।

भूमि—दे० भुई । आ० हृदय ।

भूमी—दे० भुइ ।

भूला—क्रि० सं० दे० भुलान ।

भूलि—क्रि० अ० [भूलना] धमंढ
में होना । इतराना ।

भेख—दे० बेस ।

भेदा—सं० पु० [सं० भेद] मर्म ।
रहस्य । तात्पर्य ।

भेली—सं० स्त्री० [देश० भैली]
होना ।

भेव, भेवा—दे० भेदा ।

भैँ—क्रि० अ० [सं० भ्रमि] घूमना
घामना । चकर काटना ।

भैँसा—सं० पु० [हिं०] भैँस नामक
पशु का नर । भैँसा ।

भैँसिन्हि—सं० स्त्री० [सं० महिष]
गाय की जाति और आकार प्रकार
का पर उस से बड़ा मादा चौपाया
जिसे लोग दूध के लिए पालते
हैं । आ० इन्द्रियाँ ।

भोग—सं० पु० [सं०] सुख या
दुख आदि का अनुभव करना या
अपने शरीर पर सहना । सुख ।
विलास । दुख । स्त्री संभोग ।
विषय । धन । गृह । अहार करना
प्रारब्ध । देवता के आगे रखे जाने
वाले पदार्थ । नैवेद्य ।

भोगी—क्रि० अ० [सं० भोग]
 भोगना । सुख दुख या शुभाशुभ
 कर्म फलों का अनुभव करना । आनंद
 या कष्ट आदि को अपने ऊपर
 सहन करना । भुगतना । सहना ।
भोती—वि० [सं० भौतिक] शरीर
 सम्बंधी । शरीर का । भूत योनि
 से सम्बंध रखने वाला । [सं०
 बहुतर] बहुत । अनेक ।
भोरा—वि० [देश०] भोला ।
 सीधा । सरल । [हिं० भोली]
 मूर्ख । बेवकूफ ।
भोरी—वि० [देश०] सीधी सादी

भोली । मूर्ख ।
भौर—सं० पु० [हिं० मंवर] तेज
 पानी के बहाव में वह स्थान जहाँ
 पानी की लहर एक स्थान पर चक्का-
 कार घूमा करती है । आवर्त्त ।
भौ—वि० [सं० भव] उत्पन्न ।
 जन्म । हुआ ।
भौसागर—दे० भव सागर ।
भ्रिगी—सं० पु० [सं० भृंगी] एक
 प्रकार का गुंजार करने वाला
 पत्तियां । विलनी नामक कीड़ा जो
 और कीड़ों को भी अपने समान
 बना लेता है ।

म

मंगल—सं० पु० [सं०] एक प्रकार
 का गीत जो किसी शुभ अवसर
 पर गाया जाता है । मंगलाचरण ।
मंजन—सं० पु० [सं० मज्जन] स्नान ।
 नहान । उ० मज्जन करि सर सखिन
 समेता । तु०
मँजार—सं० पु० [सं० मज्जार] विलार ।
 बिल्ली । आ० वञ्चकगुरु । निर्भय ।
मँजारी—वि० [सं० मज्जार + ई
 (प्र०)] बिल्ली जैसी क्रिया या भाव ।
मंजूसा—सं० पु० [सं० मंजूषा]
 पिटारी । पत्थर । आ० गुफा ।
मंभरिया—दे० मांभ्र ।
मंड—सं० पु० [सं० मंडल] गोल
 फैलाव । वृत्ताकार या अंडाकार

विस्तार । गोला । जैसे भूमंडल ।
मंडवा—दे० माँडौ । आ० हृदय ।
मंडा—क्रि० अ० [सं० मंडल] फैला ।
मंडान—सं० पु० [सं० मंडल] घेरा ।
मंत्र—सं० पु० [सं०] तंत्र के अनुसार
 वे शब्द वा वाक्य जिनके जप
 भिन्न भिन्न देवताओं की प्रसन्नता
 वा भिन्न भिन्न कामनाओं की
 सिद्धि के लिये करने का विधान
 है । वेदों का वह भाग जिस में
 मंत्रों का संग्रह है । सत्य शिक्षा ।
 हित की बात ।
मंतर—दे० मंत्र ।
मंदर—सं० पु० [सं० मंद्र] गंभीर-
 ध्वनि । मृदंग ।

मंदिल—सं० पु० [सं० मंदिर] घर ।
 देवालय । आ० शरीर ।
 मकरन्द—सं० पु० [सं०] फूलों का
 रस । फूलों की केसर । पराग ।
 आ० विषय रस ।
 मकसूद—सं० पु० [अ०] अभिप्राय ।
 मतलब । मनोरथ ।
 मचो—क्रि० अ० [मचना अनु०] ।
 प्रचलित होना । जाना ।
 मच्छ—सं० पु० [सं० मत्स्य] विष्णु
 के दस अवतारों में से पहला
 अवतार । मछली । आ० मन ।
 मटिया—सं० स्त्री० [सं० मृत्तिका]
 मिट्टी । आ० पंचभूत ।
 मडराई—क्रि० अ० [सं० मंडल]
 मंडल बांध कर उड़ना । मँडराना ।
 मतंग—सं० पु० [सं०] हाथी ।
 मत—सं० पु० [सं०] निश्चित
 सिद्धांत । सम्मति । राय । भाव ।
 आशय । मतलब । ज्ञाना ।
 मतवाली—सं० स्त्री० [सं० मत्त+वाली
 (प्रत्य०)] मस्ती । अभिमान ।
 अहंकार । धमंड ।
 मतवाल—वि० [सं० मत्त+वाला]
 मतवाला । नशे आदि के कारण-
 मस्त । मद मस्त । नशे में चूर ।
 आ० आत्म विभोर ।
 मति—सं० स्त्री० [सं०] बुद्धि ।
 समझ । अवल । क्रि० वि० [सं०
 मा] निषेध वाचक शब्द । न ।
 नहीं ।

मते—दे० मत ।
 मद—सं० पु० [] गर्भ ।
 अहंकार । धमंड । नशा करने
 वाली वस्तु ।
 मदन—सं० पु० [सं०] कामदेव ।
 मन्मथ ।
 मदपी—वि० [सं०] मद पीने
 वाला । सुरापी । शराबी ।
 मद्दति—सं० भा० [अ० मदह]
 प्रसंशा । तारीफ ।
 मद्दति—दे० मद्दति ।
 मद्धे—अव्य० [सं० मध्ये] बीच में ।
 में ।
 मधिम—वि० [सं० मद्धिम]
 अधम । नीच ।
 मध्य—सं० पु० [सं०] बीच में ।
 मन—सं० पु० [सं० मनस]
 प्राणियों में वह शक्ति व कारण
 जिससे उन में वेदना, संकल्प,
 इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बोध और
 विचार आदि होते हैं । अंतः
 करण । चित्त । अंतःकरण की
 चार वृत्तियों में से एक जिससे
 संकल्प विकल्प होता है । उ०
 ऊधो मन न होंय दस बीस ।
 सूर ।
 मनमथ—दे० मदन ।
 मनसा—सं० स्त्री० [सं० मनस व०
 अ० मनशा] कामना । इच्छा ।
 उ० छिन न रहे नंदलाल इहाँ
 बिन जो कोउ कोटि सिखावे ।

सुरदास ज्यों तन ते मनस अंत
कहूं नहि जावे । सुर ।
मनुसा—सं० पु० [सं० मनुष्य]
मनुष्य । आदमी । पति ।
खाविद ।
मरकट—सं० पु० [सं० मर्कट]
बंदर । बानर । उ० डरह जहाँ
मरकट भट भारी । तु० । आ०
जीव ।
मरजीव—सं० पु० [हिं० मरना+
जीव] मरजिया । पानी में डूब
कर उसके भीतर से चीजों को
निकालने वाला । समुद्र में डूब
कर उसके भीतर से मोती आदि
निकालने वाला । गोता खोर ।
उ० जस मरजिया संमुर धँसि मारे
हाथ आव तव सीप । जा० । आ०
जीवात्मा ।
मरन—सं० पु० [सं० मरण]
मृत्यु । मौत ।
मरम—सं० पु० [सं० मर्म]
रहस्य । भेद । तत्व । स्वरूप ।
मासदिवस का दिवस भा मरम न
जाने कोय । तु०
मरजादा—सं० स्त्री० [सं० मर्यादा]
मान । प्रतिष्ठा । गौरव ।
मरिया—क्रि० अ० [सं० मरण]
मरना । मृत्यु को प्राप्त होना ।
मरोरे—क्रि० स० [हिं० मोड़ना]
मरोड़ना । पेंठना । छोड़ना ।
मरुआ—सं० पु० [सं० मरुव]

एक प्रकार का फूल वाला पौधा
इस की पत्ती भी फूल के समान
सुगंधित होती हैं, जिसका आकार
तुलसी के समान होता है, इसके
फूल देवताओं पर चढ़ते हैं ।

मरुवा—सं० पु० [सं० मंड वा मेरु वा
अन०] हिंडोले में वह ऊपर की
लकड़ी जिस में हिंडोला लटक़ाया
जाता है वा हिंडोले को लटक़ाने
की लकड़ी जड़ी व लगाई जाती
है । उ० कंचन के खंभ मयारि
मरुआ डांडी खचित हीरा विच
लाल प्रवाल । रेशम बुनाई नव
रतन लाई पालनो लटकन बहुत
पिरोजा लाल ।—सुर

मल—सं० पु० [सं०] शरीर से
निकलने वाली मैल व विकार ।
ये मल बारह प्रकार के माने गए
हैं । वासा (चर्बी) शुक, रक्त,
मज्जा, मूत्र, विष्टा, कर्णमल (खूँट)
नख, श्लेष्मा (कफ) आँसू,
शरीर के ऊपर जमी हुई मैल ।
पसीना ।

मलयागिर—सं० पु० [सं० मलय
गिरि] माल्यवान । मलय नामक
पर्वत जो दक्षिण में है । वहाँ
चन्दन अधिक और उत्तम उत्पन्न
होता है मलयगिरि में उत्पन्न
चंदन । उ० बेधी जानि मलय-
गिरि बासा । सीस चढ़ी लोटहि
चहुँ पासा । जा० । आ० सतसंग ।

मलिन—वि० [सं०] मलयुक्त ।

मैला । सं० पु० पाप । दोष ।

मवासी—सं० स्त्री० [हिं० मवास]
कोट जिसके चारों ओर शत्रु से
बचाव के लिए गहरी खाई होती
है उसमें पानी भरा रहता है,
बाहेर निकलने के लिए एक या
दो फाटक रहते हैं । छोटा गढ़ ।
गढ़ी । उ० कोट किरिट किये
मतिराम करै चढ़ि मोर पखानि
मवासी । मतिराम ।

मसकीन—वि० [अ० मिसकीन]
साधु । संत । फकीर । गरीब । दीन ।

मसखरी—सं० स्त्री० [फा० मस-
खरा+पन (प्रत्य०)] दिक्कगी ।
हंसी । मजाक । उ० जो बहु झूठ
मसखरी जाना । कलयुग सोइ
गुनवंत बखाना । तु०

मसल्ले—सं० पु० [अ०] सवाह ।
वह बात जो पूँछने के योग हो ।
भेद ।

मसि—सं० स्त्री० [सं०] लिखने
की स्याही । काजल । कालिख ।
उ० जनु मुँह लाईं गेरु मसि भए
खरनि असवार । तु०

मसीद—सं० स्त्री० [आ० मस्जिद]
मस्जिद । उ० मांगि के खैबो
मसीद को सोइबो लेने हैं एक न
देने हैं दोऊ । -तु० । मुसलमानों के
एकत्र होकर निमाज पढ़ने तथा
ईश्वर बन्दना करने के लिये

विशिष्ट रूप में बना हुआ स्थान ।
मसकल—सं० पु० [अ०] सिकली
गरों का एक औजार जो हंसिया
के आकार का होता है और
जिसमें काठ का एक दस्ता लगा
रहता है । इससे रगड़ने से धातुओं
पर चमक आ जाती है । प्रायः
तलवारों आदि इसी से साफ की
जाती हैं । सैकल वा सिकली करने
की क्रिया । आ० साधन ।

महँ—अव्य० [प्रा० महँ, सं० मध्य] में
महंगे—वि० [सं० महार्घ] महंगा ।
जिसका मूल्य साधारण वा
उचित की अपेक्षा अधिक हो ।
अधिक मूल्य पर विकने वाला ।
उ० कारण अगर रहत है संगी ।
कारज अगर विकत सो महंगा ।
वि० सा०

महंतो—सं० पु० [सं० महत=बड़ा]
साधु मंडली या मठका अधिष्ठाता ।
साधुओं का मुख्या ।

महजिद—दे० मसीद ।

महतारी—सं० स्त्री० [सं० माता]
माँ । माता । जननी । उ० कौशल्या
आदिक महतारी आरति करत
बनाईं । तु० । आ० माया ।

महतो—सं० पु० [सं० महतर]
महतो । गाँव का मुखिया । सरदार ।
बड़ाईं गुरुता वाला । श्रेष्ठ । उत्तम

महरम—सं० पु० [अ०] भेद का
जानने वाला । रहस्य से परिचित ।

महारा—वि० [हि० महता] प्रधान ।

श्रेष्ठ । बड़ा । आ० गुल्पाद ।

महल—सं० पु० [अ०] बहुत बड़ा

और बढ़िया मकान । रनिवास ।

अंतः पुर । आ० अंतःकरण ।

महा—वि० [सं०] अत्यंत । बहुत

अधिक । बहुत बड़ा । भारी । उ०

महा अजय संसार रिपु जीति सकइ

सो वीर । -तु०

महारस—सं० पु० [सं० महा+रस]

सर्वश्रेष्ठ स्वाद । आ० योगानंद ।

महि—दे० भुइ ।

माँचा—क्रि० अ० [हि० मचना]

आरंभ होना । जारी होना ।

मांजन—क्रि० सं० [सं० मज्जन] जोर

से मलकर साफ करना । सरस को

पानी में पका कर उससे तानी के

सूत को रंगना । आ० अभ्यास

करना ।

मांजी—क्रि० अ० [हि० मांजना]

अभ्यास करना । साफ करना ।

आ० योग की क्रियाओं द्वारा

शरीर को साफ करना ।

माँझ—अव्य० [सं० मध्य] में । भीतर ।

बीच । अंदर । मध्य । उ० ब्रजहि

चलो आई अंब साँझ । सुरभी

सबै लेहु आगे करि रैनि होय

पुनि बनहि माँझ । -सुर

माँझा—सं० पु० [देश०] एक प्रकार

का दाँचा जो गोइई के बीच में

रहता है और पाई को जमीन पर

गिरने से रोकता है ।

माँडी—क्रि० सं० [सं० मंडन]

मचाना । ठानना ।

माँडौ—सं० पु० [सं० मंडप] मंडप ।

विवाह का मंडप । मँडवा । उ०

माँडो गङ्गो रंग मंदिर के आंगन

वेद विधान । रघुराज । आ०

शरीर ।

मांसु—सं० पु० [सं० मांस] आमिष

पत्त । आ० भोग विलास । विषय

माँह—सं० पु० [फा० माह] मास ।

महिना ।

माँडि—क्रि० सं० [सं० मंडन]

मँडना । रचना । बनाना । सजाना

संवारना ।

माँडी—सं० स्त्री० [सं० मंड] कपड़े

या सूत के ऊपर चढ़ाया जाने

वाला कलफ जो भिन्न-भिन्न कपड़े

के लिये भिन्न भिन्न प्रकार से तैयार

किया जाता है ।

माँई—दे० महतारी । आ० ममता ।

माया ।

माँखा—सं० पु० [सं० मन्त्रिका]

माखी का नर

माखी—सं० स्त्री० [सं० मन्त्रिका]

मक्खी । उ० चंदन पास न बैठै

माखी । जा० । आ० माया ।

माँटी—दे० मटिया ।

मातां—सं० स्त्री० [सं० मातृ]

जननी । जन्म देने वाली स्त्री ।

आ० माया ।

मातु—वि० [सं० मत्त] उन्मत ।
मस्त । मत्त । बेसुध । दीवाना ।
पागल ।

माते—क्रि० अ० [सं० मत्त] मस्त
होना । मस्त होने का भाव ।
नशे में होना । उ० जो अचवत
मातहि टप तेई । नाहिन साधु
सभा जिन सेई । तु०

माथा—सं० पु० [सं० मस्तक]
मस्तक । माथ । सिर ।

माथे—क्रि० वि० [सं० मस्तक, हिं०
माथ] माथे पर । मस्तक पर ।
सिर पर ।

मादरिया—सं० स्त्री० [फा० मादर]
माँ । माता । जननी । सं० पु०
[मदारी] तमाशा करने वाला ।
बाजीगर । बंदर आदि नचाने वाला ।
आ० मन ।

मान—सं० पु० [सं०] अहंकार ।
गर्व । शेखी । सम्मान । इज्जत ।

मानवा—सं० पु० [सं० मानव]
मनुष्य । आदमी । मनुज ।

मानसरोवर—सं० पु० [सं० मानस+
सरोवर] हिमालय के उत्तर की
एक प्रसिद्ध बड़ी भील । इसके
आस पास की भूमि को हमारे
यहाँ के प्राचीन ऋषियों ने स्वर्ग
कहा है । आ० अमृत कुंड ।
सतसंग ।

मानिक—सं० पु० [सं० माणिक्य]
एक मणि का नाम । यह लाल

रंग की होती है इस का पत्थर
हीरे को छोड़ सब से कड़ा होता
है । वि० । सर्व श्रेष्ठ । शिरोमणि ।
परम आदरणीय । आ० चैतन्या-
त्मा । सुक्त ।

मानू—दे० मन ।

माता—सं० स्त्री० [फा०] माता ।
माँ ।

माया—सं० स्त्री० [सं०] लक्ष्मी ।
धन । संपत्ति । दौलत । अविद्या ।
अज्ञानता । भ्रम । छल । कपट ।
धोखा । चालवाजी । उ० धरि
कै कपट भेप भिनुक को दसकंधर
तहाँ आयो । हरि लीन्हो छिन में
माया करि अपने रथ बैठायो ।
सूर । सृष्टि की उत्पत्ति का मुख्य
कारण । प्रकृति । ईश्वर की वह
कलित शक्ति जो उसकी आज्ञा से
सब काम करती हुई मानी गई है ।
इंद्रजाल । जादू । छलमय रचना ।
कोई आदरणीय स्त्री । बुद्धि ।
अक्ल । सं० स्त्री० [हिं० ममता]
किसी को अपना समझने का भाव
ममत्व । दया, अनुग्रह । आ० भले
आय अब माया कीजै । जा०

मारग—सं० पु० [सं० मार्ग] राह ।
रास्ता । मार्ग । उ० दीप लेसि
जगत कहँ दीन्हा । भा निरमल
जग मारग चीन्हा । ज० । आ०
संसार । सतसंग ।

मालिनि—सं० स्त्री० [सं० मालिनी]
 मालिन । माली की स्त्री । आ०
 सुरति । माया ।
 माहली—सं० स्त्री० [हिं० महल]
 अंतर में बसने वाली । हृदय में
 रहने वाली । आ० इच्छा ।
 वासना ।
 मावासी—दे० मवासी ।
 मास—दे० माँह
 माहुर—सं० पु० [सं० मधुर, प्रा०
 मधुर=विष] विष । जहर । उ०
 दानव देव ऊँच अरु नीचू ।
 अमिय सजीवन माहुर मीचू ।
 तु० । आ० अज्ञान ।
 माहो—सं० स्त्री० [सं० मुग्धा]
 बहू । बधू । आ० माया ।
 मिताई—सं० स्त्री० [सं० मित्र, हिं०
 मीत+आई (प्रत्य०)] मित्रता ।
 दोस्ती ।
 मित्रैयौ—सं० स्त्री० [सं० मित्रता]
 दोस्ती ।
 मिथुन आठ—सं० पु० [सं०
 मिथुन] मैथुन । शास्त्रों में मैथुन
 आठ प्रकार का कहा गया है ।
 श्रवण, सुमिरन, कीर्तन, चिन्तन,
 एकांत बात करना, दृढ़ संकल्प,
 प्रयत्न, प्राप्ती ।
 मिथ्या—वि० [सं०] असत्य ।
 झूठ ।
 मिथौ—सं० पु० [फा०] स्वामी ।
 मालिक । पति । आ० जीवात्मा ।

मियाना—वि० [फा०] न बहुत
 बड़ा और न बहुत छोटा । मध्य
 आकार का । सं० पु० [हिं० म्यान]
 कोश ।
 मीत—सं० पु० [सं० मित्र] मित्र ।
 दोस्त । सुहृद । सखा । बन्धु ।
 मीरा—सं० पु० [फा० मीर]
 सरदार । प्रधान । नेता । धार्मिक
 आचार्य ।
 मुँडित—वि० [सं०] मुँडा हुआ ।
 मुकताई—सं० पु० [सं० मुक्त]
 मुक्त होने का भाव । कि० सं०
 छुटकारा पाना । मुक्त होना ।
 मुकताहल—सं० स्त्री० [सं० मुक्ता]
 मोती । आ० सद्गुण । मुक्ति ।
 मुकरबा—सं० पु० [अ० मकबरा]
 कब्र । समाधि । बादशाहों, नवाबों
 और बड़े फकीरों की समाधियाँ ।
 रोजा । दरगाह । वह इमारत जो
 कबर पर बनाई जाय ।
 मुकामा—सं० पु० [अ० मुकाम]
 ठहरने का स्थान । ठिकाना ।
 पड़ाव । अड्डा ।
 मुक्ता—सं० पु० [सं० मुक्त] बंधन
 रहित । खुला हुआ ।
 मुक्ति—सं० स्त्री० [सं० मुक्त]
 मोक्ष । छुटकारा ।
 मुक्ती—दे० मुक्ति ।
 मुख—सं० पु० [सं०] मुहँ ।
 आनन । वि० प्रधान । मुख्य ।
 मुग्ध—वि० [सं० मुग्ध] मोह या

भ्रम में पड़ा हुआ । मूढ़ ।
आसक्त । मोहित । लुभाया
हुआ ।

मुड़ाय—क्रि० सं० [सं० मुंडन]
सिर के सब बाल बनवाना ।
मुँडाना ।

मुड़ावन—दे० मुड़ाय

मुगदर—सं० पु० [सं० मुग्दर]
प्राचीन काल का एक अस्त्र जो दंड
के आकार का होता था और
जिसके सिरे पर बड़ा भारी गोल
पत्थर लगा होता था । आ० मृत्यु ।

मुद्दति—सं० स्त्री० [अ० मुद्दत]
अवधि । आ० आयु

मुद्रा—सं० स्त्री० [सं०] गोरख पंथी
साधुओं के पहनने का एक कर्ण
भूषण जो प्रायः कांच या स्फटिक
का होता है । यह कान की लौ के
बीच में एक बड़ा छेद करके पहना
जाता है । उ० शृंगी मुद्रा कनक
खपर ले करिहौं जोगिन भेस ।
सूर ।

मुनि—सं० पु० [सं०] वह जो
मनन करे । ईश्वर, धर्म और सत्या
सत्य का सूक्ष्म विचार करने वाला
व्यक्ति । मनन शील महात्मा ।
तपस्वी । त्यागी । जैन साधुओं की
एक श्रेणी ।

मुये—क्रि० अ० [सं० मरण] मृत्यु
को प्राप्त होना ।

मुरगी—सं० स्त्री० [फा० मुर्गी]

एक प्रसिद्ध पक्षी जो सफेद, पीले
आदि कई रंग की होती है ।

मुररिया—सं० स्त्री० [हिं० मुड़ना या
मरोड़ना] मुरीं । दो डोरों के
सिरों को आपस में जोड़ने की एक
क्रिया । जिस में गांठ का प्रयोग
नहीं होता है । केवल दोनों सिरों
को मिलाकर मरोड़ या बट देते हैं ।

मुरादी—सं० पु० [फा०] वह जो
कोई कामना रखता हो । अभि-
लाषी । आकांक्षी ।

मुरीद—सं० पु० [अ०] शिष्य ।
चेला । अनुगामी । अनुयायी ।

मुरुष—वि० [सं० मूर्ख] बेवकूफ ।
अज्ञ । मूढ़ ।

मुवलि—क्रि० अ० [सं० मृत, प्रा०
मिअ्र या मुअ्र-ना (प्रत्य०)]
मरना । मृत होना ।

मुवा—दे० मुवलि ।

मुसकाई—सं० स्त्री० [हिं० मुसकराना]
मुकराने की क्रिया या भाव ।
क्रि० सं० आनन्दित होना ।

मुसवन—सं० पु० [सं० मूष] चूहा
का बहु वचन ।

मुसाफ—सं० पु० [अ० मुसहफ]
वह किताब जिसमें रसाले और
सहीफे जमा हों । कुरान शरीफ ।

मुसि—दे० मूसन ।

मुसिन्ह—दे० मूसना ।

मूंडी—सं० स्त्री० [सं० मुंड] सिर
मस्तक ।

मूडे—दे० मुंडित ।
मूदे—क्रि० स० [सं० मुद्रण]
 मूंदना । अच्छादित करना । बंद
 करना । ढाकना ।
मूड—सं० पु० [सं० मुंड] सिर ।
 कपाल । उ० नारि मुई घर संपति
 नासी । मूड मुझाय भये सन्या-
 सी । तु०
मूठी—सं० स्त्री० [सं० मृष्टि, प्रा०
 मुष्टि] मूठ । हाथ की वह मुद्रा
 जो उंगलियों को मोड़ कर हथेली
 पर दबा लेने से बनती है । बंधी
 हुई हथेली मुठी ।
मूई—वि० [सं०] अज्ञान । मूर्ख ।
 जड़बुद्धि । बेवकूफ । अहमक ।
 ठग । स्तब्ध । निश्चेष्ट । जिसे
 आगा पीछा न सूझता हो ।
मूझते—क्रि० अ० [प्रा० मुह]
 मोह करना । धवड़ाना । मुझड़ ।
मूत्रा—सं० पु० [सं० मूत्र] शरीर
 के विषले पदार्थ लेकर प्राणियों
 के उपस्थ मार्ग से निकलने वाला
 जल । पेशाब । मूत ।
मूर—सं० पु० [सं० मूल] मूल धन ।
 असल । मूल । जड़ । उ० कोई
 चले लाभ सो कोई मूर गंवाय ।
 जा० । आ० चैतन्य । सत्यज्ञान ।
मूल—सं० पु० [सं०] असल जमा
 या धन । असल पूंजी । उ० और
 बनिज में नाही लाहा होत मूल में
 हानि । आ० नर शरीर । जीवन्-

मुक्ति । स्वरूप का ज्ञान । दे० प०
 घ, मूलाधार चक्र ।
मूला—सं० पु० [सं० मूल] पेड़ों
 का वह भाग जो पृथ्वी के नीचे
 रहता है । जड़ । आदि । आरंभ ।
 आदि कारण उत्पत्ति का हेतु ।
मूस—सं० पु० [सं० मूषक]
 चूहा । आ० विषयासक्त जीव ।
मूसन—क्रि० स० [सं० मूषण]
 चुरा कर उठा ले जाना । चुराना ।
 उ० मूसत पांच चोर करि दंगा ।
 रहत हितु है निस दिन संग्गा ।
 वि० सा० ।
मूसल—दे० मुसन ।
मूसै—दे० मूसन ।
मृगलोचनि—सं० स्त्री० [सं०]
 हिरण के समान नेत्र वाली स्त्री ।
मृगा—सं० पु० [सं० मृग] पशु
 मात्र विशेषतः वन्य पशु । जंगली
 जानवर । हिरन । आ० संशय । मन
मेढुक—सं० पु० [सं० मडूक] एक
 जल और स्थल चारी जन्तु जो
 तीन-चार अंगुल से लेकर एक
 बालिशत तक लंबा होता है । यह
 पानी में तैरता और जमीन में कूद
 कर चलता है । और टर् टर् शब्द
 करता है । मंडूक । दादुर । आ०
 अज्ञानी जीव । लोभ ।
मेढा—सं० पु० [सं० मेष] सींग
 वाला एक चौपाया जो लगभग
 डेढ़ हाथ ऊँचा और घने रोयों से

ढका होता है। इसका रोयाँ बहुत मुलायम होता है और ऊन कहलाता है। आ० वज्रक।

मेढे—दे० मेढा।

मेदिनी—दे० भुइ।

मेर—सं० पु० [सं०] सुमेरु पर्वत के समीप का एक पर्वत जिसकी ऊँचाई और फैलाव पुराणों के अनुसार ४० हजार कोस है। आ० मेरु दंड।

मेरु—सं० पु० [सं०] हिंडोले की दोनों स्तम्भ के बीच की लकड़ी को मेरु कहते हैं।

मेरुदंड—सं० पु० [सं०] पीठ के बीच की हड्डी। रीढ़।

मेली—वि० [हिं० मैली] विकार-युक्त। क्रि० सं० [हिं० मिलना] मिली हुई।

मेलै—क्रि० सं० [हिं० मेल+ना (प्रत्य०)] डालना। मिलाना। चलाना।

मेहतर—वि० [सं० महत्तर] बड़ा या श्रेष्ठ। सं० पु० [फा०] बुजुर्ग। सब से बड़ा। जैसे सरदार, शाहजादा, मालिक, हाकिम अमीर आदि। आ० ईश्वर।

मेहर—सं० स्त्री० [फा०] कृपा। दया। अनुग्रह। मेहरबानी।

मेहरबान—वि० [सं०] कृपाल। दयालु। अनुग्रह करने वाला।

मेहररुवा—दे० जाय।

मेहरा—सं० पु० [सं० मेघ, प्रा० मेह] वर्षा। झड़ी। मेंह।

मैके—सं० पु० [सं० मातृ+का (प्रत्य०)] मायका। नैहर। पीहर। आ० निज पद।

मैगर—सं० पु० [सं० मदकल] मत्त हाथी। मस्त हाथी। मतवाला। वि० मत्त। मस्त (हाथी के लिये)।

मैमंता—वि० [सं० मदमत्त] दे० माते

मोचित—क्रि० सं० [सं० मुचन] मोचना। मुक्त किया हुआ।

छोड़ना। छोड़ा हुआ। उत्पन्न।

मोछ—सं० पु० [सं० मोक्ष] किसी प्रकार के बन्धन से छूट जाना। आवागमन रहित होना। मुक्ति। नजात।

मोट—सं० स्त्री० [हिं० मोटरी] गठरी। मोटरी। उ० जोग मोट सिर बोझ आनि तुम कतधौ घोष उतारि। सूर।

मोटरी—दे० मोट। उ० आश्रम वरण कलि विवस भये निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी।

मोटी—सं० स्त्री० [हिं०] स्थूल। आ० मोटी माया।

मोलिया—दे० मोती। आ० ज्ञान।

मोती—सं० पु० [सं० मौक्तिक प्रा० मोत्तिअ] एक प्रसिद्ध बहु मूल्य रत्न जो छिछले समुद्रों में

अथवा रेतीले तटों के पास सीपी से निकलता है। आ० सद् उपदेश। गुरुज्ञान।

मोदाद—सं० स्त्री० [फा०] स्याही। उ० मुदादे फ्रिक यहाँ तक भरी है सीने में, शवीहे यार खिचे पांच सात इतनी है। अखतर शाह।

मोम—सं० पु० [फा०] वह पदार्थ जिस से शहद की मक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं। यह चिकना और नर्म होता है।

मोर—सर्व० [मे + रा] मैके सम्बंध कारक का रूप। मुक्त से सम्बंध रखने वाला। मम।

मोरही—क्रि० स० [मुड़ना का प्रे०] मोड़ना। फेरना। लौटाना।

मोलना—सं० पु० [आ० मौलाना] मौलवी। मुल्ला।

मोह—सं० पु० [सं०] कुछ का कुछ समझने वाली बुद्धि। भ्रम। भ्रांति शरीर और सांसारिक पदार्थों को अपना या सत्य समझने की बुद्धि जो दुःख दायिनी मानी जाती है। उ० सांचहु उन के मोह न माया। उदासीन धन धाम न जाया। तु०

मोहड़े—सं० पु० [हिं० मुह + डा (प्रत्य०)] मोहड़ा। मुहँ। मुख।

मोहू—दे० मोह।

मोहनी—वि० स्त्री० [सं०] मोहने वाली। चित्त को छुभाने वाली।

मोहा—क्रि० अ० [सं० मोहन] मोहना। किसी पर आशिक या अनुरक्त होना। मोहित होना। रीझना। उ० देखत रूप सकल सुर मोहे। तु०

मोहित—वि० [सं०] मोह या भ्रम में पड़ा हुआ। मुग्ध। मोहा हुआ।

मोहिसि—क्रि० स० [सं० मोहन] मोहना। अपने ऊपर अनुरक्त करना। मुग्ध करना। मोहित करना। लुभा लेना। भ्रम में डाल देना। संदेह पैदा कर देना। धोखा देना।

मौन—वि० [सं० मौनिन्] चुप रहने वाला। न बोलने वाला। मौन धारण करने वाला। मुनि।

मौर—सं० पु० [सं० मुकुट, प्रा० मउड़] एक प्रकार का शिरोभूषण जो ताड़ पत्र या लुखड़ी आदि का बनाया जाता है। विवाह में बर इसे अपने सिर पर पहनता है। उ० सोहत मौर मनोहर माथे। तु०। आ० कुंडलिनी।

मौरसी—क्रि० स० [हिं० मौर + ना (प्रत्य०)] बृद्धों पर मंजरी लगना। आम आदि पेड़ों पर बौर लगना। फूल आना।

भ्रितक थान—सं० पु० [सं० मृतक + स्थान] श्मशान भूमि। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए या गाड़े जाते हैं।

य

याद—सं० स्त्री० [फा०] स्मरण ।
 ये—सर्व० [सं० इंद] निकट की वस्तु
 का निर्देश करने वाला एक सर्व

नाम, जिसका प्रयोग वक्ता और
 श्रोता को छोड़ कर और सब
 मनुष्यों, जीवों तथा पदार्थों आदि
 के लिए होता है ।

र

रंक—वि० [सं०] धनहीन । गरीब ।
 दरिद्र । कंगाल । उ० बहिरो सुनै
 मूक पुनि बोलै रंक चलै सिरछत्र
 धराई ।—सूर
 रंग—सं० पु० [सं०] वर्ण । शरीर
 का ऊपरी वर्ण । क्रीड़ा । कौतुक ।
 खेल । आनंद, उत्सव । मजा ।
 मन का बेग या स्वच्छन्द प्रवृत्ति ।
 मौज । प्रेम ।
 रंगिया—क्रि० अ० [हिं० रंग+इया
 (प्रत्य०)] रंगना । प्रेम में लिप्त
 होना । आशक्त होना ।
 रंगी—वि० [हिं० रंगी+ई (प्रत्य०)]
 आनंदी । मौजी । दे० रंगिया ।
 रंजन—सं० पु० [सं०] प्रसन्नता ।
 प्यार ।
 रंभन—क्रि० अ० [सं०] बोलना ।
 शब्द करना । लिप्त होना ।
 रचंते—दे० रचै ।
 रचल—क्रि० स० [सं० रचना]
 बनाना । सिरजना । निर्माण करना ।
 रचि—क्रि० स० [सं० रचना]
 संवारना । सजाना । उ० भूषण
 बसन आदि सब रचि रचि माता
 लाइ लड़ावै ।—सूर

रचेउ—सं० स्त्री० [सं० रचना] रचना ।
 बनावट । निर्माण ।
 रचै—क्रि० अ० [सं० रंजन] अनुरक्त
 होना । उ० परनारि से रचै हैं
 प्रिय ।—पद्माकर
 रज—सं० पु० [सं० रजस] प्रकृति के
 तीन गुणों में से एक, जो चंचल
 प्रवृत्ति करने वाला, दुख जनक
 और काम, क्रोध लोभ आदि को
 उत्पन्न करने वाला माना गया है ।
 सत्त्व तथा तम दोनों गुणों को यह
 संचालित करता है, और इसी के
 द्वारा मनुष्य में सब प्रकार की
 उत्तेजना या प्रेरणा उत्पन्न होती
 है । उ० रज राजस आकाश रज
 रज युवती में होय । रज धुली
 रज पाप कहि रज जल निर्मल
 घोय ।—नंददास
 रजनी—सं० स्त्री० [सं०] रात ।
 रात्रि । निशा । आ० अज्ञान ।
 रजु—दे० जेवरी
 रटत—क्रि० स० [अनु०] रटना ।
 किसी शब्द को बार-बार कहना ।
 उ० चातक रटत त्रिषा अति
 ओही ।—तु०

रतन—सं० पु० [सं० रत्न] कुछ विशिष्ट छोटे चमकीले बहुमूल्य पदार्थ विशेषतया खनिज पदार्थ या पत्थर । मणि । जवाहिर । माणिक्य । मानिक । लाल । जो अपने वर्ग या जाति में सबसे उत्तम हो । हमारे यहाँ हीरा, पन्ना, पुखराज, मानिक, नीलम, गोमेद, लहसुनिया मोती और मूंगा नव रत्न माने गये हैं । इसके अतिरिक्त पुराणों आदि में और भी अनेक रत्न गिनाये गये हैं । आ० आत्मधन । मनुष्य जीवन । ज्ञान । सद्गुण । चैतन्य ।

रतनाई—दे० रतनारी ।

रतनारी—सं० स्त्री० [सं० रत्न] लाल । सुर्ख । लालरी लिए हुए ।

रति—सं० स्त्री० [सं०] प्रीति । प्रेम । अनुराग ।

रतियो—क्रि० वि० जरा सा । रत्ती भर । किंचित । रंचमात्र ।

रबदे—सं० पु० [हिं० रबड़ना] कीचड़ ।

रमन—सं० पु० [सं० रमण] धूमना । विचरना । आनंदोत्पादक क्रिया । विलास । क्रीड़ा । केलि ।

रमसि—क्रि० अ० [सं० रमण] रमना । अनुरक्त होना । लग जाना ।

रमि—क्रि० अ० [सं० रमण] व्याप्त होना । चारों ओर भरपूर

होकर रहना ।

रमुराई—सं० पु० [सं० राम+हिं० राय+ई (प्रत्य०)] राम राव । जीवात्मा ।

रमे, रमै—क्रि० अ० [सं० रमण] आनंद पूर्वक इधर उधर धूमना । विहार करना । मनमाना धूमना । विचरना ।

रमैनी—सं० स्त्री० [देश०] एक छन्द विशेष जिसके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं । एक मात्रिक छंद । चौपाई । वेद शास्त्र के विचारों में रमन कराने वाली ब्राणी ।

रमैया—सं० पु० [हिं० राम+ऐया (प्रत्य०)] राम । उ० वहाँ सब संकट दुर्घट सोच तहां मेरो साहेब राखै रमैया तु० । आ० चैतन्यात्मा ।

ररा—वि० [हिं० रार = भगड़ा] रार करने वाला । भगड़ा लू । आ० मन ।

रवि—सं० पु० [सं०] सूर्य । प्रकाश करने वाला । दिवाकर । आ० ज्ञान

रविमुत—सं० पु० [सं०] यम । काल

रवै—क्रि० अ० [हिं० रव=शब्द] शब्द करना । बोलना ।

रस—सं० पु० [सं०] कोई तरल या द्रव पदार्थ । जल । पानी । बनस्पतियों या फलों आदि में वह जलीय अंश जो उन्हें कूटने दबाने या निचोड़ने से निकलता है ।

आनंद । मजा । आ० सार वस्तु ।
 रसना—सं० स्त्री० [सं०] जिह्वा ।
 जीम । जवान ।
 रसरी—दे० रञ्जु ।
 रसाल—सं० पु० [सं०] आम ।
 वि० [सं०] मधुर । मीठा ।
 रसिक—सं० पु० [सं०] रस लेने
 वाला । प्रेमी । भक्त । भावक ।
 रसिया—सं० पु० [सं० रसिक या
 रस+हिं० इया (प्रत्य०)] रस
 लेने वाला । रसिक ।
 रहँटा—सं० पु० [हिं० रहँट] वह यंत्र
 जिससे सूत काता जाता है । चर्खा ।
 रहनि—सं० स्त्री० [हिं० रहना]
 आचरण । चाल ढाल । रहन ।
 उ० सोई विवेक सोई रहनि प्रभू
 हमहि कृपा करि देहु । तु०
 रहिमाना—सं० पु० [अ० रहीम]
 खुदा । ईश्वर का एक नाम ।
 रांची—क्रि० अ० [सं० रंजन]
 अनुरक्त होना । प्रेम करना । चाहना
 उ० मन काचै नाचै बृथा सांचै
 रांचै राम ।-वि०
 रांड—सं० स्त्री० [सं० रंडा] विधवा ।
 बेवा ।
 राई—सं० स्त्री० [सं० राजिका, प्रा०
 राइआ] एक प्रकार की बहुत
 छोटी सरसों । आ० बुद्धि ।
 राउर—सर्व० [प्रा० राय+उर]
 आप । आ० जीवात्मा । गुरु ।
 आत्मतत्व ।

राऊ—सं० पु० [सं० राजा प्रा०
 राव] राजा । नरेश ।
 राखहु—क्रि० स० [हिं० राखना]
 रोक रखना । [हिं० रखना]
 धरना । उपस्थित न करना । अलग
 रखना ।
 राग—सं० पु० [सं०] अनुराग ।
 प्रेम । प्रीति । मत्सर । ईर्ष्या ।
 द्वेष । उ० सो जन जगत जहाज
 है, जाके राग न दोष । तु०
 राङ्ग—सं० पु० [सं० रङ्ग] जुलाहों
 के करवे में एक औजार जिससे
 ताने का तागा ऊपर नीचे उठता
 और गिरता है । यह दो नरसलों
 का होता है जिसके बीच में ऊपर
 नीचे तागे बंधे होते हैं । और
 जिन के बीच से ताने के तागे एक
 एक करके निकाले जाते हैं ।
 राज—सं० पु० [सं० राज्य] देश का
 अधिकार या प्रबन्ध । हुकूमत ।
 राज्य । शासन ।
 राजा—सं० पु० [सं० राजन्] स्वामी ।
 मालिक । आ० जीव । मन ।
 राता—क्रि० अ० [सं० रक्त, प्रा०
 रत्त + ना (हिं० प्रत्य०) अनुरक्त
 होना । आशिक होना । उ० जिन
 कर मन इन सन नहि राता । तिन
 जग बंचित किये विधाता । तु०
 राम—सं० पु० [सं०] ईश्वर ।
 भगवान । दसरथ नंदन राम ।
 आ० रमैया राम । उ० रमन्ते

योगिनो यस्मिन्निति रामः । चैतन्य
राम । आत्माराम ।
रामरा—सं० पु० [सं० राम+रा]
राम । आ० जीव ।
रारि—सं० पु० [सं० राटि, प्रा०
राङ्गि=लड़ाई] रार । भगड़ा ।
टंटा । तकरार । आ० विषयभोग ।
रारी—दे० रारि ।
रावल—सं० पु० [प्रा० राजुल] राजा ।
प्रधान । सरदार । आ० जीव ।
रास—सं० स्त्री० [सं० राशि] एक
तरह की बहुत सी चीजों का समूह ।
ढेर । पुँज । जैसे अन्न की राशि ।
आ० सद्गुण । सात्विक भाव ।
राह—सं० स्त्री० [फा०] मार्ग । पथ ।
रास्ता । प्रथा । रीति । चाल ।
नियम । कायदा । आ० कर्म ।
उपासना । ज्ञान ।
राही—सं० पु० [फा०] राहगीर ।
मुसाफिर । पथिक । यात्री । आ०
कर्मी । उपासक ।
रिसाल—सं० पु० [सं० रसाल] आम ।
रीता—वि० [सं० रिक्त] खाली । रिक्त ।
रीधि सीधि—सं० स्त्री० [सं० ऋद्धि
सिद्धि] समृद्धि और सफलता ।
उ० रीधिसिधि संपत नदी मुहाई ।
उमंग अरुध अरुध पहेँ आई । तु०
रुआ—सं० पु० [हिं० रौवा] सेमल
के फूल के अन्दर से निकला हुआ
धुआ । भुआ ।
रुधिर—सं० पु० [सं०] रक्त । शोषित ।

लहू । खून । शरीर का रक्त । माता
का रज ।
रुसवा—क्रि० सं० [हिं० रोष] रुसना ।
रोष करना । नाराज होना । रूठना ।
उ० रुसि रहे तुम पूस में यह धौं
कौन समान ।—पद्माकर
रुख—सं० पु० [सं० बृक्ष, प्रा०
रुखल] पेड़ । वृक्ष । वि० [सं०
रुक्ष, प्रा० रुक्ख] उदासीन ।
विरक्त । उ० नाहिन राम राज के
भूखे । धरम धुरीन विषय रस
रूखे । तु०
रुखरा—वि० [सं० रुक्ष, प्रा० रुक्ख]
सूखा । शुष्क । नीरस ।
रूप—सं० पु० [सं०] शकल । स्वरत ।
आकार । चिन्ह । पता । निशान ।
शरीर । देह । उ० मशक समान
रूप कपि धरी । तु०
रूम—सं० पु० [फा०] टर्की या तुर्की
देश का एक नाम । आ० पीठ ।
रेंगडु—क्रि० अ० [सं० रिगण] रेंगना ।
चलना । धीरे धीरे चलना । उ०
गऊ सिंह रेंगहि एक बाटा ।
जा० । सरकना ।
रेंड—सं० पु० [सं० एरखड] एक
पौधा जो ६, ७ हाथ ऊँचा होता
है । और जिस की पेड़ी और
टहनी पोली तथा मुलायम
होती है ।
रे—अव्य० [सं०] सम्बोधन शब्द ।
रेख—सं० स्त्री० [सं० रेखा]

चिन्ह । निशान । उ० ना ओहि
ठांव न ओहि विनुं ठाँऊ । रूप
रेख विन निरमल नाऊ । जा० ।
आ० वासना ।
रेखा—सं० स्त्री० [सं०] किसी
वस्तु का सूचक चिन्ह । दृढ़
अंक ।
रेत—सं० स्त्री० [सं० रेतजा]
बालू । आ० भ्रम ।
रेन—सं० स्त्री० [सं० रेणु] धूल ।
बहुत छोटे छोटे कण । परमाणु ।
बालू के कण ।
रैनि—सं० स्त्री० [सं० रजनी]
रात्रि । उ० ओहि छांह रैनि होय
आवै । जा० । आ० अज्ञान ।
रैनी—दे० रैनि
रैयति—सं० स्त्री० [अ० रञ्जयत]
प्रजा । रिआया । रैयत । उ०
सुनी शत्रु मित्र की नृप चरित्र की
रय्यति रावत बात । के० । आ०
संसारी ।

रौपिया—क्रि० सं० [सं० रोपण]
गाड़ना । पौधा जमीन में गाड़ना ।
बोना ।
रोजा—सं० पु० [फा०] व्रत ।
उपवास । वह व्रत जो मुसलमान
रमजान के महिने में ३० दिन तक
रहते हैं और जिसके अंत होने पर
ईद होती है ।
रोम्—सं० पु० [देश०] नील
गाय । गवय । आ० मन की
वृत्तियाँ ।
रोपिन्हि—क्रि० सं० [सं० रोपण]
स्थापित करना । रोपना ।
रोहु—सं० पु० [देश०] नील
गाय । आखेट में सहायता देने
वाला व्यक्ति विशेष । आ० मन ।
रोहू—सं० स्त्री० [सं० रोहिष] एक
प्रकार की बड़ी मछली । आ०
मन ।
रौस—सं० स्त्री० घटा । निशान ।
लकीर ।

ल

लंगर—सं० पु० [देश०] लंगर ।
चील की तरह का एक शिकारी
पक्षी । आ० विवेक ।
लंपट—वि० [सं०] व्यभिचारी ।
विषयी । कामी । कामुक । उ०
लोभी लंपट लोलुप चारा । जो
ताकहि परधन पर दारा । तु०
लखाई—क्रि० सं० [हिं० लखाना]

दिखाना । अनुमान करा देना ।
समझा देना । सुझा देना । उ०
मेरोइ फोरिवे जो कपार किधौं
कल्लु काहू लखाई दयो है । तु०
लगवार—सं० पु० [हिं० लगना=
प्रसंग करना+ वार (प्रत्य०)]
स्त्री का उपपत्ति । यार । आशना ।
आ० देवी देवता । ईश्वर ।

लगार—सं० स्त्री० [हिं० लगन+
आर (प्रत्य०)] लगन । प्रीति ।
लगावट । मुहंघत ।
लगामी—सं० स्त्री० [फा० लगाम+
ई (प्रत्य०)] लगाम लगाने की
क्रिया । लगाम लगाना ।
लचपच्चि—क्रि० वि० [सं० लृच]
अस्त व्यस्त । ढीला ढाला । किसी
गांठ के ढिले ढाले होने पर उसे
लचपच होना कहते हैं ।
लचाय—क्रि० स० [हिं० लचना का
स० रूप] लचाना । लचकाना ।
भुकाना ।
लच्छ—सं० पु० [सं० लक्ष] सौ
हजार की संख्या । लाख । लक्ष ।
लक्ष्—सं० पु० [सं० लक्ष्मी] धन-
संपत्ति । दौलत । उ० लच्छि
ललित ललित करतल छवि अनु-
पम धन । तु०
लटापटि—सं० स्त्री० [हिं० लट-
पटाना] लपटने की क्रिया या
भाव । लड़ाई भगड़ा । भिड़ंत ।
उ० लटापटी होवन लगी मोहि
जुदा करि देहु । गिरधर ।
लदनुवा—वि० [हिं० लादना]
लदुवा । लादने वाले । लादने
का काम करने वाले । बोझ ढोने
वाले । आ० तत्व ।
लपसी—सं० स्त्री० [सं० लप्सिका]
थोड़े घी का हलवा ।
लबराई—सं० स्त्री० [हिं० लबार]

लबारी । झूठ बोलने का काम ।
लबरी । वि० मिथ्या । झूठ ।
लबार—वि० [सं० लपन=बकना]
झूठा । मिथ्या वादी । गप्पी ।
प्रपंची । उ० बालि कबहु न गाल
अस मारा । मिलि तपसिन्ह तै
भएसि लबारा । तु० आ० मन ।
लभावै—क्रि० स० [हिं० लंबा +
ना (प्रत्य०)] लम्बा करना ।
फैलाना ।
लभाये—क्रि० स० [देश०]
भुकाना ।
लमधी—सं० पु० [देश०] समधी
का बाप । आ० अविवेक ।
लयऊ—वि० [सं० लय] नाशवान ।
लरतु—क्रि० अ० [सं० रणन]
लड़ना । भगड़ा करना । बाद
विवाद करना । बहस करना ।
लराइन—क्रि० स० [देश०]
फेंकना । गिराना ।
लराई—सं० स्त्री० [हिं० लड़ना+
आई (प्रत्य०)] लड़ाई ।
भगड़ा । युद्ध । उ० जहाँ तहाँ
परी अनेक लराई । जीते सकल
भूप बरिआई । तु०
ललचि—दे० ललचिन ।
ललचिन—क्रि० अ० [हिं० लालच+
ना (प्रत्य०)] ललचाना । मोहित
होना । उ० मन मंदिर सुंदर
सब साजू । जाहि लषत ललचत
सुर राजू । —रघु०

ललनी—सं० स्त्री० [सं० नलिका]
नली। चोंगा। बांस की वह नली
जिसे व्याधा तोता पकड़ने के लिए
लगाते हैं। सेमर के वृक्ष की फली
जो देखने में लाल तथा सुन्दर होती
है परन्तु उसके भीतर रुई भरी
रहती है।

लहँडा—सं० पुं० [देश०] गिरोह।
झुंड। समूह।

लहरि—सं० स्त्री० [सं० लहरी]
लहर। मन की मौज। उमंग।
वेग। जोश। उठान।

लहुरिया—वि० [प्रा० लहु+रिया
(प्रत्य०)] लहुरी। छोटी।
कनिष्ठ।

लाई—सं० स्त्री० [हिं० लाय]
लाइ। अग्नि। आ० कामना।
लगन।

लादिन—क्रि० सं० [हिं० लादना]
भार से युक्त करना।

लानत—सं० स्त्री० [अ० लानत]
धिकार।

लाबरि—दे० लबराई

लार—सं० स्त्री० [देश०] कतार।
पंक्ति। क्रि० वि० [लैर=पीछे]
साथी। पाछे। उ० अंधे अंधा
मिल चले दादू बांधि कतार। कूप
पड़े हम देखता अंधे अंधा लार।
दादू।

लाल—सं० स्त्री० [सं० लालसा]
लालसा। इच्छा। चाह। अभि-

लाषा। सं० पुं० [सं० लालन]
दुलार। लाड़। प्यार। [फा०]
मानिक या माणिक्य नाम का
रत्न।

लिंग—सं० पुं० [सं०] जिस से
किसी वस्तु की पहिचान हो।
चिन्ह। लक्षण। निशान। पुरुष
का वह चिन्ह विशेष जिसके
कारण स्त्री से उसका भेद जाना
जाता है। शिश्न। पुरुष की गुप्त
इंद्रिय। शिव की एक विशेष
प्रकार की मूर्ति।

लिप्त—वि० [सं०] लीन। फंसा
हुआ।

लीना—वि० [सं० लीन] लय को
प्राप्त। जो किसी वस्तु में समा
गया हो। तन्नय। मग्न। डूबा
हुआ। उ० अति ही चतुर सुजान
जान मनि वा छवि पै भइ मैं
लीना। सूर

लीपि—क्रि० सं० [सं० लेपन]
मिट्टी या गोबर फेरना। पोतना।

लुकाई—क्रि० अ० [हिं० लुकना]
लुकाना। छिपाना।

लोई—दे० लोय।

लोकंदै—सं० पुं० [हिं० लोकना]
लोकंदा। विवाह में कन्या के डोले
के साथ दासी को भेजना।

लोचन—सं० पुं० [सं०] आंख।
नेत्र। नयन। आ० ज्ञान।

लोहत—क्रि० सं० [सं० लुचना]

लोढ़ना । चुनना । तोड़ना ।
 लौढ़े—दे० लोढ़त ।
 लोय—सं० पु० [सं० लोक] लोग ।
 उ० जहाँ प्रगट भूषण भनत हेतु
 काज ते होय । सो विभावना औरज
 कहत सयाने लोय ।—भूषण । सं० स्त्री०
 [हिं० लव] लौ । लपट । ज्वाला ।
 लोरै—दे० लोढ़त ।
 लोह—सं० पु० [सं०] लोहा नामक

प्रसिद्ध धातु ।
 लोहू—सं० पु० [सं० लोहित=लाल]
 रक्त । उ० राते त्रिब भये तेहि
 लोहू । जा०
 लौ—सं० स्त्री० [सं० लाग] आशा ।
 कामना । चित्त की वृत्ति । ध्यान ।
 लौकै—क्रि० अ० [सं० लोकन]
 लौकना । चमकना । दिखाई
 पड़ना । प्रत्यक्ष होना ।

व

वहि—सर्व० [सं० सः] एक शब्द
 जिसके द्वारा दूसरे मनुष्य से बात
 चीत करते समय किसी तीसरे
 मनुष्य या वस्तु का संकेत किया
 जाता है ।

वार—सं० पु० [सं०] द्वार । दरवाजा ।
 नदी या समुद्र का किनार ।
 वोद्र—सं० पु० [सं० उदर] पेट ।
 वोनई—क्रि० अ० [देश० ओनई]
 घिर आना । झुक आना ।

स

संकेता—सं० पु० [सं०] इशारा ।
 इंगित । कष्ट । दुःख । विपत्ति ।
 वि० तंग ।
 संक्राती—सं० स्त्री० [सं० संक्राति]
 सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि
 में प्रवेश करने का समय । वह
 दिन जिस में सूर्य एक राशि से
 दूसरी राशि में जाता है ।
 संख्या—सं० स्त्री० [सं०] शुमार ।
 तादाद । गिनती । गणना ।
 संगति—सं० स्त्री० [सं०] मेल ।
 मिलाप । संग । साथ । संगत ।

संगम—सं० पु० [सं०] मिलाप ।
 मेल । संयोग । समागम ।
 संग्रह—सं० पु० [सं०] जमा ।
 संकलन । संचय । एकत्र ।
 संग्या—सं० स्त्री० [सं० संज्ञा]
 शक्ति । चेतना । होश । बुद्धि । नाम
 संघाती—सं० पु० [हिं० संग +
 आती (प्रत्य०)] वह जो संग
 रहता हो साथी । संगी । दोस्त ।
 मित्र ।
 संधारा—क्रि० स० [सं० संहार]
 मार डालना । नाश करना । उ०

ओहि धनुष रावन संहारा । ओहि
धनुष कंसासुर मारा । जा०
संचरे—क्रि० अ० [सं० संचरण]
धूमना फिरना । चलना । उ०
अहूठ पटण में भिष्या करै ।
ते अबधू सिवपुरी संचरे । गो०
संचु—सं० पु० [प्रा०] सुख ।
आनंद ।
संजम—सं० पु० [सं० संयम]
रोक । बंधन । योग में धारणा
ध्यान और समाधि का साधन ।
बश में रखने की क्रिया या भाव ।
इंद्रिय निग्रह । मन और इंद्रियों
को बश में रखने की क्रिया । चित्त
वृत्ति का निरोध ।
संजोय—क्रि० वि० [सं० संयोग]
मेल । मिलावट । समागम । क्रि०
सं० संजोना । सजाना । बनाना ।
संजोये—दे० संजोय ।
संजोवे—दे० संग्रह ।
संझा—सं० स्त्री० [सं० सन्ध्या]
सूर्यास्त का समय । शाम । उ०
संग के सकल अंग अचल उछाह
भंग ओज बिन सूभत सरोज वन
संझा री । देव । आ० अंतिम
समय । अंधकार । अज्ञान ।
संतत—अव्य० [सं०] सदा । निरं-
तर । बराबर । लगातार ।
संताप—सं० पु० [सं०] जलन ।
आंच । दुःख । कष्ट । व्यथा ।
ग्लानि । मानसिक कष्ट । मनोव्यथा ।

संतो—वि० [सं० सत्] साधु ।
सन्धासी । विरक्त या त्यागी पुरुष ।
हरि भक्त । ईश्वर का भक्त ।
सज्जन ।
संधि—सं० स्त्री० [सं०] भेद । रहस्य
संपत्ति—सं० स्त्री० [सं०] ऐश्वर्य्य ।
वैभव । धन । दौलत । सफलता ।
सिद्धि । लाभ ।
संपुट—सं० पु० [सं०] अच्छादन ।
ढाकने वाली वस्तु ।
संबल—सं० पु० [सं०] रास्ते का
खर्च । रास्ते का भोजन । सफर
खर्च । आ० साधन । ज्ञान । सम,
दम आदि ।
संयोगे—सं० पु० [सं० संयोग] दो
वस्तुओं का एक में एक साथ होना ।
मेल । मिलान । मिलाप ।
संवरे—क्रि० स० [सं० स्मरण, हिं०
सुमिरण] संवरना । याद करना ।
स्मरण करना । उ० संवरौ आदि
एक करतारु । जा०
संवारन—क्रि० स० [सं० संवर्णन]
साजना । अलंकृत करना । ठीक
करना ।
संवारी—दे० संवारन ।
संवारै—दे० संवारन ।
संसार—सं० पु० [सं०] जगत ।
दुनिया । विश्व । सृष्टि । इहलोक ।
मृत्यु लोक ।
संसरि—सं० पु० [सं० संसरण]
निरंतर ।

संसार—वि० [सं० संसारिन] संसार में रहने वाला । संसार की माया में फंसा हुआ । दुनिया के जंजाल में धिरा हुआ । दुनियादार । बार बार जन्म लेने वाला । भवचक्र में बंधा हुआ । उ० तब से जीव भयो संसारी । तु०

संशय—सं० पु० [सं० संशय] अनिश्चयात्मक ज्ञान । अनिश्चय । संदेह । शक । सुबह । दुविधा । आशंका । डर ।

सकल—वि० [सं० सकल] सब । सर्व । समस्त । कुल ।

सकार—दे० सकारे ।

सकारे—वि० [सं० सकाल] शीघ्र । जल्दी । प्रातःकाल । सबेर । तड़के । उ० मयूर तमचूर जो हारे । उन्हहि पुकारे सांभ सकारे ।—जा०

सकेलि—क्रि० सं० [सं० सकल] सकेलना । एकत्र करना । इकट्ठा करना । जमा करना ।

सक्ति—सं० स्त्री० [सं० शक्ति] स्त्री । प्रकृति । रौद्री, वैष्णवी आदि शक्तियाँ ।

सक्ती—दे० सक्ति ।

सखी—सं० स्त्री० [सं०] सहेलरी । सहचरी । संगिनी । आ० २५ प्रकृतियाँ ।

सगति—दे० सक्ति ।

सगाई—सं० स्त्री० [हिं० सग्ग+आई (प्रत्य०)] संबंध । नाता । रिश्ता ।

व्याह के ठहराव की एक प्राथमिक क्रिया ।

सगोती—सं० स्त्री० [देश०] खाने का मांस । गोश्त । कलिया ।

सचान—सं० पु० [सं० सचान=श्येन] श्येन पत्नी । बाज ।

सचु—दे० संचु

सचुपात्रा—दे० संचु । उ० अंखियन ऐसी धरनि धरी । नंद नंदन देखे सचु पावै या सो रहति डरी ।—सूर

सजीवन मूरी—सं० पु० [सं० संजीवनी] सजीवनमूर । संजीवनी बूटी । आ० सार वस्तु ।

सत्—सं० पु० [सं० सत्] सत्य ।

सती—वि० स्त्री० [सं०] साध्वी । पतिव्रता ।

सत्त—सं० पु० [सं० सत्य] सतीत्व । पतिव्रत्य । सचबात ।

सद्गति—सं० स्त्री० [सं०] उत्तम गति । अच्छी अवस्था । भली हालत । मरण के उपरांत उत्तम लोक की गति ।

सनकादिक—सं० पु० [सं०] त्यागा भ्रमी । त्यागी ।

सना—सन (प्रत्य०) [सं० संग] से

सनिपात—दे० सन्नि

सनेही—वि० [सं० स्नेही, स्नेहिन] सनेह या प्रेम करने वाला । प्रेमी । सं० पु० चाहने वाला । प्रियतम । प्यार ।

सन्नि—सं० पु० [सं० सन्निपात]
कफ, वात और पित्त का एक साथ
बिगड़ना । त्रिदोष । सरसाम ।
अयुर्वेद में १२ प्रकार के सन्निपात
कहे गए हैं ।

सन्यासो—सं० पु० [सं० सन्या-
सिन] वह पुरुष जिसने सन्यास
धारण किया हो । चतुर्थाश्रमी ।
विरागी । त्यागी । यती ।

सपनी—सं० स्त्री० [सं०] धोखा ।
भ्रम । देखा देखी ।

सपुत्रै—क्रि० सं० [देश०] पूर्णता
को प्राप्त होना । बढ़ना । सुलगाना ।

सपेद—वि० [फा० सफेद] श्वेत ।
धवल । आ० निरमल ।

सपेदी—वि० [फा० सुफेदी]
श्वेतता धवलता । आ० ज्ञान ।
वृद्धावस्था ।

सब्द - सं० [सं० शब्द] वह स्वतंत्र
व्यक्त और सार्थक ध्वनि जिस से
सुनने वाले को किसी पदार्थ, कार्य
या भाव आदि का बोध हो ।
लफज । वाक्य । अमृतोपनिषद के
अनुसार ॐ जो परमात्मा का
मुख्य नाम है । किसी साधु महात्मा
के बनाए हुए पद या गीत आदि ।
आ० सार शब्द ।

सबल—वि० [सं०] जिस में बहुत
बल हो । बलवान । बलशाली ।

समतार्ई—सं० स्त्री० [सं० समता]
बराबरी । तुल्यता ।

समन्त्रा—वि० [सं० समतल]
समान । बराबर ।

समधी—सं० पु० [सं० संबन्धिन]
जिसके पुत्र या पुत्री से अपने पुत्र
या पुत्री का विवाह हुआ हो ।
आ० जीवात्मा ।

समर—सं० पु० [सं०] संभार ।
सचय । समान । सामग्री । आ०
सत्यज्ञान । बोध ।

समसान—दे० मृतक थान ।

समाधि—सं० स्त्री० [सं०] ध्यान ।

समान—वि० [सं०] एकसा ।
सम । बराबर । तुल्य । मु० एक
समान = एकसा । एक जैसा ।

समानी—क्रि० अ० [सं० समाविष्ट]
समाना । अंदर आना । भरना ।
अटना ।

समावै—दे० समानी ।

समुद्र—सं० पु० [सं०] वह जल
राशि जो पृथ्वी को चारों ओर से
घेरे हुए है और इस पृथ्वी तल के
प्रायः तीन चतुर्थांश में व्याप्त है ।
सागर । अंबुधि । आ० संसार ।
शरीर ।

समोई—क्रि० सं० [सं० संलग्न]
मिला लेना ।

समोय—दे० समोई ।

सयान—वि० [सं० सजान] समझ
दार । चतुर । प्रवीण । निपुण ।
बुद्धिमान । अनुभवी । सं० स्त्री०
सयानी ।

सयाना—दे० सयान ।

सयानप—सं० पु० [हिं० सयान+
पन (प्रत्य०)] काईयां पन ।
चतुरता । बुद्धिमान्नी ।

सर—सं० पु० [हिं० सरकंडा]
बास या सरकंडे की पतली छड़ी
जो ताना ठीक करने के लिये
जुलाहे लगाते हैं । सथिया ।
सतगारा । आ० अस्थियाँ । सं०
पु० [सं० सरस] बड़ा जलाशय ।
ताल । तालाब । [सं० शर]
वाण तीर । सरकंडा । भाले का
फल । आ० बचन ।

सरक—सं० पु० [सं०] सरकने
की क्रिया । खिसकना । चलना ।
आ० विमुख होना ।

सरग—सं० पु० [सं० स्वर्ग]
हिन्दुओं के सात लोकों में से तीसरा
लोक जो ऊपर आकाश में सूर्य
लोक से लेकर ध्रुव लोक तक माना
जाता है । किसी किसी पुराण के
अनुसार यह सुमेरु पर्वत पर है ।
आकाश ।

सरजिव—वि० [सं० सजीव]
जीव युक्त । जिस में प्राण हों ।

सरधा—सं० स्त्री० [सं० श्रद्धा]
चित्त की प्रसन्नता । मनोवृत्ति ।
मनो कामना ।

सरप—सं० पु० [सं० सर्प] सांप ।
दँगने वाला विषैला कीड़ा । आ०
अहंकार ।

सरमन—सं० पु० [सं० शर्मान]
ब्राह्मणों की उपाधि ।

सरमा सरमी—क्रि० वि० [फा० शर्म]
शरमा शरमी । लज्जा के कारण ।
शरमिदा होकर ।

सरबक—दे० सर्व ।

सरबर—सं० पु० [सं०] तालाब ।
पोखरा । भील । ताल । आ०
संसार । शरीर ।

सरबस—सं० पु० [सं० सर्वस्य]
सब कुछ ।

सरसों—सं० स्त्री० [सं० सर्षप]
एक धान्य या पौधा जिस के गोल
गोल छोटे बीजों से तेल निकलता
है । एक तेलहन ।

सरा—सं० स्त्री० [सं० शर] चिता
उ० चंदन अगर मलय गिरि
काढ़ा । घर घर कौन्ह सरा रचि
दाढा ।-जा०

सरि—क्रि० अ० [सं० सरण=
चलना] पूरा पड़ना । निबटना ।
हिं० सड़ना] गलना ।

सरिया—दे० सरि ।

सरीखा—वि० [सं० सदृश, प्रा०
सरिस] सदृश । समान । तुल्य ।

सरुम्कि—क्रि० अ० [हिं० सुलभना]
उलभन या खुलना । गुल्थी का
का खुलना । जटिलताओं का
निवारण होना ।

सरोता—सं० पु० [सं० श्रोतृ]
श्रोता । सुनने वाला । श्रवण

करता । कथा या उपदेश सुनने वाला ।
 सर्व—वि० [सं० सर्व] सारा । सब । कुल । समस्त ।
 सर्वभूत—सं० पु० [सं०] सब प्राणी या सृष्टि । चराचर ।
 सर्भन—दे० सरमन ।
 सलामा—सं० पु० [अ० सलाम] प्रणाम करने की क्रिया । प्रणाम । बंदगी ।
 सलिल—सं० पु० [सं०] जल । पानी ।
 सलिला—दे० सलिल
 सवाई—वि० [हि० सवा+ई (प्रत्य०)] एक और चौथाई
 सवादी—वि० [सं० स्वादिन] स्वाद चखने वाला । मजा लेने वाला । रसिक । विषयी ।
 सवारी—सं० स्त्री० [फा०] सवार होने की वस्तु । चढ़ने की चीज ।
 ससि—सं० पु० [सं० शशि] शशि । चन्द्रमा । आ० इड़ा ।
 ससुर—सं० पु० [सं० श्वशुर] जिसके पुत्र-या पुत्री से विवाह हुआ हो ।
 ससुरे—सं० पु० [हि० ससुर] ससुर । ससुराल । पतिका घर । आ० संसार ।
 ससै—सं० पु० [सं० शश] खर-गोश । शशक । आ० मन ।
 सहज—सं० पु० [सं०] स्वभाव ।

वि० स्वाभाविक । स्वाभावोत्पन्न । प्राकृतिक । सधारण । सरल । सुगम । आसान ।
 सहजै—दे० सहज
 सहदूल—सं० पु० [सं० शार्दूल] बिल्ली की आकृति का एक जंगली जन्तु । व्याघ्र । बाघ । आ० मन
 सहना—सं० पु० [अ० शहना] वह व्यक्ति जो जमीदार की ओर से कृषकों को बिना लगान (पोत) दिए खेत की उपज उठाने से रोकने और उसकी रक्षा करने के लिये नियुक्त किया जाता है । आ० साक्षी पुरुष । आत्मा ।
 सहर—सं० पु० [फा० शहर] बड़ी वस्ती । नगर । उ० रघुराज गरीब नेवाज दोऊ श्रवलोकन काज चले शहरै । रघु० । आ० शरीर ।
 सहसौ—सं० पु० [सं० सहस्र] हजारों । अनेक ।
 सहारी—क्रि० सं० [सं० सहन] सहन करना । बर्दाश्त करना । सहना ।
 सहिदानी—सं० स्त्री० [सं० संज्ञान] चिह्न । पहचान । निशान । उ० मातु कृमा कीजै सहिदानी दीजै । तु०
 सही—वि० [फा० सहीह] सत्य । सच । प्रमाणिक । ठीक । यथार्थ । शुद्ध ।
 सही सलामत—वि० स्वस्थ । अरोग्य । भलाचंगा । तंदुरुस्त । जिसमें

कोई दोष या न्यूनता न आई हो ।
 सहेलरी—सं० स्त्री० [सं० सह =
 हिं० एली (प्रत्य०)] साथ में
 रहने वाली स्त्री । संगिनी । अनुचरी
 परिचारिका । दासी । आ०
 इन्द्रियाँ । प्रकृतियाँ ।
 सह्यो—क्रि० सं० [सं० सहन]
 सहना । बर्दाश्त करना । भेलना ।
 भोगना ।
 साईं—सं० पु० [सं० स्वामी] पति ।
 भर्ता । मालिक । ईश्वर । परमात्मा
 आ० शुद्ध चेतन ।
 सांकीरी—वि० [सं० संकीर्ण] तंग ।
 सकरा । दुःख मय । कष्ट मय ।
 सांभ—दे० संख्या । आ० शरीरान्त
 का समय ।
 सांट—सं० स्त्री० [सट से अनु०] छड़ी ।
 सांटी । पतली कमची । कोड़ा ।
 साँड—सं० पु० [हिं०] ऊंट ।
 सांती—सं० स्त्री० [सं० शांति]
 अशुभ या अनिष्ट का निवारण ।
 अमंगल दूर करने का उपचार ।
 सांप—दे० सरप ।
 साँवत—सं० पु० [सं० सामन्त]
 सुभट । योद्ध । सामंत । आ०
 यमदूत ।
 साईं—सं० स्त्री० [हिं० साइत]
 बयान । पेशगी ।
 साकट—सं० पु० [सं० शाक्त]
 गुरू रहित । विषयासक्त । असाध ।
 मूर्ख ।

साख—दे० साखा ।
 साखा—सं० स्त्री० [सं० शाखा]
 वृक्ष की शाखा । डाली । डहनी ।
 आ० वैभव ।
 साखि—दे० साखी । उ० याते योग
 न आवै मन में तू नीके करि
 राखि । सरदास स्वामी के आगे
 निगम पुकारत साखि । सूर
 साखी—सं० पु० [सं० साक्षि]
 साक्षी । गवाह । ज्ञान सम्बन्धी
 पद या दोहे । वह कविता जिसका
 विषय ज्ञान हो ।
 सागर—दे० समुद्र । आ० संसार ।
 शरीर ।
 साचेत—वि० [सं० सचेतन] सचेत ।
 चेतना युत । सावधान । होशियार ।
 साज—सं० पु० [फा० मि० सं०
 सजा] उपकरण सामग्री । साधन ।
 तैयारी । ठाठ बाट । बाद्य । बाजा
 आ० शरीर ।
 साजिया—सं० पु० [सं० सजन]
 साजन । ईश्वर । सजने वाला ।
 क्रि० सं० सजाया ।
 साजी—क्रि० अ० [सं० सजा]
 सजना । अलंकृत करना ।
 साभी—सं० पु० [हिं० साभा +
 ई (प्रत्य०)] भागी । हिस्सेदार ।
 साट—सं० स्त्री० [सं०] बाजार ।
 विक्रय ।
 साधक—सं० पु० [सं०] साधन
 करने वाला ।

साधिया—क्रि० अ० [हिं० साधन]
सिद्ध होना । पूरा होना । सरना ।
काम होना ।
साधी—सं० स्त्री० [सं० साधे,
अर्धाली] आधा अंश ।
साधे—सं० स्त्री० [सं० साधन] कोई
काय सिद्ध या संपन्न करने की क्रिया ।
साधै—क्रि० स० [सं० साधन]
साधना । अभ्यास करना । आदत
डालना । स्वभाव डालना । जैसे
योग साधना । तप साधना ।
सानी—क्रि० स० [सं० संयुक्त]
मिल जाना । एकाकार होना ।
मिलना ।
सानुत—वि० [फा० सबूत] दुरु-
सत । स्थिर । निश्चल ।
साम—सं० पु० [सं०] एक प्राचीन
देश जो अरब के उत्तर में है
कहते हैं यह देश हजरत नूह के
पुत्र शाम ने बसाया था । आज
कल यह प्रदेश सीरिया कहलाता
है । आ० पूर्व ।
सामी—सं० पु० [सं० स्वामिन]
स्वामी । मालिक । प्रभू । ईश्वर ।
साधु । सन्यासी । धर्माचार्य ।
सायर—दे० समुद्र । आ० संसार ।
शरीर ।
सारंग पानी—सं० पु० [सं० सारं-
गपाणि] सारंग नामक धनुष
धारण करने वाले विष्णु । आ०
चैतन्य ।

सारथि—सं० पु० [सं०] रथादि
का चलाने वाला । समुद्र । सागर ।
आ० मन ।
सारा—वि० उत्तम श्रेष्ठ ।
सारू—दे० सारा ।
सालिगराम—सं० पु० [सं० शालि-
ग्राम] विष्णु की मूर्ति विशेष जो
काले और गोल पत्थर की होती
है, और गंडकी नदी से निकलती है
सालै—क्रि० अ० [सं० शल]
धंसना । दुःख देना । खटकना ।
कसकना । चुभना । गड़ना ।
सावज—स० पु० [देश०]
जंगली जानवर जिसका शिकार
किया जाता है । आ० मन ।
मिथ्या जगत ।
सामु—सं० स्त्री० [सं० श्वश्रु] पति
या पत्नी की माँ । आ० आदि
माया । बानी ।
साहस—सं० पु० [सं०] हिम्मत ।
हियाव ।
साहु—सं० पु० [सं० साधु] सज्जन ।
भला मानस । साहूकार । आ०
सद्गुरु । पारखी संत । जीवात्मा ।
साहू—दे० साहु ।
साहेब—सं० पु० [अ० साहिब]
मालिक । स्वामी । परमेश्वर ।
ईश्वर । मित्र । साथी । एक सम्मान
सूचक शब्द । आ० सद्गुरु ।
सिंगी—सं० पु० [हिं० सींग] सींग
का एक बाजा जिसे योगी लोग

फूंक कर बजाते हैं। उ० सिंगी
नाद न बाजहि कित गए सो
जोगी। दादू
सिंध—सं० पु० [सं० सिंह] एक
जंगली जन्तु जिसकी गर्दन पर
बड़े बड़े बाल होते हैं और मुहँ
बड़ा होता है। उसकी आकृति
बड़ी भयंकर होती है। शेर बबर।
आ० जीवात्मा। ज्ञान।
सिंधारा—सं० पु० [सं० शृंगाटक]
पानी में फैलने वाली एक लता का
कांटेदार तिकोना फल जो खाया
जाता है।
सिंधौरा—सं० पु० [हिं० सिंदूर +
ओरा (प्रत्य०)] सिंदूर रखने का
लकड़ी का पात्र जो कई आकार
का बनता है।
सिंकली—सं० स्त्री० [अ० सैकल]
धारदार हथियारों को माँजने
और उन पर सान चढ़ाने की
क्रिया।
सिंकलीगर—सं० पु० [अ० सैकल
+ फा० गर] तलवार और छूरी
आदि पर बाढ़ रखने वाला।
सान धरने वाला। चमड़ा देने
वाला। आ० विकारों को दूर
करने वाला सद्गुरु।
सिंकार—सं० पु० [फा० शिंकार]
आखेट। मृगया। अहेर।
सिख—सं० पु० [सं० शिष्य] चेला
अनुयायी।

सिखर—सं० पु० [सं०] सब से
ऊपर का भाग। सिरा। चोटी।
आ० प्रपंच से परे
सिखापन—सं० पु० [सं० शिखा
+ हिं० पन। शिखा। उपदेश
सिगरे—वि० [सं० समग्र] सब।
सम्पूर्ण। सारे। सकल।
सिद्ध—सं० पु० [सं०] वह जिसने
योग या तप में सिद्धि प्राप्त की
हो। योग या तप द्वारा अलौकिक
शक्ति प्राप्त पुरुष। वि० पका हुआ।
कामयाब। सफल। जिस का
मतलब पूरा हो चुका हो।
सिध—दे० सिद्ध। उ० सोह हंसा
सुमिरै सबद तिहि परमारथ सिध।
गों।
सिधि—दे० सिद्ध।
सियरा—वि० [सं० शीतल प्रा०
सीअइ] ठंडा। शीतल। नम।
उ० सियरे वदन सूखि गए कैसै।
परसत तुहिन ताम रस जैसै। तु०
सियार—सं० पु० [सं० शृंगाल,
प्रा० सिआइ] गीदड़। जम्बुक।
आ० मन।
सिरजनहार—सं० पु० [सं० सृजन
+ हिं० हार=वाला] रचने वाला।
बनाने वाला। सृष्टि करता।
कर्तार। परमेश्वर। उ० हे गुसाई
तू सिरजन हारू। तुइ सिरजा
एहि समुंद अपारू। जा०
सिरजौ—क्रि० सं० [सं० सर्जन]

बनाना । उत्पन्न करना ।
 सिराई—क्रि० अ० [हि० सीरा + ना] बीतजाना । व्यातीत होना ।
 गुजर जाना । समाप्त होना । खतम होना । अंत को पहुँचना । उ०
 लागै लिखे सिस्टि भिलि जाई ।
 समुद्र बटै पै लिखि न सिराई । जा०
 सिरानी—दे० सिराई ।
 सिरों—सं० पु० [सं० मूर्धन्य]
 सरदारों ।
 सिल—सं० स्त्री० [सं० शिला]
 पषाण । पत्थर । पत्थर का बड़ा
 चौड़ा टुकड़ा ।
 सिलहली—वि० [हि० सील, सीङ्ग +
 हीला = कीचड़] सिलहला ।
 जिस पर पैर फिसले । रपटने
 वाली । कीचड़ से चिकनी ।
 सिव—सं० पु० [सं० शिव] शंभु ।
 महादेव । हर ।
 सींग—सं० पु० [सं० शृंग] खुर
 वाले पशुओं के सिर के दोनो
 ओर शाखा के समान निकले हुए
 कड़े नुकीले अवयव । विषाण ।
 आ० स्वर्ग लोक ।
 सींचा—क्रि० स० [सं० सिंचन]
 सींचना । नहाना । पानी छिड़कना ।
 सींचै—क्रि० स० [सं० सिंचन]
 पानी देना । सींचना ।
 सीकस—सं० पु० [देश०] ऊसर ।
 आ० संसार ।
 सिक्कड़—क्रि० अ० [सं० सिद्ध,

प्रा० सिद्ध + ना] ताप या कष्ट
 सहना । आंच या गर्मी पाकर
 गलना ।
 सीकै—क्रि० अ० [सं० सिद्ध]
 आंच पर पकना ।
 सीढ़ी—सं० स्त्री० [सं० श्रेणी]
 निसैनी । जीना । पैड़ी ।
 सीत—वि० [सं० शीत] ठंडा । शीतल ।
 सर्द । शिथिल । सुस्त ।
 सीत अंग—सं० पु० [सं० शीतांग]
 शीत सन्निपात । शीत ज्वर ।
 सीतल—वि० [सं० शीतल] शांत ।
 प्रसन्न । संतुष्ट । तृप्त । ठंडा ।
 सरद ।
 सीर—सं० पु० [सं० शिरसू] सिर ।
 खोपड़ी । कपाल । मस्तक ।
 सीव—सं० पु० [सं० शिव] ईश-
 वर । ईश ।
 सीष—दे० सिख ।
 सीस—सं० पु० [सं० शीर्ष] सिर ।
 माथा । मस्तक ।
 सुन्दरी—वि० [सं०] रूपवती ।
 सं० स्त्री० सुन्दर स्त्री । आ० माया
 सुकाल—सं० पु० [सं०] उत्तम
 समय । अच्छा युग ।
 सुकित—सं० पु० [सं० सुकृत]
 पुण्य । पुण्यवान ।
 सुक—सं० पु० [सं० शुक] सुवा ।
 सुगना । शुकदेव ।
 सुख—सं० पु० [सं०] आनंद ।
 आराम । हर्ष ।

सुखाने—क्रि० अ० [सं० शुष्क,
हिं० सूखा + ना (प्रत्य०)]
सूख जाना । जल विलकुल न
रहना या बहुत कम हो जाना ।

सुगना—सं० पु० [सं० शुक, हिं०
सुग्गा] सुग्गा । तोता । सुआ ।
आ० जीवात्मा ।

सुज्ञान—वि० [सं० सज्ञान] समझ-
दार । चतुर । सयान । उ० करत-
करत अभ्यास के जड़ मति होत
सुज्ञान । —रहीम ।

सुत्रधार—सं० पु० [सं० सूत्रधार]
कारीगर । नाट्य शाला का व्य-
वस्थापक या प्रधान नट । आ०
चैतन्य ।

सुधारस—सं० पु० [सं०] अमृत
रस । मधुर ।

सुधि—सं० स्त्री० [सं० शुद्ध (बुद्धि)]
स्मृति । स्मरण । याद । चेत ।

सुनगुन—सं० स्त्री० [हिं० सुनना +
अनु० गुन] किसी बात का भेद ।
टोह । सुराग । काना फूसी ।

सुनति—सं० स्त्री० [अ० सुन्नत]
मुसलमानों की एक रस्म जिसमें
लड़के की लिंगेन्द्रिय के अगले भाग
का बड़ा हुआ चमड़ा काट दिया
जाता है । खतना । मुसलमानी ।

सुनहा—सं० पु० [सं० शुन=कुत्ता]
सोनहा । कुत्ता । कुत्ते की जाति
का छोटा जंगली जानवर जो कुंड
में रहता है और बड़ा हिंसक होता

है यह शेर को भी मार डालता है ।
कौंगी । आ० मन । कल्पना ।

सुन्न—सं० पु० [सं० शून्य] खाली
स्थान । आकाश । एकांत स्थान ।
निर्जन स्थान । वि० निराकार ।
उ० रूप रेख जाके कछु नाहीं ।
तौ का करब शून्य के माहीं ।
वि० सा० । असत । जो कुछ न
हो । रहित । विहीन ।

सुबरन—वि० [सं० सुवर्ण] सुंदर
वर्ण या रंग का । उज्ज्वल ।

सुवस—सं० पु० [सं० सुवास]
उत्तम निवास । सुंदर घर । वि०
[सु=अच्छा+वस=बसना] अच्छी
प्रकार बसा हुआ ।

सुभागा—वि० [सं० सुभाग] अत्यंत
भाग्य शाली । बहुत बड़ा भाग्य
वान ।

सुभागे—दे० सुभागा ।

सुभिरन—सं० पु० [सं० स्मरण]
नौ प्रकार की भक्तियों में से एक ।
क्रि० सं० सुभिरना । ध्यान करना ।
जपना । चिंतन करना ।

सुन्निति—सं० स्त्री० [सं० स्मृति]
हिन्दुओं के धर्म शास्त्र जिनकी
रचना ऋषियों और मुनियों
आदि ने वेदों का स्मरण या
चिंतन करके की थी । जिसमें धर्म,
दर्शन, आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त,
शासन नीति आदि के विवेचन
हैं । स्मृति के अंतर्गत नीचे लिखे

ग्रंथ आते हैं । (१) छः वेदांग
 (२) गृह्य आश्वलायन, सांख्या-
 यन, गोभिल, यास्क, बौधायन,
 भारद्वाज और आपस्तं वाद सूत्र
 (३) मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि,
 विष्णु, हरीत, उशनसू, अंगिरा,
 यम, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर,
 व्यास, दत्त, गौतम, वशिष्ठ, नारद,
 और भृगु आदि के रचे हुए धर्म
 शास्त्र । (४) रामायण और
 महाभारत आदि इतिहास (५)
 अठारहों पुराण (६) सब प्रकार
 के नीति शास्त्र के ग्रंथ । आ०
 इच्छा । कामना ।
 सुमेर—सं० पु० [सं० सुमेरु] एक
 पुराणोक्त पर्वत जो सोने का कहा
 जाता है भागवत के अनुसार सुमेरु
 पर्वतों का राजा है । इस पर्वत का
 शिरो भाग १२ हजार कोस का
 है । उ० शोभित सुंदर केशव
 कामिनी । जिमि सुमेर पर घन सह
 दामिनि । के० ।
 सुरंग—वि० [सं०] सुंदर रंग का ।
 दर । सुडौल ।
 सुर गुर—सं० पु० [सं० सुर+गुरु]
 देवताओं के गुरु । बृहस्पति ।
 सुरज—सं० पु० [सं० सूर्य] रवि ।
 सूर । भानु । दिनकर । आ०
 पिंगला ।
 सुरभै—क्रि० अ० [हि० सुलभना]
 सुरभना । किसी उलभी हुई वस्तु

की उलभन दूर होना या खुलना ।
 उलभन का खुलना । गुत्थी का
 खुलना । जटिलताओं का निवारण
 होना ।

सुरति—सं० स्त्री० [फा० सुरत]
 रूप । आकृति । शक्क ।

सुरभी—सं० स्त्री० [सं०] गाथ ।
 आ० अमर वाहणी ।

सुरही—दे० सुरभी ।

सुरहुर—वि० [सं० सरल+धड़]
 सरहरा । सीधा । ऊपर को गया
 हुआ जिस में इधर उधर शाखाएं
 न निकली हों (पेंड) ।

स्रुति—सं० स्त्री० [सं० स्मृति]
 सुष । स्मरण । ध्यान । याद ।

सुवासिनि—सं० स्त्री० [सं० सुवा-
 सिनी] सधवा स्त्री । सौभाग्यवती ।
 आ० वञ्चक गुरुओं की रोचक
 बाणी ।

सुसुकि—क्रि० अ० [अनु० या सं०
 सीत + करण] सिसकना ।
 उलटी सांस लेना । हिचकियाँ
 भरना । मरने के निकट होना ।
 तरसना (प्राप्ति के लिये) रोना
 (पाने के लिये) व्याकुल होना ।
 खुल कर न रोना ।

सुस्त—वि० [फा०] निस्तेज ।
 धीमी । कमजोर । शांति ।

सुहाय—क्रि० अ० [सं० शोभन]
 सुहाना । अच्छा लगना । भला
 मालूम होना ।

सुहेला—सं० पु० [सं० सुहृद]
 इष्ट । मित्र । सुहृद । सखा । साथी
 सूकर—सं० पु० [सं० शूकर]
 सूअर ।
 सूक्ष्म—क्रि० अ० [सं० सञ्ज्ञान]
 सूक्ष्मना । दिखाई देना । देख पड़ना
 सूत—सं० पु० [सं० सूत्र] सूई
 रेशम आदि का महीन तार जिस
 से कपड़ा बुना जाता है । धार्गा ।
 आ० कर्म । प्राण्य ।
 सूती—क्रि० अ० [हिं० शयन]
 सूतना । सोना । शयन करना ।
 सूत्र—दे० सूत ।
 सूद्र—सं० पु० [सं० शूद्र] चार
 वर्णों में से चौथा और अंतिम ।
 सूद्रा—दे० सूद्र ।
 सूध—वि० [सं० शुद्ध] सीधा ।
 सरल ।
 सूधे—क्रि० वि० [हिं० सूधा]
 सीधो । आ० अन्तरंगवृत्ति ।
 सून—वि० [सं० शून्य] शून्य । खाली ।
 उजाड़ । सुनसान । सूना । उ०
 नहिं कल बिना शेष पद देखे ।
 बिन प्रभू जगत सून मम लेखे ।
 वि० सा० ।
 सूर—सं० पु० [सं०] सूर्य्य । उ०
 जेहि घरि चन्द्र सूर नहि उगै,
 तेहि घर होसी उजियारा । गो०
 सूत्रा—सं० पु० [सं० शुक] तोता ।
 सुग्गा । सूत्रा । हरे रंग का एक
 पक्षी जो राम राम पढ़ता है ।

सृष्टि—सं० स्त्री० [सं०] संसार ।
 दुनिथा । चराचर ।
 सेती—सं० स्त्री० [हिं०] व्यर्थ । निष्-
 प्रयोजन । फजूल । सुफत । दे० सेती
 सेधूरे—सं० पु० [सं० सिंदूर] सिंदूर
 रखने का डिब्बा । सिंदूरा
 सेइ—क्रि० सं० [सं० सेवन] आराधना
 करना । सेवा करना । किसी स्थान
 को लगातार न छोड़ना । सहारे में
 पड़ा रहना ।
 सेख—सं० पु० [अ० शेख] मुसलमान
 उपदेशक । इसलाम धर्म का
 आचार्य । पीर । बड़ा बूढ़ा ।
 शेख तकी ।
 सेजा—सं० स्त्री० [सं० शय्या, प्रा०
 सजा] शय्या ।
 सेत—वि० [सं० श्वेत] सफेद ।
 उज्वल । शुभ्र । साफ । निर्मल ।
 सेती—अव्य० [सं०] सहित । साथ ।
 समेत । उ० खेलत अही सहेलिनह
 सेती—
 सेमर—सं० पु० [सं० शाल्मली]
 पत्ते भाड़ने वाला एक बहुत बड़ा
 पेड़ जिसमें बड़े आकार और मोटे
 दलों के लाल फूल लगते हैं ।
 और जिसके फलों और डोंडों में
 केवल रुई होती है, गूदा नहीं
 होता है । आ० संसार ।
 सेर—सं० पु० [हिं०] एक मान या
 तौल । आ० मन की वृत्ति
 सेरवा—दे० सेर

सेल्ही—सं० स्त्री० [हिं० सेला] सूत,
ऊन, रेशम या बालों की बद्धी या
माला जिसे योगी लोग गले में
ढालते या सिर पर लपेटते हैं।
उ० सीस सेली केस मुद्रा कनक
वीरी बीर। विरह भस्म चढ़ाई
बैठी सहज कंथा चीर।—सूर
सेवे—क्रि० सं० [सं० सेवन] सेना।
सेवा करना। उपासना करना।
शेष—सं० पु० [सं० शेष] अंत।
समाप्ति।
सेहरा—सं० पु० [हिं० सिर+हरा=
हार] माला। आ० मेघ माला।
सैयद—सं० पु० [फा०] इमाम।
रहिनुमा। सरदार। हजरत फातिमा
की आल औलाद।
सैयाँ—सं० पु० [सं० स्वामी] पति।
उ० सैयाँ भये तिलगवा बहुअर
चली नहाय। गि०
सो—सर्व० [सं० सः] वह। उ०
सो मोसन कहिजात न कैसै। तु०
सोनहा—दे० सुनहा।
सोरठ—सं० पु० [देश० सोर =
सोलह + ठ = ठौर] सोलह
जगह। सं० स्त्री० [सोरही]
जुआ खेलने के लिए सोलह चिन्ती
कौड़ियों का समूह। आ० प्राणा-
दिक सोलह बंधन—पंच ज्ञानेंद्रिय,
पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन या
बुद्धि। जन्म से मरण तक के
सोलह संस्कार।

सोई—दे० सो।
सोखै—क्रि० सं० [सं० शोषण]
शोषण करना। सूखना। खुरक
होना। उ० उदित अग्रस्त पंथ
जल सोखा। जिनि लोभहि सोखै
संतोखा। तु०।
सोग—सं० पु० [सं० शोक] दुःख।
रंज। उ० निष्ठ दिन राम राम
की भक्ती, भय रुज नहिं दुख
सोग। सूर
सोधि—सं० पु० [सं० शोध]
खबर। पता। अनुसंधान।
सोभै—क्रि० अ० [सं० शोभन,
प्रा० सोहन] सोहना। शोभा देना।
सोहरि—सं० स्त्री० [देश०] नाव
का पाल खींचने की रस्ती।
सोहागा—सं० पु० [सं० सुभग]
सुहागा। एक प्रकार का चार।
जो गरम गंधक के सोतों से
निकलता है। यह सोना गलाने
तथा सोने का मैल साफ करने के
काम आता है। आ० सारशब्द।
सोहागिनि—दे० सुवासिनि।
सौतिया—सं० स्त्री० [सं० पत्नी]
सौत। किसी स्त्री के पति या प्रेमी
की दूसरी स्त्री या प्रेमिका। किसी
स्त्री के प्रेम की प्रतिद्वंद्विनी।
सौरी—सं० स्त्री० [सं० शाटी, हिं०
सौड़] सौर। चादर। ओढ़ना।
उ० तेते पांव पसारिए जेती लांबी
सौर। रहीम।

स्याम—सं० पु० [सं० श्याम]

कृष्ण । काला । आ० चैतन्य ।

स्याह—वि० [फा०] काला ।

कृष्ण वर्ण ।

स्थाही—सं० स्त्री० [फा०] काला

पन । कालिमा । उ० स्थाही बारन
ते गई मन तै भई न दूर । समुझ
चतुर चित बात यह रहत बिसूर
बिसूर । रसनिधि । आ० जवानी ।

स्त्रवण—सं० पु० [सं० श्रवण]

कान । कर्णेंन्द्रिय ।

स्वाँग—सं० पु० [सं० सु + अंग]

अथवा स्व + अंग] स्वाँग ।

कृतिम या बनावटी वेष जो अपना
वास्तविक रूप छिपाने या दूसरे
का रूप बनाने के लिये धारण
किया जाय । भेस । रूप ।

स्वांस—सं० पु० [सं० श्वांस]

सांस । श्वास । प्राण ।

स्वान—सं० पु० [सं० श्वान]

कुत्ता । कुकर । उ० जूठी पातर
भखत हैं बायस बारी स्वान ।
प्र० राय । आ० अज्ञान । मन ।
संकल्प ।

स्वाना—दे० स्वान ।

ह

हंकार—सं० पु० [सं० अहंकार]

अभिमान । गर्व । घमंड ।

हंस—सं० पु० [सं०] शुद्धात्मा ।

माया से निर्लिप्त आत्मा । जीव ।
जीवात्मा । बत्ख के आकार का
एक जल पत्नी जो बड़ी बड़ी भीलों
में रहता है वर्षा काल में उनका
मानसरोवर आदि तिब्बत की
भीलों में चला जाना और शरत्काल
में लौटना प्रसिद्ध है । यह पत्नी
अपनी शुभ्रता और सुंदर चाल के
लिये बहुत प्रसिद्ध है । कवियों
तथा जन साधारण में इस के मोती
खुगने और नीर क्षीर विवेक का
प्रवाद चला आता है । आ०

विवेकी जीव । सत्यासत्य पारखी ।

हंसगति—सं० स्त्री० [सं०] मुक्ति ।

ब्रह्मत्व प्राप्ति । सायुज्य मुक्ति ।

हँसी—सं० स्त्री० [हिं० हंसना]

हंसी । हास ।

हकरा इन्हि—क्रि० सं० [हिं० हंकार]

हंकराना । अपने पास आने को
कहना । बुलाना । पुकारना ।

हज—सं० पु० [अ०] मुसलमानों

का काबे के दर्शन के लिये मक्का
जाना । मुसलमानों की मक्के की
तीर्थ यात्रा ।

हजरत—सं० पु० [अ०] महात्मा ।

महापुरुष ।

हजार—वि० [फा०] बहुत से ।
अनेक । सहस्र ।

हजूर—सं० पु० [अ० हजूर] सन्मुख
स्थिति । समक्षता । नजर का सामना ।

हटकै—क्रि० सं० [हिं० हट=दूर
होना + करना] हटकना । किसी
काम से हटाना या रोकना ।
वर्जना । मना करना ।

हटवाई—सं० स्त्री० [हिं० हाट+वाई
(प्रत्य०)] सौदा लेना या बेचना
क्रय विक्रय । खरीद फरोख्त ।

हटलो—दे० हटा ।

हटा—सं० पु० [अ० हटक] किसी
बात को न करने का संकेत या
आज्ञा । निषेध । मनाही ।

हठि—सं० स्त्री० [सं० हठ] जिद ।
दुराग्रह । टेक ।

हता—क्रि० सं० [होना का भूत
काल] था ।

हते—क्रि० सं० [हिं० हत + ना
(प्रत्य०)] हतना । प्रहार करना
दुख पहुँचाना । पीड़ित करना ।

हद्द—सं० स्त्री० [अ०] सीमा ।
मर्यादा ।

हने—क्रि० सं० [सं० हनन] हनना ।
मार डालना । वध करना । प्रहार
करना । पीटना ।

हबी—सं० पु० [अ० हबीब] दोस्त ।
मित्र । प्रिय । खुदा का हबीब ।
मुहम्मद साहेब जो खुदा के परम
प्रिय माने जाते हैं ।

हमेव—सं० पु० [सं० अहम +
एव] अहमेव । स्वयं ही ।
अहंकार । अभिमान ।

हर—सं० पु० [सं०] शिव ।
महादेव । वि० [सं०] हरण
करने वाला । [सं० हल] हल ।

हरदम—वि० [फा०] हर समय ।
हर वक्त । सदैव । निरन्तर ।

हरदि—सं० पु० [सं० हरिद्रा]
एक डेढ़ दो हाथ ऊँचे पौधे की
जड़ जिस की गांठ पीसने पर
पीली हो जाती है ।

हरनी—सं० स्त्री० [हिं० हरिन]
हिरन की मादा । मृगी । हरनी ।
आ० बुद्धि ।

हरम—सं० स्त्री० [अ०] जनान
खाने में दाखिल की हुई स्त्री ।
मुताही । रखेली स्त्री । दासी ।
आ० कुमति । अविद्या ।

हरामा—वि० [अ० हराम]
निषिद्ध । विधि विरुद्ध । बुरा ।
अनुचित । दूषित । वर्जित बात
या वस्तु

हरि—सं० पु० [सं०] ईश्वर ।
विष्णु । भगवान । त्रिदेवों में एक ।
अग्नि । आग । आ० आत्मा ।
ईश्वर । संत । सद्गुरु । ज्ञान ।

हरिजन—सं० पु० [सं०] भगवान
का दास । ईश्वर भक्त ।

हरिनै—सं० पु० [सं० हरिण]
मृग । हिरन । आ० तृष्णा ।

हरिबाजी—सं० पु० [सं० हरि + बाजी] ईश्वर की बाजीगरी का खेल । माया की लीला ।
 हरियरे—वि० [सं० हरित्, प्रा० हरिञ्च] हरीत । सञ्ज । हरा ।
 हलसौँ—सं० पु० [अमु० हल हल] हलफ । हिलोर । लहर । तरंग ।
 हलहल—क्रि० अ० [हि० हलरा] कांपना । थरथराना । कंपित होना ।
 हलाल—क्रि० अ० [अ०] खाने के लिये पशुओं को मुसलमानी शरह के मुताबिक (धीरे धीरे गला रेत कर) मारना । जवह करना ।
 हलाहल—सं० पु० [सं०] महा विष । भारी जहर ।
 हलुका—वि० [सं० लघुक, प्रा० लहुक विपर्यय, हलुक] जो तौल में भारी न हो । जिसमें गुरुत्व न हो । हलका ।
 हस्त—सं० पु० [सं०] हाथ । कर
 हस्तनि—सं० स्त्री० [सं०] मादा हाथी । हथिनी । आ० माया । दुर्बुद्धि ।
 हस्ती—सं० पु० [सं० हस्तिन] हाथी । बहुत बड़े आकार का जानवर । आ० माया । स्त्री । बाणी । मिथ्या ज्ञान ।
 हांकै—क्रि० स० [हि० हांक + ना (प्रत्य०) हांकना । मार कर या बोल कर चौपायों को भगाना । प्रेरित करना ।

हांड—दे० हाड़ ।

हांडी—सं० पु० [सं० भांड, हिं० हंडा] मिट्टी का मंभोला बरतन जो बटलोई के आकार का हो । हंडिया ।

हांसी—सं० स्त्री० [सं० हांस] उपहास । निंदा । हंसी ।

हाकिमा—सं० पु० [अ० हाकिम] हुकुमत करनेवाला । शासक । प्रधान अधिकारी । आ० निरंजन (मन)

हाट—सं० स्त्री० [सं० हट्ट] वह स्थान जहाँ विक्री की सब प्रकार की वस्तुएं रहती हैं । बाजार । आ० शरीर ।

हाटे—दे० हाट

हाड़—सं० पु० [सं० हड्ड] हड्डी । अस्थि ।

हाथा—सं० पु० [देश०] दो तीन हाथ लंबा लकड़ी का एक औजार जिस से सिचाई करते समय खेत में आया हुआ पानी उलाच कर चारों ओर पहुँचाते हैं । आ० शरीर ।

हारी—वि० [सं० हारि] हारना ।

हालै—अव्य० [अ० हाल] तुरन्त । शीघ्र । ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाना । तन्मयता ।

हिंडोला—सं० पु० [सं० हिन्दोल] ऊपर नीचे घूमने वाला एक चक्कर जिस में लोगों के बैठने के लिये छोटे छोटे मंच बने रहते हैं ।

सावन के महीने में इस पर झूलने की विशेष चाल है। झूला। छः रागों में एक राग।
 हित्त—वि० [सं०] लाभदायक। उपकारी। अनुकूल।
 हित—सं० पु० [सं०] भलाई करने या चाहने वाला। दोस्त। खैर खाह।
 हिय—सं० पु० [सं०] हृदय प्रा० हिम्न। हृदय। मन। उ० चले भाट हिय हर्ष न थोरा।—नु०
 हिये—दे० हिय। उ० अबधौ विन प्राण प्रिया रहिहै कहि कौन हित् अवलंब हिये।—केशव।
 हिरदय—सं० पु० [सं०] हृदय अंतःकरण। मन। अंतरात्मा।
 हिरन्य—सं० पु० [सं०] हिरण्य। सोना। स्वर्ण।
 हिलगी—क्रि० स० [हिं०] अटकना। फंसना। बधना।
 हिलोर—दे० हिलोरा।
 हिलोरा—सं० पु० [सं०] हिलोल। हवा के भोके आदि से जल का उठना और गिरना। तरंग। लहर। मौज।
 हिवारे—सं० पु० [सं०] हिम+आलि। हिवार। वर्ष।
 हींडत—दे० हींडिया।
 हींडिया—क्रि० अ० [देश०] हिंडन। अन्वेषण करना। खोजना। जाना। पहुँचना।
 हींडते—दे० हींडिया।

हीन—वि० [सं०] रहित। वंचित। खाली। विना।
 हीरा—सं० पु० [सं०] हीरक। एक रत्न या बहु मूल्य पत्थर जो अपनी चमक और कड़ाई के लिये प्रसिद्ध है। बज्र मणि। आ० चैतन्यात्मा।
 हुजरे—सं० स्त्री० [फा०] मसजिद के पास की कोठरी।
 हुलसै—क्रि० अ० [हिं०] हुलसना। उल्लास में होना। आनंद में फूलना। उमंगना।
 हेतु—सं० पु० [सं०] हित। लगाव। प्रेम-संबंध। प्रेम प्रीति। अनुराग। उ० पति हिय हेतु अधिक अनुमानी। विहंसि उमा बोली प्रिय बानी। तु०।
 हेतू—दे० हेतु।
 हेराय—क्रि० स० [सं०] हरण। हिराना। न रह जाना। खोना। गुप्त हो जाना।
 हेरिन्हि—क्रि० स० [हिं०] हेरना। हेरना। दूँदना। खोजना।
 हो—सं० पु० [सं०] पुकारने का शब्द या सम्बोधन।
 होनिहारी—सं० स्त्री० [हिं०] वह बात जो होने को है।
 होम—सं० पु० [सं०] देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में घृत जौ आदि डालना। हवन। यज्ञ। आहुति देने का कार्य।

होमै—क्रि० सं० [सं० होम + ना
(प्रत्य०) उत्सर्ग करना । छोड़
देना । नष्ट करना । बरबाद करना ।
हवन करना ।

हौं—सर्व० [सं० अहम्] ब्रज भाषा
का उत्तम पुरुष एक वचन सर्व-
नाम । मैं ।

हौंस—सं० स्त्री० [अ० हवस]
चाह । प्रबल इच्छा । लालसा ।
कामना । उ० सजै विभूषण बसन
सब पिया मिलन की हौंस ।
पझाकर ।

हौवा—दे० हवा ।

हृदे—दे० हृदय ।

परिशिष्ट—(ख)

अंतर्गत कथाएँ तथा परिचय

अंकुर (अकर)—श्वफलक और गान्दिनी के पुत्र एक यादव जो श्रीकृष्ण के चचा तथा परम भक्त थे। इन्हीं के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा गये थे। सत्राजित की स्यामंतक मणि यहीं लेकर काशी चले गये थे।

अंजनी—यह हनुमान जी की माता थी। इनके पति का नाम केसरी था।

अंबरोष—वैवस्त मनु के पौत्र महाराज नाभाग के पुत्र थे। यह परम प्रसिद्ध वैष्णव भक्त थे, इन्हीं के कारण दुर्वासा ऋषि का विष्णु के चक्र ने पीछा किया था।

अकरदी—सूफी संप्रदाय के एक साधु इन का कबीर साहेब के साथ संवाद हुआ था।

अहीलहि (अहिल्या)—यह महर्षि गौतम की स्त्री और वृद्धाश्व की पुत्री थीं। यह अत्यंत रूपवती थीं। इन के रूप पर मोहित होकर इन्द्र ने इनके साथ छल किया था दे० सुरपति।

अष्टंगी—सुन्दर आठ अंग वाली कन्या, आद्या (प्रकृति) प्रकृति के आठ अंग ये हैं—भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। अनुराग सागर के अनुसार निरंजन की स्त्री जो सत्य पुरुष का इच्छा से पैदा हुई थी।

आदम—मुसलमानी मत के अनुसार सृष्टि का सबसे पहला पुरुष। कहा जाता है कि खुदा ने फरिस्तों से मिट्टी मँगवा कर एक पुतला बनाया और उसमें जान (रूह) डाल दी और उस को स्वर्ग में रहने की आज्ञा दी। स्वर्ग में लगे हुए एक विशेष प्रकार के फल को खाने से मना किया था। परन्तु शैतान के बहकाने तथा कौतूहलवस इन्होंने उस फल को खाया, जिससे खुदा ने नाराज होकर इन्हें स्वर्ग से नीचे गिरा दिया।

इंद्र—दे० सुरपति।

ईस (ईश)—दे० शिव।

उमा—यह शिव जी की स्त्री थीं।

ऊधो—यह एक यादव थे जो श्री

कृष्ण के सखा और परम भक्त थे, यही कृष्ण का संदेश लेकर गोकुल गए थे और वहाँ गोपियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था।

कंस—यह मथुरा के राजा उग्रसेन का क्षेत्रज पुत्र था, इसने मगध राज जरासन्ध की अस्तित्व और प्राप्ति नामक दोनों कन्याओं से पाणिग्रहण किया था और अपने ससुर (जरासन्ध) की सहायता से पिता को राज्य-च्युत कर के स्वयं राजा बना था। इसने अपने चचा की कन्या देवकी को बसुदेव के साथ ब्याहा था, विवाह के बाद भेजने जाते समय देववाणी हुई कि इसके आठवें गर्भ से उत्पन्न पुत्र तुझे मारेगा। इस कारण कंस ने बसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। कारागार में इनके जो लड़के होते थे, कंस उनको मरवा दिया करता था। बसुदेव भादों कृष्णाष्टमी की आधी रात को देवकी के आठवें गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण को छिपाकर गोकुल में गोपराज नन्द के यहाँ रख आये और उसी रात्रि को नन्द की स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न कन्या (योगमाया) को लेकर मथुरा लौट आये। इधर कंस को मालूम हुआ कि देवकी के आठवें गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई है। उसने कन्या को पत्थर पर पटक कर मार डाला।

पत्थर पर पटकते ही कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से बोली कि तुझे मारने वाला उत्पन्न हो गया। यह सुन कर कंस ने बसुदेव देवकी को छोड़ दिया और उसका पता लगाने के लिये चारों ओर अपने दूत भेजे। उन दूतों को श्री कृष्ण ने मार डाला। अन्त में कंस ने धनुषयज्ञ का स्वाँग रच कर श्री कृष्ण को मथुरा बुलवाया, परन्तु कंस की सब चालाकियाँ व्यर्थ सिद्ध हुईं और कंस श्री कृष्ण के हाथ मारा गया।

कच्छ (कच्छप)—भगवान का दूसरा अवतार जिसने महिषासुर को मारा था और समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया था।

कपि (कपीश)—दे० हनुमान।

कमला—विष्णु की पत्नी, इन के सम्बंध में भिन्न भिन्न पुराणों में अनेक कथाएँ मिलती हैं, इनकी उत्पत्ति के विषय में प्रसिद्ध है कि देवताओं और दानवों के समुद्र मथने से जो चौदह रत्न निकले थे उन्हीं में से एक यह थी।

करम (करमाबाई)—जगन्नाथ पुरी में रहती थी नित्य प्रातःकाल जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाती थीं। आज भी जगन्नाथ पुरी में करमाबाई के नाम की खिचड़ी बंटती है।

करण—दे० कुंती ।

कलकी (कलिक)—विष्णु का दसवाँ अवतार, कहते हैं कलयुग के अंत में जब पाप अधिक बढ़ जायगा तब भगवान् सम्भल ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के घर में कलिक अवतार लेंगे। और कलिका अंत कर के सतयुग का प्रादुर्भाव करेंगे।

कश्यप (कश्यप)—ये ब्रह्मा के पौत्र और मरीचि के पुत्र थे। ये प्रजापति होने पर अपनी स्त्री अदिति के साथ तपस्या करने चले गये थे। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान् ने इनसे बर मांगने को कहा। इन दोनों ने प्रार्थना की कि आप हमारे पुत्र हों। त्रेता में ये दोनों महाराज दसरथ और कौशल्या हुए।

कान्ह—दे० कृष्ण ।

कासी—उत्तर भारत की एक नगरी जो वरुणा और अस्सी के बीच गंगा के किनारे बसी हुई है। और प्रधान तीर्थ स्थान है। यहीं कबीर साहेब प्रगट हुए थे।

कुंती—यह युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम की माता और सुरसेन की कन्या थीं, इन्हें कुन्तभोज ने गोद लिया था। अतः इन का नाम कुंती पड़ा, इनका विवाह पाण्डु के साथ हुआ था। इन को दुर्वासा ऋषि ने वशी करण मन्त्र बतलाया

था जिसके बल से यह देवताओं को बुलाकर पुत्र पैदा कर सकती थीं, अविवाहित अवस्था में ही इन्होंने सूर्य का आवाहन कर करण को उत्पन्न किया था।

कुवेर—ये महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा की इलविला नाम की पत्नी से पैदा हुए थे। ब्रह्मा ने इन को समस्त सम्पत्ति का स्वामी बनाया था। इनका निवास कैलास के समीप अलकापुरी में है।

कृष्ण, क्रिष्ण (कृष्ण)—यदुवंशी वसुदेव के पुत्र जो भोजवंशी देवक की कन्या देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उस समय देवक के भाई राजा उग्रसेन का पुत्र कंस अपने पिता को कैद कर मथुरा का राज्य करता था। देवकी के विवाह के पश्चात् जब कंस उसे भेजने जा रहा था, तब कंस को देववाणी द्वारा यह बात मालूम हुई कि देवकी के आठवें गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा, वह मुझ को मार डालेगा। इसलिये कंस ने देवकी और वसुदेव को अपने यहाँ कैद कर लिया था। देवकी के सात बालकों को तो कंस ने जन्म लेते ही मार डाला था पर आठवें बालक कृष्ण को जिन का जन्म भादों की कृष्णाष्टमी को आधी-रात के समय हुआ था, वसुदेव जी गोकुल में नंद के घर रख

आये थे और वहाँ से योगमाया नाम की कन्या को जो उषी रात्रि को यशोदा के गर्भ से पैदा हुई थी उठा लाये थे। कृष्ण ने अनेक अद्भुत कार्य किये थे, जिसे सुन कर कंस ने संकित होकर उन्हें मरवा डालने के अनेक उपाय किये पर सब व्यर्थ हुए, अंत में कृष्ण ने कंस को मार डाला। इन्होंने विदर्भ की कन्या रुक्मिणी से विवाह किया था, पीछे ये द्वारिका चले गये, वहाँ इन्होंने यादवों का राज्य स्थापित किया। महाभारत के युद्ध में इन्होंने पाण्डवों को बहुत सहायता दी थी और अर्जुन को रण क्षेत्र में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। इनकी मृत्यु एक बहेलिये के तीर लगने से द्वारावती में हुई थी। यह विष्णु के आठवें अवतार माने जाते हैं।

केसव (केशव)—विष्णु का एक नाम।

कौरव—दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र जिन की संख्या सौ थी।

गंडक (गंडकी)—एक नदी जो नैपाल में हिमालय से निकलती है और बहुत सी छोटी छोटी नदियों को लेती हुई पटने के पास गंगा में गिरती है। इस में काले रंग के गोल पत्थर निकलते हैं जो शालिग्राम कहलाते हैं। इन्हें

विष्णु का प्रतीक मान कर लोग पूजते हैं।

गणेश (गणेश)—यह हिन्दुओं के प्रसिद्ध देवता हैं इनका शरीर मनुष्य का परन्तु सर हाथी का सा है, इनकी सवारी चूहे की मानी जाती है। यह महादेव की पत्नी पार्वती के पुत्र कहे जाते हैं।

गरुड़—यह पक्षियों के राजा और विष्णु के वाहन माने जाते हैं यह विनिता के गर्भ से उत्पन्न कश्यप के पुत्र कहे जाते हैं।

गाइत्री—आदि शक्ति (अष्टंगी) से उत्पन्न इच्छारूपी स्त्री का नाम गाइत्री है।

गोकुल—एक प्राचीन गाँव जो वर्तमान मथुरा से पूर्व दक्षिण की ओर प्रायः तीन कोश दूर यमुना के दूसरे किनारे पर था। इसको आज कल महावन कहते हैं। कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था यहीं बिताया था। आज कल जिस स्थान को गोकुल कहते हैं वह नवीन और इससे भिन्न है।

गोपाल—कृष्ण का एक नाम दे० कृष्ण।

गोपी ब्रज की गोप जातीय वह स्त्रियाँ या कन्याएँ जो श्रीकृष्ण के साथ प्रेम रखती थीं और जिन्होंने उनके साथ बाल क्रीड़ा तथा अन्य लीलाएँ की थीं।

गोपीचंद्र—यह महाराज भ्रतृहरि की बहिन मैनावती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और माता के उपदेश से राज पाट छोड़ कर विरक्त हो गये थे। इन्होंने अपनी स्त्री पद्मावती से भिक्षा मांगी थी। यह जालन्धर नाथ के शिष्य थे, इनकी जीवन घटनाओं को योगी सारंगी बजाकर गाते और भिक्षा मांगते हैं।

गोब्रधन—वृंदावन का एक पर्वत जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि उसे एक बार बहुत अधिक वर्षा होने पर कृष्ण ने अपनी उँगली पर उठाया था।

गोविंद—श्रीकृष्ण का एक नाम।
दे० कृष्ण।

गोरख—यह एक प्रसिद्ध योगी तथा महात्मा थे, यह नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह तंत्र विद्या के आचार्य भी थे, इनके बनाये हुए संस्कृत में ग्रन्थ भी हैं। नौ नाथ तथा चौरासी सिद्धों में इनकी गणना है गोरखपुर में इनके नाम का मन्दिर भी है।

गौतम—एक ऋषि जिन्होंने अपनी स्त्री अहिल्या को इन्द्र के साथ अनुचित सम्बंध करने के कारण शाप दिया था, जिसका उद्धार रामचन्द्र ने किया था।

ग्वाल—ब्रज के वे गोप बालक जो श्रीकृष्ण के साथी थे और उनके

साथ क्रीड़ा करते थे तथा गौवों को चराया करते थे।

चंद्रमा—यह चन्द्रलोक के स्वामी और सम्पूर्ण ग्रहों के राजा हैं इन्होंने एक बार गुरु-पत्नी (वृहस्पति की स्त्री) को अपने यहाँ एक यज्ञ में बुलाया और फिर उन पर प्रेमासक्त होकर जाने न दिया। वृहस्पति जी के क्रहने पर ब्रह्मा जी ने मध्यस्थ होकर उनकी स्त्री को उन्हें दिला दिया और उससे उत्पन्न पुत्र बुध को चंद्रमा को ही दे दिया।

जगन्नाथ (जगन्नाथ)—जब प्रभास क्षेत्र में कृष्ण भगवान ने शरीर को त्यागा और उनका संस्कार करके समुद्र में जल प्रवाह किया था तो उसी का एक तेज रूप पिंड जगन्नाथ में समुद्र के किनारे जा लगा। उसी को जगन्नाथ के उदर में गाड़ा गया। कहते हैं इसके लिए भगवान ने वहाँ के लोगों को स्वप्न दिया था।

जड़ (जड़ भरत)—अङ्गिरा गोत्र में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण का नाम था। यह बड़े ही ब्रह्मवेत्ता थे इनकी कथा भागवत में है।

जनक—मिथिला के एक राजवंश की उपाधि है। अपने पूर्वज निमि-विदेह के नाम पर विदेह भी कहलाते थे। सीता जी इसी कुल

में उत्पन्न सीरध्वज जनक की पुत्री थीं, इस कुल में बहुत बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, जिनकी कथाएँ उपनिषदों और पुरानों में भरी पड़ी हैं। शुक्रदेव आदि ने यहीं से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था याज्ञवल्क्य तथा जनक का प्रायः ब्रह्मज्ञान के संबंध में वार्तालाप हुआ करता था।

जसोदा (यशोदा)—राजा नन्द की रानी का नाम है इन्होंने श्रीकृष्णका पुत्र भाव से पालन पोषण किया था।

जरासिंध—एक राजा का नाम है। इनको भीमसेन ने मारा था। इसका वर्णन महाभारत में है। इसका धड़ विदीर्ण होने पर भी जरा नामक देवी के प्रताप से जुड़ जाता था। अतः श्रीकृष्ण ने मौका देखकर टाँगें र कर मारने की गुप्त क्रिया भीम को बतलाई उसी प्रकार छल से मारने से सफलता मिली।

जागत्रलिक (याज्ञवल्क्य)—एक ऋषि जो राजा जनक के दरबार में रहते थे और योगेश्वर याज्ञवल्क्य के नाम से प्रसिद्ध थे। मैत्रेयी और गार्गी इनकी पत्नियाँ थीं। इनका राजा जनक से ब्रह्मज्ञान पर बहुत संवाद हुआ था।

जैदेव (जयदेव)—यह कवि गंगा के किनारे बिंदुविल्लु नामक गाँव में रहते थे और ईश्वर विषयक

कविता किया करते थे, इसी में घेरवार छोड़ कर त्यागी बन गये, गुदड़ी और कमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं रखते थे, जंगलों में विचरते रहते थे। कहते हैं बाद में इन्होंने एक ब्राह्मण की कन्या से विवाह किया था। विवाह करने के पश्चात् गीत गोविंद की रचना की थी।

जौनपुर—उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन नगर है। यह १३६४ से १४६३ ई० अर्थात् १०० वर्ष तक बदाऊँ और इटावा से बिहार पर्यन्त विस्तीर्ण सुसमृद्ध स्वाधीन मुसलिम राज्य की राजधानी था। शरकी राजा के बाद जौनपुर लोदी के अधिकार भुक्त हुआ। इनके राजत्वकाल में यहाँ बराबर विद्रोह और शोणित पात हुआ करता था। यहाँ पीर बहुत रहा करते थे।

भूँसी—उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले की एक तहसील का नाम यह गंगा के बायें किनारे पर है। हिन्दू पुराणों में वर्णित केशी नगर या प्रतिष्ठान इसी का नाम है। यह विख्यात चन्द्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। पुराने गढ़ में अनेक भूमरे बने हुए हैं, जिनमें साधू रहते हैं। यहाँ पीरों की बहुत समाधियाँ हैं। शैल तकी का मजार प्रसिद्ध है।

डीली (दिल्ली)—यमुना नदी के के किनारे बसा हुआ उत्तर पश्चिम भारत का एक प्राचीन और प्रसिद्ध नगर जो बहुत दिनों तक हिन्दू राजाओं और मुसलमान बादशाहों की राजधानी था और जो सन् १८१२ में फिर ब्रिटिश भारत की भी राजधानी हो गया। कहा जाता है कि इन्द्रप्रस्थ के मयूरवंशी अंतिम राज दिल्ली ने इसे पहले पहल बसाया था, इसी से इसका नाम दिल्ली पड़ा। यह भी प्रवाद है कि पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल ने एक बार एक गढ़ बनवाना चाहा था। उस की नीव रखने के समय उनके पुरोहित ने अच्छे सुहृत् में लोहे की एक कील पृथ्वी में गाड़ दी और कहा कि यह कील शेषनाग के मस्तक पर जा लगी है जिसके कारण आप के तोंत्र वंश का राज्य अचल हो गया। राजा को इस बात पर विश्वास न हुआ और उन्होंने ने वह कील उखड़वा दी। कील उखड़ते ही वहाँ से लहू की धारा निकलने लगी। इस पर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्हो ने फिर उसी स्थान पर वही कील गड़वाई पर वह ठीक नहीं बैठी, कुछ डीली रह गई। इसी से उस स्थान का नाम डीली पड़ गया जो बिगड़

कर दिल्ली हो गया।

तारा—यह बालि की स्त्री थी, रामचंद्र द्वारा बालि के मारे जाने पर सुग्रीव को उपपति मानकर रहने लगी, इनकी गिनती पंच कन्याओं में है। बृहस्पति की स्त्री का नाम भी तारा था, जिस को चन्द्रमा ने अनुरक्त होकर अपने अधिकार में कर लिया था।

त्रिपुरारी—महाभारत के अनुसार वे तीनों नगर जो तारकासुर के तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के तीनों पुत्रों ने मय दानव से अपने लिये बनवाये थे। जब उक्त तीनों असुरों का अत्याचार अधिक बढ़ गया तब देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी ने एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट कर दिया, और पीछे तीनों असुरों को भी मार डाला। तब से शिव जी का नाम त्रिपुरारि पड़ा। दे० महादेव।

त्रिचिक्रम—वामन भगवान के अवतार का नाम है। विष्णु का यह पांचवाँ अवतार राजा बलि को छलने के लिये हुआ था।

दत्ता (दत्तात्रेय)—यह अत्रि के पुत्र अनुसूया के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और विष्णु के चौबीस अवतारों में से एक माने जाते हैं एक बार एक पतिव्रता स्त्री अपने कुष्ट असित पति को वेश्या का नाच

दिखाने के लिए लिये जा रही थी, अंधेरी रात होने के कारण उस ब्राह्मण का पैर माण्डव्य ऋषि को लग गया, उन्होंने क्रोधित होकर शाप दिया कि जिसका पैर मुझे लगा है वह सूर्योदय होते ही मर जायगा। पतिव्रता ने कहा सूर्योदय होगा ही नहीं, सूर्य के न उदय होने से देवगण घबड़ा कर ब्रह्मा के पास गये, उन्होने पतिव्रता को समझाने के लिये अनुसूया को भेजा। अनुसूया ने पतिव्रता को समझाया-बुझाया और कहा कि तुम्हारे पति को मैं जिला दूंगी। इस पर उसने सूर्य को उदय होने दिया, सूर्य के उदय होते ही उसका पति मर गया, अनुसूया ने उसको जिला दिया, देवताओं ने प्रसन्न होकर अनुसूया से बर मांगने को कहा, उसने कहा ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र हों, तदनुसार ब्रह्मा ने संम बनकर, विष्णु ने दत्तात्रेय बनकर और शिव ने दुर्वासा बनकर अनुसूया के घर जन्म लिया।

दूसरथ—यह प्रसिद्ध रघुवंशी राजा अयोध्या के रहने वाले थे और विख्यात अवतार रामचन्द्र जी के पिता थे।

द्वारावती—यहाँ श्री कृष्णचंद्र जरासंध के उत्पातों के कारण मथुरा छोड़ कर जा बसे थे। यहीं उस समय

यादवां की राजधानी थी। पुराणों में लिखा है कि कृष्ण के देह त्याग के पीछे द्वारावती समुद्र में मग्न हो गई। पोरबंदर से १५ कोस दक्षिण समुद्र में इस पुरी का स्थान लोग श्रव तक बताते हैं। द्वारावती का एक नाम द्वारका है।

दुरजोधन (दुर्योधन)—धृतराष्ट्र का सब से बड़ा पुत्र, यह अपने चचेरे भाई पाण्डवों से जलता था, भीमके साथ इसका सबसे अधिक बैर था, गदा चलाना यह भी जानता था और भीम भी, पर यह भीम की बराबरी नहीं कर सकता था, धृतराष्ट्र ने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाना चाहा, पर इसने ऐसा नहीं होने दिया, अन्त में पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ में अपनी राजधानी स्थापित की और एक अश्वमेध यज्ञ किया—पाण्डवों का अभ्युदय दुर्योधन से देखा न गया। उसने पाण्डवों को जुआ खेलने में फँसाया और अपने मामा शकुनी के छल से पाण्डवों का सबस्व जीत लिया, यहाँ तक कि पाण्डव द्रौपदी को भी हार गये। दुःशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के बाल खींचकर उसकी वेहज्जती करनी चाही। इस पर भीम ने दुःशासन के बक्षस्थल का रुधिर पान करने और उसके रुधिर

से बाल रँगने की प्रतिज्ञा की। जुए के नियमानुसार पाण्डवों ने तेरह वर्ष ज्ञात और एक वर्ष अज्ञात रूप से वास किया, वनवास पूरा होने पर कृष्ण दूत होकर कौरवों के पास गये, पर कौरवों ने कुछ भी देना नहीं चाहा। इस पर महाभारत युद्ध हुआ जिस में कौरवों का नाश और पाण्डवों की विजय हुई।

देवकी—यह प्रसिद्ध अवतार श्री कृष्ण जी की माता और कंस की बहन थीं जो बसुदेव को ब्याही थीं।

धारा—मालव की राजधानी जो राजा भोज के समय में प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि भोज ही उज्जयिनी से राजधानी धारा लाए थे। दे० भोज।

ध्रुव—राजा उत्तानपाद के पुत्र जिन की माता का नाम सुनीति था। राजा उत्तानपाद के दो स्त्रियाँ थीं। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि को राजा बहुत चाहते थे। सुरुचि से भी उत्तम नाम का एक पुत्र था। एक दिन राजा उत्तम को गोद में लिए बैठे थे, इसी बीच ध्रुव वहाँ खेलते हुए आ पहुँचे और राजा की गोद में बैठ गये। इस पर उन की विमाता ने उन्हें अवशा के साथ वहाँ से हटा दिया। ध्रुव इस अपमान को न सह सके। घर से निकल कर तप करने चले गये।

विष्णु भगवान इन की भक्ति से प्रसन्न होकर वर दिया। तब घर आकर ध्रुव ने पिता से राज्य प्राप्त कर बहुत दिनों तक राज्य किया।

नाग—वराह पुराण में नागों की उत्पत्ति के सम्बंध में यह कथा लिखी है। सृष्टि के आरंभ में कश्यप उत्पन्न हुए। उनकी पत्नी कद्रु से उन्हें ये पुत्र उत्पन्न हुए—अनंत, वासुकि, कवंल, कर्कोटक, पद्म, महा पद्म, शंक, कुलिक और अपराजित। कश्यप के ये सब पुत्र नाग कहलाए। इनके पुत्र, पौत्र बहुत ही क्रूर और विपथर हुए। इनसे प्रजा क्रमशः क्षीण होने लगी। प्रजा ने जाकर ब्रह्मा के यहाँ पुकार की, ब्रह्मा ने नागों को बुला कर कहा जिस प्रकार तुम हमारी सृष्टि का नाश कर रहे हो उसी प्रकार माता के शाप से तुम्हारा भी नाश होगा। एक बार कद्रु और विनता में विवाद हुआ कि सूर्य के घोड़े की पूछ काली है या सफेद। विनता सफेद कहती थी कद्रु काली। अंत में यह ठहरी कि जिस की बात ठीक न निकले वह दूसरी की दासी हो कर रहे। जब कद्रु ने अपने पुत्रों से यह बात कही तब उन्होंने कहा कि पूछ तो सफेद है अब क्या होगा। अंत में जब सूर्य

निकला। तब सब के सब नाग उच्चैः श्रवा की पूँछ से लिपट गये वह काली दिखाई पड़ी। जिन नागों ने पूँछ को काला करना स्वीकार किया था, उन्हें विनता ने नष्ट होने का शाप दिया। जिस के अनुसार वे जनमेजय के सर्प यज्ञ में नष्ट हुए। जनमेजय के पिता राजा परीक्षित को जब तद्वक (सर्प राज) ने डस लिया, तब जनमेजय बहुत क्रोधित हुए और संसार भर के सर्पों का नाश करने के लिये ब्राह्मणों से परामर्श करके सर्प यज्ञ आरंभ किया। सर्प यज्ञ के अग्नि-कुंड में ऋत्विकों ने मंत्र पढ़कर सब सर्पों को भस्म कर दिया। केवल एक तद्वक ही के प्राण आस्तीकि ऋषि के समझाने से बचे थे।

नाथ मछंदर—(मत्स्येंद्रनाथ) एक प्रसिद्ध साधु और हठ योगी जो गोरखनाथ के गुरु थे। कहते हैं एक बार ये (मछंदरनाथ) सिद्ध होने के लिये सिंहल गये पर वहाँ पद्मिनियों के जाल में फँस गये, जब गोरखनाथ गये तब इनका उद्धार हुआ।

नामदेव—यह भगवान के परम भक्त और हिन्दी के कवि हो गये हैं, प्रायः इनका वर्णन निगुण है। पंढरपुर के विद्वल भगवान के

मन्दिर से इनका सम्बन्ध बतलाया जाता है। परन्तु उत्तरी भारत में भी इनके पद गाये और पढ़े जाते हैं। कुछ लोगों का मत है कि यह वामदेव जी के नाती थे।

नारद—यह ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। यह भगवान के भी बड़े भक्त थे। एक समय इनकी तपस्या से डर कर इन्द्र ने उसे भंग करने के लिए कामदेव आदि को भेजा। परन्तु यह नहीं डिगे। कामदेव को जीतने का इनको बड़ा अहंकार हो गया। इसकी चर्चा वह सभी स्थानों पर करने लगे तब महादेव जी ने इनको समझाया कि विष्णु से कभी इसकी चर्चा न करना लेकिन इनसे नहीं रहा गया। इन्होंने उनसे भी अपनी विजय को गर्व से वर्णन किया। इस पर भगवान उनकी परीक्षा के लिए उन के लौटने के मार्ग में एक माया रूपी राजा तथा उसकी कन्या का निर्माण कर उसका स्वयंवर निश्चित कर दिया। नारद जी उस कन्या के रूप और गुणों पर मोहित हो गये तथा उस से व्याह करने की अभिलाषा से विष्णु के पास उनका रूप माँगने गये भगवान उनको माया के प्रभाव में आया हुआ जान कर उनका शरीर तो बहुत सुन्दर

बनाया किन्तु मुँह बन्दर का बना दिया। इस रहस्य को नारद नहीं जान सके और अभिमान के साथ स्वयम्बर में आ बैठे। परन्तु उनकी आशा पूरी नहीं हुई, उस कन्या को स्वयम् विष्णु एक दूसरा रूप धारण कर व्याह ले गये। स्वयम्बर में उपस्थित शिवजी के दो गण उनके रूप को देख कर हँसने लगे तब उन्होंने अपने मुख के प्रतिबिम्ब को जल में देखा और क्रोध से शिव-गणों को तथा भगवान तक को शाप दे डाला। एक और कथा नारद के विषय में महाभारत में प्रचलित है वह इस प्रकार है। नारद एक समय राजा सृजय के यहाँ रहते थे। उन्होंने अपनी कन्या को उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया। परन्तु नारद जी काम वश होकर उसकी ओर आकर्षित हो गये और उस से व्याह कर लिया।

निरंजन—निराकार ईश्वर का नाम है। अनुराग सागर के अनुसार काल या मन का नाम भी निरंजन है जो जीवों को भव बन्धन में डालता है। यह सत्य पुरुष का सुत कहा जाता है जो अपनी करनी से काल हो गया था।

पंडुवा (पाण्डव)—कुन्ती और माद्री के गर्भ से उत्पन्न राजा पाण्डु के

पाँचों पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन नकुल तथा सहदेव थे। यह बड़े योद्धा थे। कृष्ण की सहायता से महाभारत का युद्ध जीता था, यह कृष्ण के परम भक्त भी थे। इनका अन्त इस प्रकार हुआ था। यादवों के सर्व-नाश और श्री कृष्ण के शरीरान्त का समाचार जब हस्तिनापुर पहुँचा तो पाण्डवों के मन में संसार से विराग हो गया और जीवित रहने की चाह उनके मन में न रही। परीक्षित को गद्दी पर बैठा कर द्रौपदी सहित पाँचों भाइयों ने तीर्थ करने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर से खाना होकर अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अन्त में हिमालय की तलेहटी में जा पहुँचे। उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना प्रारम्भ किया और चढ़ते-चढ़ते रास्ते में द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव इन पाँचों ने एक एक कर के गिर कर शरीर त्याग दिये। कहते हैं केवल युधिष्ठिर शेष रह गये थे, जिनको इन्द्र अपने रथ पर बैठा कर स्वर्ग ले गये थे और इस प्रकार इनका अन्त हो गया था।

पंडु (पाण्डु)—विचित्रवीर्य की स्त्री अम्बालिका के पुत्र थे। कहा जाता है कि विचित्रवीर्य के क्षय रोग द्वारा मर जाने के बाद व्यास

देव द्वारा यह उत्पन्न हुए थे। इनका ब्याह राजा कुन्तिभोज की कन्या कुंती से हुआ था, बाद में भीष्म ने इनका एक और ब्याह मद्र देश के राजा की कन्या माद्री से कराया था। एक समय शिकार में इन्होंने एक हिरन और हिरनी को मँथुन करते समय मारा था। कहा जाता है यह दोनों ऋषि पुत्र क्रिमिन्दय तथा उनकी स्त्री ये तीर लगते ही मृग ने मनुष्य की बोली में कहा कि तुमने मुझे स्त्री के साथ भोग करते समय मारा है अतः तुम भी जब अपनी स्त्री के साथ भोग करोगे तो तुम्हारा भी प्राणान्त होगा। कुछ समय बाद एक बार बसन्त ऋतु में पाण्डु को बहुत अधिक काम पीड़ा हुई, उस समय उन्होंने ने माद्री के बहुत मना करने पर भी बल पूर्वक उसके साथ भोग किया। ऋषि के शाप के अनुसार उसी समय उनका प्राणान्त हो गया था।

परसराम (परशुराम)—यह यमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, इनकी माता का नाम रेणुका था। यह भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। एक समय सहस्रबाहु इन के पिता यमदग्नि के आश्रम में ससैन्य पधारे। ऋषि ने कामधेनु के प्रभाव से राजा को सेना सहित

भोजन आदि कराया तथा स्वागत किया। कामधेनु के इस चमत्कार मयी गुण पर सुग्ध होकर सहस्रबाहु को उसे प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। जब ऋषि किसी प्रकार भी देना स्वीकार नहीं किया तब राजा ने उन्हें मार डाला और गौ लेकर चला गया। उस समय परशुराम जी कहीं बाहर गये थे, आने पर विलाप करती हुई माता से घटना मालूम हुई। माता ने इनके समक्ष इक्कीस बार अपनी छाती दुःख से पीटा, इस पर इन्होंने इक्कीस बार क्षत्रियों को नाश करने का प्रण किया तथा सहस्राजुन को युद्ध में परास्त किया और मार डाला।

प्रह्लाद (प्रह्लाद)—यह परम विष्णु भक्त थे। इनका जन्म दैत्य कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम हिरण्यकशिपु था, इनकी भक्ति का विकास बचपन ही से आरम्भ हुआ था। दैत्यराज ने इन के पढ़ाने का भार अपने पुरोहित पणु और अमरक को दिया पर भगवद्भक्ति के सिवा प्रह्लाद कुछ जानते ही न थे। हिरण्यकशिपु विष्णु का कट्टर विरोधी था, उस ने बहुत चाहा कि प्रह्लाद भगवद्भक्ति छोड़ दे इसके लिए उसने प्रह्लाद को विष

पिलवाया, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से गिरवाया, समुद्र में फेकवाया तथा आग में डलवाया पर प्रह्लाद का बाल बाँका न हुआ, वे अपनी भक्ति पर अटल रहे। अन्त में भक्त वत्सल भगवान ने नृसिंह रूप धारण कर हिरण्य-कशिपु का बध किया।

पारथ—अर्जुन का एक नाम था। इन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाने के समय श्री कृष्ण की आज्ञा से खांडव वन को जलाया था और वहीं अपने रहने के लिए भवन बनवाये थे।

पारवती (पार्वती)—यह राजा हिमाञ्चल की पुत्री और शिव जी की अर्द्धाङ्गिनी तथा गणेश जी की माता हैं।

पीपा—यह गागरोन नामक गढ़ के राजा थे, ये पहले शक्ति उपासक थे, परन्तु कुछ वैष्णव संतों के सतसंग से परम वैष्णव स्वामी रामानन्द जी के शिष्य हो गये थे।

पुरंदर—इन्द्र का एक नाम, कहते हैं एक बार इन्द्र ने अपने शत्रु का नगर तोड़ा था, तभी से इन्द्र का एक नाम पुरंदर भी पड़ गया। दे० सुरपति।

पृथु—यह अत्रि वंश के राजा अङ्ग के पौत्र राजा वेणु के पुत्र थे, ये बहुत धार्मिक और प्रतापी चक्रवर्ती राजा हो गये हैं।

फर्निद—शेष का एक नाम। पुराणा-नुसार सहस्र फनों के सर्पराज जो पाताल में हैं और जिनके फनों पर पृथ्वी ठहरी है। ये अर्न्त कहे गये हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर में इन्हीं के ऊपर शयन करते हैं।

वरुन (वरुण)—एक वैदिक देवता जो जल के अधिपति, दस्युओं के नाशक और देवताओं के रक्षक कहे गये हैं। पुराणों में वरुण की गिनती दिक्पालों में है और वह पश्चिम दिशा के अधिपति माने गये है। वरुण का अन्न पाश है।

बलि—दैत्य जाति के एक राजा जो विरोचन के पुत्र और प्रह्लाद के पौत्र थे। यह बड़े दानी थे इन को विष्णु ने बामन रूप से छला था।

बलिराज (राजा बालि)—पम्पापुर किष्किन्धा के बानर राजा जो अंगद के पिता और सुग्रीव के बड़े भाई थे, जिस समय रामचंद्र जी सीता को ढूँढते हुए किष्किन्धा पहुँचे थे, उस समय मतंग के आश्रम में सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई थी, उसी समय सुग्रीव के कहने से उन्होंने पहिले सुग्रीव को बालि से द्वन्द युद्ध करने भेजा जब सुग्रीव लड़ाई में हारने लगा तब राम ने छल

से बृहत् की ओट से बालि का बध किया था।

बसिष्ठ (वशिष्ठ)—मित्रावरुण के यज्ञ में अगस्त जी के साथ ही वशिष्ठ जी की उतपत्ति हुई थी। ब्रह्मा के कहने से इन्हो ने सूर्यवंश का पौरोहित्य लेना स्वीकार किया था। यह रामचन्द्र के कुलगुरु थे और रामचन्द्र जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। ये भगवान राम के समय तक पृथ्वी पर रहे, राम के साकेत पधारने पर यह सप्तर्षि मंडल में स्थिर हो गये।

बालमीकि (बाल्मीक)—एक मुनि जो रामायण के रचयिता और आदि कवि कहे जाते हैं। इनका जन्म भृगुवंश में हुआ था, ये प्रचेता के वंशज थे, तमसानदी के किनारे जिसे अब टौंस कहते हैं रहते थे।

बालि—दे० बलिराज।

बावन—विष्णु का पांचवाँ अवतार जिसने बलि को छला था, यह आदित्य के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। राजा बलि बड़े ही दानी थे इन से यज्ञ में बावन ने ब्राह्मण का रूप धारण कर तीन पग पृथ्वी माँगी थी। बाद में नापने के समय अपने रूप का विस्तार कर सम्पूर्ण पृथ्वी दोही पग में नाप ली शेष के लिये बलि ने अपनी पीठ नपवा दी थी।

बिरंचि (विरंचि)—ब्रह्मा का एक नाम है।

ब्रिस्तु (विष्णु)—हिन्दुओं के प्रधान और बहुत बड़े देवता जो सृष्टि का भरण पोषण और पालन करने वाले माने जाते हैं। भिन्न-भिन्न पुराणों में इनके सम्बंध में अनेक प्रकार की कथाएँ और उनकी उपासना आदि का बहुत अधिक महात्म मिलता है। विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं। इनकी स्त्री का नाम श्री या लक्ष्मी कहा गया है। इनका वाहन वैन्तेय नामक गरुड़ माना जाता है।

बेनु (वेणु)—यह राजा अङ्ग का पुत्र और पृथु का पिता था। वेणु बहुत अत्याचारी था। ऋषियों के समझाने पर जब इसने नहीं सुना तो ऋषियों ने अपने तेज से इसे मार डाला था।

बौध—यह भगवान का नवाँ अवतार हैं।

ब्यास—पाराशर के पुत्र कृष्ण-द्रापायन, इन्होंने वेदों का संग्रह, विभाग और सम्पादन किया था, कहा जाता है कि अठारहों पुराण, महाभारत, भागवत और वेदान्त आदि की भी रचना इन्होंने किया था। इनके जन्म आदि की कथा महाभारत में बहुत विस्तार के साथ दी है, उसमें कहा गया है

कि एक बार मत्स्यगंधा सत्यवती नाव खे रही थी, उसी समय पाराशर मुनि वहाँ जा पहुँचे और उसे देखकर आशक्त हो गये वे उससे बोले कि तुम मेरी कामना पूरी करो सत्यवती ने कहा महाराज नदी के दोनों ओर ऋषि मुनि आदि बैठे हुए हैं और हम लोगों को देख रहे हैं, मैं कैसे आपकी कामना पूरी करूँ। इस पर पाराशर मुनि ने अपने तप के बल से कोहरा खड़ा कर दिया, जिससे चारों ओर अँधेरा छा गया, उस समय सत्यवती ने फिर कहा महाराज मैं अमी कुमारी हूँ और आपकी कामना पूरी करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जायगा। उस दशा में मैं किस प्रकार अपने घर में रह सकूँगी, पाराशर ने उत्तर दिया, नहीं इससे तुम्हारा कौमार्य नष्ट नहीं होगा तुम मुझ से बर माँगो, सत्यवती ने कहा कि मेरे शरीर से मछली की जो गंध आती है वह न आवे, पाराशर ने कहा कि ऐसा ही होगा, उसी समय से उसके शरीर से सुगन्ध निकलने लगी, तब से उसका नाम गन्धवती व योजनगन्धा पड़ा। इसके उपरान्त पाराशर मुनि ने उसके साथ संभोग किया जिससे उसे गर्भ रह गया और उस गर्भ से इन्हीं व्यास

देव की उत्पत्ति हुई।

ब्रह्मा—ब्रह्म के तीन सगुण रूपों में से सृष्टि की रचना करने वाला रूप। पितामह, मत्स्य पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा के शरीर से जब एक अत्यंत सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई तब वे उस पर मोहित होकर उसे ताकने लगे वह उनके चारों ओर घूमने लगी। जिधर वह जाती उधर देखने के लिये ब्रह्मा के एक सिर उत्पन्न हो जाता, इस प्रकार उनके चार मुख हो गये। शिव पुराण में लिखा है, ब्रह्मा ने पहिले मानस सृष्टि किया उसके बाद संध्या नाम की एक कन्या को पैदा किया। फिर कामदेव को उत्पन्न किया। कामदेव को ब्रह्मा ने बर दिया कि तुम्हारे कटाक्ष से कोई नहीं बचेगा। रचना में तुम मेरी सहायता करो। काम ने प्रथम प्रयोग ब्रह्मा और संध्या पर किया। जिस से विकल होकर ब्रह्मा ने संध्या से समागम किया था। दक्ष के यहाँ सती के विवाह के अवसर पर सती का रूप देख कर ब्रह्मा कामासक्त हो गये, यह जान कर शिव ने ब्रह्मा का सिर काट डाला था।

ब्रह्मानी (ब्रह्माणी)—ब्रह्मा की स्त्री जो सूर्य की पृथ्वि नाम की पत्नी से उत्पन्न हुई थी, इसका नाम सावित्री था।

ब्राह्म (वाराह)—यह विष्णु का तीसरा अवतार जिसने हिरण्यकच्छ का वध किया था और विष्ठा में छिपी पृथ्वी को बाहर निकाला था।

भभीषन (विभीषन)—रावण का भाई था, इसके पिता विश्रवा माता कैकसी, पत्नी सरमा थी, यह श्री राम का शरणागत भक्त था। रावण के मरने के बाद लंका का राजा हुआ।

भरथरि (भर्तृहरि)—यह उज्जैन के राजा थे जिन्हें अपनी रानी विंगला का चरित्र देख कर वैराग्य उत्पन्न हो गया था, अतः ये अपना सारा राज पाट अपने भाई विक्रमादित्य को देकर योगी होकर बन चले गये थे। इनका भर्तृहरि शतक त्रय ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है।

भोज—यह उज्जैनी के राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी बनाई थी, इनके पिता इन्हें छोड़ कर बाल्यकाल ही में स्वर्ग सिंहासन गये थे अतः इनका चचा मुंज राजा हुआ। पहले मुंज इन्हें बड़े प्रेम से देखता था, परन्तु एक दिन यह उस पाठशाला को जिसमें भोज पढ़ता था देखने गया, वहाँ भोज की विद्या चातुरी को देख कर दंग रह गया पंडितों ने भी भोज की बड़ी प्रशंसा की। मुंज सोचने लगा कि कुछ दिनों के बाद तो लोग

भोज को ही राजा बनायेंगे, अतः मन्त्री को बुलाकर सारा व्यौरा बतलाया और आज्ञा दी कि इसे वनमें ले जाकर मार डालो और सिर काट कर मेरे पास लाओ। इस निमित्त मन्त्री ने भोज को वनमें ले जाकर ज्योंही यह हाल बतलाया, भोज ने एक श्लोक अपने चचा के लिये लिखकर मन्त्री को दिया जिसका भावार्थ यह था कि “सत्ययुग का राजा मान्धाता, त्रेता के समुद्र पर पुल बँधने वाले और रावण हन्ता राम, द्वापर के युधिष्ठिर आदि अनेक राजा स्वर्गगामी हुए, परन्तु यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गयी, स्यात् अब वह कलियुग में आपके साथ अवश्य जायगी। मन्त्री इससे प्रभावित हो भोज को न मारकर एक बनावटी सिर लाकर मुंज के आगे रक्खा और वह श्लोक भी दिया जिसे पढ़कर मुंज बहुत पछताया और मरने पर उद्यत हो गया तब मन्त्री ने सारा रहस्य बतलाया और भोज को राजा मुंज के सामने उपस्थित किया, मुंजने भोज से अपने अपराध की क्षमा मांगी और उसे गद्दी पर बिठला कर आप बन को तपस्या करने चले गये। भोज का राज्य प्रबन्ध बहुत ही अच्छा था। धारा नगरी

में सुन्दर सुन्दर मकानों और सड़कों को देखकर इन्द्रपुरी का भ्रम हो जाता था प्रत्येक विद्या की अलग २ पाठशालाएँ-चिकित्सा के लिए अस्पताल, और प्रत्येक प्रबन्ध के लिए अलग अलग समितियाँ तथा भवन थे, सारा प्रजा वर्ग संतुष्ट दिखाई देता था। भोज की राजसभा के पंडितों की बहुत सी कथाएँ भी प्रचलित हैं, जिनसे उस समय की संस्कृत विद्या का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

मगहर—उत्तर भारत का एक प्राचीन स्थान, जहाँ कबीर साहेब काशी से सं० १५७५ में आये थे और अग्रहन सुदी एकादशी को शरीर त्याग किया था।

मच्छ (मत्स्य)—विष्णु का सबसे पहला अवतार, जिसने शंखासुर को मार कर वेदों का उद्धार किया था।

मंदोदरि (मन्दोदरी)—यह रावण की स्त्री थी, इसके पिता का नाम मयदानव और माता का नाम हैमा था जो अप्सरा थी। रामचन्द्र द्वारा रावण के मारे जाने पर विभीषण को उपपत्ति मान कर रहने लगी थी।

महादेव—दे० शिव।

मानिकपुर—जबलपुर लाइन में इस नाम का एक नगर है। कबीर

साहेब ने कुछ दिनों तक वहाँ निवास किया था। यह बात पनिका जाति के लोगों में अब भी प्रसिद्ध है। सुना जाता है कि उक्त जाति के प्राचीन ग्रंथ मानिक खण्ड में कबीर साहेब का ऐतिहासिक वृत्तान्त पूरी तरह लिखा हुआ है।

मुरलीधर—श्री कृष्ण का एक नाम है, यह नाम मुरली (वंशी) धारण करने के कारण पड़ा था

महंमद (मुहम्मद) यह मुसलमान धर्म के उपदेष्टा थे, ये अरब देश के मक्का शहर में उत्पन्न हुए थे, यहाँ इनका बड़ा प्रभाव पड़ा। इन के पिता का नाम अबदुल्ला और माता का नाम अमीना था, इनका देहान्त मदीने में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन के आरम्भ काल ही में यहूदियों और ईसाइयों की बहुत सी धार्मिक बातों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसी समय से ये स्वतंत्र रूप से अपना एक धर्म चलाने की चिन्ता में थे और इसी उद्देश्य से लोगों को कुछ उपदेश भी देने लगे थे, प्रायः ४० वर्ष की अवस्था में इन्होंने यह प्रसिद्ध किया था कि ईश्वर ने मुझे इस संसार में अपना पैगम्बर (दूत) बना कर धर्म प्रचार करने के लिये भेजा है। इसके उपरान्त इन्होंने

कुरान की रचना की और उसके सम्बंध में यह प्रसिद्ध कर दिया कि इसकी सब बातें खुदा अपने फरिस्ते जिबराइल के द्वारा समय समय पर मुझ से कहलाता है। धीरे धीरे कुछ लोग इनके अनुयायी हो गये पर बहुत से लोग इनके विरोधी भी थे जिन से समय समय पर इन्हें युद्ध करना पड़ता था, यह भी प्रसिद्ध है कि यह एक बार सदेह स्वर्ग गये थे और वहाँ ईश्वर से मिले थे। अरब वालों ने कई बार इनके प्राण लेने की चेष्टा की पर किसी न किसी प्रकार बराबर बचते ही गये। ये मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी और एकेश्वरवाद के प्रचारक थे। इन्होंने कई विवाह भी किये थे, ये जैसे उदार और कृपालु थे वैसेही कट्टर और निर्दयी भी थे। इनको श्रद्धालु लोग इजरत भी कहते हैं।

मैथिल (मिथिला)—वर्तमान तिरहुत का प्राचीन नाम। राजा जनक इसी प्रदेश के राजा थे।

जादवराय (यादवराय)—श्रीकृष्ण को कहते हैं।

रघुनाथ—दे० राम।

रवि—सूर्य को कहते हैं, सभी ग्रह रवि की परिक्रमा करते हैं सूर्य की उपासना प्रायः सभी सभ्य प्राचीन जातियों में थी। यह वैदिक कालके

प्रधान देवता थे। इन का रथ सात घोड़ों का कहा जाता है। सूर्य के सारथी अरुण कहे गये हैं जो लँगड़े हैं। सूर्य ही का नाम सविता और विवस्त भी है जिन की कई पत्निया कही गई हैं जिन में संज्ञा प्रसिद्ध है।

राम (रामचन्द्र)—अयोध्या के राजा इक्ष्वाकुवंशी महाराजा दशरथ के बड़े पुत्र जो ईश्वर के मुख्य अवतारों में माने जाते हैं और जिनकी कथा रामायण में वर्णित है। इनका जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ था, और इन्होंने वशिष्ठ मुनि से शिक्षा पाई थी। जब ये बालक थे तभी विश्वामित्र मुनि इन्हें अपनी यज्ञ की रक्षा के लिये अपने साथ वन में ले गए थे, जहाँ इन्होंने अनेक राक्षसों का बध किया था। जब यज्ञ समाप्त हो गया, तब अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के यहाँ सीता के स्वयम्बर में गये थे। वहाँ इन्होंने शिवजी का धनुष तोड़ कर सीता का पाणिग्रहण किया था। जब ये लौटकर अयोध्या आए, तब राजा दशरथ इनका अभिषेक करके इन्हें राजगद्दी देना चाहते थे, पर रानी कैकेयी के कहने से उन्होंने इन्हें चौदह वर्षों तक वन में रहने

के लिए भेज दिया। जब ये वन जाने लगे, तब इन की स्त्री सीता और इनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इनके साथ वन को गये। इनके वन जाने पर पीछे इनके दुःखी पिता दशरथ की मृत्यु हो गई। कैकेई अपने पुत्र भरत को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, पर भरत ने साफ कह दिया कि यह राज्य मेरे बड़े भाई रामचन्द्र का है मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। पीछे भरत रामचन्द्र को समझा बुझा कर लाने के लिये वन में गये, पर रामचन्द्र ने कह दिया कि मैं पिता की आज्ञा से चौदह वर्षों के लिए वन में आया हूँ। और जब तक यह अवधि पूरी न हो जायगी, तब तक मैं लौटकर अयोध्या नहीं चल सकता इस पर भरत ने इनके खड़ाऊँ ले जाकर सिंहासन पर स्थापित करके इनकी ओर से इनकी अनुपस्थिति में शासन करने लगे। वनवास काल में रामचन्द्र अनेक वनों, पर्वतों और ऋषियों के आश्रमों पर घूमा करते थे। दण्डकारण्य में एक बार लंका का राजा रावण आकर छल से सीता को हर ले गया। इसपर इन्होंने बहुत से बानरों आदि को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई की और युद्ध में रावण

तथा उसके साथी राक्षसों को मार कर और उसका राज्य उसके छोटे भाई विभीषण को देकर अपनी स्त्री सीता को अपने साथ ले आए। वनवास की अवधि पूरी हो गई थी, इसलिये ये सीधे अयोध्या चले आए और यहाँ आकर सुख से राज्य करने लगे। इनका शासन प्रजा के लिये इतना अधिक सुखद था कि अब तक लोग इनके राज्य को आदर्श समझते हैं और अच्छे राज्य की उपाया "रामराज्य" से देते हैं। कुछ दिनों के बाद रामचन्द्र जी ने अपनी प्रजावर्ग में से एक घोषी की आक्षेप पूर्ण वार्ता को सुनकर सीता जी को पुनः त्याग दिया और वे आरण्यवासिनी हो बाल्मीकि मुनि के आश्रम में निवास करने लगीं।

रामानंद—एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य, इनका जन्म प्रयाग में एक कान्य-कुब्ज ब्रह्मण के घर में हुआ था। पहिले इन का नाम रामदत्त था। इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। कहते हैं बारह वर्ष की अवस्था में ही ये सब शास्त्र पढ़ कर पूर्ण पंडित हो गये थे और दर्शन शास्त्र का विशेष अध्ययन करने के लिये काशी चले आए थे। एक दिन इनकी भेंट राघवानंद जी से हो गई जिन्होंने इन्हे देख कर कहा तुम्हारी आया

बहुत थोड़ी है और तुम अभी तक हरि शरण नहीं आये हो। इस पर ये राघवानंद से मंत्र लेकर उनके शिष्य हो गए और उन से योग सीखने लगे। उसी समय से इनका नाम रामानंद रखा गया।

रावण—यह लंका का राजा था। प्रसिद्ध है कि इसका गढ़ सोने का बना हुआ था, यह सीता जी को रामचन्द्र और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में दण्डकारण्य में बनी हुई उनकी पर्णकुटी से छल-बल पूर्वक हर ले गया। इसी कारण रामचन्द्र जी ने बानरों आदि की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की और रावण को मार डाला राम रावण की युद्ध कथा रामायण में प्रसिद्ध है।

राहु—पुराणानुसार नौ ग्रहों में से एक जो विप्रचित्ति के वीर्य से सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, यह बहुत बलवान था। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय देवताओं के साथ बैठकर इसने चोरी से अमृत पी लिया था। सूर्य और चन्द्र ने इसे यह चोरी करते हुए देख लिया और इसका समाचार विष्णु से कह दिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन काट दी, पर यह अमृत पी चुका था इससे इसका

मस्तक अमर हो गया, उसी मस्तक से यह सूर्य और चन्द्र को ग्रसने लगा और तब से अब तक समय समय पर बराबर ग्रसता आता है जिससे दोनों को ग्रहण लगता है, यही मस्तक राहु और कबंधकेतु कहलाता है।

रूम—टर्की या तुर्की देश का एक नाम।

लंक (लंका)—भारत के दक्षिण का एक टापू, जहाँ रावण का राज्य था। कहा जाता है कि रावण के समय में यह टापू सोने का था।

लक्ष्मण (लक्ष्मण)—यह सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न रामचन्द्र के भाई थे, जब रामचन्द्र जी बन को गये थे तो यह भी साथ गये थे। अंत समय में राम ने प्रतिज्ञा वश इनको त्याग दिया था, जिस के शोक में इन्होंने शरीर छोड़ दिया था।

संकर (शंकर)—शिव का एक नाम है। पद्म पुराण के अनुसार एक समय मन्दराचल पर ऋषियों ने बड़ा भारी यज्ञ किया वहाँ उन्होंने यह चर्चा छोड़ी कि ऋषियों का पूज्य देवता किसे बनाना चाहिए। अंत में यह निश्चय हुआ कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों के पास चलकर

इसका निर्याय करना चाहिए। सब ऋषि पहले शिव के पास गए पर उस समय वे पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। इस से नन्दि ने द्वार पर उन्हें रोक दिया। ऋषियों को प्रतीक्षा करते बहुत काल बीत गया इस पर भृगु ऋषि ने कोप कर शाप दिया—“हे शिव! तुम ने काम क्रीड़ा के वशीभूत होकर हमारा अपमान किया इससे तुम्हारी मूर्ति योनि-लिङ्ग रूप होगी और तुम्हारा नैवेद्य कोई ग्रहण न करेगा। दूसरी कथा इस प्रकार है— जब ब्रह्मा को सारे ब्रह्मांड की और विष्णु को सात द्वीप नौ खंड की सरदारी मिली, तब दोनों में इस बात की लड़ाई होने लगी कि बड़ा कौन है। तब शंकर ने अपना लिंग पताल से आकाश तक बढ़ाया और कहा जो इसके अंत का पता ले आवे वह बड़ा है। ब्रह्मा ऊपर और विष्णु पताल को चले। परन्तु अंत किसी को नहीं मिला। इस प्रकार की और भी कई कथाएँ भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन हैं।

संस्वापुर—एक दैत्य जो ब्रह्मा के पास से वेद चुरा कर समुद्र के गर्भ में जा छिपा था इसी को मारने के लिये विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया था।

सकरदी—सूफी संप्रदाय के एक मुसलमान साधु इनका कबीर साहेब से संवाद हुआ था।

सक्तो (शक्ती)—शिव जी की स्त्री गौरी का एक नाम शक्ती है।

सनक सनंदन—दे० सनकादि।

सनकादि (सनकादिक)—सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन जो ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। ये एक बार भगवान से मिलने बैकुंठ गये थे, वहाँ द्वारपालों के रोकने पर उन्हें तीन जन्म तक राक्षस होने का शाप दिया था।

सहदेव—राजा पांडु के पांच पुत्रों में से सब से छोटे पुत्र। कहते हैं कि माद्री के गर्भ और अश्विनी कुमारों के औरस से इनका जन्म हुआ था। ये बड़े विद्वान थे।

सहस अरजुन (सहस्र अर्जुन)—यह हैहय क्षत्रिय वंश में उत्पन्न एक प्रसिद्ध राजा था, इसे परशुराम ने अपने पिता का बैर चुकाने के लिये मारा था। दे० परशुराम।

साम—एक प्राचीन देश जो अरब के उत्तर में है। कहते हैं, यह देश हजरत नूह के पुत्र शाम ने बसाया था। आज कल यह प्रदेश सीरिया कहलाता है।

सारदा (शारदा)—यह सरस्वती का एक नाम है, पुराणों में सरस्वती देवी को ब्रह्मा की पुत्री और स्त्री

दोनों कहा है। यह विद्या की सर्व श्रेष्ठ देवी हैं।

शालिग्राम (शालिग्राम)—दे० गंडक।

सिंगी रिषि (शृंगी ऋषि)—यह विभाण्डक ऋषि के पुत्र और कश्यप के पौत्र थे, जो राजा रोमपाद के राज्य में बन में रहते थे और कहीं आते जाते न थे। केवल हर समय अपने पिता की सेवा में लगे रहते थे, अतः अपने पिता के सिवा किसी अन्य व्यक्ति को देखा भी न था। एक समय राजा रोमपाद के राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, राजने पुरोहितों को बुलाकर उसके दूर करने का उपाय पूँछा। पुरोहितों ने बतलाया कि यदि आप अपनी पुत्री शान्ता का विवाह शृंगी ऋषि के साथ कर दें और इस निमित्त उन्हें यहाँ बुलावें तो अवश्य वृष्टि होगी। पुरोहितों की बात मानकर राजा ने कुछ चतुर वेश्याओं को बुलाकर इन बनवासी ऋषि को लाने का कार्य सौंपा, वह वेश्याएँ ऋषि आश्रम के पास जाकर नाच-गान करने लगीं, विधिवशात् शृंगी ऋषि उधर जा निकले और उन वेश्याओं की मधुर मधुर बातें सुन सहज स्वभाव से उन्हें अपने आश्रम लिवा लाये और कन्द मूल फल

आदि देकर जलपान कराया, वेश्याओं ने भी फलों के आकार की बनी हुई मिठाई आदि इन्हें दी जिसे बड़े प्रेम और स्वाद के साथ इन्होंने खाया। उस दिन वेश्याएँ यों ही चली आयीं और दूसरे दिन कुछ मिठाई आदि खाने के उत्तम पदार्थ लेकर फिर उसी स्थान पर पहुँचीं, उधर ऋषि भी उनका मार्ग जोह रहे थे। ऋषि को देखकर वेश्याओं ने उन्हें बुलाकर जलपान कराया और यह प्रलोभन देकर नगर में बुला लाईं कि आप को इधर पासही ही हमारे नगर में अनेक भाँति के सुन्दर सुन्दर मीठे फल मिलेंगे, आप हमारे साथ चलें, ऋषि के नगर में आते ही पानी बरसा, राजा ने समझ लिया कि ऋषि आ गये, उन्हें महल में लाकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी और शान्ता को उन्हें न्याह दिया, ऋषि भी प्रसन्न हो शान्ता के साथ महल में रहने लगे।

सिंभू (शंभू)—दे० शिव।

शिव (शिव)—शम्भू, शंकर, महादेव, हर, त्रिपुरारि, महेश, महेश्वर, कपाली और रुद्र आदि इन के नाम हैं। यह हिन्दुओं के प्रसिद्ध देवता जो सृष्टि का संहार करने वाले और पौराणिक त्रिमूर्ति

के अन्तिम देवता कहे जाते हैं वैदिक काल में यही रुद्र के रूप में पूजे जाते थे पर पौराणिक काल में यह शंकर, महेश और शिव आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। पुराणानुसार इनका रूप इस प्रकार है इनके शिर पर गंगा, माथे पर चन्द्रमा तथा एक और तीसरा नेत्र, गले में सांप और नर मुंड माला गणेश तथा कार्तिकेय गण भूत और प्रेत, प्रधान अस्त्र त्रिशूल और वाहन बैल है जो नन्दी कहलाता है, इनके धनुष का नाम पिनाक है जिसे धारण करने के कारण पिनाकी कहे जाते हैं। इनके पास पशुपति नामक एक प्रसिद्ध अस्त्र था जो इन्होंने अर्जुन को उन की तपस्या से प्रसन्न होकर दे दिया था, पुराणों में इनके सम्बन्ध में बहुत सी कथाएँ हैं, यह कामदेव का दहन करने वाले और दक्ष यज्ञ को नष्ट करने वाले माने जाते हैं। कहते हैं समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था वह इन्होंने पान किया था वह विष इन्होंने अपने गले में ही रक्खा और नीचे पेट में नहीं उतारा इस लिये इनका गला नीला हो गया और यह नील कंठ कहाने लगे। परशुराम ने अस्त्र विद्या की शिक्षा इन्हीं से

पायी थी। सङ्गीत और नृत्य के प्रधानाचार्य और परम तपस्वी तथा योगी माने जाते हैं। इनके नाम पर शैव पंथ भी चलता है। वामन पुराण में लिखा है कि पूर्वकाल में समस्त जगत एकार्णव में जलमग्न होकर स्थावर, जंगम, चन्द्र सूर्य नक्षत्र अनल अनिल आदि विनष्ट हुए थे। उस समय अप्रतर्क्य अज्ञेय भाव कुछ भी न था, बृहत्तता आदि समस्त वस्तु कारण सलिल में निमग्न थी। आर्यावशायी भगवान देव परिष्काम सृष्टि वर्ष इस कारण सलिल में निद्रित थे। नींद टूटने पर उन्होंने रजोगुण से पञ्चमवदन ब्रह्मा की तमोगुण से पञ्चमवदन शंकर की सृष्टि की। शिव जी ने उत्पन्न होते ही अक्षमाला लेकर योग आरंभ कर दिया, भगवान शंकर को योग प्रभ देखकर समझा इन से इस प्रकार सृष्टि का कार्य नहीं चलेगा। तब उन्होंने अहंकार की सृष्टि की ब्रह्मा और शंकर अहंकार के वशीभूत हुए। दोनों में भीषण कलह उपस्थित हुआ। शंकर ने अपने नख से ब्रह्मा का एक मस्तक काट डाला, तभी से ब्रह्मा चतुर्मुख हुए वह छिन्न मस्तक शंकर के करतल में संलग्न रहा। इसी से महादेव कपाली नाम से प्रसिद्ध

हुए। पीछे उनके शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप खुस गया। शिव धीरे धीरे निस्तेज होने लगे। ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति पाने के लिये महादेव (शिव) ने अनेक तीर्थों में भिच्चा मांगते हुए पर्यटन किया। एकवार जब भगवान् दैत्यों को छलने के लिये कपट मोहिनी रूप धारण किया उस समय शिवजी उस मोहिनी रूप को देखते ही मोहित हो कामासक्त हो गये और मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे। जब विष्णु ने अपना रूप प्रगट किया तो बहुत लजित हुए। पद्मपुराण के सृष्टि खंड में कथा है कि ब्रह्म यज्ञ में शिव जी भिच्चार्य गये थे।

सिसुपाल (शिशुपाल)—यह चेदि देश का राजा था, इसके पिता का नाम दमघोष था, यह श्रीकृष्ण की बुआ सुप्रभा का लड़का था सुप्रभा ने श्रीकृष्ण से शिशुपाल के एक सौ अपराध क्षमा करवाए थे यह स्वाभाविक दुष्ट था, श्री कृष्ण से बड़ी शत्रुता रखता था, कृष्ण को अहौर और अपने को क्षत्रिय समझता था, उनकी प्रतिष्ठा को कभी सहन न करता था, इसी कारण एक सौ अपराध होने पर यह श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तब इसके चार हाथ और तीन नेत्र थे जिन्हें देख

कर इस के माता पिता डर गये थे, परन्तु यह आकाश वासी होने पर कि इस से कोई डर नहीं है, यह बड़ा बलवान होगा। इस की मृत्यु उसी के हाथ होगी जिसकी गोदी में जाने पर इस के दो हाथ और एक नेत्र गायब हो जायगा। कहते हैं श्रीकृष्ण की गोद में जाने पर इसके दो हाथ और एक नेत्र गायब हो गया था। यही देख कर इस की माता ने भी कृष्ण से सौ अपराध क्षमा कराये थे।

सीता—राजा जनक की पुत्री और भी रामचन्द्र की अर्द्धाङ्गिनी थी। अंत समय में यह पृथ्वी में समा गई थी।

सुक (शुक्र)—शुकदेव जी का एक नाम दे० सुख।

सुख, सुकदेव (शुक्रदेव)—पुराण में कथा है कि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी माया के डर से बारह वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे। व्यास जी के बहुत समझाने पर बाहर आए, पर जन्मते ही बन को चल दिये, व्यास जी पुत्र मोह में बिरह कातर होकर पीछे पीछे चले। मार्ग में कुछ ब्रह्मचारी श्री कृष्ण सम्बंधी आषा श्लोक पढ़ रहे थे उसे सुन कर शुकदेव जी को पूरा श्लोक जानने की इच्छा हुई। व्यास जी ने कहा मैंने अठारह

हजार श्लोक बनाए हैं। भगवान व्यास ने पुत्र को सम्पूर्ण भागवत पढ़ाया और कहा बिना गुरु के ज्ञान अधूरा रहता है। तुम महाराज जनक से अध्यात्म विद्या प्राप्त कर लो। शुकदेव जी ने पिता की यह आज्ञा स्वीकार कर ली और राजा जनक के पास जाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त की। इन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाया था।

सुदामा—यह एक दरिद्र ब्राह्मण थे।

श्री कृष्ण के सखा तथा भक्त थे सांदीपनि के यहाँ यह दोनों साथ-साथ पढ़ते थे। जिन्हें बाद में श्री कृष्ण ने ऐश्वर्यवान बना दिया था।

सुरगुरु (बृहस्पति)—एक प्रसिद्ध वैदिक देवता जो अंगिरस के पुत्र और देवताओं के गुरु माने जाते हैं। इनकी माता का नाम श्रद्धा और स्त्री का नाम तारा था। ये सभी विषयों के पूर्ण पंडित थे। इनकी स्त्री को चन्द्रमा उठाले गया था, जिसके कारण चन्द्रमा से इनका घोर युद्ध हुआ था। अंत में ब्रह्मा ने बृहस्पति को तारा दित्वा दी, पर तारा को चन्द्रमा से गर्भ रह चुका था जिसके कारण उसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम बुध रखा गया था।

सूरज (सूर्य)—दे० रवि।

सुरपति—इन्द्र का नाम है, यह एक प्रसिद्ध वैदिक देवता है, इनका स्थान अंतरिक्ष है। यह देवताओं के राजा माने गये हैं, इनका वाहन ऐरावत और अश्व वज्र है, इनकी स्त्री का नाम शची और सभा का नाम सुधर्मा है जिसमें देव गंधर्व और अप्सराएँ रहती हैं। पुराण की कथा है कि एक बार इन्द्र परम रूपवती गौतम की स्त्री अहिल्या के साथ भोग करने की कामना से चन्द्रमा को साथ लेकर गौतम के आश्रम पर पहुँचे, आधीरात को चन्द्रमा सुर्य के वेश में कुकुरू कूँ बोले, ऋषि ब्राह्म मुहूर्त समझ गंगा स्नान को चले गये, इधर ऋषि का स्वरूप धारण कर इन्द्र ने अहिल्या के साथ समागम किया ज्यों ही इन्द्र अहिल्या को छल कर लौटे थे कि द्वार पर ऋषि (गौतम) पहुँच गये छद्म वेषधारी इन्द्र को देख कर गौतम ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि नपुंसक हो जा और तेरे सहेल भग हो जाँय और अहिल्या को शाप दिया कि तू पाषाण हो जा, बाद में बहुत प्रार्थना करने पर दोनों को शाप मुक्त होने का उपाय बतला कर ऋषि हिमालय पर तप करने चले गये।

सेख तकी (शेख तकी)—यह एक

प्रसिद्ध सूफी संत थे जो इलहाबाद के पास भूँसी में रहते थे ऐसा प्रसिद्ध है कि ये सिकंदर लोदी के गुरु भी थे। कबीर साहेब से इन का सतसंग हुआ था।

सेसा (शेषनाग)—पुराणानुसार सहस्रफन के सर्पराज जो पताल में हैं और जिन के फनों पर पृथ्वी ठहरी है। यह अनन्त कहे गये हैं। और विष्णु भगवान क्षीर सागर में इन्ही के ऊपर शयन करते हैं।

हंस गोपाल—भगवान के एक अवतार का नाम है। एक बार सनकादिकों ने अपने पिता ब्रह्मा से संसार पार होने का उपाय पूछा। ब्रह्माजीकी बुद्धि कर्म प्रधानथी, इस लिये उत्तर नहीं दे सके। तब ब्रह्मा जी ने भगति भाव से भगवान का चिन्तन किया तब भगवान ने हंस रूप धारण करके सनकादिकों को उपदेश दिया। यही अवतार हंस गोपाल कहलाता है, भागवत में इस कथा का सविस्तार वर्णन है। भगवान के हंस रूप धारण करने की एक कथा इस प्रकार भी है— कि एक बार सनकादिक ने ब्रह्मा से आकर पूछा—कृपा कर बताइए कि विषय को चित्त ग्रहण किये हुए है या विषय ही चित्त को ग्रहण किये हैं। ये दोनों ऐसे मिले हुए हैं कि हम से अलग

नहीं करते बनता। जब ब्रह्मा उत्तर न दे सके तब सनकादिक को अपने ज्ञान पर गर्व हो गया। इस पर ब्रह्मा ने भक्ति पूर्वक भगवान का ध्यान किया भगवान हंस का रूप धारण करके सामने आए और सनकादिक से बोले— तुम्हारा यह प्रश्न ही अज्ञान पूर्ण है विषय और उनका चिन्तन दोनों ही भ्रम हैं अर्थात् एक हैं। इस प्रकार सनकादिक का ज्ञान गर्व दूर हो गया।

हजरत—ईश्वर (खुदा) का एक नाम है।

हनुमंत (हनुमान)—इन के पिता का नाम केसरी और माता का अञ्जना था। कहते हैं एक बार वायुदेव काम वश होकर अञ्जना से रमन किया जिससे हनुमान पैदा हुए। हनुमान के शंकर सुवन होने की कथा शिव पुराण में इस प्रकार है—जब मोहनी रूप देख कर कामवश शंकर का वीर्य गिरा तो उसे ऋषियों ने उठाकर दोने में रख दिया जो किसी प्रकार अञ्जना के पेट में पहुँच गया जिससे हनुमान की उत्पत्ति हुई। एक कथा इस प्रकार भी है कि केसरी के मुख में किसी प्रकार शंकर और वायु का तेज प्रवेश कर गया, उस के बाद केसरी ने अञ्जना से रति

किया जिस से हनुमान जी पैदा हुए। हनुमान रामचन्द्र जी के परम भक्त थे। इन्होंने सीता जी का पता लगाने के लिये समुद्र पार कर लंका दहन किया और रामचन्द्र को पूरा पता बतलाया था। युद्ध में लक्ष्मण के शक्ति-वाण लगाने पर सजीवन ओषध के लिये पर्वत उठा लाये थे।

हर—शिव के नामों में से एक नाम।

हरि—विष्णु भगवान का एक नाम है।

हरिचंद्र, हरीचंद्र (हरिश्चन्द्र)—सूर्यवंश का अट्टाईसवाँ राजा जो त्रिशंकु का पुत्र था। यह गगन बुंबी प्रासादों में रहने वाला बड़ा प्रतापी राजा था। पुराणों में यह बड़ा ही दानी और सत्यव्रती प्रसिद्ध है। मार्कण्डेय पुराण में इस की कथा विस्तार से आयी है, इन्द्र ने ईर्ष्या-वश विश्वामित्र को इनकी परीक्षा के लिये भेजा विश्वामित्र ने इन से सारी पृथ्वी दान में लेली और फिर ऊपर से दक्षिणा माँगने लगे, अन्त में राजा ने रानी सहित अपने को बँचकर ऋषि की दक्षिणा चुकाई। वे काशी में डोम के सेवक होकर स्मशान में मुर्दा लाने वालों से कर वसूल करने लगे। एक दिन उनकी रानी अपने मृतपुत्र को स्मशान में दाह के

लिये लाई, उसके पास कर देने के लिये कुछ भी द्रव्य न था परन्तु राजा ने उससे भी कर न छोड़ा और आधा कफन, कर के लिये फड़वा लिया, इस पर भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिये और पुत्र को जिला दिया। अंत में राजा को उनकी प्रजा सहित वैकुण्ठ दिया।

ह्रवा (हौवा)—मुसलमानी मत के अनुसार सृष्टि की सब से पहली स्त्री जो पृथ्वी पर आदम के साथ उत्पन्न की गई और जो मनुष्य जाति की आदि माता मानी जाती है।

हिरनाकुस (हिरण कशिपु)—यह कश्यप और दिति का पुत्र था। और भगवान का बड़ा भारी विरोधी था। इसे ब्रह्मा से यह वर मिला था कि मनुष्य देवता या और किसी प्राणी से तुम्हारा बध नहीं हो सकता। इससे यह अत्यंत प्रवृत्त और अजेय हो गया। जब इसने अपने पुत्र प्रह्लाद को भगवान की भक्ति के कारण बहुत सताया और एक दिन उसे खंभा से बांध और तलवार खींचकर कहने लगा कि बता ! अब तेरा भगवान कहाँ है। आकर तुझे बचावे। तब भगवान नृसिंह का रूप धारण कर के खंभा फाड़ कर प्रगट हुए और उसे अपने नख से फाड़ डाला।

परिशिष्ट (ग)
संख्या वाची शब्द
एक

एक—आत्मा । माया ।
एक अंड—ब्रह्मांड ।
एक अंधरे—मन । अविवेक ।
एक कला—ज्ञान । पारख ।
एक काल—कल्पना । यमराज । मन ।
एक गंग—मनसा । इच्छा । माया ।
एक गैया—वाणी । मनोवृत्ति ।
एक चोर—मन ।
एक जीव—चैतन्यात्मा ।
एक जोति—ब्रह्म ज्योति ।
एक दूरि—मोक्ष ।
एक नारि—माया । वाणी ।
एक नारी—माया । जड़ ।

एक पुरुष—चैतन्य ।
एक पेड़—मूल प्रकृति ।
एक फूल—शरीर ।
एक बड़ी—माया ।
एक बिरवा—संसार ।
एक वृक्ष—संसार । शरीर ।
एक बेलि—माया । अविद्या ।
एक माय—माया ।
एक मृग—जीवात्मा ।
एक राम—चैतन्यात्मा ।
एक लोक—स्वर्ग ।
एक सब्द—ओंकार ।
एक सयान—अद्वैत वादी ।

दो

दुइ—शम, दम । विवेक, वैराग्य ।
दूनौकुल—लोक, परलोक ।
दुइ गोड़—दोनौं स्वांसा । इडा, पिंगला
दुइ चकरी—लोक, परलोक । श्रेय
प्रेय । भोग, त्याग ।
दुइ चांद सुरज—इडा, पिंगला ।
दुइ जगदीस—अल्लह, राम ।
दुइ ढेंढो—लोक, परलोक ।
दुइ तुमारिया—माया, अविद्या ।
दुइ थापै—पूजा, नमाज ।

दुइ दुख—जन्म, मरण ।
दुइ पट—जन्म, मरण । धरती,
आकास ।
दुइ पुरुष—ईश्वर, जीव ।
दुइ फल—पाप, पुन्य । स्वर्ग, नरक ।
बन्ध, मोक्ष ।
दूनौ भूले—हिन्दू, मुसलमान । वञ्चक
शानी, अज्ञानी ।
दुइ मिलि—मन, माया ।
दोसर सयान—मयावादी ।

तीन

तीन खंडा—दे० तीन गुण ।

तीनि गाऊं—सत्यलोक ।

बैकुण्ठ, कैलास । दे० तीन लोक ।

तिरगुन (तीन गुण)—रज, सत, तम ।

तिनि डार—दे० तीन गुण ।

तिरदेवा (तीन देव)—ब्रह्मा, विष्णु, महेश ।

तीन दंड—दैहिक, दैविक, भौतिक ।

वाक दंड, मनोदंड, काय दंड ।

तीनि पडवा—दे० तीन गुण ।

तीनि पुत्र—ब्रह्मा, विष्णु, महेश ।

तीनि प्रकार—वेदविधि, लोकविधि, कुलविधि ।

तिर विधि (तीन विधि)—दे० तीन गुण ।

त्रिभुवन (तीन भुवन)—दे० तीन लोक ।

तीन लोक—स्वर्ग, मर्त्य, पाताल ।

तीनि संभा—प्रातः, मध्याह्न, सन्ध्या ।

तीसर सयान—जीववादी ।

त्रिकुटी—दोनो भौहों के ऊपर का स्थान ।

चार

चारी (चार)—अंतः करण चतुष्टय—मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ।

चारि अवस्था—बाल, कुमार, युवा, वृद्ध अथवा जाग्रत, स्वप्न, सुषोप्ति, तुरिया ।

चार खानि—जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज ।

चारि चोर—दे० चारी ।

चारि जना—दे० चारी ।

चारि युग—सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ।

चारिउ दर—दे० चारि खानि ।

चारि दिसा—पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ।

चारि हग—नाभि, हृदय, कंठ,

त्रिकुटी ।

चारि फल—अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष अथवा सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य ।

चारि बरन (बरण)—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा काला, श्वेत, पीला, लाल ।

चारि बानी (वाणी)—परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी ।

चारि वृत्त—दे० चारि वेद ।

चारि वेद—ऋक्, युजुर, साम, अथर्व ।

चारि भास—असाढ़, सावन, भादों, कुंभार ।

चौथ सयान—तटस्थ ईश्वरवादी ।

पाँच

पाँच—पाँच तत्व—पृथ्वी, जल, तेज,
वायु, आकास ।

पाँच कुट्टुम—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ—आँख,
कान, नाक, रसना, त्वचा ।

पाँच जना—पाँच तत्व—पृथ्वी, जल,
तेज, वायु, आकास । पाँच ज्ञाने-
न्द्रियाँ—आँख, कान, नाक, रसना,
त्वचा ।

पाँच ढोटा—पाँच विषय—शब्द, स्पर्श,
रूप, रस, गंध ।

पाँच तत्व—दे० पाँच ।

पाँच तरुनि—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, दे०
पाँच कुट्टुम ।

पाँच नारी—पाँच प्राण—प्राण, अपान,
समान, उदान, व्यान । अथवा
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ।

पाँचहु—दे० पाँच ।

पाँच भुवंगा—काम, क्रोध, लोभ,
मोह, मद ।

पाँच लदनुवा—दे० पाँच ।

पाँच सखी—दे० पाँच ढोटा ।

पाँचये सयान—इन्द्रिय बादी ।

पाँच हाथ—दे० पाँच ।

छः

छौ—सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक,
मीमांसा (पूर्व मीमांसा) वेदांत
(उत्तर मीमांसा)

षट् आस्रम (आश्रम)—ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, हंस,
परमहंस ।

षट् कर्म—नित्य षट् कर्म—स्नान, संध्या,
पूजा, तर्पण, जप, होम ।

योगियों के षट् कर्म—धोती, नेती,
बस्ति, न्योली, त्राटक, कमल
भाती । ब्राह्मणों के षट् कर्म—

यजन, याजन, अध्यन, अध्यापन,
दान, प्रतिग्रह । स्मृति के अनुसार
छः काम जिन के द्वारा अपत्काल

में ब्राह्मण अपनी जीविका प्राप्त
कर सकता है । उच्छ्वृति (कटे
हुए खेत में बालें बीनना) दान-
लेना, याचना करना, कृषि,
वाणिज्य, गोरक्षा ।

छव चक्रवै—छः चक्रवर्ती राजा—
बेनु, बलि, कंस, दुर्योधन, पृथु
विक्रम ।

षट् चक्र—मूलाधार, स्वाधिष्ठान,
माणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध,
आज्ञाचक्र ।

छव छत्री (क्षत्री)—दे० छव चक्रवै ।
षट् दरसन (दर्शन)—योगी, जंगम,
सेवका, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण ।

छौ दरसन (दर्शन)—सांख्य, योग,
न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत ।
दे० षट दरसन ।

छौ साख—दे० छौ ।
षट रस—मधुर, लवण, तिक्त, अम्ल,
कटु, कषाय ।

सात

सात—सात स्वर्ग—भुलोक, भुवलोक,
स्वर्गलोक, जनलोक तपलोक, मह-
लोक, सत्यलोक ।

सात दीप (द्वीप)—जम्बू, कुश,
पल्ल, क्रौञ्च, शाक, पुष्कर, शाल-
मल्य ।

सात धातु (सप्त धातु)—रस,
रक्त, मांस, वसा, मज्जा, अस्थि,
शुक्र ।

सात पाताल—अतल, वितल, तल,

सुतल, महातल, रसातल, पताल ।

सात बीज—पञ्च तन्मात्रा—शब्द,
स्पर्श, रूप, रस, गंध । बुद्धि और
अहंकार ।

सात सुरति—स्मृति, इच्छा, चित्त,
मन, बुद्धि, अहंकार, अनुभव ।

सात समुद्र—दुग्ध, दधि, धृत, क्षार,
यक्षुरस, मद्य, स्वाद, जल ।

सतयें सयान—देहात्मवादी ।

सात सूत—दे० सात धातु ।

आठ

अस्त कमल—(आठ कमल)—द्वि-
दल (आशाचक्र) चार दल
(मूलाधार चक्र) षट दल
(स्वाधिष्ठान चक्र) दस दल
(मणिपूरक चक्र) द्वादश दल
(अनाहत चक्र) षोडश दल
(विशुद्ध चक्र) सहस्र दल (सह-
स्रार चक्र) सुरतिकमल । अथवा
अग्नि, मूलाधार, स्वाधिष्ठान,
मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध,
आज्ञा, सहस्रार ।

अस्त कस्त—(आठ कष्ट)—पंच
क्लेश—अविद्या, अस्मिता, अभि-

निवेश, राग, द्वेष । त्रयताप—
दैहिक, दैविक, भौतिक ।

आठसिद्धियाँ—अणिमा, महिमा,
गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य,
ईशत्व, वशित्व । पुराणों की आठ
सिद्धियाँ—अंजन, गुटका, पादुका,
घातुभेद, बोताल, वज्र, रसायन,
योगिनी । सांख्य में आठ
सिद्धियाँ—तार, सुतार, तारतार,
रम्यक, अधिभौतिक, अधिदैविक,
आध्यात्मिक ।

अस्त मैथुन—(आठ मैथुन) श्रवण,
सुमिरन, कीर्तन, चितवन, एकांत
वार्तालाप । दृढ़ संकल्प, प्राप्ति ।

नौ

नौ—नौ व्याकरण—इन्द्र, चन्द्र, काशकृतस्न, शकटायन, पिशालि पाणिनि, अमर, जैनेन्द्र, सरस्वती । नव खंड—भारत, इलावर्त, रम्यक, कुच, इरिवर्ष, किंपुरुष, केतुमाल, भद्राश्व, हिरण्य ।

नौ क्रोश—अन्नमय, शब्दमय, प्राणमय, आनंदमय, मनोमय, प्रकाशमय, ज्ञानमय, आकाशमय, विज्ञानमय ।

नौ गंड—इडा (चन्द्र नाडी) पिंगला (सूर्य नाडी) सुष्मना (मध्यनाडी) गन्धारी (दाहिने नेत्र की नाडी) हस्ति जिह्वा (बाये नेत्र की नाडी) पूषा (दाहिने कान की नाडी) पस्यनी (बायें कान की नाडी) लकुहा (गुदा नाडी) अलम्बुषा (लिंगनाडी)

नव गज—नव द्वार—दो नेत्र, दो कान, दो नासा छेद्र, मुख, गुदा, लिंग ।

नौ गुण—शम, दम, तप, शौच,

क्षमा, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, अस्तिक्य ।

नौ ग्रह—सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ।

नौ नाडी (नारी)—दे० नौ गंड ।

नौधा—नव प्रकार की भक्ति—श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पादसेवन, अर्चन, वंदन, सख्य, दास्य, आत्म निवेदन ।

नौ निधि—पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, वचं ।

नौ बहिया—चार अन्तः करण (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) पंच प्राण (प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान)

नौ मन—दे० नौधा ।

नौ मन दूध—क्षमा, दया, सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, सदुपदेश ।

नौ सूत—पंच विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) तीन गुण (रज, सत, तम) मन । दे० नौ निधि ।

दस

दस—दसद्वार—दो नेत्र, दो श्रवण (कान) दो नासाछेद्र, मुख, गुदा, लिंग, ब्रह्मरंध्र ।

दस अवतार—मच्छ, कच्छ, वराह, वृसिंह, वामन, परशुराम, राम,

कृष्ण, बुद्ध, कलंकी ।

दस गज—दस इन्द्रियाँ—आँख, कान नाक, रसना, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा, लिंग, मुख ।

दस गोनि—दे० दस गज ।

दस दिसा—पूर्व, पश्चिम, उत्तर, आग्नेय, ऊपर और नीचे ।
दक्षिण, वायव्य, ईशान, नैऋत, दस द्वार—दे० दस ।

एकादश

एकादसी (एकादश)—दस इंद्रियाँ— हाथ, पांव, गुदा, लिंग, मुख ।
आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, एक मन ।

बारह

बारह पंखुरी—वर्ष के बारह मास— ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ,
चैत, बैसाख, जेठ, असाढ़, सावन, ट, ठ ।
भादौं, कुंवार, कार्तिक, अगहन, शरीर के १२ प्रमुख अंग (शिर,
पूस, माघ, फागुन । नेत्र, कर्ण, प्राण, मुख, हाथ, पैर,
अनाहत चक्र के द्वादश दल—क, नाक, कंठ, त्वचा, गुदा, शिर) ।

चौदह

चौदह—दे० चौदह विद्या । यजुर, साम, अथर्व । मीमांसा,
चौदह त्रिद्या—ब्रह्मज्ञान, रसज्ञान, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण ।
कर्मकाण्ड, संगीत, व्याकरण, चौदह भुवन—सात स्वर्ग—मुल्लोक,
ज्योतिष, धनुर्विद्या, जलतरन, भुवल्लोक, स्वर्गल्लोक, जनल्लोक,
न्याय, कोक, अश्वारोहन, नाट्य, तपल्लोक, महल्लोक, सत्यल्लोक ।
कृषि, वैद्यक । अथवा छः वेदांग सात पाताल—अतल, वितल, तल,
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, सुतल, महातल, रसातल, पाताल ।
छंद, ज्योतिष । चार वेद—ऋक,

अठारह

अठारह—अठारह पुराण—विष्णु, अठारह स्मृतियाँ—मनु, याज्ञ-
वल्क्य, पराशर, वशिष्ठ, हारीत, वल्क्य, पराशर, वशिष्ठ, हारीत,
ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त्त, ब्रह्मांड, भविष्य, नारद, अत्रि, आपस्तम्ब, शतातप,
भागवत, मार्कंडेय, मत्स्य, नारद, संख, लिखित, व्यास, भारद्वाज,
लिंग, स्कंद, कूर्म, गरुड । काश्यप, दक्ष, विष्णु, यम, बृहस्पति ।

उन्नीस

उनइस गज—दस इन्द्रियाँ—आंख,
कान, नाक, रसना, त्वचा, हाथ,
पाँव, गुदा, लिंग, मुख ।

पंच प्राण—प्राण, अपान, समान,
उदान, व्यान । चार अन्तःकरण—
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ।

इक्कीस

इकइस—चौदह भुवन—सात स्वर्ग
(भू, भुवः, स्वः, जनः, महः, तपः,
सत्य) सात पाताल (अतल, वितल,
तल, सुतल, महातल, रसातल,
पाताल) सात द्वीप (जम्बू, कुश,

पल्लव, कौञ्च, शाक, पुष्कर,
शालमलय) ।

इकइस पंर—इक्कीस पीरों के नाम
नही मिले ।

चौबीस

चौबीस पात—वर्ष के २४ पक्ष ।
चौबीस तत्व—प्रकृति, बुद्धि,
अहंकार (पंच विषय) शब्द,
स्पर्श रूप, रस, गंध (पंच ज्ञाने-
न्द्रियाँ) आँख, कान, नाक रसना
त्वचा (पंच कर्मेन्द्रियाँ) हाथ,
पाँव, गुदा, लिंग, मुख (पंच

महाभूत) पृथ्वी, जल, तेज, वायु,
आकाश । मन ।

शरीर के २४ अंग । मेरुदंड की
२४ कसेरुकायें ।

चौबीस एकादसी—वर्ष की चौबीस
एकादशी तिथियाँ ।

पच्चीस

पच्चीस (पञ्चीस)—पच्चीस प्रकृतियाँ,
आकाश की—काम, क्रोध, लोभ,
मोह, भय ।
वायु की—चलन, बलन, धावन,
पसारन, संकोचन ।
अग्नि की—लुधा, तृषा, आलस ।

निद्रा, मैथुन ।

जल की—लार, रक्त, पसीना, मूत्र,
वीर्य ।

पृथ्वी की—हाड, मांस, त्वचा,
नाड़ी, रोम ।

तैंतीस

तैंतीस कोरी देव—पुराणानुसार
तैंतीस कोटि देवता । विशेष—
वैदिक काल में ऋग्वेद में मुख्य
देवता तैंतीस माने गए हैं जो
शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार

गिनाए गए हैं—८ ऋसु, ११ रुद्र
१२ आदित्य तथा इन्द्र और
प्रजापति । ऋग्वेद ही में एक
स्थान पर देवताओं की संख्या
३३३६ वर्णन की गई है ।

चौतीस

चौतीस अक्षर—हिन्दी वर्णन माला
के सम्पूर्ण अक्षर—(क वर्ग, च
वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पाँचों

वर्गों के २५ अक्षर और व से ह
तक के ८ अक्षर तथा ॐ ।

छत्तीस

छत्तीसौ राग—संगीत में छः रागों
की छत्तीस रागिनियां इस प्रकार हैं—
श्री राग—मालश्री, त्रिवर्णा, गौरी,
केदारी, मधुमाधवी, पहाड़ी ।
बसंत राग—देशी, देवगिरि, बैराटी
टौरिका, ललित, हिडॉल ।
पंचमराग—विभास, भूपाली,
कर्णाटी, पट हंसिका, मालवी,

पटमंजरी ।

भैरव राग—भैरवी, बंगाली,
सैधवी, रामकेली, गुर्जरी, गुणकरी ।

मेघ राग—मल्लारी, सैरिटी, सावेरी,
कैशिकी, गांधारी, हरश्रृंगार ।

नट नारायण—कामोदी, कल्याणी
आभीरी, नाटिका, सांरगी, इम्मीरी ।

बहत्तर

बहत्तर कसनि (बंधन)—शरीर
की बहत्तर ग्रन्थियाँ, जो इस
प्रकार हैं—१६ कण्डरायें, १६ जाल,
४ रज्जु, ७ सेवनी, १४ अस्थि
संधात, १४ सीमन्त, १ त्वचा

जिस से सम्पूर्ण शरीर बंधा रहता है ।

बहत्तर कोठा—शरीर के बहत्तर कोठा

बहत्तर गंड—दे० बहत्तर कसनि ।

बहत्तर पुरुष—पुरुष की बहत्तर
कलाएँ । या बहत्तर कोठा ।

चौरासी

चौरासी—दे० चौरासी लाख जोनि ।

चौरासी लाख जोनि (योनि)—
पुराणों के अनुसार जीव चौरासी
लाख प्रकार के माने गए हैं ।

चौरासी सिद्ध—नाथ सम्प्रदाय के
सिद्ध जिनके नाम इस प्रकार हैं :-
लूहिपा, लीलापा, विरुपा,
डोम्भिपा, शबरीपा, सरहपा
कङ्कालीपा, मीनपा, गोरक्षपा,
चोरङ्गिपा, वीणापा, शान्तिपा,

तन्तिपा, चमरिपा, खङ्गपा,
नागाञ्जन, कराहपा, कर्णरिपा,
थगनपा, तारोपा, शालिपा,
तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा,
दोखन्धिपा, अजोगिपा, कालपा,
धोम्भिपा, कङ्कणापा, कमरिपा,
डेंगिपा, भदेपा, तन्धेपा,
कुकुरिपा, कुसूलिपा धर्मपा,
महीपा, अचिन्तिपा, भलहपा,
नलिनपा, भूसुकुपा, इन्द्रभूति,

मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा,
जालन्वरपा राहुलपा, घर्बरिपा,
धोकरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा,
घरटापा, जोगीपा, चेलुकपा,
गुण्डरिपा, लुचिकपा, निगुणापा,
जयानन्तपा, चर्षटिपा, चम्पकपा,
भिखनपा, भलिपा, कुमरिपा,

जवरिपा, मणिभद्रा, मेखला,
कनखला, कलकलपा, कन्तलिपा,
धहुलिपा, उधलिपा, कपालपा,
किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा,
नागबोधिपा, दारिकपा, पुतुलिका,
पनहपा, कोकलिपा, अनङ्गपा,
लक्ष्मीकरा, समुदपा, भलिपा,

छानबे

छानबे पाखंड—सन्यासी दस—
आश्रम, तीर्थ, अरण्य, वन,
गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती
भारती, पुरी ।

योगी दो—हठयोगी, राजयोगी ।
पैगम्बर चौबीस—आदम, शीश,
नूह, इब्राहीम, याकूब, इसहाक,
यूसुफ, इस्माईल, जकरिया,
यहया, यनुस, दाऊद, अयूब,
लूत, सुलेमान, स्वालह, शुएब,
ईसा, मूसा, इलयास, हार,
यूसुआ, जिलकिस, मुहम्मद ।

जंगम (शैव) अठारह—
(शिवजी के नाम)—शिव,
पशुपति, मृत्युञ्जय, त्रिनेत्र,
कृतिवास, पञ्चवदन, शितिकंठ,
खण्ड परशु, प्रथमाधिप, गङ्गाधर,
महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह,
संसारवैद्य, सर्वज्ञ, परमात्मा,
कपाली ।

ब्रह्माण अठारह—पूज्य, द्विज,
श्रोत्रिय, पंक्ति पावन, गुरु,
आचार्य, उपाध्याय, ऋत्तिक,

पंडित, ऋषि, ज्ञात्र ब्राह्मण,
वैश्य विप्र, शूद्र ब्राह्मण, विडाल
या वक्र विप्र, म्लेच्छ ब्राह्मण, चंडाल
विप्र, राजस विप्र, अधमाधम ।
सेवड़ा (जैन) चौबीस तीर्थंकर—
ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ,
अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मनाथ,
सुपाश्वनाथ, चंद्रप्रभ, सुबुधिनाथ,
शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य
स्वामी, विमलनाथ, अनंतनाथ,
धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ,
अमरनाथ, महिनाथ, मुनिसुब्रत,
नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ,
महावीरस्वामी ।

छानबे पाखंड के लिये कुछ बीजक
टीककारों ने यह साखी दिया है—
‘ दस सन्यासी बारह योगी, चौदह
शेष बखान । ब्राह्मण अठारह
अठारह जंगम चौबिस सेवड़ा
प्रमाण’ । महाराज दासजी ने
पञ्चग्रन्थी टीका में उपरोक्त साखी
के अर्थ में इस की संख्या इस
प्रकार दी है—गिरी, पुरी, भारती,

वन, पर्वत, आरण्य, सागरादि मिल के दस सन्यासी हैं। नाथ, अवध, गोसाईं, नागे आदि मिल के बारह योगी हैं। जलाली, मलाली, वानवा, जिन्दाशाह आदि चौदह प्रकार के फकीर हैं। पञ्चगौडादि मिल के अठारह प्रकार

के ब्राह्मण हैं। अठारह प्रकार के गले में लिङ्ग धारण करने वाले जंगम हैं। और ऋषभदेवादि चौबीस तीर्थंकर जैनियों में हैं। ऐसे छः दर्शनों में छयानवे पाखंड हुए। पं० ग्र० पृ० २५४

तीन सौ साठ

तीन सौ साठ सर- शरीर की ३६० आस्थियाँ। वैदिक मत से

शरीर में ३६० आस्थियाँ मानी गई हैं।

सहस्र (हजार)

सहस्र अरजुन—पुराणानुसार सहस्र भुजाओं वाला एक राजा, सहस्र बाहु।

सहस्र घड़ा—सहस्र कुम्भक अथवा अनेक उपदेश।

सहस्र नाम—अनेक नाम अथवा विष्णु के सहस्र नाम।

हजारसूत—अनेकों प्रकार के कर्म या सहस्र कुम्भक अथवा सहस्र दल कमल।

अस्सी हजार

अस्सी हजार पैगम्बर—मुसलमानी। मत में पैगम्बर ८०००० मने गए हैं।

अठ्ठासी हजार

अठ्ठासी सहस्र मुनि—हिन्दू धर्मा-। तुसार ऋषियों की संख्या।

छप्पन कोटि

छप्पन कोटि जादो—यादवों की संख्या। भागवत में यादवों

(यदुवंशियों) की संख्या छप्पन कोटि कही गई है।

छः लाख छानवे

छः लाख छानवे रमैनी—महात्माओं। के अनेक उपदेशप्रद वाक्य।

परिशिष्ट—(घ)

योग सम्बन्धी शब्दों की व्याख्या

अनहद—योग का एक साधन । जब प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ब्रह्म रंभ्र में पहुँच जाता है तब अनहद नाद सुनाई देता है । यह नाद भ्रमर, शंख, मृदंग, ताल, घंटा, वीणा, मेरि, द्वन्द्वभि, समद्र गर्जन, मेघ गर्जन आदि क्रमशः दस प्रकार का होता है ।

अमावस—जब योगी लोग सुषुम्ना में ध्यान लगाते हैं तब इडा (चन्द्र) और पिंगला (सूर्य) दोनों नाड़ियों का लय हो जाता है । उस समय अमावस्या कही जाती है ।

अमृत बेली—कुंडलिनी शक्ति जब उलट कर ब्रह्मांड में पहुँच जाती है और नख से शिख तक सर्वांग में वायु व्याप्त हो जाती है । तब उलटा सहस्रार से अमृत का निर्भर प्रवाहित होता है उसी को अमृत वल्लरी का पान करना कहते हैं ।

अष्ट कबल—अनाहत चक्र के समीप एक आठ दल का मनश्चक्र है । इसको हृच्चक्र भी कहते हैं । या

शरीर के आठ चक्र जो इस प्रकार हैं ।

मूलाधार चक्र—इसका स्थिति स्थान योनि माना गया है । इसमें चार दल होते हैं । यह रक्त वर्ण का होता है, इसका लोक भूः है । इसका ध्यान करने से एक प्रकार की ध्वनि भङ्कृत होती है, वह क्रमशः वँ, शँ, षँ, सँ की होती है । इसके सिद्ध लाभ होने पर मनुष्य वक्ता, सर्वविद्या विनोदी, आरोग्य, मनुष्यों में श्रेष्ठ आनंदचित्त तथा काव्य प्रबन्ध में समर्थ होने आदि के विशेष गुण युक्त हो जाता है ।

स्वाधिष्ठान चक्र—इसका स्थिति स्थान पेडू माना गया है । इसमें छः दल होते हैं । यह सिंदूर वर्ण का होता है । इसका लोक भुवः है । इसका ध्यान करने से एक प्रकार की ध्वनि भङ्कृत होती है वह क्रमशः भँ, मँ, यँ, रँ, लँ, वँ की होती है । इसके सिद्ध लाभ से अहंकार, विकार का नाश,

योगियों में श्रेष्ठ, मोह रहित और गद्य पद्य की रचना में समर्थ विशेष गुण मनुष्य में उत्पन्न हो जाता है। मणिपूरक चक्र - इसका स्थान नाभी कहा जाता है। इसमें दस दल होते हैं। यह नील वर्ण का होता है इसका लोक स्वः है। इसका ध्यान करने से क्रमशः ङँ, ङँ, ञँ, तँ, थँ, दँ, धँ, नँ, पँ, फँ की ध्वनि भङ्कृत होती है। इसके सिद्ध लाभ से मनुष्य संहार पालन में समर्थ तथा वचन रचना में चतुर हो जाता है और उसके जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है।

अनाहत चक्र—इसका स्थिति स्थान हृदय होता है। इसमें द्वादस दल होते हैं। यह अरुणवर्ण का होता है। इसका लोक महः है। इसका ध्यान करने से एक प्रकार का अनाहत नाद भङ्कृत होता है वह क्रमशः कँ, खँ, गँ, घँ, ङँ, चँ, छँ, जँ, झँ, ञँ, टँ, ठँ, का होता है। इसके सिद्ध लाभ से मनुष्य वचन रचना में समर्थ, ईशत्व सिद्ध प्राप्त योगेश्वर, ज्ञानवान, इन्द्रियजित काव्यशक्ति वाला हो जाता है।

विशुद्धचक्र—यह चक्र कण्ठ स्थान में स्थित है। इस में षोडश दल होते हैं। यह धूम्र वर्ण का होता है इसका लोक जनः है। इसके ध्यान करने से क्रमशः अ से लेकर अः तक सोलह स्वरों की अनहद ध्वनि

भङ्कृत होती है। इसके ध्यान सिद्ध होने पर मनुष्य काव्य रचना में समर्थ, ज्ञानवान, उत्तम वक्ता शान्तचित्त, त्रिलोक दर्शी, सर्व हितकारी, आरोग्य, चिरजीवी और तेजस्वी होता है।

आज्ञाचक्र—यह दोनो भ्रुवों के मध्य में स्थित है। इसमें दो दल होते हैं। यह श्वेत वर्ण होता है। इसका लोक तपः है। इसका ध्यान करने से हँ, शँ का अनहद नाद क्रमशः ध्वनित होता है। इसके सिद्धलाभ से योगी को वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है।

शून्यचक्र—(सहस्रदल कमल इस का स्थिति स्थान मस्तक है। इस में सहस्र दल होते हैं। इस का लोक सत्यः है। इसके ध्यान करने से एक प्रकार का नाद भङ्कृत होता है। इसके सिद्ध होने पर योगी को अमर, मुक्त, उत्पति, पालन में समर्थ तथा आकाशगामी और ममाधिस्थ होने की शक्ति प्राप्त होती है।

सुरति कमल—संत मत में सहस्रार (सहस्रदल कमल) के ऊपर इन कमल का स्थान बताया गया है।

आसन उड़ये—उड्डियन हठयोग का एक बंध वा क्रिया जिसके द्वारा योगी उड़ते हैं। कहते हैं इस में सुषुम्ना नाड़ी में प्राण को

ठहरा कर पेट को पीठ में सटाते हैं और पत्नियों की तरह उड़ते हैं।

इड़ा—वायें नासा रंभ्र से चलने वाली नाड़ी। इसमें चन्द्रमा का प्रकाश रहता है इस लिये इसे चन्द्र नाड़ी कहते हैं। इ १ नाड़ी को गंगा भी कहते हैं।

उनमुनी—हठयोग की एक मुद्रा जिस में मन की वृत्ति अंतर्मुखी और स्थिर होजाती है।

कमल—हठ योग में शरीर के चक्रों को कमल कहते हैं। इन की संख्या सहस्र दल कमल सहित सात है। परन्तु किसी किसी पुस्तक में आठ तथा नौ तक की संख्या दी हुई है। वहाँ इन चक्रों के अतिरिक्त ललनाचक्र और गुरुचक्र के नाम दिये गए हैं। संतमत में सहस्रार के ऊपर सुरति कमल की कल्पना की गई है।

कुंडलिनी—मूलाधार चक्र के नीचे जहाँ मेरुदंड का अंतिम भाग है वहीं एक त्रिकोणाकृति अग्निचक्र है। इसी अग्निचक्र में स्वयम्भू लिंग से साढ़े तीन वार लिपटी हुई एक सर्पाकार शक्ति रहती है उसी को कुंडलिनी कहते हैं। साधक प्राणायाम द्वारा इसे जाग्रत करता है। इसके जाग्रत होने पर स्फोट होता है, उसे नाद कहते हैं। नाद से प्रकाश होता

है और प्रकाश का ही व्यक्त रूप महा बिंदु है। नाद के तीन भेद है—महानाद, नादान्त और निरोधिनी। बिन्दु के भी तीन भेद होते हैं—इच्छा, ज्ञान और क्रिया इन्हीं को सूर्य, चन्द्र और अग्नि तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। कुंडलिनी जाग्रत होने पर ब्रह्मनाड़ी द्वारा षट् चक्रों में होती हुई सहस्रार में प्रवेश करती है। कुंडलिनी का सहस्रार में पहुँचना ही योग की चरमावस्था है।

गंग—इड़ा को ही गंग या गंगा कहते हैं।

गंगन मंडल—ब्रह्मांड, शून्य, या ब्रह्म रंभ्र को गंगन गुफा या गंगन मंडल कहते हैं।

गुफा—दे० गंगन मंडल।

ग्रहन—जिस समय इड़ा नाड़ी से कुंडलिनी स्थान में प्राण आता है उस समय चन्द्र ग्रहण कहा जाता है। और जब पिंगला नाड़ी से प्राण कुंडलिनी स्थान में आता है तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। योगियों को नित्य चन्द्र सूर्य ग्रहण हुआ करता है।

नाद—दे० अनहद।

पिंगला—दाहिने नासा रंभ्र से चलने वाली नाड़ी। इसमें सूर्य का प्रकाश रहता है इसी से इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। पिंगला को यमुना भी कहते हैं।

बज्र केंवार—योगी शरीर के नवों द्वारों को बन्द करके वायु का आना जाना रोक देते हैं। इसी क्रिया को बज्र कपाट कहते हैं।

त्रिहंग मार्ग—महावाक्य विचार द्वारा अथवा सांख्य योग द्वारा इसी जन्म में मोक्ष सुख प्राप्त करना।

ब्रह्मांड—कपाल या मस्तक। दे० गंगन मंडल।

मान सरोवर—अमृत कुंड। शरीर के भीतर शून्य स्थान में अमृत का कुंड है इसी को मानसरोवर कहते हैं।

मीन मारग—मछली नदी के धारा के विरुद्ध चलती है पर वह किस मार्ग से गई पानी के भीतर इस बात का पता कोई नहीं लगा सकता है, योग का मार्ग भी इसी प्रकार गुप्त रहता है। इसीलिये वह मीनमार्ग कहलाता है।

मेरुदंड—रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। यह दंडाकार गुदा भाग की त्रिकास्थि से लेकर मस्तिष्क के पास तक चला जाता है इस लिये इसे मेरुदंड कहते हैं। इस मेरुदंड में क्रम से एक के ऊपर एक २४ कसेरुकायें माला की गुरियों की भाँति पिरोयी रहती हैं। मेरुदंड के मध्य में सुषुम्ना और

वायें चन्द्र (इडा) नाड़ी तथा दक्षिण भाग में सूर्य (पिंगला) नाड़ी रहती है। वृद्धावस्था में यह ढीला हो जाता है जिस से रीढ़ झुक जाती है।

सहज ध्यान—सद्गुरु के बताये हुये रहस्य से निज लक्ष्य में ध्यान लगाने को सहज ध्यान या सहज समाधि कहते हैं। इस ध्यान में किसी प्रकार के वाह्य आडम्बर (आसन मुद्रा आदि) की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

सुरभी भक्षण—खेचरी मुद्रा द्वारा योगी अपनी जीभ को उलट कर तालु मूल के छिद्र में लगाता है। और सहस्रार के मध्य में स्थित चन्द्रमा से भरने वाले अमृत का पान करता है। इसी को सुरभी भक्षण (गोमांस भक्षण) कहते हैं।

सुषुम्ना—मेरुदंड के वायीं ओर इडा, दाहिनी ओर पिंगला और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में वज्रा, वज्रा के मध्य में चित्रिणी और चित्रिणी के मध्य में ब्रह्मनाड़ी होती है। इसी ब्रह्मनाड़ी से होकर कुंडलिनी चलती है।

परिशिष्ट—(ड)

रूपक, उल्टवाँसी तथा प्रतीकात्मक शब्दों के अर्थ

रमैनी—१

अंतर जोति—चैतन्य ।
सब्द—श्रोंकार ।
नारी—माया ।
बाखरि—ब्रह्मांड ।

रमैनी—२

बाप—ईश्वर ।
पूत—जीव ।
नारी—माया ।

रमैनी—५

बिबिअच्छुर—रकार (र) मकार (म) ।
मोटरी—कर्मों का बोझ ।
श्रौषध—सत्यज्ञान ।
खसम—सद्गुरु, ईश्वर ।
हंस—जीवात्मा ।

रमैनी—१०

राही—कर्मों, उपासक ।
पिपराही—कामना ।
करगी—मृत्यु ।
जमवृता—नाशमान शरीर ।
अमृत वस्तु—आत्मज्ञान ।
नारी—माया ।

रमैनी—१२

माटी के कोट—शरीर ।
पषान के ताला—प्राण या मन ।

वन—शरीर ।

कूकुर—अज्ञानी ।

सियार—वञ्चक ।

मूस—विषयासक्त (अज्ञानी जीव) ।

बिलाई—माया ।

हस्ती—मन ।

सिंघ—जीव ।

रमैनी—१५

बदरिया—भ्रम ।

संभा—अज्ञान ।

अगुवा—ब्रह्मादिक, गुरुवा ।

वनखंड—संसार ।

पिय—ईश्वर ।

धनि—जीवात्मा ।

चौपरि कामरि—चार अवस्था
वाला शरीर ।

सखिन—इन्द्रियों ।

कामरी भीजना—शरीर का वृद्ध
होना ।

रमैनी—१७

कसाई—मन ।

छूरी—कल्पना ।

रमैनी—२०

जोलहा—कर्ता (ईश्वर) ।

ताना—माया ।

दुइ गाड़—धरती, आकाश ।
दुइ नरी—चन्द्र, सूर्य ।
सहस तार—तारा अथवा श्वास ।
सूत कुसूत—शुभाशुभ कर्म ।
कोरी—कर्ता ।

रमैनी—२६

रवि—ज्ञान ।
तारा—कर्म ।
विषहर—विषयासक्त मन ।
मंत्र—उद्देश ।
गारुड़ि—सद्गुरु ।

रमैनी—३८

मारग—संसार ।
ताना—सकाम कर्म (कामना)
ओटत कातत—विधि विधान करना

रमैनी—४१

अंबुक की राशि—शरीर ।
समुद्र—संसार ।
भौर जाल—विषय वासना ।
भामिनि—माया ।

रमैनी—४५

लोह—अज्ञान ।
नाव—शरीर ।
पषान का भार—कर्मों का बोझ ।

रमैनी—५६

चढ़त चढ़ावत—प्राणों को ब्रह्मांड
में ले जाना ।
भंडहर—शरीर ।
चोर एक—दे० प० ग ।

एकै राम—आत्मा (मन)

पाहन—मूढ़ ।

विनु भितियन के चित्र—कल्पित
चित्र ।

धन—ऐश्वर्य ।

रमैनी—६६

दियन खताना—जीवन ज्योति बुझ
जाना ।

मंदिर—शरीर ।

रमैनी—७३

नारी—सुरति ।

गगरी—शरीर ।

पनिहारी—सुरति ।

बाट हि बाटा—षट्चक्रों के द्वारा ।

सोवनहार—कुंडलिनी ।

खाटा—इडा पिंगल ।

सौरी—जीवात्मा ।

खसम—चैतन्य ।

घरनि—जीवात्मा ।

लगवार—मन अथवा देवी देवता ।

स—१

इसके अर्थ के विषय में दो मत हैं ।

पहला

नारी—माया ।

पुरुष दुइ—ईश्वर, जीव ।

पाहन—ब्रह्म ।

गंग—माया ।

पानी—प्रपंच ।

दुइ परबत—ईश्वर, जीव ।
 दरिया—माया ।
 लहरि—मन ।
 माखी—वृत्ति ।
 तरिवर—संसार बृत्त ।
 पानी—यथार्थ ज्ञान ।
 नारी—माया ।
 सकल पुरुष—मनुष्य मात्र ।

दूसरा

नारी—भक्ति ।
 पुरुष दुइ—ज्ञान, विराग ।
 पाहन—मन ।
 गंग—भक्ति ।
 पानी—शान्ति ।
 दुइ परबत—क्रोध, अहंकार ।
 दरिया—मन ।
 लहरि—ज्ञान, विराग ।
 माखी—वृत्ति ।
 तरिवर—शरीर ।
 पानी—प्रपंच ।
 नारी—भक्ति ।
 सकल पुरुष—काम, क्रोध, लोभ,
 मोह मदादि ।

स—२

उलटी गंग—ब्रह्मांड में चढ़ाई हुई
 श्वासा ।
 समुद्र—शोक ।
 ससि सूर—इडा, पिंगला ।
 नौग्रह मारि—नवों द्वार बंद कर के ।
 रोगिया—योगी ।

जल—ब्रह्मांड ।
 बिंब—ज्योति ।
 सरसै—मन ।
 सिंघ—जीव ।
 औंधे घड़ा—विषयासक्त ।
 सूधे—शुद्ध हृदय ।
 गुफा—गगन गुफा ।
 बान—श्वास ।
 पारथि—मन ।
 धरती—मूलाधार ।
 अकास—ब्रह्मरंभ्र ।
 पुरुषों—योगियों ।
 अमृत—सहस्रार से भरने वाला
 अमृत ।
 नदी—मन ।
 नीर—वृत्ति ।
 राम सुधारस—निजानन्द ।

स—३

घर—हृदय या शरीर ।
 पांच ढोटा—काम, क्रोध, लोभ, मोह
 और मद ।
 नारी—कुमति ।

स—६

पुत्र—जीव ।
 महतारी—माया ।
 पिता—कल्पित ईश्वर ।
 कन्या—माया ।
 खसम—कल्पित ईश्वर ।
 ससुर—मन ।
 भाई—अविबेक ।

सासुरे—संसार ।
 सासु—प्रवृत्ति ।
 ननद—कुमति ।
 भउज—माया ।
 समधी—संत

✓स—६

पूत—जीव ।
 बाप—ईश्वर ।
 दूंदुर—अहंकार ।
 बिषहर—मन ।
 स्वान—अज्ञान ।
 धरनि—बुद्धि ।
 बिल्ली—कुबुद्धि ।
 घर—हृदय ।
 बैल—अविवेक ।
 भैंसा—वञ्चक गुरु ।

स—१२

मत—सिद्धांत ।
 भाठी—पिंड ब्रह्मांड (चौदहों भुवन)
 अग्नि—ब्रह्म अग्नि ।
 रस—सहस्रार स्थित चन्द्र से झरने
 वाला अमृत ।
 पियाला—प्रेम ।
 अमहल महल—शून्य ।

स—१३

सेसर—संसार ।
 साखा—ऐश्वर्य ।
 फूल—स्त्री पुत्र धनादि ।
 चात्रिक—जीव ।
 रुआ—निस्सार ।

खजूर—बड़प्पन ।
 फल—सुख ।
 ग्रीषम रित—बृद्धावस्था ।
 छाया—काया ।

स—१५

रामरा—जीव ।
 माहो—माया ।
 घर—शरीर ।
 जोलाहा—जीव ।
 नवगज }
 दस गज } दे० प० ग ।
 उनइस गज }
 पुरिया—शरीर ।
 सात सूत }
 नौ गंड } दे० प० ग ।
 बहत्तर पाट }
 पट—नरतन ।
 गज—मन ।

घरहाई—माया ।
 बेठ—प्रारब्ध ।
 खसम—जीव ।
 तिहाई—त्रयताप ।
 भीगी पुरिया—बृद्ध शरीर ।
 जोलहा—जीव ।

स—१६

रामरा—जीव ।
 भीभी जंतर—अनहद ।
 कर चरण विहूना—मन ।
 कर बिन बाजै—अनहद ।
 सुने सवन बिन—सुरति ।
 जागत—जाग्रत अवस्था ।

चोर—काम, क्रोध, लोभ, मोह
मदादि ।
मंदिल—हृदय ।
खसम—जीव ।
घर—हृदय ।
बांझ—माया ।
पुत्र—मन ।
तरिवर—संसार ।

स—१६

डाइन—माया ।
सुनहा—कामादिक ।
सिध—मन ।
बन—हृदय ।
रोहु—विचार ।
मृगा—संशय ।
पारधि—जीव ।
सायर—संसार ।
सकल बन—अखिल ब्रह्मांड ।
मच्छ—मन ।

स—२०

रस—रामरस ।
बीज—निर्गुण ।
बकला—सगुण ।
सुक पंछी—ज्ञानी ।
भंवर—भक्त ।
निगम रसाल—वेदवृक्ष ।
चारि फल—अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ।
एक—मोक्ष ।

बंसत—जवानी ।
ग्रीषमरितु—बुढ़ापा ।
तरिवर—शरीर ।

स—२४

तरिवर—मेरुदंड ।
फल—मस्तक ।
अष्ट गगन—सुरति कमल ।
पत्र—कसेरुकाएँ ।
तुंबा—मस्तक ।
गावनहार—श्वासा ।
पंछी—प्राण ।
मीन मारग—दे० प० घ ।

स—२५

ततु—सिद्धांत ।
रावल—योगी या जीव ।
बाजन—अनहद ।
बरात—पांचो तत्व ।
मौर—कुंडलिनी ।
दूल्हा—जीव ।
मड़वा—शरीर ।
चारन देना—यश गाना ।
समधी—चेतन ।
पुत्र—जीव ।
माता—माया ।
दुलहिन—माया ।
चौक—हृदय ।
भात—विषय ।
बरात—शरीर संघात ।

स—२८

गैया—मनोवृत्ति (इच्छा) ।
 विरंचि—ब्रह्मा ।
 नौ नारी—दे० प० ग ।
 पानी—विषय या वाणी
 त्रिषा—तृष्णा
 बद्धर कंठा—दे० प० ग ।
 बजर केंवार—दे० प० घ ।
 खँटा—ध्येय
 दोरि—वृत्ति ।
 चारिवृत्त—चार वेद ।
 छौ साखा—छः शास्त्र ।
 अठारह पत्र—अठारह पुराण ।
 सात—सात द्वीप ।
 सातो—सात स्वर्ग या सात स्वर ।
 नौ—नौ खंड या नौ व्याकरण ।
 चौदह—च. दह भुवन या चौदह विद्या
 पुर—शरीर ।
 सेत सींग—सत्वगुण ।
 खध—शुभ कर्म ।
 अखध—अशुभ कर्म ।

स—२९

कलाल—ब्रह्म ।
 भाठी—संसार ।
 रस—विषय ।
 पात्र—इन्द्रियाँ ।
 पिलाने वाली—माया ।
 पीने वाले—संसारी ।
 मतवाले—कामी, क्रोधी ।
 खुमारी—तृष्णा ।

पांच—काम क्रोधादि ।

चतुरा—ज्ञानी ।

स—३१

हं चा—जीव ।
 छूरा—संशय ।
 गैया—माया ।
 बद्धरुआ—जीव ।
 घर—हृदय ।
 सात्रज—मन ।
 पारथ—जीव ।
 पानी—शान्ति ।
 भूमुरि—त्रिषय विकार ।
 धूरं—विषय ।
 धरती—बुद्धि ।
 वादर—जीव ।
 भीट—हृदय ।
 ताल—शरीर ।
 हंस—जीव ।
 चहला—वासना ।

स—३२

हंसा—जीव ।
 घर—शरीर ।
 खमम—मन ।
 परजा—जीव ।
 अम्रित—परमपद ।
 त्रिष—विषय ।

स—३३

हंसा—जीव ।
 सरवर—शरीर ।
 मोतिया—ऐश्वर्य वैभव ।

ताल—शरीर ।
जल—प्राण ।
कमल—काया या हृदय कमल ।

स—३४

हंसदसा—जीवनमुक्त ।
मुकताहल—सद्गुण ।
चौच—मनोवृत्ति ।
मान सरोवर—दे० प० घ ।
काग—संसारी ।
नीर छीर—सारासार ।

स—३५

रंहटा—राम ।
पिउरिया—जीवात्मा ।
कातना—नाम जप ।
बहुरिया—उपासक ।
तागा—साधन ।
कुकुरी—समाधि ।
सूत—जप ।

स—३६

मूल—ज्ञान ।
ठग—वञ्चक या मन ।

स—३७

माटी—शरीर ।
पवन—प्राण ।

स—३८

बायें—वाममार्ग ।
दहिने—दक्षिण मार्ग ।

स—३९

हरि—ज्ञान ।

पाँडुर—अज्ञानी ।
गारुड—ज्ञानी
मूस—विषयासक्तमन ।
बिलार्ई—विषय ।
जंबुक—अज्ञानी ।
केहरि—ज्ञानी ।
सोनहा—अज्ञानी ।
कुंजल—ज्ञान ।

स—४१

नाद—पवन (प्राण) ।
बिन्दु—वीर्य ।
रुधिर—रज ।
घट—शरीर ।
अस्ट कवल—दे० प० घ ।

स—४३

थूल—स्थूल शरीर ।
अस्थूल—सूक्ष्म शरीर ।

स—४४

कारे मूड—काले केशवाले युवा पुरुष
मैके—संसार ।

ससुरे—आत्मपद ।

साँई—शुद्ध चेतन ।

स—४६

साँभ परे—शरीरांत होने पर ।

भान—ब्रह्मज्योति ।

गीत—अनहद ।

धेनु—वृत्तियाँ ।

अमावस—दे० प० घ ।

नवग्रह—नवद्वार ।

ग्रहन—अज्ञान ।

स—५०

बिरवा—संसार ।
 सीस—ब्रह्मलोक ।
 बारह पंखुरी—बारह मास ।
 चौबीस पात—२४ पत्त ।
 घन बरोह—रात दिन, घड़ी पत्त ।
 विकार—काम क्रोधादि ।

स—५१

रत्न—ज्ञान ।
 नीर—संकल्प, विकल्प ।
 मच्छ—काम क्रोधादि ।
 केवट—ज्ञान ।
 घाट—मानंदी ।
 कमल—षट्चक्र ।

✓स—५२

बरषा—उपदेश ।
 पानी—शान्ति ।
 चिउंटी—अज्ञानी जीव ।
 हस्ती—ब्रह्मज्ञान ।
 छेरी—माया ।
 बीगर—जीव ।
 उदधि—ज्ञान ।
 छाछरी—चित्त वृत्ति ।
 चौड़े ब्रेह—संसार ।
 मेढक—जीवात्मा ।
 सरप—अहंकार ।
 बिल्ली—माया ।
 खान—जीव ।
 सिंघ—जीव ।

सिथार—भ्रम ।
 बन—शरीर ।
 भिरगा—संशय ।
 पारथ—जीव ।
 बान—ज्ञान ।
 उदधि—ज्ञान ।
 तरिवर—संसार ।
 मच्छ—मन ।

स—५३

बिरवा—संसार ।
 पेड़—प्रणव ।
 तीनिडारा—सत, रज, तम ।
 चारि फल—अर्थ, धर्म काम, मोक्ष ।
 बेलि—आशा ।
 साखा पत्र—अनेक प्रकार की वाचनाएँ

स—५४

साँई—शुद्ध चेतन ।
 सासुर—संसार ।
 जनाचारि—अंतःकरण चतुष्टय ।
 जना पांच—पांच तत्व ।
 माडव—शरीर ।
 सखी सहेली—इन्द्रियाँ ।
 हरदि—सुख, दुःख ।
 भांवरि—भ्रम या वासना ।
 गांठि—जड़ चेतन ग्रन्थि ।
 सुवासिनी—वाणी ।
 चौके रांड—भाँवर पड़ते ही विषवा
 हो जाना ।
 साँई—चैतन्य ।

बाट—सत्संग ।

समधी—संत ।

स—५५

सिंध—जीव ।

सहदूल—मन ।

हर—सकाम कर्म ।

सीकस—संसार ।

धान—आशा ।

भलुइया—लालची गुरु ।

चाखुर—स्वार्थमय ज्ञान ।

छागर—गुरुवा ।

कागा—मलीन चित्त वाले ।

कापर—शरीर ।

बगुला—बञ्चक ।

माखी—अहंकारी ।

छेरी—माया ।

बाघ—जीव ।

गार्ड—हृन्दिर्था ।

बन—हृदय ।

रोभ—काम क्रोधादि ।

शोह—अहंकार ।

स—५६

राजा—मन ।

देस—संसार या शरीर ।

रैयति—जीव ।

इत—मानव शरीर या इहलोक ।

उत—पशु आदि शरीर या परलोक
(स्वर्ग) ।

जम—मन या काल ।

पेड़—वासना ।

उतपति परलै—जन्म मरण ।

स—५७

पानी—(वाणी) उपदेश ।

पषान—(जड़) अज्ञानी ।

रेखा—हृदय ।

सहस घड़ा—दे० प० ग ।

सीत अंग—बुढ़ापा ।

सनिपात—(त्रिदोष) काम, क्रोध,
लोभ ।

रोगिया—संसारी ।

स—५८

हरि—जीव ।

दव—(विकार) काम क्रोधादि ।

पानी—वाणी ।

अग्नि—विषय ।

नौ नारी—पांच तत्व और अंतःकरण
चतुष्टय ।

सहर—शरीर ।

पहूरु—जीवात्मा ।

पुरिया—शरीर ।

बस्तु—आत्मा ।

कुवजा पुरुष—अविवेक ।

स—६१

जाल—कर्म ।

जाल फेलाने वाला—मन ।

राम—चैतन्य ।

या घर—मानव देह ।

वा घर—पशु आदि शरीर ।

स—६२

माई—माया ।
 दूनौ कुल—लोक, परलोक ।
 सासु—माया ।
 ननद—कुमति ।
 पटिया बांधना—वश करना ।
 भसुर—अविवेक ।
 मांग जारना—विषवा करना ।
 नारि—अविद्या ।
 सरवर—शरीर ।
 जना पांच—पंच ज्ञानेन्द्रियाँ ।
 कोखिया में रखना—वश करना ।
 दुइ औचारी—राग द्वेष और अंतः
 करण चतुष्टय ।
 परोसिनि—कल्पना ।

स—६३

फुलवा—कमल (सहस्रदल कमल) ।
 भंवर—जीव या मन ।
 गगन मंडल—ब्रह्मांड ।
 फूल—संसार या शरीर ।
 मालिनि—माया या सुरति ।
 भौरा—जीव ।

स—६४

जोलहा—जीव ।
 ताना—राम नाम ।
 अहुँठा—शरीर ।
 चरखी—चारोवेद ।
 सर खूँटी—राम नारायण (जड़
 चेतन) ।
 कठवत—संसार ।

माड़ी—पंचभूत (शरीर) ।
 गोड़ा—इडा पिंगला ।
 मांफ दीप—सुषुम्ना ।
 त्रिभुवननाथ—मन ।
 मुररिया—नाम की गांठ ।
 पाई—अभ्यास ।
 भरना—कुम्भक ।
 बै—राम (रकार, मकार) ।
 तिहुलोक—त्रिकुटी ।
 करिगह—तीनो लोक ।
 आदि पुरुष—चैतन्य ।

स—६५

जोगिया—जीव ।
 नगर—शरीर ।
 पांच नारी—पंचप्राण ।
 गुफा—शरीर ।
 कंथा—शरीर ।
 धजा—मेरुदंड ।
 खप्पर—खोपड़ी ।
 करवा—हृदय ।

स—६६

जोगिया—अज्ञानी ।
 नगर—प्रपंच ।
 काला चोलना—अज्ञान ।
 कंथा—शरीर ।
 अधारी—जीव ।
 अमृत बेली—दे० प० घ ।

स—६८

चरखा—शरीर ।
 बढ़ैया—मन ।

कातना—कर्म करना ।
 सूत हजार—दे० प० ग ।
 बाबा—गुरु ।
 बर—देवता ।
 नगर—शरीर ।
 बिठिया—अविद्या ।
 बाप—जीव ।
 समधी—विवेक ।
 घर—हृदय ।
 लभधी—अविवेक ।
 भाय—कुविचार ।
 गोड़े—विवेक विचार ।
 चूल्हा—संसार ।
 बढ़ाय—(कती) ईश्वर ।

स—६६

जंत्री—चैतन्य ।
 जंत्र—(वाद्य) शरीर ।
 अष्ट गगन—सुरति कमल ।
 राग छुतीसौ—दे० प० ग ।
 नाल—मुख ।
 तूँबा—श्रवण ।
 तार—जीभि ।
 चरई—नासिका ।
 मोम—माया ।
 गगन मंडल—दे० प० घ ।

स—७१

चात्रिक—जीव ।
 जल—आत्मा ।

स—८२

गोरी—कुंडलिनी ।
 मंदर—अनहद ।

षट् चक्र—दे० प० ग ।
 कोल्हू—कुंडलिनी ।
 ब्रह्म—रजोगुण ।
 अग्नि—योगाग्नि ।
 मच्छ्र—मन या सुरति ।
 गगन—ब्रह्मांड ।
 अभावस } दे० प० घ ।
 ग्रहन }
 घन—सहस्रार ।
 त्रिकुटी—दे० प० ग ।
 मंदर—अनहद ।
 पुडुभी—पिंड ।
 पानी—वायु ।
 अंमर—ब्रह्मांड ।

स—८५

बीबी—सुमति ।
 हरम—कुमति ।
 महल—हृदय ।
 मियाँ—जीव ।
 नै मन सूत—दे० प० ग ।

स—८६

घर—हृदय ।
 कंदला—(कीचड़) माया मोह ।
 हंस—विवेकी ।
 कागन—संसारी ।
 पानी—शरीर
 घट—शरीर ।
 कामिनि—माया ।
 मृगा—मन ।
 चारि दिग—दे० प० ग ।
 रुम—इड़ा ।

साम—पिंगला ।
डीली—सुषुम्ना ।
जम—काल ।

स—८७

वन—हृदय ।
कंदला—गुफा ।
मानु—मन ।
बपुबारी—शरीर रूपी बाड़ी ।
मृगा—आनन्द ।
सर—काम क्रोधादि ।
रावल—जीव ।
खेड़ा—शरीर ।
मूल—मूलाधार ।
धनुष—ध्यान ।
बान—ज्ञान ।
षट्चक्र—दे० प० ग ।
कमल—दे० प० घ ।
सावज—काम, क्रोध, लोभ, मोह
मदादि ।

स—८८

सावज—संसार ।
पेट फारना—विचार करना ।
मांसु—विषय ।

स—६५

नगर—संसार या शरीर ।
कोतवलिया—(रखवाली) गुरूपन ।
मांसु—विषय ।
गीध—विषयासक्त मन ।
मूस—अज्ञानी ।
मंजार—स्वार्थी गुरु ।

कड़हरिया—पार उतारने वाले ।
दादुल—अज्ञानी ।
सरप—अहंकार ।
वैल—जड़ बुद्धि ।
बियाय—वढ़ना ।
गाय—सात्विक बुद्धि ।
बद्धवा—संकल्प ।
सिंह—जीव ।
सिधर—मन ।

स—१००

माय—माया ।
पुत्र—जीव ।
धिया—बुद्धि ।
सासु—वासना ।
ननद—सुरति ।
मादरिया—मन ।
वेटी—इच्छा ।
हरि—जीवात्मा ।
कूकुरी—माया ।

स—१०१

धरती—मूलाधार या सुरति ।
अकास—ब्रह्मांड ।
चिउटी—सुरति ।
हस्ति—मन ।
पवन—प्राण ।
परबत—मन ।
बिरछ—संसार ।
सरवर—शरीर ।
हिलोर—कल्पना ।
चक्रवा—जीव या मन ।

स—१०६

भँवर—काले केश ।
 बग—श्वेत केश ।
 रैनि—जवानी ।
 दिवस—बुढ़ापा ।
 काचेबासन—शरीर ।
 काग—कामना ।
 भुजा—मन या शरीर ।

स—१११

पानी—आत्मा ।
 पावक—त्रिताप ।
 अंधा—संसार से विमुख ।
 आखिन—ज्ञान ।
 गाय—माया ।
 नाहर—जीव ।
 हरिन—तृष्णा ।
 चीता—संतोष ।
 कागा—अविवेक ।
 लंगर—विवेक ।
 बटेर—अज्ञान ।
 बाज—ज्ञान ।
 मूस—भय ।
 मंजार—निर्भय ।
 स्यार—मन ।
 स्वान—अज्ञानी ।
 दादुल—भ्रम ।
 पांच भुवंगा—ज्ञान, विवेक, वैराग,
 सम, दम ।

क—१

रोहू—मन ।

ठाकुर—यमराज ।
 साँवत—यमदूत ।
 केवट—यमराज ।
 समर—ज्ञान ।
 माछ—मन ।
 डेहरि—हृदय ।
 पेलना—तरुणावस्था या शरीर ।
 घाम—त्रयताप ।
 भूभुरि—मानसिक ताप ।
 छतुरिया—सतसंग ।
 सासु—माया ।
 ननद—कुमति ।
 गुर—मेरुदंड ।
 गोनि—नाड़ी नस ।
 ताजी तुरुकी—विवेक विचार ।
 काठ का घोरा—कर्म ।
 दूलहा—जीव ।
 दुलहिन—वासना ।
 नौका—नरतन ।

क—२

कुंभरा—मन ।
 चमरा गाँव—शरीर ।
 कोरिया—कर्म जीव ।
 बेठ—प्रारब्ध ।
 छिपिया—उपासक ।
 नौवा—मन ।
 नाव—शरीर ।
 बेरा—नरतन ।
 राउर—चैतन्य ।
 गाँव—शरीर ।

पाँच तरुनि—दे० प० ग ।
 जेठ—मन ।
 जेठानी—माया ।
 पिया—चैतन्यात्मा ।
 भैसिन्ह—तामसी वृत्तियाँ ।
 बकुला—मन ।
 तकुला—परमपद ।
 गाइन्ह—सात्विकीवृत्तियाँ ।
 जतइत—पारलौकिक ।
 कोइइत—लौकिक ।
 दुइचकरी—दे० प० ग ।
 बान—प्रेम ।

क—४

सहस्र नाम—दे० प० ग ।
 कानि तराजू—अधूरा विचार ।
 सेर—मन ।
 तिन पौवा—त्रिगुणात्मक ।
 पसेरी—ज्ञानन्द्रियाँ ।
 पासंग—इच्छा ।

क—१०

पिछौरा—प्रकृति ।
 चिलकाई—उत्तर चढ़ाव ।
 रमुराई—रमैया राम ।
 जोलहा—जीव ।
 फाटि—शरीर ।
 हीरा—जीव ।

क—११

ननदी—कुमति ।
 खसम—जीव ।
 बाप—मूलाज्ञान ।

दुइमेहररुआ—माया, अविद्या ।
 जेठानी—माया ।
 माई—ममता ।
 पिता—अज्ञान ।
 सरा—ज्ञानाग्नि ।
 लोग कुटुम—काम, क्रोध, लोभ,
 मोह मदादि ।

ब—१

बंसत—परमपद ।
 अगिन—ज्ञानाग्नि ।
 वन—हृदय ।
 पनिआ—भक्ति ।
 पौन—प्राण ।
 अकास—ब्रह्मांड ।

ब—२

बंसत—परमपद ।
 मेरुदंड—दे० प० घ ।
 अष्ट कमल—दे० प० ग ।
 अग्नि—ब्रह्माग्नि ।
 नौ नारी—दे० प० ग ।
 परिमल गाँव—ब्रह्मांड ।
 सखी पाँच—दे० प० ग ।
 पुरुष बहत्तर—दे० प० ग ।

ब—३

मेहतर—सद्गुरु ।
 रितु बंसत—परमपद ।
 पुरिया—कामना ।
 पाई—प्रयत्न ।
 सूत—प्राण ।

खूंटा तीन—इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ।
 सर तीन सौ साठ—शरीर की अ-
 स्थिर्यो दे० प० ग ।
 नारि—नाड़ी ।
 जोलाहिन—जीवात्मा ।
 नचनिया—इन्द्रियाँ ।
 करिगह—शरीर ।
 दुइ गोड़—दोनों स्वासा ।
 पांच पचीस—पांच तत्व पच्चीस
 प्रकृतियाँ ।
 दस द्वार—शरीर के दस इन्द्रिय
 द्वार ।
 सखी पांच—पांच विषय या ज्ञाने-
 न्द्रियाँ ।
 धमार—उत्पात ।
 चीर—शरीर ।

ब—४

बुढ़िया—माया ।
 दांत—काम क्रोध ।
 पान—ज्ञान ।
 केस—अज्ञान ।
 गंग—ज्ञान ।
 नैन—अज्ञान अविवेक ।
 कजरा—विवेक ।
 पर पुरुष—जीव ।
 जान पुरुषवा—ज्ञानी ।
 अनजान—अज्ञानी ।
 पूत—जीव ।
 भतार—ईश्वर ।

ब—६

माई—माया ।
 धंधा—सांसारिक प्रपंच ।
 बिहान—(दूसरा) जन्म ।
 बड़े भोर—जन्मते ही ।
 आंगन—अंग (शरीर) ।
 खांच—सकाम कर्म ।
 गोबर—भोग ।
 भात—विषय ।
 बड़ा घैल—तृष्णा ।
 पानी—विषय भोग ।
 सैया—जीव ।
 पाट—वासना ।
 हाट—योनि ।

ब—७

घर—हृदय ।
 बाबुल—जीव ।
 नारि—माया ।
 एक बड़ी—(माया) प्रकृति ।
 पांच हाथ—पांचतत्व ।
 पचीस—२५ प्रकृतियाँ ।
 बागुलि—माया या वाणी का जाल ।
 अहेरी—व्याधि ।

ब—८

करपल्लौ—हाथ का पंजा ।
 नारि—माया या वाणी ।

चा—२

देवघरा—शरीर ।
 कालबूत की हस्तिनि—विषय भोग ।
 गज—मन ।

अकुं स—यातना ।
घर घर—योनियाँ ।
डांग—दुःख
विलैया—माया ।

वे—१

हंसा—जीव ।
सरवर—शरीर ।
चोर—मन ।
धर—हृदय ।
बिराने देस—चौरासी ।
भवन—शरीर या हृदय ।
पांच लडुनुवा }
नौ बहियाँ } दे० प० ग ।
दस गोनि }
खांखरि—खोपड़ी ।
सरवर मीत—शरीर के सम्बन्धी ।

बिरहुली—१

बिरहुली—विरही जीव ।
असाढ़—प्रथमारम्भ ।
सातो बीज—दे० प० ग सात बीज
या सात सुरति ।
फूल—संसार ।
सांप—मन ।
विषहर मंत्र—गुरु उपदेश ।
गारुड़ि—सद्गुरु ।
फल—ज्ञान ।

हिं—१

हिंडोला—भ्रम ।
खंभा—पाप, पुण्य ।
मेरु—माया ।
मरुवा—लोभ ।

भंवरा—विषय ।
कील—कामना ।
डांडी—शुभाशुभ ।
पटरिया—कर्म ।

हिं—२

हिंडोला—मन ।
खंभा—लोभ, मोह ।
रविसुत—यमराज ।
धरती अकास—पिंड ब्रह्मांड ।

स—८

सम्बल—ज्ञान ।
पुर—मनुष्य तन ।
भालि—(अंधेरा) अज्ञान ।
दिन आथये—शरीरान्त होने पर ।

स—६

सम्बल—ज्ञान ।
बनिया—सद्गुरु ।
हाट—सतसंग ।

स—१६

हंसा—जीव ।
सरवर—शरीर ।

स—१७

हंसा—विवेकी ।
बग—अविवेकी ।
ताल—संसार ।
छीर—सद्गुण ।

स—१८

हरनी—बुद्धि ।
ताल—शरीर ।

अहेरी—व्याधि ।

मिर्ग—जीव ।

भाल—ताप ।

स—२१

आधी सारखी—अर्थ मात्रा ।

स—२५

जरद बुंद—रजो वीर्य ।

जल कूकुही—शरीर ।

स—३२

सम्बल—ज्ञान ।

परोहन—विवेक ।

सा—३३

सिखर—ब्रह्मांड ।

पिपील—बुद्धि ।

खलकन—संसारी ।

सा—३६

परबत—ब्रह्मांड ।

हर—प्राण ।

घोरा—मन ।

गांव—संकल्प ।

सा—३७

चंदन—जीव ।

बास—वासना ।

बन—संसार ।

सा—३८

चंदन—जीव ।

सरप—अहंकार ।

विष—विषय ।

अमृत—सद् उपदेश ।

सा—३९

मोदाद—काला पत्थर ।

सावज—कुत्ता ।

सा—४२

भिलमिल—ज्योति ।

कालपुर—मन नगरी ।

सा—४४

बन—संसार ।

बिहंडे—हठयोग ।

करहा—मन या जीव ।

सा—४९

मलयागिरि—गुरु या संत ।

ढाक पलास—अज्ञानी ।

बेना—शून्य हृदय (अहंकारी) ।

सा—५०

पगु—शरीर ।

नगर—परमपद या दसवाँ द्वार ।

नौ-कोस—पंच विषय और अन्तःकरण

चतुष्टय या नव द्वार दे० प० ग ।

डेरा पड़ना—मर जाना ।

सा—५१

मालि—(अंधेरा) अज्ञान ।

दिन आथये—वृद्धावस्था ।

सांभ—मृत्यु

रसिक—नाना देवी देवता ।

बेसवा—जीवात्मा ।

सा—५२

छौ मास—साधन अवधि ।

आध कोस—अर्धमात्रा (माया) ।

गांव—चेतन धाम ।

सा—५६

हरपन की गुफा—संसार ।

सुनहा—मनुष्य ।

भूंकना—छी, पुत्र, घनादि के लिये प्रयत्न करना ।

सा—६७

आगि—कामाग्नि ।

समुद्र—संसार या शरीर ।

सा—६८

लाई—(अग्नि) कामाग्नि ।

लावनहार—जीव ।

छप्पर—आत्मा ।

घर—शरीर या हृदय ।

सा—६६

बूंद—जीव ।

समुद्र—ईश्वर या संसार ।

सा—७०

जहर—विषय विकार ।

जमी—हृदय ।

अमी—सद् उपदेश ।

सा—७१

धौकी—गर्भवास या संसार ।

लाकड़ी—मनुष्य या जीवात्मा ।

लोहार—वासना या यम ।

दूजी बार डाहना—दूसरी योनि में जन्माना ।

सा—७२

बिरह—विरहाग्नि ।

लाकड़ी—मनुष्य या जीवात्मा ।

जरना—वासना क्षय होना ।

सा—७६

काठ की कोठी—शरीर ।

आगि—वासना ।

पंडित—अहंकारी ।

साकट—अपठित ।

सा—८५

भाल—संशय ।

तीर—भ्रम ।

चुंबक—ज्ञान ।

पाहन—कर्म ।

सा—१०१

काला सरप—अहंकार ।

सा—१०३

काली काठी—शरीर ।

काला घुन—संशय ।

काल—संशय ।

सा—१११

खान—मन ।

चौक—सतसंग ।

ऐपन—विषय ।

सा—११४

रतन—चैतन्य ।

माटी—शरीर ।

सा—११६

खोवा—सद् उपदेश ।

छाँछ—व्यवहारिक ज्ञान ।

सा—१२६

राउर—चैतन्य ।
चारो सैन—चारों वेद ।

सा—१२७

बौगोड़ा—साधन चतुष्टय ।
व्याघा—मन ।
मूवा—जीवन मृतक ।
काल—कल्पना ।

सा—१२८

बिना मूढ का चोर—मन ।

सा—१२९

चक्की—विषय वासना ।
दुई पट—जन्म मरण ।

सा—१३०

चारि चोर—मन, बुद्धि, चित्त,
अहंकार ।
पानही—विवेक विचार ।
चारिउ दर—चारो खानि ।
थूनी—अध्यास ।

सा—१३१

दूध—ज्ञान ।
धीव—विवेक ।

सा—१३२

खांड—मुक्ति (गुरुपद) ।
खारी—विषय विकार या सकाम
कर्म ।

सा—१३३

बिरवा—विषय ।

घर—हृदय ।

सरप—अहंकार ।

सा—१४२

सांपिन—माया ।
विष—विषय ।
बाट—संसार ।

सा—१४४

तामस—तमोगुण युक्त प्रभान माया ।
तीन गुन—सत, रज, तम ।
भंवर—मन ।
एकै डारी—माया ।
तीन फल—(भांटा) मोह (ऊख)
दुःख (कपास) सुःख ।

सा—१४५

मंतग—मन ।
गइयर—सात्विकी वृत्ति ।
सचान—(मनसा) कामना ।

सा—१४६

गयन्द—मन ।
महावत—जीव ।
अंकुस—ज्ञान ।

सा—१४७

चूहड़ी—माया ।
चूहड़ा—मायासक्त ।
बाप—ईश्वर ।
पूत—जीव ।

सा—१५०

पीपरि—माया ।
खसम—चैतन्य ।

सा—१५१

साहू—सद्गुरु या चेतन ।
चोर—वञ्चक गुरु या मन ।

सा—१५५

अथाइया—बैठक
खेत—संसार
बाघ—दुर्जन ।
गदेरा—मूर्ख ।
गाय—सज्जन ।

सा—१५६

चारि मास—चारों युग ।
घन—उपदेश ।
जड़—अज्ञान ।
बखतरी—वञ्च ।
तीर—ज्ञान

सा—१५८

ससै—तन ।
सोनहा—मन ।
अहेरी—काल ।
डांग—संसार या शरीर ।

सा—१६२

मूढ़—अज्ञान ।
पाखर—वञ्च ।
वाहनहारा—उपदेशक ।
बान—ज्ञान (उपदेश) ।

सा—१६३

सेमर—संसार ।
सुगना—जीव ।
छिउले—परलोक ।

सा—१६५

सेमर—संसार ।
सुगना—जीव ।
दुइ टेदी—कनक और कामिनी ।
दे० प० ग ।

सा—१८४

सहना—काल ।
पयार—काया ।

सा—१९७

नौ मन दूध—दे० प० ग ।
टिपका—अहंकार ।
दूध—सद्गुण ।
घ्रित—विवेक ।

सा—२१७

बेलरी—माया ।
जर काटना—त्यागना ।
सीचना—चाहना ।

सा—२१८

बेलि—माया ।
फल—जन्म और मरण ।
फूलवा—शरीर ।

सा—२२१

करुवार्द वेलरी—माया ।
करुवा फल—जन्म मरण ।
सिद्ध—सिद्ध होना ।

सा—२२२

बास—महिमा ।
बीज—वासना ।
जामना—जन्म लेना ।

सा—२३५

लोहा—अज्ञान ।
नाव—शरीर ।
पाहन—कर्म ।
विष—विषय विकार ।

सा—२६०

रतन—आत्मधन ।
रेत—भ्रम ।
कंकर—विषय ।

सा—२६३

गुनिया—ज्ञानी ।
निरगुनिया—अज्ञानी ।
बैल—मूर्ख ।
जायफर—सद् उपदेश ।

सा—२६४

अहीर—श्रीकृष्ण (सगुन ब्रह्म)
खसम—ईश्वर (निर्गुण ब्रह्म)

सा—२७४

बन—ब्रह्मांड ।
सिंघ—मन ।
पंछी—प्राण ।

सा—२८५

खेत—हृदय ।

बीज—वासना ।

बोना—साधन ।

सा—२६७

जंत्र—शरीर ।
तार—श्वास ।
बजावनहार—जीव ।

सा—३११

रास—सद्गुण ।
घर का खेत—निज स्वरूप ।

सा—३२८

सिंघ—जीव ।
बन—शरीर ।

सा—३३७

सुरहुर पेड़—शरीर ।
अगाध फल—मोक्ष ।
पंछी—मन ।

सा—३३६

दौ—संसार ।
जरना—नाश होना ।
हरियर होना—पैदा होना ।
वृद्ध—संसार ।
जर काटना—त्यागना ।
फल—मोक्ष ।

शुद्धी-पत्र बीजक

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२१	११	ज ई	जाई
२३	६	अघा ।	अधारा
२४	२	भाम	भरम
३२	१८	×	१०
३३	८	अग्नि	अगिनि
३४	६	हिन्य	हिरन्य
४७	१६	जना चारि (पूरी पंक्ति)	संग न सूती (पूरी पंक्ति)
४७	२०	संग न सूती (पूरी पंक्ति)	जना चार (पूरी पंक्ति)
४६	६	विकार, विन ईधन	विकार विन ईधन,
५२	५	गुप्ता धारी	गुप्ताधारी
६२	११	गल	गैल
७८	३	हकरान्हि	हकराहन्हि
८०	६	मेरू दंड	मेरुदंड
८१	८	है	है
१०२	५	खेलै	खुलै
१०८	२०	सुनहा	सहना
१११	१८	हलाइन	हलाहल
१११	२२	और	ओर
११३	१६	२२७	२३७
११६	१६	के ते	केते

प० क, कोश

पृष्ठ	कालम	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	२	१०	०	सं०
५	२	३१	ब्राह्मांड	ब्रह्मांड
१३	१	१	अ० य०	अव्य०
१३	१	१६	अ० य०	अव्य०
१७	२	१३	गुरूवा	गुरुवा
१६	२	२३	कुक्कुम	कुक्कुम
२१	१	२२	सात्वकी	सात्विकी

नाट—बीजक मूल पृष्ठ ११२ में साखी २१३ से २१६ तक की संख्या के स्थान पर २२३ से २२६ पढ़िये ।

पृष्ठ	कालम	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३०	१	१	गोता	गोत
		१८	की कृष्ण	श्री कृष्ण
		२६	कंडलनी	कुंडलिनी
३६	२	६	गुरू पद	गुरुपद
३७	२	२३	चोखा	चोरवा
४०	२	४	माय	माया
४५	१	१८	मौजा	मौज
५०	२	१६	बैब	बैल
५४	१	१	तुरूकी	तुरुक्री
५६	१	१८	सद्गुरू	सद्गुरु
६२	२	१४	०	सं०
६४	२	१४	पिलंगा	पिंगला
६६	२	२	सं०	सं० ब्रह्मांड
७४	२	२८	विरहग्नि	विरहाग्नि
१००	२	१७	मंडन	मंडान
१०३	२	२	मसकला	मसकला
		२७	सं० महतर	सं० महत्तर
१०४	१	२	गुरुपाद	गुरुपद
१०७	२	२१	मकराने	मुसकराने
१०६	२	५	आ० निजपद	आ० संसार
१२४	१	२८	बयान	बयाना
१२६	१	४	आपस्तं वाद	आपस्तवादि
		६	उशनसू	उशनस
१३२	२	६	सं० पु०	सं० स्त्री०
प० ग, संख्यावाची शब्द				
३	१	२	आकाश	आकाश
४	२	२०	बोताल	बेताल
५	१	५	हरिवर्ष	हरिवर्ष
		१५	पस्यनी	पयस्विनी
६	१	२४	प्रथमाधिप	प्रमथाधिप
		२८	ब्रह्माण	ब्राह्मण

नोट—प० ह के पृष्ठ १४, १५ में साखी संख्या ८ से ३२ तक में स के स्थान पर सा पढ़िये ।

सहायक ग्रन्थों की सूची

बीजक ग्रन्थ

- १—टीका विचारदास शास्त्री प्रथम संस्करण सं० १९८३ वि० काशी
- २—टीका विचारदास शास्त्री दूसरा संस्करण सं० १९२८ ई० प्रयाग
- ३—शिशुबोधनी टीका स्वामी हनुमानदास षटशास्त्री सं० १९२६ ई० पटना ।
- ४—संस्कृत व्याख्या हिन्दी टीका टीकाकार स्वामी हनुमानदास षटशास्त्री १९३९ ई० बड़ौदा ।
- ५—संस्कृत बीजक प्रथम भाग स्वामी हनुमानदास षटशास्त्री १९५० ई० बड़ौदा
- ६—टीका श्री पूरन साहेब बुरहानपुर सं० १८९२ ई० लखनऊ
- ७—टीका पूरन साहेब बुरहानपुर सं० १९६३ वि० बम्बई
- ८—टीका महाराज विश्वनाथ सिंह रीवाँ सं० १८६८ ई० बनारस (कुछ भाग)
- ९—टीका महाराज विश्वनाथ सिंह रीवाँ १९०६ वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई ।
- १०—टीका महाराज विश्वनाथ सिंह रीवाँ सन् १९१५ नवलकिशोर प्रेस लखनऊ
- ११—टीका पं० महाराज राघवदास जी सं० १९३७ बनारस ।
- १२—टीका महर्षि शिवव्रत लाल एम० ए० गोपीगंज बनारस ।
- १३—टीका महात्मा मिहीदास जी ।
- १४—बीजक अंग्रेजी अहमदशाह सं० १९१७ हमीरपुर ।
- १५—मूल बीजक स्वामी हनुमानदास षटशास्त्री ।
- १६—मूल बीजक साधु लखनदास जी कबीर चौरा काशी ।
- १७—मूल बीजक महाराज राघवदास जी कबीर मठ काशी ।
- १८—मूल बीजक कबीर मंदिर सियावाग बड़ौदा ।
- १९—हस्त लिखित मूल प्रतियाँ श्री उदयशङ्कर जी शास्त्री के पुस्तकालय से जो शास्त्री जी के कथनानुसार इन कबीर पंथी स्थानों से प्राप्त हुई हैं । विद्दपुर, ४ प्रतियाँ, फतुहा, २ प्रतियाँ, उदयपुर, १ प्रति, इन्दौर, १ प्रति, सेवकदास बसहा, १ प्रति तथा एक अन्य छोटी प्रति ।
- २०—हस्त लिखित प्रति कबीर मंदिर कबीर चौरा काशी । (इस प्रति से केवल पद संख्या तथा कुछ शब्द मिलाये गये हैं) ।

कबीर सम्बंधी अन्य ग्रन्थ

- १—कबीर श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ।
- २—संत कबीर डा० रामकुमार वर्मा एम० ए० प्रयाग ।
- ३—कबीर का रहस्यवाद डा० रामकुमार वर्मा एम० ए०
- ४—कबीर पदावली डा० रामकुमार वर्मा एम० ए०

- ५—कबीर ग्रन्थावली नागरी प्रचारणी सभा काशी ।
६—कबीर योग (उर्दू) महर्षि शिवव्रत लाल ।
७—कबीर मन्शूर (उर्दू) साधू परमानंददास जी क० पं० फीरोजपुर ।
८—कबीर साहेब का साखी ग्रन्थ टिप्पणी विचारदास शास्त्री ।
९—पंचग्रन्थी टीका पं० महाराज दास जी ।
१०—हिन्दी काव्य में निगुण सम्प्रदाय डा० पीताम्बरदत्त बडधवाल ।

अन्य ग्रन्थ

- १—गोरखबानी डा० पीताम्बरदत्त बडधवाल ।
२—जायसी ग्रन्थावली पं० रामचन्द्र शुक्ल ।
३—पद्मावति जी० ए० ग्रियर्सन और सुधाकर द्विवेदी कलकत्ता ।
४—गरीबदास जी की बाणें। सम्पादक स्वामी मंगलदास जयपुर ।
५—तुलसी ग्रन्थावली नागरी प्रचारणी सभा काशी ।
६—सूरसागर नागरी प्रचारणी सभा काशी ।
७—रामायण गीता प्रेस गोरखपुर ।
८—गुटका विश्राम सागर नवलकिशोर प्रेस लखनऊ ।
९—प्रबोध चन्द्रोदय नाटक बम्बई ।
१०—ब्राह्मण ले० भगवान स्वामी सुखानंद जी लखनऊ ।
११—शिरो रोग विज्ञान ले० पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल वैद्य प्रयाग ।
१२—गाइत्री तंत्र श्रीराम शर्मा ।
१३—भक्तमाल नाभा जी नवलकिशोर प्रेस लखनऊ ।
१४—नाथ सम्प्रदाय श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ।

कोश

- १—हिन्दी शब्दसागर नागरी प्रचारणी सभा काशी ।
२—विश्व-कोश श्री नगेन्द्रनाथवसु प्राच्यविद्या महापाठ कलकत्ता १९२२ ई० ।
३—संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा इलाहाबाद ।
४—श्रीघर भाषा कोश । ५—रामायण कोश । ६—अनेकार्थ मंजरी ।
७—करीमुल्लुगात । ८—लुगात किशोरी ।

पत्रिकायें

- ६—कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर ।
साधनांक, शिवांक, योगांक, पद्मपुराणांक, माकडेय, ब्रह्मपुराणांक,
रामायणांक, हिन्दू संस्कृत अंक ।
२—संतबाणी जयपुर ।

